

मनुस्मृतिः

[सरल भाषा टीका]

न्याय, सांख्य, वैशेषिक, उपनिषद्, ग्रन्थ संग्रह,
व्याख्याकारक-

श्री १०८ आर्षो दर्शनानन्द सरस्वती ।

श्री प्राचार्य वितयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर

प्रकाशक—

पुस्तक मन्दिर, मथुरा ।

तृतीयावृत्ति]

सम्बत् २०१६

[सजिल्द ३]

हमारे यहाँ की मुख्य मुख्य पुस्तकों की — सूची —

विचार चन्द्रादय

श्री पीताम्बरदास भा वृत्त इसी विषय का वेदान्त व प्रारम्भिक का छोटा ग्रन्थ है। प्रथम भाग कर प्रबलोकन करना चाहिये। मूल्य सजिल्द ३) रु०।

पञ्चीकरण

यह पुस्तक गुजराती के पञ्चीकरण नामक वेदान्त ग्रन्थ का सरस-सरस हिन्दी अनुवाद है। इसमें पृथ्वी अल तेज वायु तथा आकाश—इन पञ्च महाभूतों के सम्बन्ध में विचार किया गया है। यह पुस्तक बहुत समय से अप्राप्य थी। मूल्य ३) रु०।

वृहद् सामुद्रिक शास्त्र

[सजक—मृगुराज शर्मा]

जन साधारण के लाभ के लिये यह पुस्तक बड़े कष्ट और परिश्रम के पश्चात् प्राप्त की गई है। इसमें सप्तार के प्रत्येक स्त्री पुष्पो के भूत मन्त्रिय और वर्तमान का ह्रास (भाग्य) उनके हाथ पैर व मस्तक की रेखाओं द्वारा बताया गया है। समझने के लिये रेखाओं के सैकड़ों चित्र भी दिये हैं। ज्योतिषियों के लिये फल प्राप्तियक है। हर ग्रहस्थ को भी अपने यहाँ रहना है। इसी प्रमूख सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४) रु०।

सरस स्वास्थ्य और योगामन

इस पाप क भासनों द्वारा स्वास्थ्य बनाने की सरस पुस्तक समझाई गई है। अभ्यास के लिये भासनों

घर में वैद्य

इस पुस्तक के घर में रहने से बात बात को डाक्टर वैद्यो यहाँ नहीं दौड़ना पड़ेगा। नित्यप्रति के पारिवारिक लोगों में इसके छोटे-छोटे नुस्खे जो पैसे दो पैसे में तैयार होते हैं। चमत्कार का काम करते हैं। मूल्य १) रु०

हारमोनियम तबला मास्टर

यह पुस्तक सज्जीत सिखाने की अत्यन्त आवश्यक पुस्तक है, क्योंकि इसमें हारमोनियम, तबला, सारङ्गी, बेला, सितार जलतरंग आदि सिखाने की अत्यन्त सरल विधियाँ लिखी हैं।

लाठी शिक्षा

लाठी चलाना व्यायाम ही नहीं, एक श्रेष्ठ कला भी है। लाठी की सम्पूर्ण शिक्षा और दाव-पेच इस पुस्तक से सीखें। यह पुस्तक सचित्र है। मूल्य १) रु०।

दृष्टान्त महासागर चढ़ा

भाषण, कथाओं और वाद-विवाद में सफलता पाने और दूसरों को प्रभावित करने के लिये उपयुक्त दृष्टान्तों का जानना अत्यन्त आवश्यक है। हमने बड़े परिश्रम से कई सौ ऐसे नवीन दृष्टान्त संग्रह किये हैं जो शिक्षाप्रद तो हैं ही, साथ ही इतने रोचक हैं कि श्रोता हसते २ लोट-गोट हो जाते हैं।

कीमत सजिल्द २॥) रु०

मिलने का पना—

पुस्तक मन्दिर, मथुरा।

प्रकाशक—
पुस्तक मन्दिर,
मथुरा।

प्रकाशक द्वारा इस पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं ।

मुद्रक—
अपसिंह शर्मा
रत्नकला प्रकाशन प्रेस
नागक नगर, मथुरा

घर में वैद्य

इस पुस्तक के घर में रहने से बात बात को डाक्टर वैद्यो यहा नही दौडना पडेगा । नित्यप्रति के पारिवारिक लोगो मे इसके छोटे-छोटे नुस्खे जो पैसे दो पैसे मे तैयार होते हैं । चमत्कार का काम करते है । मूल्य १) रु०

हारमोनियम तबला मास्टर

यह पुस्तक सङ्गीत सिखाने की अत्यन्त आवश्यक पुस्तक है, क्योकि इसमे हारमोनियम, तबला, सारङ्गो, बेला, सितार जलतरंग आदि सिखाने की अत्यन्त सरल विधिया लिखी हैं ।

लाठी शिक्षा

लाठी चलाना व्यायाम ही नही, एक श्रेष्ठ कला भी है । लाठी की सम्पूर्ण शिक्षा और दाव-पेच इस पुस्तक से सीखे । यह पुस्तक सचित्र है । मूल्य १) रु० ।

दृष्टान्त महासागर बड़ा

भाषणा, कथाओ और वाद-विवाद मे सफलता पाने और दूसरो को प्रभावित करने के लिये उपयुक्त दृष्टान्तो का जानना अत्यन्त आवश्यक है । हमने बडे परिश्रम से कई सौ ऐसे नवीन दृष्टान्त-संग्रह किये हैं जो शिक्षाप्रद तो है ही, साथ ही इतने प्रभावक है कि श्रोता हसते २ लोट-गोट हो जाते हैं ।

कीमत सजिल्द २।।) रु०

मिलने का पता—

पुस्तक मन्दिर, मथुरा ।

हमारे यहाँ की मुख्य-मुख्य पुस्तकों की

- सूची -

विचार चन्द्रोदय

श्री पीताम्बरदास जी कृष्ण इसी विषय का वेदान्त तत्त्व-प्रामाण्य का छाटा ग्रन्थ है। प्रबन्ध मंगा कर प्रबन्धसोफन करना चाहिये। मूल्य सजित् ३) ६०।

पञ्चीकरण

यह पुस्तक गुजराती के पञ्चीकरण नामक वेदान्त ग्रन्थ का सरल-सरस हिन्दी अनुवाद है। इसमें पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश—इन पञ्च महामूलों के सम्बन्ध में विचार किया गया है। यह पुस्तक बहुत समय से अप्राप्य थी। मूल्य ३) ६०।

बृहद् सामुद्रिक शास्त्र

[लेखक—मृगुराज शर्मा]

जल साधारण के नाम के लिये यह पुस्तक बड़े कष्ट और परिश्रम के पश्चात् प्राप्त की गई है। इसमें सप्तार के प्रत्येक स्त्री पुरुषों के मूल भविष्य और वर्तमान का हास (भाग्य) उनके हास वर व मस्तक की रेखाओं द्वारा बताया गया है। समझाने के लिये रेखाओं के संकेत भी दिये हैं। ज्योतिषिदों के लिये अत्यन्त आवश्यक है। हर बृहस्पति जी भी अपने यहां रचना चाहिये। इतनी प्रमुख सजित् पुस्तक का मूल्य ४) ६०।

सरस स्वास्थ्य और योगसन

इसमें योग क प्रासनो द्वारा स्वास्थ्य बनाने की सब विधिया विस्तार पूर्वक समझाई गई हैं। सम्पास के लिये प्रासनो के संकेतों भी दिये हैं। मूल्य २) ६०।



विषयानुक्रमणिका



प्रथमो अध्यायः

विषय	श्लोक	पृष्ठ	विषय	श्लोक	पृष्ठ
जगदुत्पत्ति वर्णन	६	२	यक्ष गन्धर्वादि की-		
जल सृष्टि क्रम	८	३	उत्पत्ति	३७	१०
ब्रह्मोत्पत्ति	८	३	मेघादि सृष्टि	३८	१०
नारायण शब्दार्थ	१०	३	पशुपदयादि उत्पत्ति	३९	११
ब्रह्मा का स्वरूप	११	३	कृमिकीटाद्युत्पत्ति	४१	११
स्वर्ग और पृथ्वी	१३	४	जरायुज	४३	१२
महदादि क्रम से-			अण्डज	४४	१२
जगदुत्पत्ति	१४	४	स्वेदज	४५	१२
देवगण की सृष्टि	२२	७	उद्भिज	४६	१२
वेदत्रय की सृष्टि	२३	७	वनस्पति वृक्ष आदि	४७	१३
कालादि की उत्पत्ति	२४	७	गुच्छ गुत्तादि	४८	१३
काम क्रोधादि की-			महाप्रलय	५४	१४
उत्पत्ति	२५	७	जीवका उत्पत्ति	५	१४
घर्माधर्म विवेक	२६	८	जीव का देहान्तर-		
सूक्ष्मस्थूल आदि की			गमन	५६	१५
उत्पत्ति	२७	८	ब्रह्मा सबका उत्पादक	५९	१५
कर्मानुसारिणी सृष्टि	२८	८	मन्वन्तर का कथन	६१	१६
वर्णोत्पत्ति	३१	९	अहोरात्र	६५	१७
स्त्री पुरुष सृष्टि	३२	९	चतुर्युग प्रमाणा	६९	१७
मनु की उत्पत्ति	३३	९	वैवयुग प्रमाणा	७१	१७
मरीच्यादि ऋषियो-			ब्रह्मा का अहोरात्र	७२	१८
की उत्पत्ति	३४	१०	आकाशादि तत्वो का-		
			प्रादुर्भाव	७५	१९

विषय	पृष्ठांक	पृष्ठ
युगधर्म	८१-८३	२
ब्राह्मणादि वर्णों का धर्म	८८	२२

द्वितीय अध्याय

धर्म और उसके- अधिकारी	२	२६
धर्म की सम्भूतता	८	३
श्रुति स्मृति-प्रामाण्य	१०	३१
ब्रह्मवर्त धर्मोवर्त	१६ २२	३३
वर्णधर्म	२६	३४
संस्कार	२६ ३८	३४
केन्द्रध्यान विधि	७	४३
गुरु के पास वास के नियम	१८	४७
अधिकारी		
गौधक	१७१	५४
त्रिवर्ग	२२४	७५

तृतीय अध्याय

ब्रह्मधर्म विधि	१	८१
घाठ प्रकार का विवाह	२७-३५	८७ ८८
सवर्ण अश्वर्ण विवाह	४१ ४४	६१
पञ्च महायज्ञ	७०	६७
शास्त्रादि कर्म	८२	६६

विषय	पृष्ठांक	पृष्ठ
प्रतिभि संस्कार	६६	१०१
अवशिष्टानेन गृह वलि काय्य	२६५	१४१

चतुर्थो अध्याय

ब्रह्मधर्म गार्हस्थ्य कास	१	१४६
ब्राह्मण कृति	२	१४७
असन्धीविकानियम	११	१४८
इन्द्रियाधीशक्ति नियम	१६	१५०
द्वेष और नैतिक कर्म नियम	१७-६६	१५४ १६१
सत्य बोध	११८	१७७
ब्रह्मकाद म कर	११६	१७७
मदिया का स्नान	२३	१७१
यम नियम	२०४	१६१
असम्भिवान फल	२२८	१६७
ब्रह्म चिन्ता	२३५	२०४

पञ्चम अध्याय

मृत्यु क्या होती है	४	२५
सहस्रानु नियम	५	२६
अमल क्षीर मल	८	२६
मल	१०	२७
प्रामद्विषय	७	२६
यज्ञार्थकर्म	३६	२१४
अशौच	६६	२२१

विषय	श्लोक पृष्ठ	विषय	श्लोक पृष्ठ
पातिव्रत्यफल	१६५ २४५	१७ दास प्रकार	४१५ ४२७
षष्ठ अध्यायः		नवम अध्यायः	
वानप्रस्थ	१ २४६	स्त्री धर्म	१ ४२६
परिव्राजक नियम	४३ २५६	स्त्री स्वभाव	१४ ४३१
प्राग्णायाम प्रशसा	७० २६३	स्त्री प्रशसा	२६ ४३४
मोक्षसाधक कर्म	७५ २६४	व्यभिचार फल	३० ४३५
सन्यासी कर्म	८६ २६७	नियोग	५६ ४४१
चार आश्रम	८७ २६७	विवाह की-	
दशविधि धर्म	९२ २६८	आवश्यकता	९५ ४५०
सप्तम अध्यायः		स्त्री-पुरुष व्यभिचार	१०१ ४५१
राजधर्म	१ २७०	दायभाग	१०३ ४५२
राजप्रशसा	६ २७१	पुत्र गन्धार्य	१३८ ४५६
दण्डोत्पत्ति	१४ २७३	कुपुत्र निन्दा	१६१ ४६५
सचिव	५४ २८२	दत्तक औरसादि	१६५ ४६६
दूत	६६ २८५	द्वादश पुत्र लक्षण	१६६ ४६६
दुर्ग	७० २८६	स्त्री अलकार-	
करग्रहण	८० २८८	विभाजन	२०० ४७४
प्रजारक्षण	११३ २९६	राजमार्ग पर मलादि	
राजसभा	१४५ ३०४	त्याग करने पर दंड	२८२ ४९३
राजरक्षा	१८० ३१३	मिथ्या चिकित्सा	
राजव्यवहार	२१५ ३२२	दण्ड	२८४ ४०६
अष्टम अध्यायः		वैश्यधर्म	३२६ ५०६
अठारह विवाह	४ ३२६	शूद्र धर्म	३३४ ५०५
साक्षी	६१ ३४०	दशम अध्यायः	
वृथा णपय दोष	१११ ३५२	द्विजवर्णकथन	४ ५०७

विषय	श्लोक	पृष्ठ	विषय	श्लोक	पृष्ठ
वगु सकर	८	४ ८	जीवात्म परिचय	१३	९ ७
वायु	९	१११	जीवाकी अमरता	१४	१० ८
दस्यु	४२	११६	परलोक	१५	९ ५
साधारण धर्म	१३	२११	भोगामन्तर	१७	९ ८
पट कर्म	७५	५२१	धर्माधर्म	२०	६ ६
लाभिय ब्रह्म कर्म	७७	५२७	त्रिविध गुणकथन	२४	९१०
त्रिकोणे अष्ट कर्म	८	५२८	त्रिविध गुण		
धापधर्म	८१	५२५	मक्षणा	२६ ३१ ६११	९१२
एकादश अध्याय			त्रिविध गति प्रकार	४१	९१४
स्नातक कर्म	१	५६१	पाप विक्षेप से		
स्नातक कर्म	२	५६२	योनि विषय	४३	९१७
पट उपवासो का			मोक्षोपाय	८१	९५५
माहार	१९	५७२	वेदोक्त कर्म	८६	९२५
प्रायश्चित्त	५३	५८३	प्रपत्ति निवृत्ति	९	९२७
महापातक	६४	५९३	समदर्शन	११	९२७
पाप न क्षिपात्रे	२२७	५९५	वेदान्यास	१२	९२७
तप प्रथमा	२३४	५९७	वेद प्रकाशा	१७	९२५
वेदान्यास प्रथमा	२३५	५९९	तप धीर विद्या से		
रहस्य प्रायश्चित्त	२३७	६०२	मील	१ ४	६३०
द्वादश अध्याय			धम मदारण	१ ६	६४०
सुमाधुम कर्मफल	१	६ ५	प्रलय	१२	६४६
त्रिविध कर्म	५	६ ६	प्राण्य स्वरूप	१२२	६३३
त्रिविध कर्मफल	८	६ ६	धात्म दर्शन	१३५	६३५
दीनज्ञ परिचय	१२	६ ७	स्मृतिग्रन्थोक्तान्यास		
			का फल तथा		
			शास्त्र का महत्त्व	१२६	६३६

सम्पूर्ण मनुस्मृतिस्वविषयसूची ।

❀ ॐ ❀

❀ मनु स्मृति ❀



प्रथमोऽध्याय

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः ।

प्रतिपूज्य यथान्याय मिदं वचनमब्रुवन् ॥१॥

(१) मनुजी एकाग्रचित्त बंठे हुए थे, उसी समय उनके पास बड़े-बड़े ऋषि आये और परस्पर के अभिवादानादि के पश्चात् उन्होंने यह बात कही कि—

भगवन् सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः ।

अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नां वक्तुमर्हसि ॥२॥

(२) हे भगवान् ! सब वर्णों और वर्णसङ्घों के धर्म हम से ठीक-ठीक कहिये क्योंकि—

त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः ।

अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्य्यत्तत्त्वार्थवित्प्रभो ॥३॥

(३) प्रभो ! अचिन्त्य, अप्रमेय और अनादि-वेद मे जो कर्म वर्णान किये गये हैं, उनके यथार्थ भाव को जानने वाले एक आप ही हैं ।

स तै पृष्टस्तथा सम्पगमितीर्जा महात्मनि ।

प्रत्युवाचाचर्यं तान्सवात्महृषींश्च यतामिति ॥४॥

(४) जब उन महात्माओं ने इस प्रकार उन सेजम्बों महात्मा से पूछा तब श्री मनुजी ने उन सब महर्षियों की पूजा करके कहा कि सुनिये—

आसीदिद समाभूतमप्रघातमजघणाम् ।

अप्रवक्तव्यमविज्ञयं प्रसुप्तमिव सर्वत ॥५॥

(५) यह सब जगत पहल प्रवृत्ति की दशा में क्षिपा हुआ था और इसका कुछ शान और मदारण न था और न तक से मासूम हो सकता था—स्वप्न की सी दशा में था ।

तत स्वयभूर्मगवानऽध्यक्षाऽध्यक्षयन्त्रिभुम् ।

महाभूतादिदुषीशा प्राहुगमीचमानुद ॥६॥

(६) इसके पश्चात् अव्यक्त और अचिन्त्य शक्ति रखने वाले और प्रत्यकार का नाश करके वाले परमेश्वर ने भूत तत्व आकाश वायु आदि साकल्पिक अर्थात् मा-बाप के बिना उत्पन्न होने वाले लोगो को पैदा किया ।

योममावतीन्द्रियप्राप्तं सुखमाभव्यत्तं सुनातन ।

सर्वभूतमयाअचिन्त्यं स एव स्वयमुद्भूतौ ॥७॥

(७) जो मुक्त जीव इन्द्रियो से भोग सुख और सदा निदिबन्त और सब सृष्टि के प्राण हैं वे स्वय ही साकल्पिक तरीके से पैदा हुए ।

☞ मनुजी के ऋषि पूजन से सात होता है कि घर पर प्राण हुए छोटे का भी पूजन होता है ।

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिष्टुद्विविधाः प्रजाः ।

अप एव ससर्जादीं तासु वीजमवासृजत् ॥८॥

(८) श्रीर जब उनके मनमे यह इच्छा उत्पन्न हुई कि अपने शरीर से एक प्रकार की सृष्टि पैदा करनी चाहिये तो उन्होने सबसे प्रथम पानी अर्थात् रज को उत्पन्न किया । फिर उस पानी मे वीज डाला ।

तदण्डमभवद्भ्रमं सहस्रांशुसमप्रभम् ।

तस्मिञ्जज्जेस्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः ॥९॥

(९) तब वह वीज स्वर्ण और सूर्य के समान अण्डाकार बन गया फिर उससे ब्रह्माजी अर्थात् वेदो के ज्ञाता अयोनिज ऋषि जो समय सृष्टि के उत्पन्न करने वाले है, अपने आप उत्पन्न हुए ।

आपोनारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनुवः ।

तायदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥१०॥

(१०) संस्कृत मे 'अप' मनुष्य की सन्तान को कहते हैं और मनुष्य की सन्तान के हृदय मे परमात्मा का प्रकाश होता है, इसलिए परमात्मा को नारायण कहते है ।

यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् ।

तद्विमृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥११॥

(११) जो परमात्मा जगत का उपादान है और छिपा हुआ है और नित्य सत्-असत् का कर्त्ता है, उसने जिस मनुष्य को ससार मे सबसे पहिले चारो वेदो का ज्ञाता उत्पन्न किया, उमी को सब लोग 'ब्रह्मा' कहते हैं ।

तस्मिन्नयत्ने स भगवानुपित्वापरिवत्सरम् ।

स्वयमेवात्मनोभ्यानास्तद्वृद्धमकरोवृद्धिभा ॥१२॥

(१२) ब्रह्मा धर्षन् बिेद के जानने वाले ने उस ऋषि धर्षन् विराट में एक वर्ष तक रह कर और परमात्मा का ध्यान करके उस ऋषि धर्षन् विराट को दो भागों में विभक्त किया ।

ताभ्यां स शकस्ताभ्याञ्चद्विभूमिञ्चनिर्ममे ।

मध्ये व्योमदिशश्चाष्टावपीस्वान च शाश्वतम् ॥१३॥

(१३) उन दो टुकड़ों से ब्रह्म न सतोगुण और पृथ्वी धर्षात् तमोगुण को बनाया फिर उन दोनों के बीच में आकाश धर्षात् रजोगुण और आठों दिक्षायें—जीवों के रहने का स्थान—बनाया ।

उद्वर्हात्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम् ।

मनसरथाप्यहङ्कारमभिमन्तारमीश्वरम् ॥१४॥

(१४) फिर ब्रह्म ने परमात्मा से सुकरण-विकल्प रूप मन को उत्पन्न किया और मन से सामर्थ्य और धर्मिमान करने वाले अहंकार को बनाया ।

महान्तदव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च ।

विपयासांशुहीचृशि शनैः पञ्चन्द्रियाणि च ॥१५॥

× यहाँ पर एक वर्ष ऋषि में रहने से यह तात्पर्य है कि ब्रह्माजी ने बेदों के ज्ञान और सृष्टि के नियम की तुलना की और उस तुलना के परिणाम तम (अहंकार) और प्रकाश (धर्मि और पृथ्वी) दान। ५ गुणों का ज्ञान सुधार में फैलाया ।

(१५) और अहकार से पहले आत्मा का उपकार करने व ले महत्तत्त्व अर्थात् बुद्धि को पैदा किया, तथा विषय को भोग करने वाले—पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मेन्द्रिय एव तन्मात्रा को बनाया । ❀

तेपान्त्ववयवान्मुञ्चमान्पणामप्यमितौजसाम् ।

मन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे ॥१६॥

(१६) और इन बड़े शक्तिमानो के सूक्ष्म अवयवो को अपने विकार मे मिलाकर समस्त सृष्टि को बनाया । प्रकृति और परमात्मा के सम्बन्ध से सब तन्मात्रा अहङ्कार इन्द्रिय पैदा हुए है अर्थात् परमात्मा और प्रकृति के योग से पैदा हुए हैं । ×

यन्मूर्त्यवयवाः सूञ्चमास्तस्येमान्याश्रयन्तिपट् ।

तस्मान्छरीरमित्याहुस्तस्यमूर्तिं मनीषिणः ॥१७॥

(१७) प्रकृति महत्ब्रह्म के शरीर के छ सूक्ष्म अवयव अर्थात् तन्मात्रा और अहकार और इन्द्रियो के पैदा करने वाली है ।

❀ पाच ज्ञानेन्द्रिय—आख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा और पाच कर्मेन्द्रिय हाथ, पाव, वारणी, मूत्रेन्द्रिय और मलद्वार ।

+ जब परमात्मा ने प्रकृति को संचालित किया, तब वस्तुओ के एक स्थान मे दूसरे स्थान पर जाने से आकाश उत्पन्न हुआ, क्योंकि इसके बिना आकाश नही हो सकता । जब आकाश हुआ तब उसमे वायु संचालित हुई । वायु के संचालन के कारण अग्नि परमाणु एकत्रित हो गये । अग्नि-परमाणुओ के एकत्रित होने से जल-परमाणुओ के मध्य की रुकावट दूर हुई । जल-परमाणुओ के एकत्रित होने से पृथ्वी के परमाणु एकत्रित हो गए, इसी प्रकार सृष्टि की रचना हुई ।

तदाविशन्ति मृतानि महान्ति सहकर्मणि ।

मनश्चावयवै सूक्ष्मै सर्वमृत कृदव्ययम् ॥१८॥

(१८) फिर उस अविनाशी और अमृत को रक्षने वाले परब्रह्म ने अपने अपने कामों के साथ आकाश आदि सृष्टि तथा सूक्ष्म अवयवों के साथ मन को उत्पन्न किया ।

तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम् ।

सूक्ष्माभ्यां सृष्टिमाश्राभ्यः समवस्यव्ययादव्ययम् ॥१९॥

(१९) इसके पश्चात् अविनाशी ब्रह्म ने उन सात बड़े पराक्रम रक्षने वाले महत्स्वरूप ब्रह्मकार और पाप सम्भाषणों के सूक्ष्म भाग से इस नाश होने वाले अमृत को बनाया ।

आधापस्यगुणान्त्वेषामवाप्नोति पर परः ।

पो यां यावदियथैषां स न वाषड्गुणः स्मृतः ॥२०॥

(२०) इन महामूर्तों में पूर-पूर के गुणों को अगला अगला ग्रहण करता है । जिसकी जैसी योग्यता है उसमें वैसा गुण होता है ।

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक् ।

वेदशब्देभ्य एवाटी पृथक्संस्मारश्च निर्मम ॥२१॥

(२१) फिर परमात्मा ने सब चीजों के नाम और कर्म पृथक्-पृथक् जैसे पहली सृष्टि में वे वैसे ही वेद के द्वारा संसार में प्रकट किये ।

✽ इसका मह प्रकट होता है कि मह संसार अब की ही बार नहीं बना बरन् पहिले भी कई बार बन चुका है । जैसे बिनके

कर्मात्मनां च देवानां सो सृजत्प्राणिनां प्रभुः ।

माध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञश्चैव सनातनम् ॥२२॥

(२२) वेद की उत्पत्ति के पश्चात् परमात्मा ने वेद के ज्ञाता देवऋषि और उनके सूक्ष्म अवयव शरीर और यज्ञ को बनाया ।

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मसनातनम् ।

दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुःसामलक्षणम् ॥२३॥

(२३) फिर यज्ञ को पूरा कराने के लिए अग्नि, वायु आदि देवऋषियो के मन में वेद का प्रकाश किया ।

कालं कालविभक्तींश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा ।

सरितःमागरान् शैलान् समानिविपमाणि च ॥२४॥

(२४) फिर काल और काल के भाग अर्थात् वर्ष-महीने, नक्षत्र और सूर्य आदि नवग्रह और नदी और समुद्र, सम-विषम स्थल उत्पन्न किये ।

तपो वाचं रतिं चैव कां च क्रोधमेव च ।

सृष्टिं संसर्ज चैवेमां स्रष्टुमिच्छन्निमाः प्रजाः ॥२५॥

(२५) इसके बनाने के बाद तप अर्थात् प्रजापति इत्यादि और वारी, रति अर्थात् चित्तो का सन्तोष, इच्छा, काम, क्रोध आदि प्रजा इन सब को बनाया ।

कर्माणाञ्चविवेकार्थं धर्माधर्मौ व्यवेचयत् ।

द्वंद्वैर्योजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥२६॥

पश्चात् रात और रात के पश्चात् दिन होता है, वैसे ही सृष्टि के पश्चात् प्रलय और प्रलय के पश्चात् सृष्टि होती है ।

(२६) कर्मों के विषय के लिये यत्र इत्यदि धर्म और ब्रह्महत्या धानि धर्म धर्म करके उनके मुख-दुःख देने वाले फल को प्रकाश के पीछे बनाया ।

अथ च्या मात्राविनाशिन्यो दशार्द्धानांतु या स्मृता ।

धामि' माद्'मिद सत्र सम्मवस्यनुपूषश' ॥२७॥

(२७) कर्मण सूक्ष्म अभिमासी तन्मात्रा कही है उनके साथ इस सम्पूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया ।

यन्तु कर्म्मसि यस्मिन् सन्पुहृक्त प्रथमं प्रभु' ।

स तदेव स्वर्म भेजे सृज्यमान पुन पुन' ॥२८॥

(२८) परमात्मा ने जिस जिस प्राणी को सृष्टि के धारि में जिस-जिस कार्य में समाप्त वह प्राण तक जैसे ही कर्म करता है मनुष्य के अतिरिक्त सब भोग योनि कहलाते हैं । +

हिंसाहिंस' मृदुक्क' धर्माधर्मानृतानृते ।

यद्यस्य सोऽदधात्सर्गे तत्तस्य त्वयमाविशत् ॥२९॥

(२९) हिंस और अहिंस मृदु और कठोर धारि गुण वाले पशुओं में ये गुण अनादि काल से असे आते हैं कर्मों का परिवर्तन मनुष्य को दिया है ।

+ यथा इस संसार में प्र गी परतन्त्र अथवा स्वतन्त्र है और स्वतन्त्र मनुष्य अपनी इच्छानुसार कार्य करता है और उन कर्मों के हानि-नाम का भोक्ता होता है । परतन्त्र न अपनी इच्छानुसार कर्म करता है और न उनके हानि-नाम का उत्तरदाता है । जैसे ही स्वतन्त्र मनुष्य अपनी इच्छानुसार कर्म करता है और उनके फल को भोगता है जबकि पशु आदि न अपनी इच्छासे कर्म करते हैं और न उनके फल भोगते हैं । अर्थात् पशु आदि शरीर जीवों के लिए बन्दीगृह हैं ।

यथतु लिङ्गान्यृतवः स्वयमेवतु पर्यये ।

स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥३०॥

(३०) जैसे वसन्त आदि ऋतु अपने अपने समय पर अपने गुणों को प्रकट करती हैं, उसी प्रकार सब प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं ।

लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखवाहुरुपादतः ।

ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रञ्च निरवर्त्तयत् ॥३१॥

(३१) जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर के चार हिस्से गुण-कर्म से अलग-अलग हैं, ऐसे ही सारे जगत् में मनुष्य जाति के चार विभाग गुण-कर्म से अलग-अलग हैं । जिस तरह मुख वाले हिस्से में पाचो ज्ञानेन्द्रिय और उपदेश करने के लिए वाणी कर्मेन्द्रिय है, ऐसे ही ब्राह्मण को उपदेश का काम दिया गया, वाहु अर्थात् क्षत्रिय को रक्षा का काम दिया गया, उरु अर्थात् वैश्य को व्यापार का एव पाद अर्थात् शूद्र को सेवा का काम दिया गया ।

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः ॥३२॥

(३२) फिर परमात्मा ने मनुष्य जाति को स्त्री और पुरुष के रूप में, दो भागों में विभक्त किया । दोनों को मिलाकर विराट् अर्थात् मनुष्य जाति भी कह सकते हैं ।

तपस्तप्त्वासृजद्यं तु म स्वयं पुरुषो विगट् ।

तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः ॥३३॥

(३३) मनुजी कहते हैं कि हे ऋषियो ! उस विराट् ने तपस्या करके जिसको बनाया, वह मैं हूँ और मैं सबका पैदा करने वाला हूँ, यह बात आप लोग जानिये ।

(२६) कर्मों के विवेक के लिये यज्ञ इत्यादि धर्म और ब्रह्माहत्या आदि अपराधों का भोग करने उनके पुत्र-कुल देने वाले पक्ष को प्रथा के पीछे बनाया ।

अब्रह्म्यो माप्राधिनाशिन्यो दशाह्वीनांतु या स्मृता ।

दाभि माद्भिद सर्वं सम्भवत्यनुपपन्नं ॥२७॥

(२७) कर्मों का सूप्रम प्राधिनाशी तन्मात्रा कही है उनके पक्ष इस सम्पूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया ।

यन्तु कर्मोसि यस्मिन् सन्पुद्गल प्रथमं प्रसू ।

स तद्वत् स्वयं मेघे सृज्यमानं पुन पुन ॥२८॥

(२८) परमात्मा ने जिस-जिस प्राणी को सृष्टि के लिये किया है मनुष्य के अतिरिक्त सब भोग मोक्ष कहलाते हैं ।

हिसाहिसे सृद्गुरे धर्माधर्मानुत्तानुते ।

ययस्य सोऽद्वात्सर्गं तयस्य त्वयमाविशत् ॥२९॥

(२९) हिंस्र और अहिंस्र मनुष्य और कठोर प्राणि पक्ष वाले पशुओं में से पुरुष आदि पक्ष से कर्म करते हैं केवल कर्मों का परिपक्व मनोबल को दिया है ।

+ यथा इस सृष्टि में प्रणी परमत्त्व प्रकृति स्वतन्त्र है और स्वतन्त्र मनुष्य अपनी इच्छानुसार कर्म करता है और उन कर्मों के फल-भोग का भोगता होता है । परमत्त्व न अपनी इच्छानुसार कर्म करता है और न उनके फल-भोग का उत्तरदाता है । जैसे ही स्वतन्त्र मनुष्य अपनी इच्छानुसार कर्म करता है और उनके फल को भोगता है जबकि पशु आदि न अपनी इच्छासे कर्म करते हैं और न उनके फल भोगते हैं । अर्थात् पशु प्राणि शरीर जीवों के लिए बन्दीपक्ष है ।

यथतु लिङ्गान्यृतवः स्वयमेवतु पर्यये ।

स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥३०॥

(३०) जैसे वसन्त आदि ऋतु अपने अपने समय पर अपने गुणों को प्रकट करती हैं, उसी प्रकार सब प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं ।

लोकानां तु विवृद्धयर्थं मुखवाहुरुपादतः ।

ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रञ्च निरवर्त्तयत् ॥३१॥

(३१) जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर के चार हिस्से गुण-कर्म से अलग-अलग हैं, ऐसे ही सारे जगत् में मनुष्य जाति के चार विभाग गुण-कर्म से अलग-अलग हैं । जिस तरह मुख वाले हिस्से में पाचो ज्ञानेन्द्रिय और उपदेश करने के लिए वाणी कर्मेन्द्रिय है, ऐसे ही ब्राह्मण को उपदेश का काम दिया गया, बाहु अर्थात् क्षत्रिय को रक्षा का काम दिया गया, उरु अर्थात् वैश्य को व्यापार का एवं पाद अर्थात् शूद्र को सेवा का काम दिया गया ।

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः ॥३२॥

(३२) फिर परमात्मा ने मनुष्य जाति को स्त्री और पुरुष के रूप में, दो भागों में विभक्त किया । दोनों को मिलाकर विराट् अर्थात् मनुष्य जाति भी कह सकते हैं ।

तपस्तप्त्वासृजद्यत् तं म स्वयं पुरुषो विगाट् ।

तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः ॥३३॥

(३३) मनुजी कहते हैं कि हे ऋषियो ! उस विराट् ने तपस्या करके जिसको बनाया, वह मैं हूँ और मैं सबका पैदा करने वाला हूँ, यह बात आप लोग जानिये ।

अह प्रजां विसृष्टुस्तु तपस्वन्वा सुदुस्तराम् ।

पतीन्प्रजानामसृज महर्षीनादिषो दश ॥३४॥

(३४) फिर मैंने सृष्टि को पैदा करने की इच्छा से घोर तपस्या करके दस ऋषियों को जो प्रजा के पति हैं पैदा किया ।

मरीचिमभ्यङ्गिरसौ पुलस्त्य पुलह प्रतुम् ।

प्रचतस षडिष्ट च मृगु नारदमेव च ॥३५॥

(३५) मरीचि मन्त्रि षडिष्ट पुलस्त्य पुलह इन्द्र प्रचता षडिष्ट मृगु घोर नारद ।

एते मनु स्तु सप्तान्पानञ्जमुञ्च भूरितमसः ।

देवान्देवनिष्कारच मक्षर्षीरचामितीमसः ॥३६॥

(३६) इन ऋषियों ने सात बड़े तेजस्वी मनु और देवताओं घोर देवताओं के स्वामि भर्षति स्वर्ग और महाप्रतापी बड़े बड़े ऋषियों को उत्पन्न किया । +

यद्वरधं विशाचार्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान् ।

नागान्मर्षान्गुपक्षीर्य पितृणां च पूयगगस्थान् ॥३७॥

(३७) घोर यदा राजस विनाश गन्धर्ब अप्सरा असुर सार गरुड और पितृ के वर्ग समाये ।

विद्य ताज्यनिमषार्च राक्षसेन्द्रघनू पि च ।

उग्रनिघानरत् इध ज्यासीप्युषाषयानि च ॥३८॥

मन मे नात्ययं मन्वन्तर अर्चान् जगत के शीतहृव भाग म है घोर उमम त्रो ममम बडा और बुद्धिमान् उत्पन्न होता है वह मन बनवाता है ।

(३८) तत्पश्चात् विद्युत् (विजली) मेघ (बादल), रोहित, घनुष, उल्का (लक का टूटना), स्थिति और परिभ्रमण करने वाले नक्षत्र, केतु और ध्रुव आदि को बनाया ।

किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहङ्गमान् ।

पशून्मृगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः ॥३९॥

(३९) फिर किन्नर, वानर मत्स्य (मछली), भाति-भाति के पक्षी, पशु, मृग, मनुष्य और दो दात वाले व्याल (साप) को रचा ।

कृमिकीटपतङ्गांश्च युक्तामक्षिकमत्कुणाम् ।

सर्वं च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम् ॥४०॥

(४०) कृमि व कीट (बड़े २ और २ कीड़े), पतंग (शलभ) खटमल, मक्षिक (मक्खी), दश, मशक (डास) और भाति-भाति के स्थावरो (अचल वृक्षो) को बनाया ।

एवमेतैरिदं सर्वं मन्त्रियोगान्महात्मभिः ।

यथा कर्म तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजङ्गमम् ॥४१॥

(४१) मनुजी कहते हैं कि इस प्रकार बड़े २ ऋषियोः ने अपने तप और योग के प्रभाव से हमारी आजा पाकर जीवो को कर्मनुसार स्थावर (अचर) और जङ्गम (चर) बनाया ।

येषान्तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम् ।

तत्तथाव्रोऽभिधास्यामि ब्रह्मयोगश्च जन्मनि ॥४२॥

(४२) जिन जीवो को जैसा कर्म इस ससार मे पहले आचार्यों ने कहा है उन जीवो का वैसा ही कर्म और जन्म-मरण का भी कर्म हम आप सबसे कहेंगे ।

ॐ यहा बड़े २ ऋषियो से तात्पर्य साकल्पिक सृष्टि के दो ऋषियो से है ।

पशवश्च मगारथैव व्यालारथोमयतादृत ।

रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥४३॥

(४३) पशु मृग (हिरण) दो दांत धारी व्यास (साप), राक्षस पिशाच मनुष्य यह सब जरायुज (गर्भ से उत्पन्न होने वाले) हैं ।

अयहजा पक्षिश्च सर्पानका मत्स्याश्च कृच्छपाः ।

यानि चैव प्रकागच्छि स्यलजान्यौदकानि च ॥४४॥

(४४) पक्षी साँप मछली, कछुवा यह सब अण्डज (अंडे से उत्पन्न होने वाले) हैं । इसी प्रकार जो स्थल (पृथ्वी) तथा उदक (जल) से उत्पन्न होते हैं । वे भी सब अण्डज हैं ।

स्वेदजं दशमशकं पुष्पमधिकमत्स्यजम् ।

ऊष्मश्चरचोपजायन्ते गणान्यस्किञ्चिदीदृशम् ॥४५॥

(४५) शक (वण) मशक (मच्छर) कुँआ (बीस मूक) मक्खी व सटमस यह सब स्वेद (पसीना) से उत्पन्न होते हैं । अतः इन्हें स्वेदज कहते हैं और जो ऐसे ही गर्मी से उत्पन्न होते हैं वह भी स्वेदज कहलाते हैं ।

उद्भिजाः स्यावगाः सर्वे बीजकाश्चपरोद्भिजाः ।

अपुण्या फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगा ॥४६॥

(४६) सब स्यावर उद्भिजः कहते हैं । कोई बीज से उत्पन्न होता कोई कसम मगामे से होता है ।

अपुण्याः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः ।

पुष्पिष्ठाः फलिनश्चैव वृक्षास्तमयथाः स्मृताः ॥४७॥

☞ जो पृथ्वी को छूकर निकलते हैं ।

(४७) फल-फूल वाले जो पकने पर नाश होते हैं, ओषध कहलाते हैं। जिनमें फूल नहीं लगता, केवल फल ही लगता है उन्हें वनस्पति कहते हैं। जिनमें फल-फूल दोनों लगते हैं, उन्हें वृक्ष कहते हैं।

गुच्छं गुल्मं तु विविधिं तथैव तृणजातयः ।

बीजकारणडरुहाण्देव प्रताना वल्ल्य एव च ॥४८॥

(४८) गुच्छः और गुल्म + बहुत प्रकार के होते हैं और तृण कोई तो बीज लगाने से होते हैं, कोई शाखा लगाने से होते हैं जैसे प्रताना × वल्ली आदि।

तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना ।

अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥४९॥

(४९) इन सब में तमोगुण की अधिकता है, अतएव सुख दुःख का ज्ञान भीतर ही रहता है।

एतदन्तस्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः ।

धोरेऽस्मिन्भृतमंभारे नित्यं सततयायिनी ॥५०॥

(५०) इस नाशवान ससार में ब्रह्मा से चोटी पर्यन्त जीवों की जो दशा है, वह हमने आप लोगों से वर्णन कर दी।

एवं सर्वं स सृष्टवेदं मां अचिन्त्यपराक्रमः ।

आत्मन्यन्तर्दधे भूयः कालं कालेन पीडयन् ॥५१॥

(५१) इस प्रकार ब्रह्माजी अचिन्त्य पराक्रमी मुझको

ःजिनमें जड़ लता से निकलती है और शाखा बड़ी नहीं होती।
+ जिनमें जड़ एक है परन्तु रेशे (जड़ के डोरे) बहुत निकलते हैं।
× जिनमें सोत होता है यथा लौकी, कुम्हड़ा आदि।

धौर सृष्टि को रक कर प्रलय के समय सब को नाश करके ब्रह्म में मिल जाते हैं ।

यदा न षो आसति तदेदं चेटते अगत ।

यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सब निमीलति ॥५२॥

(५२) जब तक जीवात्मा जाग्रत रहता है तब तक यह अगत दृष्टिगोचर होता है और जब वह शान्त पुत्र्य सर्वात् जीवात्मा निद्रा के बन्धीभूत हो जाता है तब अप्रत्यक्ष हो जाता है ।

तस्मिन्स्वपिति सुस्य तु कर्मात्मान शरीरिणः ।

स्वकर्मेभ्यो निवर्त्तन्ते मनश्चगन्धानिमृच्छति ॥५३॥

(५३) जीवात्मा जब प्रगाढ निद्रामे अपिन्त्य दशाको प्राप्त होजाता है तब इन्द्रिय और मन अपने कर्म से मुक्त हो जाते हैं ।

युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि ।

तदाय सर्वाभूतात्मा सुख स्वपिति निवृत्तः ॥५४॥

(५४) जब सब इन्द्रियो और मन जीवात्मा में लय हो जाते हैं, तब यह पञ्चभूतो का अत्मा आनन्द से छाता है अर्थात् तब महाप्रलय होता है ।

तमोऽयं तु ममाधिस्य चिरं तिष्ठति मन्त्रियः ।

न च स्वां कुरुते कर्म तदात्क्रामति मुच्यते ॥५५॥

(५५) जब मृत की दशा मिलते हैं कि यह जीव चिर काल के इन्द्रियो क समय से मूत्र दशा में रहता है और जब प्राण निकल जाता है, तो जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है ।

❀ यह नित्य प्रलय कहलाता है ।

यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च ।

समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्तिं विमुञ्चति ॥५६॥

(५६) और जब वह पचभूत (पचतत्व), इन्द्रियो, हृदय, बुद्धि, इच्छा, कर्म और मूढता इन आठ वस्तुओं के ससर्ग से अचल बीज में जाता है, तब वृक्षादि-की योनि पाता है और जब चल बीज में जाता है, तब मनुष्यादि की योनि अर्थात् शरीर पाता है ।

एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यामिदं सर्वं चराचरम् ।

सञ्जीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः ॥५७॥

(५७) इसी प्रकार ब्रह्माजी जाग्रत् और निद्रित दशा में होने से सब चर और अचर जीवधारियों को बार बार उत्पन्न करते और नाश करते हैं ।

इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः ।

विधिवद् ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् ॥५८॥

(५८) ब्रह्मा ने इस शास्त्र को बनाकर पहले हमको बुद्धि के अनुसार बतलाया । फिर हमने मरीचि आदि ऋषियों को सिखलाया ।

एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः ।

एतद्वि मत्तोऽधिजगे सर्वमेपोऽखिलं मुनिः ॥५९॥

(५९) और अब इस सम्पूर्ण शास्त्र को भृगु ऋषि आप सबको सुनावेगे, क्योंकि भृगु ऋषि ने इस शास्त्र को पढा है ।

ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्मनुना भृगुः ।

तानब्रवीद्वृषीन्सर्वान्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥६०॥

(६०) जब इस प्रकार मनुजी ने भृगु ऋषि से कहा, सब भृगु ऋषि ने प्रसन्न हो प्रीतिपूर्वक सब ऋषियों से कहा कि सुनिये—

स्वायम्भुवस्यास्य मनो पद्भश्या मनवोऽपरे ।

सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाःस्वा महात्मानो महाजसः ॥६१॥

(६१) ब्रह्माजी से जो मनु उत्पन्न हुए, उनके वश में सब मनु और भी हैं, इन महा तेजस्वी महात्माओं ने अपने-अपने तपोबल से अपनी अपनी संस्थानें उत्पन्न की ।

स्वारोचिपश्चात्तमञ्च तामसो रैवतस्तथा ।

अक्षुपरश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च ॥६२॥

(६२) तम महातेजस्विना के नाम यह हैं—१-स्वारोचिय, २-उत्तम ३-तामस ४-रैवत ५-वाक्षय ६-विवस्वत ।

स्वार्पंभुवाद्याः मर्षते मनवो मूरितेजसाः ।

स्वे स्वेऽन्तरे सर्वमिदं मुत्पाद्यापुस्वराक्षरम् ॥६३॥

(६३) स्वायम्भू भावि छातो मुनि जो बड़े तेजवाम् हैं अपने तपोबल से सारे चार और अक्षर प्राणियों (जीवधारियों) को उत्पन्न करके पासने लगे ।

निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत् तु कक्षा ।

त्रिंशत्कक्षा मूर्ध्वं स्याद्दहोरात्रं तु तावत् ॥६४॥

(६४) अठारह पम का एक काष्ठा ३ काष्ठा की एक कक्षा ३० कक्षा का एक मूर्ध्वं और ३ मूर्ध्वं का एक दिन रात होता है ।

अहो रात्रिं विमज्जते सूर्यो मानुषदैविके ।

रात्रिः स्यमाय मृतानां चेष्टायै कर्मसामह ॥६५॥

(६५) मनुष्य और देवताओं के रात्रि दिवस की पहि-
चान सूर्य के कारण से होती है । सब जीवधारियों के विश्राम
के हेतु रात्रि और कार्य के हेतु दिवस नियत हुआ ।

पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः ।

कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी ॥६६॥

(६६) मनुष्यों के एक मास के तुल्य पितरो का एक
रात्रि दिवस होता है । इसमें कृष्णपक्ष कार्य करने के हेतु दिन
है और शुक्लपक्ष सोने के हेतु रात्रि है ।

दैवे रात्र्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयो पुनः ।

अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्यादक्षिणायनम् ॥६७॥

(६७) मनुष्यों के एक वर्ष के तुल्य देवताओं का एक
रात्रि-दिन होता है । जब तक सूर्य ॐ उत्तरायण रहते हैं तब
तक दिन रहता है और जब तक सूर्य + दक्षिणायन रहते हैं
तब रात्रि होती है ।

ब्राह्मणस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः ।

एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥६८॥

(६८) ब्रह्मा के रात्रि-दिन की सख्या और प्रत्येक युग
की सख्या क्रम से स्पष्ट सुनिये—

चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम् ।

तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथानिधः ॥६९॥

(६९) देवताओं के चार सहस्र (हजार) वर्ष का
सतयुग होता है । युग के प्रथम चार सौ वर्ष की देवताओं की

ॐ माघ की सक्रांति से सावनकी मक्रांति तक उत्तरायण होता है ।

+ सावनकी सक्रांति से माघकी सक्रांति तक दक्षिणायन होता है ।

(६०) जब इस प्रकार मनुजी ने मृगु ऋषि से कहा तब मृगु ऋषि ने प्रसन्न हो प्रीतिपूर्वक सब ऋषियों से कहा कि सुनिये—

स्वायम्भुवस्यास्य मनो पृथ्वस्या मनवोऽप्यरे ।

सृष्टवन्त प्रजां स्या म्वा महात्मानो महाव्रतः ॥६१॥

(६१) ब्रह्माजी से जो मनु उत्पन्न हुए उनके वध में छह मनु और भी हैं इन महा तेजस्वी महात्माओं ने अपने अपने तपोबल से अपनी-अपनी सन्तानें उत्पन्न की ।

स्वारोचिपश्योत्तमश्च रामसा रैवतस्तथा ।

षडुपस्थ महाव्रजा विश्वत्सुत एव च ॥६२॥

(६२) उन महातेजस्वियों के नाम यह हैं—१-स्वारोचिष २-उत्तम ३-सामस ४-रैवत ५-बामुप ६-वीवस्वत ।

स्वार्पमुवाधा मर्षते मनवो भूरितेजसः ।

स्व स्वोऽन्तरे सर्वमिदं मुत्याद्यापुस्वराचरम् ॥६३॥

(६३) स्वाम्भू ऋषि साठों मुनि जो बड़े तेजवान् हैं अपने तपोबल से सारे चर और अचर प्राणियों (जीवधारियों) को उत्पन्न करके पासने भये ।

निमेषा दश चाष्टौ च क्षुष्टा त्रिंशत् वा क्लृप्ता ।

त्रिंशत्क्लृप्ता मुहूर्तः स्यादहोरात्रं तु तावत् ॥६४॥

(६४) अठारह पल का एक काण्डा ३० काण्डा की एक कला ३ कला का एक मुहूर्त और ३० मुहूर्त का एक दिन रात होता है ।

अहो रात्र विभज्यते क्षणं मानुषदैविके ।

रात्रिः स्वप्नाय भूतानां वेष्टायै कर्मणामह ॥६५॥

करते थे, वही पूर्ण हो जाती थी । चारसौ वर्ष की आयु होती थी । त्रेता आदि तीनों युगों में मनुष्य की आयु एक-एक चरण घट गई अर्थात् त्रेता में ३०० वर्ष द्वापर में २०० वर्ष, कलियुग में १०० वर्ष ।

वेदोक्तमायुर्मन्यानामाशिपश्चैव कर्मणाम् ।

फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावश्चशरीरिणाम् ॥८४॥

(८४) वेद में मनुष्यों की जो आयु निर्धारित की है, और इच्छापूर्ति के लिए जो आशिप और शाप है, और मनुष्यों की प्रकृति (स्वभाव)-यह सब बातें युगानुसार फल देती हैं ।

अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे ।

अन्ये कलियुगे नृणां युगहासानुरूपतः ॥ ८५ ॥

(८५) युग के अनुसार मनुष्यों का धर्म सब युगों में पृथक्-पृथक् होता है अर्थात् सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग में अलग २ धर्म होता । ❀

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौयुगे ॥ ८६ ॥

❀(८६) सतयुग में केवल तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ, और कलियुग में दान ही मुख्य रक्खा गया ।

सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः ।

मुखवाहुरुपाज्जानां पृथक्कर्मण्यकल्पयत् ॥८७॥

(८७) इस सारे ससार का कार्य चलाने के हेतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों शरीर के चार भाग मुख,

❀ यह श्लोक स्वार्थियों के मिलाए हुए ज्ञात होते हैं, क्योंकि धर्म चारों युगों में एक समान रहता है ।

सन्ध्या कहनाती है और युग के अन्त पर उतना ही सन्ध्या कहलाता है ।

इतरपु ससन्ध्यपु ससन्ध्यांशपु च त्रिपु ।

एकापावन वर्तन्ते महस्रासि शतानि च ॥७०॥

(७०) तीनों युगों अर्थात् त्रेता व्रापर कलिमुग की संख्या और सन्ध्यांश की संख्या एक सहस्र (हजार) और एक ही वष के ऋषटामे से होती है ।

यदेतत्पगिसख्यातमादावग चतुर्गुणम् ।

एतद्ब्रह्मादशसाहस्र द्गानां यगमुच्यते ॥७१॥

(७१) यह जो चार युगों की संख्या कही है इसका मारह सहस्र युगों अर्थात् ब्रह्माधो का युग होता है ।

दैविकानां युगानां तु महस्र परिसख्यया ।

ब्राह्ममेकमहस्रैव तावतीं रात्रिमेव च ॥ ७२ ॥

(७२) देवताधो के सहस्र (हजार) युग के तुल्य ब्रह्माधी का एक दिन होता है और इतनी ही रात्रि होती है ।

तद्देव्युगसहस्रान्त ब्राह्म पुण्यमद्विदुः ।

रात्रिश्च सावतीमन तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥७३॥

(७३) ब्रह्मा के सहस्र युग के तुल्य परब्रह्मा का एक दिन होता है । सो बह दिन बड़ा पवित्र है और उतनी ही रात्रि भी होती है इसे रात्रि-दिन के ज्ञाताधो ने कहा ।

ॐ ३० वष का त्रेता युग और ३ वर्ष की सन्ध्या और ३० वर्ष का सन्ध्यास २० वष का व्रापर २ वर्ष की सन्ध्या और २० वर्ष का सन्ध्यास १००० वर्ष का कलिमुग १ वष की सन्ध्या और १० वष का सन्ध्यास ।

तस्य सोऽर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते ।

प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम् ॥ ७४ ॥

(७४) यह ब्रह्मा अपने दिनमें कार्य्य करते हैं और रात्रि में विश्राम करते हैं । जब जाग्रत होने हैं तो सकल्प-विकल्प रूप मन को सृष्टि रचने की आज्ञा देते हैं ।

मनः सृष्टिं विक्रुस्ते चोद्यमानं सिसृक्षया ।

आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदुः ॥७५॥

(७५) मन ने ब्रह्माजी की आज्ञा पाकर आप से आप आकाश को बनाया , इसका गुण शब्द है ।

आकाशात्तु विक्रुर्वाणात्सर्वगन्धवहः शुचिः ।

बलवाज्जायते वायुः स वै स्पर्शं गुणो मतः ॥७६॥

(७६) आकाश के पश्चात् सब गन्धों की ज्ञाता (पहिचानने वाली), पवित्र और बलवान वायु की उत्पत्ति हुई । इसका गुण स्पर्श है ।

वायोरपि विक्रुर्वाणाद्विरोचिष्णु तमोनुदम् ।

ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रूपगुणमुच्यते ॥७७॥

(७७) वायु के पश्चात् तम का नाश करने वाली और प्रकाश फैलाने वाली ज्योति उत्पन्न की । इसका गुण रूप है ।

ज्योतिषश्च विक्रुर्वाणादापो रसगुणाः स्मृताः ।

अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिर्गदितः ॥७८॥

(७८) अग्नि के पश्चात् जल बनाया, जिसका गुण रस है । और जल से पृथ्वी की रचा, जिसका गुण गन्ध है । ससार के प्रारम्भ से यही स्वप्न-सृष्टि है ।

यत्प्राग्द्वादशसाहस्रमुदितं दैविकं युगम् ।

तदेक्यस्रतिगुणं मन्वन्तरमिदोच्यते ॥७६॥

(७६) बारह सहस्र बय का देवतायुग का एक युग होता है और उसका एकहत्तर गुणा एक मन्वन्तर होता है । यह बारह सहस्र देवतायुग के बय है न कि मनुष्यो के ।

मन्वन्तरायसख्यानि सगं सद्धार एष च ।

क्रीडन्निवैतकुर्वन् परमेष्ठी पुन पुन ॥ ८० ॥

(८०) परमात्मा सृष्टि का उत्पत्ति नाश और मन्वन्तर प्राप्ति प्रसस्य बार अपनी स्वाभाविक शक्ति से रचते हैं ।

चतुष्पात्सकलोचर्म सत्यं शैव कृते युगे ।

नाभर्मेशागमं कश्चित्मप्यानुप्रति वर्धते ॥८१॥

(८१) सतयुग में बर्म धारो चरण से स्थित था । इस युग के मनुष्य सत्य बोधा करते थे और कोई अधर्म का कार्य नहीं करते थे ।

इतरागमाद्धर्मः पादशस्त्ववरोपित ।

धीरिक्कान्तमायाभिधमंश्चापैति पादश ॥ ८२ ॥

(८२) अज्ञान प्राप्ति तीनो युगो में भोग अधर्म प्रवृत्ति होती थी और अज्ञान से काम करने लगे अतएव धर्मका एक-एक चरण बटता गया अर्थात् अज्ञान से एक-बीबाई द्वार से दो-बीबाई (आधा) कलियुग में तीन-बीबाई (तीन) धर्म स्थूल हो गया ।

अरागा सप्तसिद्धार्थान्चतुर्विंशतयायुष ।

कृते त्रेतादिषु क्षेमामायुर्हसति पादशः ॥ ८३ ॥

(८३) सतयुग में कोई बीमार न होता था और जो इच्छा

करते थे, वही पूर्ण हो जाती थी । चारसौ वर्ष की आयु होती थी । त्रेता आदि तीनों युगों में मनुष्य की आयु एक-एक चरण घट गई अर्थात् त्रेता में ३०० वर्ष द्वापर में २०० वर्ष, कलियुग में १०० वर्ष ।

वेदोक्तमायुर्मर्त्यानामाशिपश्चैव कर्मणाम् ।

फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावश्चशरीरिणाम् ॥८४॥

(८४) वेद में मनुष्यों की जो आयु निर्धारित की है, और इच्छापूर्ति के लिए जो आशिप और आप है, और मनुष्यों की प्रकृति (स्वभाव)-यह सब बातें युगानुसार फल देती हैं ।

अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे ।

अन्ये कलियुगे नृणां युगह्रासानुरूपतः ॥ ८५ ॥

(८५) युग के अनुसार मनुष्यों का धर्म सब युगों में पृथक्-पृथक् होता है अर्थात् सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग में अलग २ धर्म होता । ❀

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौयुगे ॥ ८६ ॥

❀(८६) सतयुग में केवल तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ, और कलियुग में दान ही मुख्य रक्खा गया ।

सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः ।

सुखवाहुरुपाजानां पृथक्कर्मण्यकल्पयत् ॥८७॥

(८७) इस सारे ससार का कार्य चलाने के हेतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों शरीर के चार भाग मुख,

❀ यह श्लोक स्वार्थियों के मिलाए हुए ज्ञात होते हैं, क्योंकि धर्म चारों युगों में एक समान रहता है ।

बाहु उद और पाँव के अनुसार बनाये । और चारों बलों के
रुम पूषक-पूषक निर्धारित किये ।

अभ्य पनमभ्ययन यजन याजन तथा ।

दान प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मस्थानायकल्पयत ॥८८॥

(८८) वेद पढ़ना वन पढ़ाना यज्ञ करना सत्र कराना
तान देना और दान देना यह छह कर्म ब्राह्मण के लिए बनाये ।

प्रधानां रक्षण दानमिज्याभ्ययनमेव च ।

विषमव्यप्रसक्तिश्च दानियस्य समामत । ८९॥

(८९) प्रजा की रक्षा करना ब्रह्म पढ़ना दान देना यज्ञ
करना और सासारिक विषयो में विस्रस सगाना धर्मात् प्राप्त
न होना ये पाँच कर्म दानियों के लिए नियत किये ।

पशूनां रक्षण दानमिज्याभ्ययनमथ च ।

वणिक्पथ कुमीदञ्च येत्यस्य कृपिमथ च ॥९०॥

(९०) बीसियों की रक्षा करना दान देना यज्ञ करना
वेद पढ़ना व्यापार करना आज सेना लेती (इपि) करना, ये
पाँच कर्म बन्धु के लिए नियत किये हैं ।

एकययतु शूद्रस्य प्रभुं कर्म ममाश्रित ।

एतपामथ पशूनां शुभूपामनयूयया ॥ ९१ ॥

(९१) शूद्र के लिए एक ही कर्म प्रभु के नियत किया
धर्मात् तन और मन से नीलो बलों (शाहण दानिय वेत्य) की
सेवा करना ।

ऊपर नाममेष्यतर पुत्रा पश्चिदिति ।

तस्याभ्ययनमन्यस्य सुसमुक्त व्यापमहया ॥९२॥

(९२) पुत्र के मथ चन्द्र नामि न विगा कर्म-न पवित्र

है । विशेष कर मुख और भी अधिक पवित्र है । यह ब्रह्माजी ने कहा है ।

उत्तमांगोद्भवाज्ज्यैष्ठ्वाद्ब्राह्मणश्चैव धारणात् ।

सर्वस्यैनास्य मर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः ॥६३॥

(६३) ससार मे ब्राह्मण धर्म के कारण सर्वश्रेष्ठ हैं, इस हेतु कि सबसे पवित्र अङ्ग अर्थात् मुँह का कार्य करते है और वेदानुसार कर्म करते हैं ।

तं हि स्वयम्भूः स्वादाभ्यात्तपस्तप्त्वादितोज्जृजत ।

हव्यकव्याभिविहाय सर्वस्याभ्य च गुप्तये ॥६४॥

(६४) ब्रह्माजी ने अपने तपोबल से पहले ब्राह्मण को अपने मुँह से उपदेश देकर उत्पन्न किया जिससे कि सारे ससार की रक्षा करे और मन्त्रबल से देवताओं को हव्य और पितरो को कव्य पहुँचावे ।

यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवीकसः ।

कव्यानि चैव पितरः कि भूतमधिकन्ततः ॥ ६५ ॥

(६५) उस ब्राह्मण से बढ कर और कौन है कि जिसके मुख से देवतागण हव्य और पितरगण कव्य खाते हैं ।

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।

बृद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नराणां ब्राह्मणाः स्मृताः ॥६६॥

(६६) चर-अचर प्राणियो मे कीडा श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ चौपाया, उससे श्रेष्ठ मनुष्य और उससे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं ।

ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः ।

कृतबुद्धिषु कर्तारः कतृषु ब्रह्मवेदिनः ॥६७॥

(६७) ब्राह्मणो मे वेदशास्त्र के पढने वाले, उनसे

बाहु उरु और पाँव के अनुसार बनाये । और चारों बगों के क्रम पृथक्-पृथक् निर्धारित किये ।

अभ्य पनमभ्ययन यजन याजन तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मस्थानामक्षयपत् ॥८८॥

(८८) वेद पढ़ना वेद पढाना यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना यह छह कर्म ब्राह्मण के लिए बनाये ।

प्रजानां रक्षण दानमिज्याभ्ययनमेव च ।

विषयेष्वप्रभुक्तिश्च क्षत्रियस्य समामत । ८९॥

(८९) प्रजा का रक्षा करना वेद पढाना दान देना यज्ञ करना और सांसारिक विषयों में वित्त न समाना धर्म प्रसक्त न होना ये पाँच कर्म क्षत्रियों के लिए नियत किये ।

पशूनां रक्षण दानमिज्याभ्ययनमेव च ।

वृत्तिकूपय कुमीदश्च वैश्यस्य कृपिमव च ॥९०॥

(९०) बीपायो बी रक्षा करना दान देना यज्ञ करना वेद पढाना व्यापार करना व्याज लेना लेती (कृपि) करना ये सात कर्म वृत्तियों के लिए नियत किये हैं ।

एकमेवतु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत ।

एतपामेव वर्यानां शुभूपामनस्यया ॥ ९१ ॥

(९१) शूद्र के लिए एक ही कर्म प्रभु ने नियत किया प्रजापति और मन से तीनों बगों (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य) की सेवा करना ।

ऊर्ध्वं नामेर्मेप्यतर पुरुषं परिकीर्तितं ।

तस्मान्मभ्यथवन्त्वभ्य मुखमुक्त स्यमभ्युवा ॥९२॥

(९२) पुरुष के सब अङ्ग मानि से चित्ता पर्यन्त पवित्र

श्रीर देता है। उसकी कृपा से क्षत्रिय लोग - अर्थात् दूसरे मनुष्य आनन्द करते हैं।

तस्य कर्म विवेकार्थं शोपाणामनुपूर्वशः ।

स्वायंभवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत् ॥१०२॥

(१०२) उस ब्राह्मण के कर्म और क्षत्रिय आदि के कर्म के ज्ञानार्थ ब्रह्मा के पुत्र मनुजी ने इस शास्त्र को बनाया।

विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः ।

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्नान्येन केनचित् ॥१०३॥

(१०३) वे ब्राह्मण पण्डित हैं, वे इस शास्त्र को यत्न से पढे और शिष्यो (चेलो, विद्यार्थियो) को भी पढावें और क्षत्रिय आदि भी पढें, किन्तु पढावे नही।

इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः ।

मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते ॥१०४॥

(१०४) जो ब्राह्मण इस शास्त्र को पढता है और ब्रत करता है, वह मन, वाणी और शरीर से उत्पन्न हुए कर्म दोष से लिप्त नही होता।

पुनाति पंक्तिं वंश्यांश्च सप्त सप्त परावरान् ।

पृथिवीमपिचैवैमां कृत्स्नामेकोऽपि सोर्हति ॥१०५॥

१०५) पापियो की पक्ति को ब्राह्मण पवित्र करता है। सात पुस्त ऊपर और सात पुस्त नीचे की पवित्र ह सारी पृथ्वी को अकेला धारण कर सकता है।

इदं वृद्धि ववर्धनम् ।

निःश्रेयसं परम् ॥१०६॥

वेदशास्त्र के अनुसार कर्म करने की इच्छा रखने वाले उनसे वेदशास्त्रानुसार कर्म करने वाले, और उनसे अधिक ब्रह्मज्ञानी थे।

उत्पत्तिरेव विप्रस्य मुचिर्वर्मस्य शास्वती ।

स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥६८॥

(६७) ब्राह्मण धर्म की मूर्ति है और धर्म करने के लिए उत्पन्न किया गया है अतएव मुक्ति पाने के योग्य होता है ।

ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधि जायते ।

ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशम्य गुप्तम् ॥६९॥

(६९) परमेश्वर ने धर्मकोष (ज्ञान) की रक्षा के हेतु वेदबान् (विद्वान्) ब्राह्मणों को उत्पन्न किया ।

सर्वे स्वैः ब्राह्मणस्वैः यत्किञ्चित्करोतीमात्म ।

अपि वेनाभिजनन्द सर्वे वै ब्राह्मणाभूति ॥७०॥

क(१) जो कुछ इस ससार में है वह सब ब्राह्मण के हेतु है, क्योंकि ब्राह्मण अपने ज्ञानबल से उनका ठीक-ठीक काम भोग सकता है और दूसरे वर्गों ज्ञान की स्थूलता के कारण काम नहीं भोग सकते । इस हण सब कुछ ब्राह्मणों ही का है क्योंकि वह ब्रह्मज्ञानी के उपदेश से उनको धर्म की शिक्षा देने (सिखाने) के हेतु उत्पन्न हुआ है । अतएव सबसे अधिक है ।

स्वमेव ब्राह्मणो मुक्तं स्व वस्ते स्व ददाति च ।

जानुशस्याप्राह्मणस्य मुञ्चते हीतरं वना ॥७१॥

(७१) ब्राह्मण अपनी ही वस्तुओं को खाता पहिणता

क इस श्लोक से ज्ञान की धृष्टता दर्शाती है और शेष के समान यह श्लोक विताया हुआ है

और देता है। उसकी कृपा से क्षत्रिय लोग अर्थात् दूसरे मनुष्य आनन्द करते हैं।

तस्य कर्म विवेकार्थं शेषाणामनुपूर्वशः ।

स्वायंभवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत् ॥१०२॥

(१०२) उस ब्राह्मण के कर्म और क्षत्रिय आदि के कर्म के ज्ञानार्थं ब्रह्मा के पुत्र मनुजी ने इस शास्त्र को बनाया।

विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः ।

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्नान्येन केनचित् ॥१०३॥

(१०३) वे ब्राह्मण पण्डित हैं, वे इस शास्त्र को यत्न से पढे और शिष्यो (चेलो, विद्यार्थियो) को भी पढावें और क्षत्रिय आदि भी पढे, किन्तु पढावे नही।

इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः ।

मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते ॥१०४॥

(१०४) जो ब्राह्मण इस शास्त्र को पढता है और ब्रत करता है, वह मन, वाणी और शरीर से उत्पन्न हुए कर्म दोष से लिप्त नही होता।

पुनाति पंक्तिं वंश्यांश्च सप्त सप्त परावगन् ।

पृथिवीमपिचैवेमां कृत्स्नामेकोऽपि सोर्हति ॥१०५॥

(१०५) पापियो की पक्ति को ब्राह्मण पवित्र करता है। वह अपनी सात पुस्त ऊपर और सात पुस्त नीचे की पवित्र करता है। वह सारी पृथ्वी को अकेला धारण कर सकता है।

इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बृद्धि ववर्धनम् ।

इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम् ॥१०६॥

(१०६) यह शास्त्र कर्म्याणो बुद्धि यथा धाम्यु और वासा है ।

अस्मि धर्मोऽखिलनाम्नो गुणदोषौ च कर्मणाम् ।

चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शास्वतः ॥१०७॥

(१०७) इस शास्त्र में सारे धर्म कर्मों के गुण-दोष और चारों वर्णों के आचार कहे हैं ।

आचार परमा धर्म भूत्स्युक्त म्मार्त्त एव च ।

तस्मादस्मिन्मदायुक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विज १०८

(१०८) जो आचार वेद-शास्त्र में कहे हैं वह परमधर्म है । इस हेतु जो ब्राह्मण सक्रिय और वैश्य धर्ममा भक्ता चाहें, वह इस शास्त्र नुसार कर्म करें ।

आचाराद्विभ्युता विप्रो न वेदफलमाप्नुत ।

आचारेण तु सयुक्त सम्पूर्णाफल माग्मवेत् ॥१०९॥

(१०९) आचार रहित ब्राह्मण वेद के फल का भोग नहीं कर सकता । जो आचार-सहित ब्राह्मण वेदों के फल का भोग कर सकता है ।

प्रथमाचरतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम् ।

धर्मस्य तथमो मूक्षमाचार अगृह्य परम् ॥११०॥

(११०) जब मनुजी ने देखा कि आचार से ही धर्म प्राप्त होता है तब सब तपों का प्रथमो आचार है उसीको अपनाया ।

अगतञ्च समुत्पत्ति मस्कार विधिमेव च ।

प्रतययोपचार च स्नानस्य च परंविधिम् ॥१११॥

(१११) इनकी बात इस शास्त्र में कही गई है सृष्टि

उत्पत्ति, संस्कारः करने की विधि, व्रत की आवश्यकता, स्नान की विधि ।

दाराधिगमनं चैव विवाहानां च लक्षणम् ।

महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पश्च शाश्वतः ॥११२॥

(११०) स्त्री प्रसंग, विवाहो का लक्षण, महायज्ञ विधान, श्राद्ध की विधि ।

वृत्तिनां लक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च ।

भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च ॥११३॥

(११३) वृत्ति (जीविका का लक्षण, स्नातक (ब्रह्मचारी) का व्रत, भक्ष्य और अभक्ष्य (खाने वाले और न खाने वाले) पदार्थ, शौच (पवित्रता) द्रव्यों को शुद्ध करने की विधि ।

स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं मोक्षं सन्यासमेव च ।

राज्ञश्च धर्ममखिलं कार्याणां च विनिर्णयम् ॥११४॥

(११४) स्त्रियो का धर्म-योग, तप, मोक्ष और सन्यास धर्म, राजाओ का धर्म, और सब कामो का विचार ।

साक्षीप्रश्नविधानं च धर्मं स्त्रीपुंसयोरपि ।

विभागधर्मं द्यूतं च कण्टकानां चशोधनम् ॥११५॥

(११५) साक्षी के प्रश्न का विधान अर्थात् गवाह की गवाही की विधि, पुरुष और स्त्री का धर्म, धर्म के विभाग, द्यूत (जुआ) के विषय में, अपराधियो के दण्ड ।

ः संस्कार १६ हैं -१-गर्भाधान, २-पु सवन, ३-सीमन्तोन्नयन, ४-जातकर्म, ५-नामकरण, ६-निष्क्रमण, ७-अन्नप्राशन ८-चूडाकर्म, ९-कर्णवेध, १०-उपनयन, ११-वेदारम्भ, १२-समावर्तन, १३-विवाह, १४-गृहस्थाश्रम, १५-वाराणप्रस्थाश्रम, १६-सन्यास ।

वैश्यशूद्रोपचार च सकीर्षीनां च समवम् ।

व्यापद्धर्मं च वर्षीनां प्रायश्चित्तविधिं तथा ॥११६॥

(११६) वैश्य और शूद्रों का धर्म बर्णसकरो की उत्पत्ति सकट के समय में वर्णों का धर्म प्राप्तश्चित (पाप से मुक्त होने) की विधि ।

नमारगयन चैव त्रिविधं कर्म क्षमषम् ।

निश्चयन कर्मसां च गुण्योपपरीक्षम् ॥११७॥

(११७) शुभ और अशुभ कर्मों से उत्तम, मध्यम व अधम शरीर में जन्म पाना उत्तम ज्ञान अर्थात् आत्मज्ञान से अभा-शुभ कर्मों का फल ।

देशधर्माजातिधर्मान्कुलधर्माश्च शास्वतान् ।

पाश्र्ववदगणधर्माश्च शास्त्रं ऽस्मिन्नुक्तवान्मनु ॥११८॥

(११८) देशधर्म जातिधर्म कुलधर्म और पाश्र्वी धर्म अर्थात् देश जाति कुल और पाश्र्वी इन सबों के धर्म इतनी बात मनुजी ने इस शास्त्र में कही है ।

यथेदमुक्तवाङ्मना पुरापृष्टोमनुर्नया ।

तथद युयमप्यथ भस्त्रकाशान्निबोधव ॥११९॥

(११९) मनुजी कहते हैं कि जिस प्रकार हमने इस शास्त्र को मनुजी से पूछा और उन्होंने कहा उसी तरह आप लोग भी हमसे सुनिये—

मनुजी का धर्मशास्त्र मनुजी की सहिता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ।

अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

—ॐ—

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वे परागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत् ॥१॥

(१) राग-द्वेष (शत्रुता-मित्रता) रहित उत्तम पण्डित लोगो ने धर्म का पक्ष लिया है और वह धर्म कल्याणदाता है । उस धर्म को हम से चुनिये—

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥२॥

(२) फलेच्छा से कोई कर्म करना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके फल को भोगने के हेतु जन्म लेना पड़ता है और जो नित्यकर्म* और नैमित्तिक है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक होकर मुक्तिदाता है, परन्तु इस वर्णन से साधारण इच्छा करना वर्जित नहीं है, क्योंकि यह सब वर्णन वेदशास्त्र में लिखित धर्म के विषय में इच्छानुकूल ही है ।

संकल्पमूलः कामा वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः ।

व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥३॥

(३) इच्छा, यज्ञ, व्रत, नियम, धर्म यह सब सकल्प अर्थात् 'इस काम से यह फल हमको मिले'—ऐसी बुद्धि से उत्पन्न होते हैं ।

अकामस्य क्रिया काचिद्दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

यद्यद्वि कुरुते किञ्चित्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥४॥

वैश्यशूद्रोपचारश्च सूकीर्त्यानां च समवम् ।

आपद्मं च वर्यानां प्रायश्चित्तविधिं तथा ॥११६॥

(११६) वैश्य और शूद्रों का धर्म वर्णासकरो की उत्पत्ति स्रष्ट के समय में वर्यों का धर्म प्रायश्चित्त (पाप से मुक्त होने) की विधि ।

समारगमनश्चैव त्रिविधं कर्म समवम् ।

निश्चयस्य कर्माणां च गुण्यदोषपरीक्षम् ॥११७॥

(११७) शुभ और अशुभ कर्मों से उत्तम, मध्यम व अधम शरीर में जन्म पाना उत्तम ज्ञान अर्थात् आत्मज्ञान से उभा-शुभ कर्मों का फल ।

देशधर्मात्क्रातिधर्मान्कुलधर्माश्च शास्वतान् ।

पास्तब्रह्मण्यधर्माश्च शास्त्रं म्मिन्नुक्तयान्मनुः ॥११८॥

(११८) देशधर्म आतिधर्म कसधर्म और पास्तब्रह्मी धर्म अर्थात् देश आदि कुल और पास्तब्रह्मी इन सर्वा के धर्म इतनी बात मनुजी ने इस शास्त्र में कही है ।

यमेवमुक्तवाक्यास्तु पुरापृष्टोमनुर्मया ।

सपेदं मयमप्यथ भस्त्रकशास्त्रान्निषोषत ॥११९॥

(११९) मनुजी कहते हैं कि जिस प्रकार हमने इस शास्त्र को मनुजी से पूछा और उन्होंने कहा उसी तरह आप लोग भी हमसे सुनिये—

मनुजी का धर्मशास्त्र मनुजी की संहिता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ।

है, वह ससार में यश प्राप्त करता है और अन्त (मृत्यु के उपरान्त) में सर्वदा आनन्द भोग करता है।

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ।

ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ ॥१०॥

(१०) वेद-शास्त्रों पर व्यर्थ तर्क करके उनके उल्टे अर्थ नहीं लगाने चाहिये, क्योंकि इन्हीं दोनों से धर्म निकला है।

योऽत्र मन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्द्विजः ।

स साधुभिर्बाहृष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥११॥

(११) जो मनुष्य भूठ और अनुचित तर्क द्वारा वेद और शास्त्रों का अनादर करता है, वह नास्तिक है, उसको साधु लोग अपनी मण्डली से बाहर करदे।

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥१२॥

(१२) वेद, शास्त्र, सदाचार और अच्छे पुरुषों की कार्थ्य-प्रणाली, जिससे अपने चित्त को सत्य तथा पूर्ण विश्वास हो, यह चारों धर्म के लक्षण हैं।

अर्थकामेष्वमक्तनां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥१३॥

(१३) अर्थ और काम जिसको इच्छा नहीं है, उसको धर्म और ज्ञान का अधिकार है। जिसको धर्म जानने की इच्छा है, उसको केवल वेद ही प्रमाण है।

श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्माविभौ स्मृतौ ।

उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥१४॥

(१४) जिस कार्य के करने में वेद की दो प्रकार की

(४) इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता । जो कुछ होता है, सब इच्छा ही से होता है ।

तेषु सम्यग्वर्चमानो गच्छन्त्यमरुतोऽकृतामम् ।

यथा सकल्पितांश्चेद् सर्वान्कामान्समरनुते ॥५॥

(५) यदि इच्छा रहित कोई कार्य करे तो मुक्ति प्राप्त हो और धार्मिक इच्छा की भी पूर्ति होव ।

वेदोऽश्विष्यो धर्ममूलं स्मृतिशीलं च तद्विशम् ।

आचारश्चैव साधनामात्मनस्नुष्टिरथ च ॥६॥

(६) वेद का बचन वेदज्ञाताओं का बचन, कर्म साधारण लोगों का कर्म और वह कर्म जिसके करने से चित्त शान्त हो यह सब धर्म का मूल है ।

य करिष्वत्कस्यचिद्भर्मा मनुना परिकीर्तितः ।

स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥७॥

(७) सब बातों के ज्ञाना मनुजी ने जिसका जो धर्म इस शास्त्र में कहा है वह सब वेद में है ।

सर्वं तु समयश्च निस्तिलं ज्ञानचक्षुषः ।

श्रुतिप्रामाण्यता विद्वान्स्वधर्मे निविशत वै ॥८॥

(८) प्रत्येक पुरुष को ब्रह्म और शास्त्र को ज्ञान दृष्टि से देखना और उस पर बिदेवास रगमा चाहिए तथा अपने धर्म पर हृदयन रखना च हिये ।

श्रुतिस्मृत्युक्ति धर्ममनुष्णिदि मानव ।

इह कीर्त्तिमवाप्नोति प्रत्य चानुचम सुखम् ॥९॥

(९) जो पुरुष वेद तथा श्रुति में वर्णित धर्म पर अस्त

है, वह ससार मे यग प्राप्त करता है और अन्त (मृत्यु के उप-रान्त) मे सर्वदा आनन्द भोग करता है ।

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ।

ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्वभौ ॥१०॥

(१०) वेद-शास्त्रो पर व्यर्थ तर्क करके उनके उल्टे अर्थ नही लगाने चाहिये, क्योंकि इन्ही दोनो से धर्म निकला है ।

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्द्विजः ।

स साधुभिर्नाहृष्कार्यो नास्तको वेदनिन्दकः ॥११॥

(११) जो मनुष्य भूठ और अनुचित तर्क द्वारा वेद और शास्त्रो का अनादर करता है, वह नास्तिक है, उसको साधु लोग अपनी मण्डली से बाहर करदे ।

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं ब्राह्मः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥१२॥

(१२) वेद, शास्त्र, सदाचार और अच्छे पुरुषो की कार्य-प्रणाली, जिससे अपने चित्त को सत्य तथा पूर्ण विश्वास हो, यह चारो धर्म के लक्षण है ।

अर्थकामेष्वमक्तनां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥१३॥

(१३) अर्थ और काम जिसको इच्छा नही है, उसको धर्म और ज्ञान का अधिकार है । जिसको धर्म जानने की इच्छा है, उसको केवल वेद ही प्रमाण है ।

श्रुतिद्वयं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ ।

उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥१४॥

(१४) जिस कार्य के करने मे वेद की दो प्रकार की

भाषाओं है उसमें दोनो भाषाय मान्य है । इस बात को पहिलों न मसे प्रकार (उत्तम रीति) से कहा है ।

उदितञ्जुदिते चैव समयाध्यापितं तथा ।

सर्षभा वर्षते यज्ञ इतीष वैदिकी भृतिः ॥१५॥

(१५) सूर्योदय में सूर्यास्त में और सूर्य और लक्ष्मण न होने में इन तीनों समयों में हवन करने को वेद की आज्ञा है । प्रातः का यज्ञ सूर्योदय से प्रथम और सायंकाल का हवन सूर्य की उपस्थित में करे यदि बिसम्ब हो जावे तो मकराद्य से प्रथम करना चाहिये ।

निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्यादितो विधिः ।

तस्य शास्त्रे अधिकारोऽस्मिन्क्षया नान्यस्य कस्यचित् १६

(१६) जन्म से मरण पर्यन्त जिसका मरकार मन्त्र से होता है अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन्ही तीनों वर्गों का अधिकार इस शास्त्र में जानना और किसी का अधिकार न जानना ।

सरस्वती उपशास्त्रोर्देवनघोर्यदन्तरम् ।

त देवनिर्मित देश प्रज्ञावर्ष प्रचक्षते ॥१७॥

(१७) देवताओं की तबी जा सरस्वती और इन्द्रादीनी हैं उनका मध्य के देश को प्रज्ञावर्ष कहते हैं ।

तस्मिन्देशे य आचारं पारम्पर्यं क्रमागतं

वर्षानां सान्तरालानां च सदाचार उच्यते ॥१८॥

(१८) इस देश में सब वर्गों और भाषाओं का आचार जो परम्परा से क्रमानुसार चला आता है और जिसे वर्णसंघों से आचार निषेध कहा है, वह सदाचार कहलाता है ।

कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पाञ्चालाः शूरसेनकाः ।

एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥१९॥

(१९) ब्रह्मावर्त के समीप कुरुक्षेत्र, मत्स्य ❀, पांचाल, शूरसेनक यह सब देश ब्रह्मर्षियों के हैं ।

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिचोरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥२०॥

(२०) सारी पृथ्वी के सब मनुष्य अपनी उत्पत्ति तथा आचार इस देश के वासी ब्राह्मणों से जाने ।

हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्ये यत्प्राग्विनशनादपि ।

प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥२१॥

(२१) हिमाचल और विन्ध्याचल के मध्य + देश के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम मध्यदेश कहलाता है ।

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्त्तं विदुर्बुधाः ॥२२॥

(२२) पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्यन्त और हिमाञ्चल और विन्ध्याचल का मध्य आर्यावर्त कहलाता है ।

कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः ।

स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥२३॥

❀ भदावर ।

❀ थानेश्वर के उत्तर-पश्चिम हिमालय पहाड़ और चम्बल नदी के मध्य का देश ।

+ हिसार के समीप ।

प्राणायें है उसमें दोनों प्राणाय मान्य है । इस बात को पड़ितों
न भले प्रकार (उत्तम रीति) से कहा है ।

उदितभुदित चैव ममयाध्युपिते तथा ।

सर्वथा वर्धते यज्ञ इतीव वैदिकी धृति ॥१५॥

(१५) सूर्योदय में सूर्योदित से और सूर्य और नक्षत्र के
न होने में इन तीनों समयों में हवन करने को वेद की आज्ञा है ।
प्रातः का यज्ञ सूर्योदय से प्रथम और सायंकाल का हवन सूर्य
को उपस्थित से करे यदि विसम्ब हो जावे तो मक्षत्रोदय से
प्रथम करना चाहिये ।

निपद्यदिग्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः ।

तस्य शास्त्रे अधिकारोऽस्मिन्नथवा नान्यस्य ष्टस्यचित् १६

(१६) जन्म से मरण पर्यन्त जिसका संस्कार मात्र से होता
है अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन्हीं तीनों वर्गों का अधिकार
है इस शास्त्र में जानना और किसी का अधिकार न जानना ।

मन्वन्ती ह्यदास्यादेवनधार्यदन्तरम् ।

त वयनिर्मित इशु मक्षायर्च प्रचक्षते ॥१७॥

(१७) देवताओं की मन्ती जा सरस्वती और ह्यदाती हैं
उमर मध्य काल का प्रह्लावर्ष कहते हैं ।

तस्मिन्शु य आचार पारम्पर्यं प्रमाणात्

पगानां मान्निगलानां न गदापात उच्यते ॥१८॥

(१८) गदा के सब वर्गों और आधर्मों का आचार
को पारम्पर्य न प्रमाणानुसार जमा जाना है और जिसे वर्गगत
न आचार निगप कहा है वह गदाचार बहुमात्रा है ।

(२८) वेद पढना, व्रत. हवन, त्रैविध, नाम व्रत, देवर्षि, पितृगे का तर्पण, पुत्रोत्पत्ति, महायज्ञ, यज्ञ—इन सब कर्मों से शरीर मोक्ष पाने के योग्य होता है ।

प्राङ्नाभेर्वर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते ।

मन्त्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम् ॥२९॥

(२९) नाक छेदन से पहले जातकर्म होता है उसमे मन्त्र पढकर सोने के बर्के व शहद तथा घी वालक को खिलाना चाहिये ।

नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत् ।

पुण्ये तिथौ मृहृत्तं वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥३०॥

(३०) जन्म से ग्यारहवें वा बारहवें दिन नामकरण करना चाहिये । यदि इन दिनों मे न हो सके तो श्रौर किसी उत्तम तिथि, नक्षत्र तथा दिन मे करना चाहिये ।

मंगल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम् ।

वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् ॥३१॥

(३१) ब्राह्मण के नाम मे मंगल शब्द (अर्थात् प्रसन्नता, आनन्द) श्रौर क्षत्रिय के नाम मे बल शब्द (अर्थात् शक्ति) श्रौर वैश्य के नाम मे धन शब्द (अर्थात् सम्पत्ति) श्रौर शूद्र के नाम मे नन्द शब्द (अर्थात् सेवक) संयुक्त करना चाहिये ।

शर्मवद्ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षा समन्वितम् ।

वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम् ॥३२॥

(३२) ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र इनके नाम के अन्त मे शर्मा, रक्षा पुष्टि श्रौर प्रेष्य क्रमानुसार संयुक्त करना चाहिये ।

(२३) कात्वा मृग (हिरण) अपत स्वभाव से जिस बंधन रहे वह वेश यज्ञ करने के योग्य है। उसके प्रागे म्नेष्व बध है।

एतान् द्विजातया देशान् मध्वरन् प्रयत्नतः ।

शत्रुस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेदुपृच्छिर्षित ॥२४॥

(२४) ब्राह्मण दानिय न वैश्य प्रयत्न सहित इस देश में रहे और शत्रु हति की कठिना के कारण पाहे जिस देश में रहे।

एषा धर्मस्य वो योनि समामेन प्रकीर्षिता ।

समवश्वास्त्य सर्वस्य वर्णवर्माभिरोधत ॥२५॥

(२५) मृगुजो कहते हैं कि हे ऋषि ऋषि गो ! आप से सब की उत्पत्ति और धर्म को वर्णन किया। धर्म वर्णों का धर्म कहत हैं—

वैश्वेकै फर्नमि पुण्यैर्निपेक्षान्द्विषजन्मनाम् ।

कार्य शरीरमस्कारा पावन प्रेत्य वेह च ॥२६॥

(२६) ब्राह्मण दानिय वैश्यको गर्भापात आदि शारीरिक शस्त्रार लोच और परमाक में पवित्र करने वाले हैं। इस हेतु इन सम्भार को करना चाहिये।

गामर्होमैर्जातकमथोऽहमोऽनीनिबन्धनै ।

पैत्रिक गाभिक चैना द्विजानामपमृज्यते ॥२७॥

(२७) गर्भसम्भार जातकम मुण्डन उपमगन—इन सम्भारों में ब्राह्मण दानिय तथा वैश्य के बीज का दोष और यम का दाप छूट जाता है।

म्वाप्यायन प्रहोमर्षीविध नययासुम्भ ।

महाय १ ७ ३३ ३४ प्राक्षीप प्रियत मनु ॥२८॥

(२८) वेद पढना, व्रत, हवन, त्रैविध, नाम व्रत, देवर्षि, पित्तरो का तर्पण, पुत्रोत्पत्ति, महायज्ञ, यज्ञ—इन सब कर्मों से शरीर मोक्ष पाने के योग्य होता है ।

प्राङ्नाभेर्वर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते ।

मन्त्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम् ॥२९॥

(२९) नाक छेदन से पहले जातकर्म होता है उसमे मन्त्र पढकर सोने के बर्क व शहद तथा धी बालक को खिलाना चाहिये ।

नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत् ।

पुण्ये तिथौ मुहूर्त्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥३०॥

(३०) जन्म से ग्याहवे वा वारहवे दिन नामकरण करना चाहिये । यदि इन दिनो मे न हो सके तो और किसी उत्तम तिथि, नक्षत्र तथा दिन मे करना चाहिये ।

मंगल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम् ।

वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् ॥३१॥

(३१) ब्राह्मण के नाम मे मंगल शब्द (अर्थात् प्रसन्नता, आनन्द) और क्षत्रिय के नाम मे बल शब्द (अर्थात् शक्ति) और वैश्य के नाम मे धन शब्द (अर्थात् सम्पत्ति) और शूद्र के नाम मे नन्द शब्द (अर्थात् सेवक) संयुक्त करना चाहिये ।

शर्मवद्ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षा समन्वितम् ।

वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेण्यसंयुतम् ॥३२॥

(३२) ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र इनके नाम के अन्त मे शर्मा, रक्षा पुष्टि और प्रेण्य क्रमानुसार संयुक्त करना चाहिये ।

स्त्रीणां सुत्वाद्यमकुरं विस्पष्टार्थं मनोहरम् ।

मंगल्य दीर्घवर्षान्तिमाशीर्षादिमिधानवत् ॥३३॥

(३३) स्त्री का नाम ऐसा रखना चाहिये कि जो मनोहर हो और जोमल सरल प्रिय मङ्गल (मामन्द) और आशीर्ष के अर्थ रखता हो और धन्त का वर्ग (प्रकर) दीर्घ हो ।

पतुर्ध्वेमासि कर्त्तव्यं शिशोर्निष्कमस्य गृहात् ।

पष्टेभ्यःप्राशन मासियद्दष्ट मगल कुले ॥ ३४ ॥

(३४) चौथे मास (महीने) सड़के को घर से बाहर निकालना चाहिये और छठे मास में या जिस महीने में अपने कुल की रीति हो भक्षणप्राशन करना चाहिये ।

पृष्ठाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धमतः ।

प्रथमेऽद्दे सृतीयं वा कर्त्तव्यं भूतिसोदनात् ॥३५॥

(३५) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन सबका पृष्ठाकर्म अर्थात् मुण्डन पहले या तीसरे वर्ष करना चाहिये यह वैशाला है ।

गर्माष्टमः कर्त्तव्यः प्राणस्योपनायनम् ।

गर्मादेकादशे राशौ गर्मास्तु द्वादशे विशः ॥३६॥

(३६) गर्माधान-रिधि अथवा जन्म-रिधि से घाटन ग्यारहवें या बारहवें वर्ष क्रमानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उपनायन (जनेऊ) करना चाहिये और जिसका जनेऊ न हो वह ब्रह्म कहलावेगा क्योंकि द्विज बनाने वाला उत्सवार नहीं है ।

अक्षय्यवर्षमकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे ।

राशौ ब्रह्माधिनि पृष्ठ वैश्यस्यहाधिनिोऽष्टमे ॥३७॥

(३७) अक्षय्यवर्ष अथवा धन की इच्छा हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का गार्ग्यार पाँचवें वर्ष और आठवें वर्ष अथवा

आषोडशाद्ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते ।

आद्वाविंशात्क्षत्रवन्धोराचतुर्विंशतेविशः ॥ ३८ ॥

(३८) सोलह, बाइस, चौबीस वर्ष पर्यन्त क्रमानुसार
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गायत्री (सावित्री) के अधिकारी रहते हैं ।

अतः ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ।

सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥३९॥

(३९) इसके पश्चात् तीनो वर्गों उसके अधिकारी नहीं
रहते । तब उनका नाम व्रात्य कहलाता है । और आर्य्य लोग
उनको विगर्हित (बुरा) कहते हैं ।

नैतैरपूतैर्विधिवदापद्यपि हि कर्हिचित् ।

ब्राह्मण्यौनांश्च संबन्धानाचरेद्ब्राह्मणा सह ॥४०॥

(४०) जब तक ऐसे ब्राह्मण प्रायश्चित्त (अर्थात् विधिवत्
पाप से मुक्त होने का पश्चाताप वा दण्ड) न करें तब तक उनके
साथ पढ़ने-पढ़ाने, विवाहादि का व्यवहार न करे ।

कार्ण्यरौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः ।

वसीरन्नानुपूव्येण शाण्दौमाविकानि च ॥४१॥

(४१) अब तीनो वर्गों के ब्रह्मचारियों का चमड़ा आदि
पहनना कहते हैं । कृष्णामृग (काला हिरन) रुक्मामृग
(हिरन) वक्रे का चमड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्रमानुसार शरीर
के ऊपरी भाग में और सन, तीसी और भे७ के सूत का कपड़ा
निम्न शरीर (शरीर के नीचे के भाग) में धारण करें ।

मौञ्जी त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला ।

क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य शण्णतान्तवी ॥४२॥

(४२) ब्राह्मण को मूँज की तीन लड़की मेखला, क्षत्रिय

को मूर्वा की दो सड़ की मेखला और बंद्य को सन की तीन सड़ की मेखला धारण करना चाहिये ।

सुआलामे तु कर्तव्यां कुशाश्मन्तकपञ्चजे ।

त्रिभुता अन्धिनैकन त्रिभिः पञ्चमिरेव वा ॥४३॥

(४३) यदि मूत्र और मूर्वा और सन न मिले तो कुश मेड़ और बल्लवज की तीन सड़ की मेखला करना चाहिये और एक वा तीन वा पाच गांठ की करना चाहिये । कुस की रीखानु सार कई । यह नहीं कि ब्राह्मण एक क्षत्रिय तीन और बंद्य पाच गांठ की रखे ।

कर्पासुपवीत स्याद्विप्रस्यार्ज्ववृत् त्रिभूत् ।

शखशूत्र मय राहो वैश्यस्यादिकसौत्रिकम् ॥४४॥

(४४) ब्राह्मण को कपास का (जनेऊ) उपवीत क्षत्रिय को सम का उपवीत (जनेऊ) और बंद्य को मेड़ के बालों का जनेऊ पहनना चाहिये । सो इस प्रकार कि तिगुना करके फिर तिगुना करना ।

ब्राह्मणा वैश्वपालाशौ क्षत्रियो वाटस्वाश्री ।

पैश्वोदुम्बरो वैश्या द्यदानर्हन्ति घर्मत ॥ ४५ ॥

(४५) ब्राह्मण बेल या पलाश (वाक) का दण्ड धारण करे, क्षत्रिय बड़ (बरगद) या धीर का दण्ड धारण करे और बंद्य उदुम्बर (गूसर) वा पैसू का दण्ड धारण करे ।

कशान्तिको ब्राह्मणस्य दसहं कर्गं प्रनायत ।

सप्तसप्तमिती राशः स्याद्युनासान्तिको विशः ॥४६॥

(४६) किर के बालों तक का ब्राह्मण सप्ताह (पेघामी मत्था) तक का क्षत्रिय बंद्य तक के दण्ड को धारण करे ।

ऋजवस्ते तु सर्वे स्युःश्रवणाः सौम्यदर्शनाः ।

अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचो नाग्निदूषिताः ॥४७॥

(४७) सब दण्ड बोलल, शुद्ध, छिद्र-रहित (दिना छेद का) और सौम्य दर्शन (देखने में सुन्दर) हो, भद्दे (कुरूप) और अग्नि से जले के दाग वाले न हो ।

प्रतिगृह्योप्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम् ।

प्रदक्षिणं परीत्याग्निं चरेद्भ्रूचं यथाविधि ॥४८॥

(४८) दण्ड धारण करके सूर्य के सम्मुख होकर अग्नि की प्रदक्षिणा (पन्क्रमा) करके निम्नलिखित शास्त्र की विधि से भिक्षा माँगे ।

भवत्पूर्वं चरेद्भ्रूचमुपनीतो द्विजोत्तमः ।

भवन्मध्ये तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तमम् ॥४९॥

(४९) ब्राह्मण, क्षत्रि, वैश्य तीनों वर्णों के ब्रह्मचारी भिक्षा मागने के वाक्य में क्रमानुसार आदि, मध्य और अन्त में भवत् शब्द को कहेंगे ।

मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम् ।

भिक्षोत भिक्षां प्रथमं या चैनं नावमानये ॥ ५० ॥

(५०) पहले माता, बहन, मौसी से भिक्षा मागे, और जो ब्रह्मचारी का अपमान न करे उससे भी भिक्षा माँगे ।

गमाहृत्य तु तद्भ्रूचं यावदन्नमायया ।

निवेद्य गुरुवेऽश्नीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ॥५१॥

(५१) निश्चय होकर भिक्षा (भीख) मागकर गुरुजी के सम्मुख (पास) रखे । तत्पश्चात् उनकी आज्ञा पर आचमन करके पवित्र होकर पूर्वाभिमुख (पूर्व की ओर मुँह करके) बैठ कर भोजन करे ।

आपुष्य प्राङ्मुखो मुहूर्त्त यशस्य दक्षिणामुखः ।

भिय प्रत्यङ्मुखो मुहूर्त्त श्रेष्ठ मुहूर्त्त सुदङ्मुखः ॥१२॥

(१२) पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर की ओर मुहूर्त करके भोजन करने से क्रमानुसार आयु, यश सखी सत्यता की वृद्धि होती है ।

उपसृश्य द्विजो नित्यमन्नमयात्समाहितः ।

मुक्त्वा चापसृशोत्सम्पगन्नि स्वानि च मस्युरोत् ॥१३॥

(१३) नित्य ब्रह्म को एकाग्र करके भाष्यमन करने के पश्चात् भोजन करे । भोजनोपरान्त (भोजन के पश्चात्) पाप करे और इन्द्रियो को पानी से प्रक्षाले (सुए, धोये) ।

पूजयेदग्निं नित्यमघोरैस्त्वदङ्गुत्सयन् ।

दद्याद्दुग्धैस्त्वसीदङ्घ्रिं प्रतिनन्देत्सर्वशः ॥ १४ ॥

(१४) मित्य अन्न की पूजा करे और अन्न का अपमान न करे और अन्न को देकर प्रसन्न भित्त हो यह कह कर कि हमको सर्वव ऐसा अन्न मिसे भोजन करे ।

पूजितं अशर्नं निरयं बलमूर्ध्वं च यच्छ्रति ।

अपूजितं तु तद्भुक्तमुत्सर्गं नाशयेदिति ॥ १५ ॥

(१५) अन्न की पूजा करने से तेज और इन्द्रिय शक्ति दोनों की वृद्धि होती है । और पूजन न करने से इन्ही दोनों का नाश हो जाता है ।

नोच्छिद्य कस्यचिद्दद्यान्नाद्यान्वैव तयान्तरा ।

न चैवाग्रशानं कुर्यान्नोच्छिद्यं कश्चिद्भवेत् ॥१६॥

(१६) कूटा किसी को न दे सन्धि समय (दिन रात

के मध्य के समय भोजन न करे, बहुत भोजन न करे, भूँठे मुँह कही न जाये ।

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चाति भोजनम् ।

अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥५७॥

(५७) बहुत भोजन करना, आयु, आरोग्यता, स्वर्ग और पुण्य के हेतु नहीं हैं और ससार में अपयश का कारण है ।

ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत् ।

कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥५८॥

(५८) ब्राह्मण सदैव ब्रह्मतीर्थ से आचमन करे । देवतीर्थ, पितृतीर्थ और प्रजापति-तीर्थ से आचमन न करे ।

अङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते ।

कायमङ्गुलिमूलेऽग्रे दैवं पित्र्यं तयोरधः ॥५९॥

(५९) १—अंगूठा, २—तर्जनी, ३—कनिष्ठा, इन तीनों का मूल क्रम से ब्रह्म, देव, पितर, और प्रजापति तीर्थ कहलाता है ।

त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम् ।

खानि चैव स्पृशेदद्भिरात्मानं शिर एव च ॥६०॥

(६०) पहले तीन बार आचमन करे, पश्चात् दो बार मुँह धोवे और नाक, कान, आँख, मुँह, छाती, सर को पानी से छुये ।

अनुष्णाभिरफेनाभिरद्भिस्तीर्थेन धर्मवित् ।

शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ॥६१॥

(६१) पूर्वं मुँह या उत्तर मुँह होकर फेन रहित शीत जल से जलशून्य स्थानमें पवित्रता और शुद्धता से आचमन करे ।

हृद्गामिं पूतमद्विप्रं कण्ठगामिस्तु भूमिप ।

वैश्वोन्निःप्राशितामिस्तु शूद्रं स्पृष्टामिरन्तत ॥६२॥

(६२) आचमन करने में वृक्षों से छूती तक क्षत्रिय गम तक वक्ष्य विद्वा (जीम) तक और शूद्र प्रकृत तक जस पहुँचाने ।
उद्धृत दक्षिणे पायाक्षुपवीन्दुष्यते द्विज ।

सन्ध्या प्राचीनप्राचीनी निवीती कण्ठसजन ॥६३॥

(६३) वाम (बायें) कन्धे पर जनक रहने से उपवीती अर्थात् सन्ध्या कहलाता है और दक्षिण (दाहिने) कन्धे पर रहने से प्राचीन प्राचीनी अर्थात् अग्रसव्य कहलाता है और कण्ठ (गले) में रहने से निवीती कहलाता है ।

मन्त्रलामजिनं दण्डसुपवीतं कमरुदलुम् ।

अप्सु प्राण्य विनयानि गृह्णन्त्यानि च मन्त्रवत् ॥६४॥

(६४) मेरुना घमड़ा वण्ड जनेऊ, कुण्डल ये सब दूरे से तो जस में वे और मन्त्र द्वारा नया धारण करत ।

कथान्तं पादशो वपे भ्रातृस्यस्य विधीयत ।

राजन्त्यस्योद्वाविश वश्यस्य द्वयधिकं तत ॥६५॥

(६५) वृक्षों का कथात कर्म गर्भ से सोलहवें वष क्षत्रिय का साहसव वन और वन्य को बीबीसवें वर्ष करना चाहिये ।

‘अमन्त्रिका तु क्षर्येयं शीखामाशुदिरापत’ ।

मन्त्राग्यं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्’ ॥६६॥

(६६) × त्रिगोत्रे यह सब सत्कार विना मन्त्र के

× यह श्लोक बहुत छोटे दिन का मिसाया हुआ है । क्यों कि त्रिगोत्रा को हृदाधिकार है ।

करना चाहिये। परन्तु उनको जिस समय पर जैसा कहा है उसी प्रकार करना चाहिये।

“वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः।

पतिसेवा गुरो वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रियाः” ॥६७॥

(६०) “स्त्रियो का विवाह शास्त्रानुसार होना यही मन्त्र द्वारा संस्कार है, पति की सेवा करना यही गुरु के घर में रहना है और गृहकार्य ही अग्नि सेवा है।”

एष प्रोक्तो द्विजातीनामोपनायनिको विधिः।

उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कर्मयोगं निबोधत ॥६८॥

(६८) तीनों वर्णों का जनेऊ कहा, यह बड़े पुण्य का कार्य है। इससे दूसरा जन्म होता है। अब इसके पश्चात् कर्म योग कहते हैं।

उपनीय गुरुः शिष्यं शिष्येच्छ्रीचमादितः।

आचारमग्निकार्यं च संध्योपासनमेव च ॥ ६९ ॥

(६९) गुरु पहले अपने शिष्य को पवित्रता, आचार, अग्नि-सेवा, सन्ध्योपासन इन सब बातों को सिखावे तत्पश्चात् विद्या पढना।

अध्येष्य माणस्त्वाचान्तो यथाशास्त्रमुदङ्मुखः।

ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ॥७०॥

(७०) शास्त्रानुसार शिष्य पढते समय आचमन करके पूर्व मुह कर हाथ जोड़ कर जितेन्द्रिय होकर छोटा कपडा पहन कर रहे।

ब्रह्मारम्भेऽवमाने च पादौ ब्रह्मौगुणोः सदा।

संहृत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ॥७१॥

(७१) नित्य पाठारम्भ और पाठान्त पर दोनों हाथों से गुरु के चरण छुए और गुरु की आज्ञा का पालन करे ।

व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसम्राह्य गुरो ।

मध्यम सव्य स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिण ॥७२॥

(७२) गुरु के सम्मुख जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पै और धार्ये हाथ से बायें पाव को छुए ।

अध्यप्यमाथ तु गुम्भर्नित्यकालमवन्दित ।

अधीप्य भो इति श्रुयादिरामोऽस्त्विचारमेव ॥७३॥

(७३) गुरु आज्ञा दे तब निव्य पदे और जब चुप रहने को कहे तब चुप रहे । तात्पर्य यह है कि गुरु आज्ञा से बड़े और चुप रहे अर्थात् गुरु की आज्ञा बिना कोई कार्य न करे ।

शास्त्राः प्रसूत्रं कृपादादायन्त च सर्षदा ।

स्रष्ट्यनोक्तै पूष पूरस्ताथ विशीर्यति ॥७४॥

(७४) पाठ के आरम्भ और अन्त में प्रणव [आकार] कहे यदि न कहे तो पडा हृषा बिस्मृत [भ्रम] हो जाता है ।

प्राक्कृत्वा न पयुपासीन पवित्रैश्चैव पावित ।

प्राश्यायामौत्रमि पूतस्तत ओङ्कारमर्हति ॥७५॥

(७५) पुर्वाभिमुख कुशासन पर बैठ कर पवित्र मन्त्र से पवित्र होकर तीन बार प्राणायाम कर तब ओङ्कार अपने [कहने] योग्य होता है ।

अक्षर आन्पुक्षर च मकार च प्रजापति ।

बन्ध्यामिरशुद्धं मूर्ध्वं च स्वगितीति च ॥ ७६ ॥

(७६) अक्षर उकार मकार केना मकारेणा और मूमु च स्व इनको भी श्रुत्यात्री न तीना बेशों से निवासा है ।

त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमद्बुद्धत् ।

तदित्यचाऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति ॥७७॥

(७७) इन्ही ❀ तीन वेदों से ब्रह्माजी ने गायत्री मन्त्र के तीन पाद निकाले हैं ।

एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहृति पूर्विकाम् ।

सन्ध्योर्वेदविद्विप्रौ वेदपुण्येन युज्यते ॥ ७८ ॥

(७८) ॐ भू भुव स्व इसको और गायत्री के तीनों वरणों को दोनों समय की संध्या में वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण जप ले तो सब धर्म के फल को प्राप्त कर लेता है ।

सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्त्रिकं द्विजः ।

महतोऽत्येनसो मासाश्चचेवाहर्विमुच्यते ॥ ७९ ॥

(७९) बाहर जाकर इन्ही तीनों को अर्ध सहित एक हजार बार एक मास तक जप करे [पढ़े] तो बड़े पाप अर्थात् अज्ञान से छूट जाता है—जैसे साँप कँचुली से छूटता है ।

एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया ।

ब्रह्मक्षत्रियविदुधो निर्गर्हणां याति साधुषु ॥८०॥

(८०) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को अपने समय पर नहीं जपता है उसकी साधु लोग निन्दा करते हैं । क्योंकि वह उस ज्ञान से शून्य है जो जीव का धर्म है ।

ओंकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः ।

त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् ॥८१॥

❀ ऋग्वेद से अर्थ सतवती अर्थात् पदार्थ प्रशंसा वर्णन से है, और यजुर्वेद में यज्ञ अर्थात् पदार्थों के संयुक्त करने की विधि और सामवेद में यज्ञों की उच्चता को बताने वाली गायत्री है ।

(८१) यही तीनों वर्षात् 'ॐ भूमि व' स्व गायत्री वेद का सार है और परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है । क्योंकि कुछकुछ बिना ज्ञान नहीं हो सकता और इस गायत्री से ज्ञान होता है ।

याऽधीतिऽहन्यहन्यतांस्त्रीणि वर्षास्यतन्द्रित ।

स ब्रह्मपरमम्येति वायुमृत स्रमूर्तिमान् ॥ ८२ ॥

(८२) जो मनुष्य घासस्य त्याग तीन वर्ष पर्यन्त इन तीनों को खपे वह दक्षिण की नाई यज्ञ के सत्य-सत्य ज्ञान को प्राप्त होता है ।

एकाक्षर पर ब्रह्म प्राञ्जलियाम परं तप ।

साधिभ्यास्तु पर नास्ति मौनात्मत्य विशिष्यते ॥ ८३ ॥

(८३) ॐ यह परब्रह्म है प्राण याम परतप गायत्री से कोई उच्च नहीं है । मूक [पुत्र] रहने से सत्य बोधना अच्छा है ।

चरन्ति सर्वा वदिक्यो जहातियजतिभ्रियाः ।

अक्षर दुर्लभ ज्ञेय ब्रह्मैव प्रजापति ॥ ८४ ॥

(८४) वेद में सिद्धित सब क्रिया माशवान् है । क्योंकि अब तक क्षीर है तब तक क्रिया और उसका फल रहता है । केवल ॐ द्वारा उत्पन्न ज्ञान ही सर्व स्थिर है ।

विधियद्वाज्ञपयज्ञो विशाटो दशमिर्गुणैः ।

उपांशुस्याच्छतगुणसहस्रो मानसस्मृत ॥ ८५ ॥

(८५) यज्ञ से दश गुणा अधिक फल जप में है और जप से दश गुणा अधिक मूल शब्द से जिसका कोई न सुन सके इस प्रकार के जप में है और मन में किया गया जप सहस्र गुणा अधिक फल देने वाला है ।

ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञ समन्विताः ।

सर्वे ते जपयज्ञस्य कृत्वां नार्हन्ति षोडशीम् ॥८६॥

(८६) श्रीर जो चार पाकयज्ञ हैं श्रीर विधियज्ञ यह सब जप-यज्ञ के सोलहवें भाग को भी नहीं पहुँचते ।

जप्येनैव तु संसिद्धयेद्ब्राह्मणो नात्रसंशयः ।

कुर्यादग्नन्वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ ८७ ॥

(८७) ब्रह्मण सब जीवों से प्रेम [प्रीति] रखे श्रीर केवल जप ही को करे तो सब सिद्धि प्राप्त हो सकती है । क्योंकि सब सिद्धियों का मूल मन की एकाग्रता श्रीर ज्ञान है ।

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम् ॥८८॥

(८८) जिस प्रकार मारथी रथके घोड़ों को अपने अधिकार से इच्छानुसार चलाता है उसी प्रकार ससार के मनुष्यों को चाहिये कि वह परिश्रम श्रीर प्रयत्न करके विषयों से इन्द्रियों का समय करें [रोकें]—अर्थात् आँख को रूप से, कान को सुनने से श्रीर नाक को सुगन्ध से श्रीर इसी प्रकार श्रीर इन्द्रियों को ।

एकादशेन्द्रियगयाहूर्णानि पूर्वो मनीषिणः ।

तानि सम्यक्प्रनन्द्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥८९॥

(८९) प्राचीन विद्वानों ने जो ग्यारह इन्द्रियाँ बतलाई हैं अब उनको विस्तार पूर्वक कहता हूँ तुम उनको ध्यान से सुनो ।

श्रोत्रं त्वक्क्षुणी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी ।

पायूपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमी स्मृता ॥९०॥

(९०) १—श्रोत्र [कान], २—त्वक् [खाल], ३—चक्षु [नेत्र, आँख], ४—जिह्वा [जीभ], ५—नासिका [नाकहत-६]

(१००) उत्तम रीति से प्रयत्न करके मन आदि इन्द्रिय को बध में करके मुक्ति मार्ग और सांसारिक कार्यों को प्राण करना चाहिये और इस मध्य शरीर को भी नाश न होने दे ।

पूर्वा सध्यां प्रप स्तिष्ठेत्सावित्रीमर्कदर्शनात् ।

परिषमां तु समासीन सम्यग्गृह्यविमावनात् ॥१०१॥

(१०१) प्रातःकाल सूर्योदय से पहिले संध्या के पश्चिम गामत्री का जप तब तक करता रहे जब तक सूर्य का वर्धन हो और इसी प्रकार संध्या समय जब तक मङ्गल विक्रमार्द्र म दे पूर्वा संध्या अर्पस्तिष्ठेन्नैशमे नो व्यपोहति ।

परिषमांतुसमासीनोमस्तइन्तिदिवाकृतम् ॥ १०२ ॥

(१२) प्रातःकाल की संध्या करने से रात्रि के पापों मुक्त हो जाता है । और सायंकाल की संध्या करने से दिन पापों से मुक्त हो जाता है ।

न विष्ठति तु य पूर्वा नापास्तपरश्वपरिषमा ।

स शूद्रवद्विष्कार्य सर्वस्माद्द्विष्कर्मणः ॥१०३॥

(१३) जो मनुष्य दोनों समय की संध्या नहीं करता वह शूद्रवत् द्विष् कर्मों से विष्कार (बाहर) करने योग्य है क्योंकि उसमें द्विषो का धर्म उपस्थित नहीं ।

अर्पासमीपे नियतो नैत्यक विधिमास्थितः ।

सावित्रीमप्यधीयीत गन्धारयय समाहितः ॥१०४॥

(१४) अरण्य (जंगल) में पानी के समीप पश्चात्ति बैठकर सावित्री (गामत्री) का जप करे ।

वेदोपकरणस्य चैव स्वाध्याये चैव नैत्यकैः ।

॥ ज्ञानुगणोऽप्यनध्याय शोमर्कमन्त्रैषु चैव हि ॥१०५॥

(१०५) वेद के ६ अङ्ग हैं—शिक्षा, काव्य, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ज्योतिष, इनके पढने और नित्यकर्म के करने में अनध्याय अर्थात् त्रुटि न करे ।

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसूत्रं हि तत्स्मृतत् । १०५

ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवपटकृतम् ॥ १०६ ॥

(१०६) नित्यकर्म में जो मन्त्र पढे जाते हैं, वह अनध्याय के दिन भी पुण्य से रिक्त नहीं है अर्थात् पुण्य देने वाले हैं ।

यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः ।

तस्य नित्यं क्षरत्येष पयोदधिघृतं भधु ॥ १०७ ॥

(१०७) जो मनुष्य एक वर्ष तक यथाविधि नियम से वेद का स्वाध्याय करता है उसको वेद कामधेनु की नाई ॐ दूध भी देता है ।

अग्नीन्धनं भैक्ष्चर्यामधः शय्यांगुरोर्हितम् ।

आसमावर्तनात्कुर्यात्कृतोपनयनोद्विजः ॥ १०८ ॥

(१०८) जिसका जनेऊ हो गया हो वह जब तक वेद को आद्योपात न पढ ले तब तक हवन करता रहे, भिक्षा मणि पृथ्वी पर सोवे और गुरु के हित में रत (लगा) रहे ।

आचार्यपुत्रः शुश्रूषुर्ज्ञानदोषार्मिकः शुचिः ।

आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वोध्याप्योदश धर्मतः ॥ १०९ ॥

(१०९) १-आचार्यपुत्र, २-सेवक, ३-ज्ञानदाता, ४-धर्म करने वाला, ५-पवित्र रहने वाला, ६-आप्त, ७-सामर्थ्यवान (समर्थ), ८, साधु, ९-धनदाता और १०-स्वजाति वाला, यह दस पढाने योग्य हैं ।

ॐ दूध भी से त्वात्पर्यं सुख, यश और निर्भयता से है ।

[हास], ७—पाद [पाँच] ८—मूर्धेन्द्रिय ९—मसेन्द्रिय १०—
वाक (भाषा) यह दस हैं ।

शुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः ।

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्यादीनि प्रचक्षते ॥६१॥

(६१) इन दस से प्रथम की पाँच ज्ञानेन्द्रिय कहलाती हैं और शेष की पाँच कर्मेन्द्रिय कहलाती हैं ।

एकादश मनो ह्ययं स्वर्गुशोनामयामकम् ।

यस्मिन् जिते जितवेतौ भवतः पञ्चकौ गणौ ॥६२॥

(६२) ग्याहृषी मन है जो अपने गुणों के कारण द्वारा ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय के नाम से बोला जाता है । मन के जीतने (वश में करने) से दोष बंधो इन्द्रियाँ जीती जाती हैं ।

इन्द्रियाणां प्रमङ्गेन दोषमूच्छस्यऽसशयम् ।

समिपम्य तु तान्ब्रह्म तस्य सिद्धिं नियच्छति ॥६३॥

(६३) इन्द्रियों के संसर्ग से जीव बुझी होता है और इन्द्रियों के सम्बन्ध के परित्याग से जीव सिद्धि प्राप्त करता है ।

न जातुकामं कामानामुपभोगेन शाम्पति ।

इविषा कृष्णवर्मेव भूय एवाऽभिवर्धते ॥ ६४ ॥

(६४) मनको जिस वस्तु की इच्छा होती है उसके प्राप्त हो जाने पर भी लृप्त नहीं होता जिसु इच्छा में वृद्धि होती है । जैसे घामि में पड़ने से वह उत्तरोत्तर प्रवीण होती (बढती) है ।

परशैतान्प्राप्नुयात्सर्वात्मर्षान्परशैतान्केयलांस्पशेत् ।

प्रापस्यात्मर्षकामानां परिन्यायो विशिष्यते ॥ ६५ ॥

(६५) जिसके समीप प्रत्येक प्रायस्सहीय (इच्छित) वस्तु

उपस्थित हैं और जो मनुष्य प्राप्त वस्तुओं को परित्याग कर देता है, इन दोनों में से परित्याग कर देने वाला बड़ा है ।

न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया ।

विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥६६॥

(६६) इच्छित आवश्यकीय पदार्थों का परित्याग भोग किये बिना नहीं होता । क्योंकि भोग करने से जब उनके दोष जात हो जाते हैं तब उनके परित्याग करने की इच्छा करता है ।

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।

नविप्रदुष्टभावस्य सिद्धिगच्छन्तिकर्हिचित् ॥ ६७ ॥

(६७) दुष्ट और दुराचारी मनुष्य वेद पढ़ने त्याग, नित्य यज्ञ, तप आदि और धर्म के कर्म करने से शुद्ध नहीं होता ।

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः ।

न हृष्यति ग्लायति वा सविज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥६८॥

(६८) जो मनुष्य सुनने, छूने, देखने, भोगने और सू घने से न प्रसन्न होता है और न इनके बिना अप्रसन्न होता है, वह जितेन्द्रिय कहलाता है ।

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम् ।

तेनास्य क्षरतिप्रज्ञादृतेः पात्रादिवोदकम् ॥ ६९ ॥

(६९) इन्द्रियो में से यदि एक भी इन्द्रिय अपने विषय में लगी कि बुद्धि नाश हो जाती है, जैसे चलनी से जल छन जाता है ।

वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।

सर्वसंसाधयेदर्थान्क्षिण्वन्योगतस्तनुम् ॥ १०० ॥

(१००) उत्तम रीति से प्रयत्न करके मम प्रादि इन्द्रियों को बश में करके मुक्ति मार्ग और सांसारिक कार्यों को प्राप्त करना चाहिये और इस मध्य धरीर को भी माद्य न होने दे ।

पूर्वा सध्यांश्चप स्तिष्ठेत्सावित्रीमर्कदर्शनात् ।

पश्चिमां तु समासीनं सम्पगृह्यविभावनात् ॥१०१॥

(११) प्रातःकाल सूर्योदय से पहिले संध्या के पक्षपति गायत्री का जप तक तक करता रहे जब तक सूर्य का दर्शन न हो और इसी प्रकार संध्या समय जब तक मन्त्र दिखलाई न दे ।

पूर्वा सध्यांश्चपस्तिष्ठेन्नैशमे नो व्यपोहति ।

पश्चिमांतुसमासीनोमर्कहन्तिदिवाकृतम् ॥ १०२ ॥

(१०२) प्रातःकाल की संध्या करने से रात्रि के पापों से मुक्त हो जाता है । और सायंकाल की संध्या करने से दिन के पापों से मुक्त हो जाता है ।

न तिष्ठति तु य पूर्वा नोपास्तयश्चपश्चिमात् ।

स शूद्रवद्विष्कार्यं सर्वस्माद्द्विजकर्मणः ॥१०३॥

(१३) जो मनुष्य दोनों समय की संध्या नहीं करता है वह शूद्रवत् द्विज कर्मों से बहिष्कार (बाहर) करने योग्य है । क्योंकि उसमें द्विजों का धर्म उपस्थित नहीं ।

अपौसमीप नियतो नैत्यक विधिमास्थितः ।

सावित्रीमप्यधीयीत गन्धारस्य समाहितः ॥१०४॥

(१०४) घरस्थ (जगत्) में पानी के समीप यथाविधि बैठकर सावित्री (गायत्री) का जप करे ।

वेदापकरणं चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके ।

॥ नानुगोषोऽस्म्यनध्यायं हामर्कमन्त्रैषु चैव हि ॥१०५॥

(१०५) वेद के ६ अङ्ग हैं—शिक्षा, काव्य, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ज्योतिष, इनके पढने और नित्यकर्म के करने में अनध्याय अर्थात् त्रुटि न करे ।

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसूत्रं हि तत्स्मृतम् । ५१

ब्रह्माहुतिद्वृतं पुण्यमनध्यायत्रपटकृतम् ॥ १०६ ॥

(१०६) नित्यकर्म में जो मन्त्र पढे जाते हैं वह अनध्याय के दिन भी पुण्य से रिक्त नहीं हैं अर्थात् पुण्य देने वाले हैं ।

यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः ।

तस्य नित्यं चरत्येव पयोदधिघृतं भधु ॥ १०७ ॥ ५२

(१०७) जो मनुष्य एक वर्ष तक यथाविधि नियम से वेद का स्वाध्याय करता है उसको वेद कामधेनु की नाई ॐ दूध घी देता है ।

अग्नीन्धनं भैक्ष्चर्यामधः शय्यांगुरोर्हितम् ।

आसमावर्तनात्कुर्व्यात्कृतोपनयनोद्विजः ॥ १०८ ॥ ५३

(१०८) जिसका जनेऊ हो गया हो वह जब तक वेद को आद्योपात्त न पढ ले तब तक हवन करता रहे, भिक्षा मगि पृथ्वी पर सोवे और गुरु के हित में रत (लगा) रहे ।

आचार्यपुत्रः शुश्रूषुर्ज्ञानदोधार्षिकः शुचिः ।

आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वोध्याप्योदश धर्मतः ॥ १०९ ॥ ५४

(१०९) १-आचार्यपुत्र, २-सेवक, ३-ज्ञानदाता, ४-धर्म करने वाला, ५-पवित्र रहने वाला, ६-आप्त, ७-सामर्थ्यवान (समर्थ), ८, साधु, ९-धनदाता और १०-स्वजाति वाला, यह दस पढाने योग्य है ।

ॐ दूध घी से ज्ञात्यर्थं सुख, यज्ञ और निर्भयता से है ।

ना पृष्ठः कस्मश्चिद्भ्रूयात्त चाऽन्यायेन पूञ्छत ।

जानन्नपिहि मेधावी जडवन्लोक आचरेत् ॥११०॥

(११०) बिना पूछे किसी से कोई बात न कहे छस से पूछे तो भी न कहे । बुद्धिमत् पुरुष प्रत्येक बियय से जानकार होने पर भी संसार में जडवन् रहे ।

अधर्मेण च यःप्राह यश्चाधर्मेण पूञ्छति ।

तयारन्यतरः प्रैतिविद्वेपं चाधिगच्छति ॥ १११ ॥

(१११) जो मनुष्य अधर्म से पूछता है और जो अधर्म से कहता है उन दोनों में से एक मर जाता है अधर्मा शत्रुता उत्पन्न हो जाती है ।

धर्माधौ यत्र न स्यातां द्युभ्रूया चाऽपि तद्विद्या ।

तत्र विद्या न वक्तव्या शुभ बीजमिषोपरे ॥११२॥

(११२) वहा धर्म धर्म और सेवा शास्त्रानुसार नहीं है वहा विद्या न सिखाना । क्योंकि उत्तम और उपजाऊ बीज ऊसर भूमि में नहीं बोया जाता ।

विद्ययैव सम क्लाम कर्तव्यं ब्रह्मवादिना ।

आपद्यपि हि धारायां नस्वेनाभिरिणो षयेत् ॥११३॥

(११३) विद्याम मनुष्यों को चाहिये कि उनके विद्या चाहे उनके साम ही बसी जाय किन्तु कुपात्र और दुराचारी मनुष्य को विद्या न पढ़ावे ।

विद्याप्राप्त्यस्येत्याह शेषविस्तेस्मि रश्च माम् ।

अस्यकाम मां मादास्त्वया स्यां बीर्यवत्तमा ॥११४॥

(११४) विद्या प्राप्ति के लिये मैं तुम्हारी

सम्पत्ति हैं, मेरी रक्षा करो और जो लोग वेद की इच्छा नहीं करते उनको मुझे न दो तो मैं पूर्ण कला से तुम्हारे पास रहूँगी।

यमेव तु शुचिं विद्यान्नियतब्रह्मचारिणम् ।

तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधिपायाऽप्रमादिने ॥११५॥

(११५) जिस ब्राह्मण को पवित्र ब्रह्मचारी, सम्पत्ति की रक्षा करने वाला, और बुद्धिमान् जानो उस ब्राह्मणको मुझे दो।

ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात् ।

स ब्रह्मस्तेयंसंयुक्तो नरकं प्रति पद्यते ॥ ११६ ॥

(११६) जो लोग बिना गुरु के वेद को सुन-सुना कर सीखते हैं वह वेद के चोर हैं। क्योंकि वेद का सत्य अर्थ गुरु बिना नहीं जाना जा सकता है। और वेद का अशुद्ध अर्थ करने वाला नरकगामी होता है।

लौकिकं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च ।

आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत् ॥ ११७ ॥

(११७) जिससे लौकिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान व ब्रह्मज्ञान सीखे उसको पहिले अभिवादन (प्रणाम) करे।

सावित्री मात्रसारोऽपि वर विप्रः सुयन्त्रितः ।

नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥११८॥

(११८) जो पुरुष केवल सावित्री (गायत्री) को पढा हो और शास्त्रानुसार नियम से रहता हो वह मान्य और आदरणीय है। और तीनों वेदों को पढा हो परन्तु सब वस्तुओं को बेचने वाला, अपवित्र पदार्थ भक्षी और शास्त्र प्रतिकूल कर्म करने वाला हो, वह मान्य तथा आदरणीय नहीं है।

शय्यासनेऽध्याश्रिते भ्रूयसा न समाविशेत् ।

शय्यासनस्पर्शवैभेन प्रत्युत्थायामिवाद्भवेत् ॥११६॥

(११६) बृद्ध पुरुष मित्र आसन (गद्दी) पर बैठे हों उस पर आप न बैठे और यदि बैठे हों तो उठ कर प्रणाम करें ।

ऊर्ध्वं प्राणा धुस्क्रामन्ति पुन स्यधिर आयति ।

प्रत्युत्थानामिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते ॥१२०॥

(१२०) बृद्ध पुरुषों के आँसुओं से छोटों के प्राण ऊपर की ओर उठते हैं और छोटे लोग जब उठ कर प्रणाम करते हैं तो उससे वे प्राण स्थिर हो जाते हैं ।

अभिवादनशीलस्य नित्यं बृद्धोपसेधिन ।

चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विधायशोबसम् ॥१२१॥

(१२१) जो मनुष्य बड़े लोगों को सर्वेव प्रणाम करता है । उसकी आयु, यश, विद्या और बलधारों की वृद्धि होती है ।

अभिवादात्पर विप्रो न्यायसिमिवाद्यन ।

असौनामाहमस्मीति स्वं नामपरिकीर्षयेत् ॥१२२॥

(१२२) प्रणाम करने के पश्चात् बृद्धों से यह कहें कि मैं प्रमुक्त नाम का मनुष्य हूँ ।

नामधेयस्य ये क्निडमिवाद न जानते ।

तान्प्राप्नोऽहमित्त्रयारिस्त्रय सर्वास्तपैव च ॥१२३॥

(१२३) जो मनुष्य प्रणाम करने के शब्द वा वाक्य को नहीं जानता है वह केवल अपने ही नाम को कहे और स्त्रियाँ भी ऐसा ही कहें ।

भो शब्द कीर्षयदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादाने ।

नाम्नो स्वरूपमाधो हि भोभाष अपिमि स्मृतः ॥१२४॥

(१२४) प्रणाम करने के समय अपने नाम के अन्त में 'भो' शब्द को कहे । 'भो' शब्द ताम का बताने वाला है यह ऋषियो ने कहा है ।

आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादाने ।

अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यःपूर्वाक्षरःप्लुतः॥१२५॥

(१२५) आशीर्वाद देने में 'आयुष्मान् भव' ऐसा कहना चाहिये । नाम के अन्त में अकारादि स्वर को प्लुत अर्थात् त्रिमात्रात्मक कहना चाहिये ।

यो न वेत्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम् ।

नाभिवाद्यः स विदुषा यथाशूद्रस्तथैवसः ॥१२६॥

(१२६) जो मनुष्य आशीर्वाद देने के वाक्य को नहीं जानता है उसको प्रणाम न करना चाहिये क्योंकि वह शूद्रवत् है ।

ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्क्षत्रवन्धुमनामयम् ।

वैश्यं क्षेमं समागम्यशूद्रमारोग्यमेव च ॥१२७॥

(१२७) ब्राह्मण से कुशल, क्षत्रिय से अनामय, वैश्य से क्षेम और शूद्र से आरोग्यता पूछना चाहिये ।

अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यज्ञीयानपियो भवेत् ।

भोभवत्पूर्वकं त्वेनमभिभाषेत धर्मवित् ॥ १२८ ॥

(१२८) जो पुरुष अपने से छोटा है-और यज्ञ करता है उसको यज्ञ में भो भवत् शब्द से बोलना (पुकारना) चाहिये नाम लेना अनुचित है ।

परपत्नी तु या स्त्री स्यादसंबन्धा च योनितः ।

तां ब्रूयाद्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥१२९॥

(१२६) जिस स्त्री से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है उसको सुभगे भवती मगिनी कह कर पुकारना चाहिये ।

मातुस्तारच पितृष्याश्च श्वशुरानृत्विबो गुरून् ।

असापहमिति त्रयात्प्रत्युत्याय यवीयस ॥१३०॥

(१३०) मातुलो (मामाघो) बच्चा स्वसुर (ससुर) यज्ञ करने वाला गुरु यह सब अपनी प्रायु से छोटे भी हों तो भी उनको यह कह कर कि मैं प्रभुक हूँ उठकर प्रणाम करना चाहिये ।

मातृष्वसा मातृस्तानी स्वभूरथ पितृष्वसा ।

सपूज्या गुरुपत्नीवत् समस्ता गुरुभार्यया ॥१३१॥

(१३१) मौसी मातृमानी (माई) सासु, फूँधी (सुभा) यह सब गुरु पत्नी के समान हैं । अतएव इनकी पूजा व आदर गुरु-पत्नी की माई करना चाहिये ।

आतुमार्योपसग्राह्या सबर्साऽऽन्यऽन्यपि ।

विप्रोष्य तूपसंग्राह्या ज्ञातिसभन्धियेपि ॥१३२॥

(१३२) बड़े भ्राता की भार्या (स्त्री पत्नी) वा जो स्वजाति (बड़े) भाई की स्त्री हो सर्वथ उसका पांव छु कर प्रणाम करे और स्वजाति की सम्बन्धिनी (नातेदार रिश्तेदार) स्त्री का भी पांव छु कर प्रणाम करे । परन्तु जब विवेक से प्राकर अपने देश में निवास करे तब पांव न छुए केवल प्रणाम करे ।

पितुर्मगिन्यांमातृश्चन्यायस्यांचस्वसूर्यपि ।

मातृष्वश्वशुरिमाविष्ठेन्माताताभ्यांगरीयसी ॥ १३३ ॥

(१३३) फूँधी मौसी बड़ी बहुत इन सब को माता के तुल्य माने किन्तु माता उन सब से बड़ी अर्थात् मातृ व आदरणीय है ।

दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पञ्चाब्दाख्यं कलाभृताम् ।

त्र्यब्दपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु । १३४ ॥

(१३४) एक गाँव अथवा एक शहर के निवासी गुण से रहित हों और दश वर्ष बड़े हो तो उनके साथ मित्रता का व्यवहार होता है, और गुणी हो और पाच वर्ष बड़े हो तो उनके साथ भी मित्रता का व्यवहार होता है और वेद पढ़े हो और तीन वर्ष बड़े हो तो भी मित्रता का व्यवहार होता है । सम्बन्धी हो तो अल्प समय ही में मित्रता होती है । यदि ऊपर लिखे आयु से अधिक अवस्था वाला हो तो वृद्ध और मान्य है ।

ब्राह्मणं दशवर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपम् ।

पितापुत्रौ विजानीयाद्ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ १३६ ॥

(१३५) ऋदस वर्ष का ब्राह्मण और सौ वर्ष का क्षत्रिय दोनों आपस में बाप-बेटे की नाई रहे । उनमें ब्राह्मण पितावत् और क्षत्रिय पुत्रवत् रहते ।

वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी ।

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् । १३६ ॥

(१३६) १-धन, २-बन्धु (सम्बन्धी), ३-आयु, ४-कर्म, ५-विद्या, यह पांचो मान्य तथा आदरणीय हैं । इनमें पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस ही प्रकार एक दूसरे से पूज्य (उत्तम) हैं ।

ॐ यह श्लोक मिलाया हुआ है क्योंकि जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण नहीं होता तब तक ब्राह्मण हो नहीं सकता । और दस वर्ष में ब्रह्मचर्य किसी प्रकार भी पूर्ण नहीं हो सकता ।

पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च । - -

यत्र स्पृ सोऽत्र मानार्हं शूद्रोऽपि दशमीं गत ॥१३७॥

(१३७) ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य इनमें से जिसके पास पाँच वस्तुओं में से कोई भी वस्तु अधिक हो वही प्रादरणीय है और १० वर्ष से अधिक छूट भी प्रादरणीय है ।

चक्रिणो दशमास्वस्य रोगिणो मारिष्यं स्त्रियां ।

स्नातकस्य च गङ्गारव पया देवो वरस्य च ॥१३८॥

(१३८) रमास्व १० वर्ष से अधिक आयु वाला रोगी मार (बोझ) वाला स्त्री स्नातक (ब्राह्मणारी) राजा और वर (दूल्हा) इनमें से कोई एक प्राता हो उसको पय (रास्ता) दे प्रथमि व्याप एक ओर हो जावे ।

तेषां तु समवेतानां मान्यी स्नातकपादिषी ।

राजस्नातकयोरथैव स्नातको नृपमानमाक् ॥१३९॥

(१३९) उपरोक्त मनुष्य राजा को रास्ता देवे और राजा ब्राह्मणारी को प्राता देकर रास्ते से हट जावे ।

उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्विज्ज ।

सकर्म्यं सरहस्यं च तन्माचार्यं प्रषुचते ॥१४०॥

(१४०) जो यज्ञोपवीत पहना कर वेद वेदांग और उसके व्याख्यान को सत्योचित रीति से पढ़ाता है वह आचार्य कहलाता है ।

एकदेश तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः ।

योऽध्यायति ह्ययर्थमुपाध्याय सु-उच्यते ॥१४१॥

(१४१) वेद का एक बेश और वेद के छ अङ्ग इन सब -

की जीविका के लिए जो पढाता है वह उपाध्याय कहलाता है ।

निपकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि ।

संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥१४२॥

(१४२) जो गर्भाधानादि सम्कारों को यथा विधि करता है वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है ।

अग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान् ।

यः करोति वृतो यस्य स तस्यत्विग्निहोच्यते ॥१४३॥

(१४३) जो मनुष्य अग्निहोत्र कर्म, पाक यज्ञ (अष्टका श्राद्ध अग्निष्टोम आदि मखों (यज्ञों) को कराता है वह ऋत्विज कहलाता है ।

य आवृणोत्यवितथं ब्राह्मणः श्रवणावुभौ ।

स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्रुह्येत्कदाचन ॥१४४॥

(१४४) जो दोनों कानों को वेद से भरता है वह माता-पितावत् है । उससे कभी-शत्रुता न करनी चाहिये ।

उपाध्यायाद्दशाचार्यं आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥१४५॥

(१४५) उपाध्यायसे दशगुणा आचार्य मान्य है, आचार्य से सौ गुणा पिता मान्य है और पिता से सहस्र गुणी अधिक माता मान्य है ।

उत्पादकब्रह्मदात्रोर्गरीयान्ब्रह्मदः पिता ।

ब्रह्म जन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥१४६॥

(१४६) जन्म दाता और वेद पढाने वाला दोनों में से वेद पढाने वाला बड़ा है । वेद पढने से जो जन्म होता है वह जन्म अविनाशी है ।

कामान्माता पिताश्चैन यदुत्पादयतो मियं ।

सभूर्ति तस्य तां विधाद्यधोनावभिजायते ॥१४७॥

(१४७) माता पिता काम वच होकर पुत्र उत्पन्न करते

हैं । अतएव उत्पत्ति स्वान हैं ।

आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिबद्धेदपारुगं ।

उत्पादयति सावित्र्या सा मत्या साञ्जरा मरा ॥१४८॥

(१४८) जो अम्म गामत्री करके (द्वारा) आचार्य करता

है वह अम्म सत्य (ठीक) और अजर अमर (अबिनाशी) है ।

अल्प वा बहु वा तस्य धु तस्योपकरोति यं ।

तमपीह गुरु विधाञ्छु तापक्रियया तथा ॥१४९॥

(१४९) अल्प वा बहुत बेद के पढ़ाने से जो उपकार

करता है उसको भी गुरु समझना चाहिये ।

ब्राह्मस्य जन्मन कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता ।

बाह्योऽपि विप्रो बृहस्पत्य पिता भवति धर्मतः ॥१५०॥

(१५०) बेद पढ़ाने वाला ब्राह्मण वायु में चाहे जितना

छोटा हो परन्तु वह गुरु ही कहलाता है । क्योंकि ज्ञान से ही जीवात्मा का (बृहस्पत) बहप्यन है वायु से नहीं ।

अध्यापयामास पितृभिसृष्टुगीरिसं कधि ।

पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य सान् ॥ १५१ ॥

(१५१) 'अगिरा के बेटे ने अपने बच्चा को पढ़ाया और

बेटा कहा इस कारण से कि वह ज्ञान में बड़ा था ।

ते समर्षपृच्छन्त देवानागतमन्यवः ।

देवाश्चैतां समन्योऽनुन्याय्यं वः शिशुरुक्तवान् ॥१५२॥

(१५२) इस कारण से चचा क्रुद्ध होकर देवताओं से पूछने गया । देवताओं ने उत्तर दिया कि उस बालक (शिशु) ने अच्छा कहा ।

अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्र दः ।

अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥१५३॥

(१५३) क्योंकि जो कुछ नहीं जानता वह बालक कहलाता है और जो मन्त्र देता है वह पिता कहलाता है ।

न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न वन्धुभिः ।

ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान् ॥१५४॥

(१५४) वयोवृद्धि, धनवान्, और बहुत बान्धवों वाला होने से बड़ा नहीं कहलाता । वरन् सागोपाग वेद पढ़ने वाला बड़ा है यह ऋषियों का वचन है ।

विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः ।

वैश्यानां धान्यधनतः शुद्राणामेव जन्मतः ॥१५५॥

(१५५) ब्राह्मणों में ज्ञान से ज्येष्ठता है, क्षत्रियों में बल से, वैश्यों में धन से और शूद्रों में आयु से ज्येष्ठता (बढप्पन) मानी जाती है ।

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।

यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥१५६॥

(१५६) केशों के श्वेत होने से बड़ा नहीं कहलाता, वरन् जो कोई युवा है और विद्वान् है उसीको देवताओं ने बड़ा कहा है ।

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।

यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्रति ॥१५७॥

(१५७) काठ का हाथी बमड़े का मृग (हिरण) मूर्ख
ब्राह्मण यह तीनों नाम मात्र को है । कुछ कार्य नहीं कर सकते ।

यथा परदोऽफल स्त्रीपु यथा गोरगवि चाफला ।

तथा चाङ्गऽफलं दान तथा विप्रोऽनूचोऽफल ॥१५८॥

(१५८) जिस प्रकार नपुंसक पुरुष स्त्रियों में और
(बाम्) गऊ गवयों में निष्फल है और जिस प्रकार मूर्ख ब्राह्मण
को दान देना निष्फल है उसी प्रकार कुपट ब्राह्मण निष्फल है ।

अहिसयैव मृतानां कार्य भयोऽनुशासनम् ।

वाङ्मथैव मधुरा रक्षस्त्रा प्रयोन्या चर्ममिच्छता ॥१५९॥

(१५९) ऐसे काम की आज्ञा देनी चाहिये जिसमें
किसी जीव को कष्ट न हो । और भर्मात्मा पुरुष को मीठी बाली
बोलनी चाहिये ।

यस्य वाङ्मनसो शुद्धे सम्यग्गुण्ये च सर्वदा ।

स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतम् फलम् ॥१६०॥

(१६०) जिसकी बाली और मन शुद्ध है सर्वथा माया से
बचा हुआ है वह वेदान्त के फल को पाता है ।

नारु तुदा स्यादातोऽपि न परद्रोहकर्मधी ।

यस्पास्योद्विजेते वाचा नास्तोक्त्या तामुदीरयेत् ॥१६१॥

(१६१) बुझी होने पर भी ऐसी बात न कहे कि जिससे
किसी के चित्त पर मान ममे (बुझी हो) और कभी डाह न करे ।

समानाव्भाषणो नित्यमुद्विजेत् विपादिम् ।

अमृतस्यैव चाकारोद्वमानस्य सर्वदा ॥ १६२ ॥

(१६२) ब्राह्मण सम्मान को विषवत् और अपमान को अमृत तुल्य समझता रहे ।

सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते ।

सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥१६३॥

(१६३) अपमानित पुरुष प्रसन्नता से सोता, जागता और फिरता है और अपमान करने वाला मर जाता है ।

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः ।

गुरौ वसन्संचिनुयाद्ब्रह्माधिगमिक्रं तपः ॥१६४॥

(१६४) इस प्रकार ससार को, पाकर धीरे-धीरे गुरुकुल में वास करता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करने वाले तप को करे जिस से शान्ति मिले ।

तपोविशेषैर्विविधैर्ब्रतैश्च विधिचोदितैः ।

वेदःकृत्स्नोऽधिगन्तव्यःसरहस्यो द्विजन्मना ॥१६५॥

(१६५) भिन्न-भिन्न तप और व्रत को करके वेद को गुप्त विद्या सहित पढे क्योंकि चैतन्य जीवात्मा ज्ञान विना उन्नति नहीं कर सकता ।

वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तपस्यन्द्विजोत्तमः ।

वेदायासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥१६६॥

(१६६) ब्राह्मण तप करता हुआ वेद ही को पढे । यही उसका बड़ा तप है ।

आहैव स नखाग्रभ्यः परमं तप्यते तपः ।

यःस्रग्व्यपि द्विजोऽधीतस्वाध्यायंशक्तितोऽन्वहम् ॥१६७॥

(१६७) मन्त्र से शिक्षा पर्यन्त परम तप वह करता है जो माता पहले हुए बलानुसार नित्य व्रत को पढ़ता है (धर्मार्थ ब्रह्मचारी को माता पहनाना मज्जित है अथ मज्जित कार्य करने पर भी यदि वेद को पढ़ा करे तो वह भी तप ही है) ।

याऽनघीस्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुत भ्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय ॥१६८॥

(१६८) जो ब्राह्मण वेद का पढ़ना त्याग कर शास्त्रों के अध्ययन में परिश्रम करता है वह जीवन पर्यन्त अपने कुस सहित शूद्र भाव को प्राप्त होता है ।

मातुरग्रेऽधिजनन द्वितीय मौञ्जिवन्धने ।

तृतीय यज्ञदीक्षायां द्विजस्य भुविषोदनात् ॥१६९॥

(१६९) वेद में ब्राह्मण के तीन अन्म सिद्धे हैं पहला अन्म माता से दूसरा अनेक होने से और तीसरा यज्ञ करने से ।

तत्र यद्वृषभप्रन्मास्य मौञ्जीबन्धनचिह्नितम् ।

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥१७०॥

(१७०) जिसमें अनेक होने से जो अन्म होता है उसमें मायत्री माता है और आचार्य पिता है ।

वेदप्रदानादाचार्यं पितरं परिचक्षते ।

नक्षस्मिन्पुन्यते कर्म किञ्चिदामौञ्जिवन्धनान् ॥१७१॥

(१७१) वेद के पढ़ाने से आचार्य पिता कहलाता है । अब तक अनेक नहीं होता अब तक मनुष्य का उद्धार किसी द्विज कर्म से नहीं होता क्योंकि अनेक विधा प्रत्येक मनुष्य शूद्र है ।

नाभिव्याहारयेद्ब्रह्म स्वधानिनयनादृते ।

शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्ब्रह्मैतन् जायते ॥ १७२ ॥

(१७२) विना जनेऊ हुए पुत्र का अधिकार श्राद्ध करने में नहीं होता है । किन्तु शूद्र तुल्य होता है ।

कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते ।

ब्रह्मण ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वम् ॥ १७३ ॥

(१७३) जनेऊ के पश्चात् व्रत करना चाहिये और यथा विधि वेद पढ़ना चाहिये । यही मनुष्य का जीवन-फल है ।

यद्यस्य विहितं चर्म यन्सूत्रं या च मेखला ।

यो दण्डी यच्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥ १७४ ॥

(१७४) जिसकी जो मेखला, जो चर्म, जो सूत, जो दण्ड, जो कपडा है यही व्रत में भी रहे ।

सेवतेमांस्तु नियमान्ब्रह्मचारी गुरो वसन् ।

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्धयर्थमात्मनः ॥ १७५ ॥

(१७५) ब्रह्मचारी गुरुकुल वास कर इन्द्रिय-निग्रह (इन्द्रियो को वश में) करके अपने तप की उत्पत्ति के हेतु निम्न-लिखित विधि से कार्य करे ।

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्देवर्षिपितृतर्पणम् ।

देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥

(१७६) नित्य स्नान कर शुचि (शुद्ध पवित्र) हो देवर्षि पितृ-तर्पण करके देवताओं का पूजन करे और अग्निमें हवन करे ।

वर्जयेन्मधुमौंसं च गन्धं माष्यं रसान्निव्ययः ।

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥ १७७ ॥

(१७७) शराव माम गन्ध मासा रस स्त्री जीव
हस्मा ब्रह्मचारी को सदैव बज्रित है (कभी न करना चाहिये) ।

अभ्यर्गमञ्जन च। वस्त्रोरुपानञ्चप्रधारणम् ।

काम क्रोध च शोभ च नर्वन गीतवादनम् ॥१७८॥

(१७८) चबटन का जल पूता छतरी काम क्रोध
शोभ नाचना गाना बजाना ।

घृक्ष च जनघात च परिवाद स्थानृतम् ।

दाराणां प्रेक्ष्यालम्भमुपघात परस्य च ॥१७९॥

(१७९) घृत (जुआ) किसी का मिथ्या दोष बरान
करना स्त्री वर्धन स्त्री सम्भाषण दूसर की कुचेष्टा इन सब
बातों से दूर रहे ।

एकः शयीत सर्वत्र न रेत स्कन्दयत्कथित ।

कामादि स्कन्दयनरंती द्विनस्ति व्रतमात्मन ॥१८०॥

(१८०) एकेसा सोवे वीर्य को न गिरावे और जो काह
वीर्य को गिराता है वह अपना व्रत माघ कर देता है ।

स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुद्धमकामत ।

स्नान्वार्कमर्षयि चात्रि पृनर्मासि यर्ष जपेत् ॥ १८१ ॥

(१८१) यदि स्वप्न मे विना इच्छा शक्र (वीर्य) गिर
जाए तो स्नान बरके सूर्य की पूजा बरके 'पुनर्मासि' इस मंत्र का
तीन बार जप करे ।

उवृकृम सुमनसो गोशकुन्मृत्तिकापुशान् ।

आहरद्यावदर्यानि र्भक्ष आहरहरचरत् ॥ १८२ ॥

(१८२) जग ना घडा फूल गोबर मिट्टी कुश इन सबको
घाबरयावतान - उनके घोर नित्य भीख मांग कर भोजन करे ।

वेदयज्ञैर्हीनानां प्रशस्तानां ह्यस्कर्म्मसु ।

ब्रह्मचार्याहरेद्भ्रूच्चं ग्रहेश्यः प्रयतोऽन्वहम् ॥१८३॥

(१८३) जो मनुष्य वेद, यज्ञ और अपने शुभ कर्मों करके युक्त हो, उसके गृह (घर) से भिक्षा (भीख) लावे ।

गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिक्कुलवन्धुषु ।

अलाभे त्वन्यगोहानां पूर्वं पूर्वं विवर्जयेत् ॥ १८४ ॥

(१८४) गुरु के कुल में, जाति के कुल में, भाई के कुल में भिक्षा न मागे । यदि कहीं भिक्षा न मिले तो पूर्व पूर्व (प्रथम प्रथम) को त्याग कर दूसरे दूसरे से मागे ।

सर्वं वापि चरद्ग्रामं पूर्वोक्तानामसंभवे ।

नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वर्जयेत् ॥१८५॥

(१८५) जो ऐसे घर न हो तो सारे गाव में मीन धारण कर और इन्द्रियो को वश कर भिक्षा मागे, किन्तु पापियो का घर त्याग दे ।

दृग्दाहृत्य समिधः संनिद्ध्याद्विहायसि ।

सायंप्रातश्च जुहुयात्तभिरग्निमतन्द्रितः ॥ १८६ ॥

(१८६) दूर से लकड़ी लाकर पृथ्वी से ऊपर आकाश में (ऊँचे पर) रखके उसी से प्रातः सायं हवन करे, आलस्य न करे ।

अकृत्वा भैक्षचरणमसमिध्य च पावकम् ।

अनातुगः सप्तगात्रमवकीर्तिव्रतं चरेत् ॥ १८७ ॥

(१८७) यदि सामर्थ्य हो तो सात दिवस तक भीख न मागे और अग्नि में हवन न करे । अवकीर्ण नाम व्रत (जो प्रागे कहेंगे) करे ।

मैत्राण्यं वर्तयेन्नित्यं नैकाभादी मषेद्ब्रती ।

मैत्रेण्यं ब्रतिनो ब्रतिरुपवाससमा स्मृता ॥ १८८ ॥

(१८८) नित्य भिक्षा मांग कर भोजन करे । परन्तु एक ही गृह का भक्षण न खाये । भिक्षा मांग कर भोजन करना ब्रत तुल्य है । और एक गृह का भक्षण खाये से ब्रत सम्बन्धित हो जाता है ।

ब्रतवद्देवदेवस्त्वे पित्र्ये कर्मव्ययापिबत् ।

काममभ्यर्थितोऽरनीयाद्ब्रतमस्य न क्षुप्यते ॥१८९॥

(१८९) यदि किसी मनुष्य में विश्वदेव वा पितृकर्म के निमित्त भेवता दिया हो तो इच्छानुसार ब्राह्मण में भोजन करे । परन्तु दोनो कर्मों में इच्छानुसार ब्रती और ऋषि की भाई मुन्यर्षों को भोजन करे । ऐसा करने से ब्रत नहीं टूटता ।

ब्राह्मणस्यैव कर्मेतदुपदिष्टं मनीषिभिः ।

राजन्यवैश्ययोस्त्वेव नैतत्कर्म विधीयते ॥१९०॥

(१९०) ब्राह्मण में भोजन करना ब्राह्मण ही का काम है । क्षत्रिय वैश्य और ब्रह्मचारियों का नहीं ।

षोडशो गुरुणा नित्यमप्रषोदित एव वा ।

कुर्यादध्ययने यत्नमाचार्यस्य द्वितेषु च ॥१९१॥

(१९१) गुरु आज्ञा हो या न हो परन्तु वेद पढ़ने और गुरु की भर्साई करने का प्रयत्न करे ।

शरीरं चैव वाचं च बुद्धोन्द्रियमनांसि च ।

निशम्य प्राञ्जलिस्त्रिष्टेदीर्घमाख्यो गुरोर्मुक्षम् ॥१९२॥

(१९२) शरीर वाली बुद्धि इन्द्रिय, मन सब को ब्रत

कर, कर जोड़, गुरु की देखता हुआ गुरु के सामने स्थिर (खड़ा) रहे ।

नित्यमुद्धृतपाणिः सत्याध्वाचारः सुसंयुतः ।

आस्यतामिति चोक्तःसन्नासीताभिमुखं गुरोः ॥१६३॥

(१६३) दक्षिण कर को चादरे (वस्त्र) से सदैव बाहर रखे, साधु की नाई आचार से रहे, चचलता-विहीन रहे, और गुरु जब बैठने की आज्ञा दें तब उनके सन्मुख बैठे ।

हीनान्नवस्त्रवेपः स्यात्सर्वदा गुरुसन्निधौ ।

उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत् ॥१६४॥

(१६४) गुरु के समीप इस विधि से रहना चाहिये कि जैसा गुरु भोजन करे उससे हीन दशा का आप भोजन करे, जैसा वस्त्र गुरु पहिने उससे हीन (घटका) वस्त्र आप पहिने, जैसे वेप में गुरु रहे उससे हीन वेप में आप रहे, और गुरु के जागने से प्रथम जागे और गुरु के सोने के पश्चात् सोवे ।

प्रतिश्रवणसंभाषे शयानो न समाचरेत् ।

नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्नो पराङ्मुखः ॥१६५॥

(१६५) सोता हुआ, आसन पर बैठा हुआ, भोजन करता हुआ और मुख फेरे हुए गुरु से बातचीत न करे और न सुने ।

आसीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छंस्तु तिष्ठतः ।

प्रत्युद्गम्य त्वाब्रजतः पश्चाद्वावंस्तु धावतः ॥१६६॥

(१६६) गुरु बैठे हो तो आप खड़ा होकर, गुरु खड़े हो तो आप चल कर, गुरु चलते हो तो आप सन्मुख जाकर और गुरु दौड़ने हो तो आप भी पीछे दौड़कर वात्त करे और सुने ।

पराङ्मुखस्यामि मुखो दूरस्वस्मैरय चातिक्रमम् ।

प्रशम्य तु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठनः ॥१६७॥

(१६७) गुरु मुख फेरे सके हा ता सम्मुख जाकर दूर हों तो समीप आकर और सोते हो तो प्रणाम करके गुरु के आदेश (आज्ञा) को सुने ।

नीच शय्यासन चास्य सर्वादा गुरुसभिधौ ।

गुरोस्तु चक्षुर्विपये न यथेष्टासनो भवेत् ॥ १६८ ॥

(१६८) गुरु के समीप अपनी शय्यासन नीचा रखते । अपने इच्छामुसार न रखते । क्योंकि ऐसा न करने से गुरु का अपमान होता है और बिछा नहीं जाती ।

नोदाहरदस्य नाम परोक्षमपि कवचम् ।

न चैवास्यानुकुर्यात् गतिमापितचष्टितम् ॥ १६९ ॥

(१६९) गुरु के पीछे भी केवल उनके नाम को न सेवे और गुरु की जैसी चास हास बोसी चेष्टा हो वसी अपनी न रखे वरन् गुरु की आज्ञा पासम करे । उनकी चास की (रीति की) मकस न करे ।

गुरोयत्र परीषादा निन्दा यापि प्रवर्तते ।

कुर्यात् तत्र प्रिघातुष्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यत ॥२००॥

(२००) जहा गुरु को सन्ध वा अनत बोपारेपण होता हो वा निन्दा होती हो वहा अपने जान बन्द करके अपना वहाँ से उठ जावे ।

परोषादात्सरो भवति रवा वै भवति निन्दकः ।

परिमोक्षा कृमिभवंति क्रीटो भवति भत्सरी ॥२०१॥

(२०१) गुरु का सख अनृत दोष कहने से गथा

श्रीर-निन्दा करने से कुत्ता होता है । गुरु का अनुचित धन, भोजन करने से कृमि (छोटा कीड़ा) और मत्सर (गुरु की बड़ाई न सह सकने) से कीट (बड़ा कीड़ा) होता है ।

दूरस्थो नार्चयेदेनं क्रुद्धो नांतिके स्त्रियाः ।

या चासनस्थश्चैवैनमवरुद्धाभिवादयेत् ॥ २०२ ॥

(२०२) गुरु की पूजा दूर से (अर्थात् किसी के द्वारा सामिथी भेज कर) न करे और क्रोध भी न करे । यदि अपनी स्त्री के समीप बैठा हो वा सवारी या आसन पर बैठा हो तो सवारी से उतर कर वा आसन को त्याग कर वा स्त्री के समीप से उठ कर प्रणाम करे ।

प्रतिवातेऽनुवाते च नामीत गुरुणा सह ।

असंश्रवे चैव गुरोर्न किञ्चिदपि कीर्तयेत् ॥ २०३ ॥

(२०३) जो मनुष्य गुरु के देश से शिष्य के देश को आया हो अथवा शिष्य के देश से गुरु के देश को आया हो । इन दोनों के सम्मुख शिष्य गुरु के साथ न रहे । जो बात गुरु के सुनने में न आवे ऐसी कोई बात गुरु की वा और किसी की न कहे अर्थात् गुरु से छिपा कर कोई बात न कहे ।

गोऽश्वोऽप्ययानप्रासादप्रस्तरेषु कटेषु च ।

आसीत् गुरुणा सार्धं शिलाफलकनौषु च ॥ २०४ ॥

(२०४) बैल, घोडा, ऊँट वाले रथ, गाडी पर अथवा चटाई, पत्थर, लकडी और नाव पर गुरु के साथ बैठे ।

गुरोर्गुरौ सन्निहिते गुरुवद्वृत्तिमाचरेत् ।

न चानसृष्टो गुरुणा स्वान्गूरूनभिवादयेत् ॥ २०५ ॥

(२०३) गुरु के गुरु को भी अपने गुरु की भाँई जाने और गुरु की आज्ञा के बिना अपने दण्ड से धामे हुए तथा धादि को प्रणाम न करे ।

विद्यागुरुष्वेतदेव नित्याहुति स्वयोनिषु ।

प्रतिषेधत्सु चाधर्मान्दिव्योपदिशस्वपि ॥ २०६ ॥

(२०६) इसी प्रकार आचार्य के प्रतिरिक्त उपाध्याय धादि सम्बन्धी अधर्म से रक्षा करने वाले उत्तम शिक्षा-दाता भी गुरु समान है ।

श्रेयसु गुरुवद्भक्तिं नित्यमेव समाचरत् ।

गुरुपुत्रेषु धार्येषु गुरोरचैव स्वधनुषु ॥ २०७ ॥

(२०७) जो बृद्ध जन है गुरु का बड़ा पुत्र और गुरु के नामक इन सब की भी गुरु के समान जाने और सर्वत्र उनका आदर करे ।

बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यद्वर्कर्मसु ।

अध्यापयन्गुरुस्तुतो गुरुवन्मानमर्हति ॥ २०८ ॥

(२०८) गुरु-पुत्र अपनी धामु से छोटा हो या बड़ा हो जो पढ़ाने की सामर्थ्य रखता हो और अपना मङ्ग देखने को धामे तो उसका भी आदर गुरु की भाँई करना चाहिये ।

उन्मादनं च गात्राणां स्नापनोच्छ्वेदमोक्षणम् ।

न क्षुर्याद्गुरुपुत्रस्य पादयोश्चाधनजनम् ॥ २०९ ॥

(२०९) स्नान कराना उन्मत्त लगाना बूटा भाजन कराना पाँव धोना यह सब काम गुरु-पुत्र क न करे ।

गुरुवत्प्रतिपूज्याः स्युः सवर्णागुरुयोपितः ।

असवर्णास्तु संपूज्या प्रत्युत्थानाभिवादनैः ॥२१०॥

(२१०) गुरु के सवर्ण स्त्री की पूजा गुरु की नाई करे ।
और जो स्वजाति की नहीं है तो उसकी पूजा यही है कि उठ कर
केवल प्रणाम करे ।

अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च ।

गुरुपत्न्याः न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम् ॥२११॥

(२११) गुरु-पत्नी के शरीर में तेल व उवटन न लगावे,
और न स्नान करावे, न बाल सुखावे ।

गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः ।

पूर्णाविशतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥ २१२ ॥

(२१२) जो शिष्य पूर्ण २० वर्ष की आयु वाला और
गुण दोषो का ज्ञाता हो वह युवा गुरु-पत्नी के पाँव पकड़ कर
प्रणाम न करे ।

स्वभाव एष नारीणां नाराणामिह दूषणम् ।

अतोऽर्थान्नि प्रमाद्यति प्रमदासु विपश्चितः ॥२१३॥

(२१३) मनुष्यों को दोष लगाना स्त्रियों का स्वभाव है,
इस हेतु पण्डित जनो को स्त्रियों से चैतन्य रहना चाहिये ।

अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः ।

प्रमदा ह्युत्पथं नेतु कामक्रोधवशानुगम् ॥२१४॥

(२१४) काम, क्रोध के वश हुआ पुरुष बहुत पण्डित
हो वा मूर्ख हो, उसको बुरे रास्ते पर ले जाने के हेतु स्त्रिया
सामर्थ्य रखती हैं ।

✓ मात्रा स्वप्ना बुद्धिश्चा वा न विविचासतो भवेत् ॥

पक्षवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि क्वपति ॥२१५॥

(२१५) माता मगिनी व कन्या हमके साथ जन्मभूय्य घर [स्थाय] में न रहे क्योंकि इन्द्रियाँ बहुत कमजोर हैं । पण्डितों को भी कुमार्ग पर भी ब से जातो है ।

कर्म तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि ।

विधिवद्भवन कुर्यादसाधुमिति भ्रुवन् ॥ २१६ ॥

(२१६) युवा गुरु-पत्नी को सिध्य विधिवत् [मली भाति] मह कह कर कि मैं धर्मुक हूँ पृथ्वी पर गिर कर दण्डवत् करे ।

विप्रोप्य पादग्रहणमन्यद्वाभिषादनम् ।

गुरुगारेषु कुर्वीत सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ २१७ ॥

(२१७) मात्रा से धाकर भस्मे मनुष्या के धर्म को स्मरण करने गुरु-पत्नी के पाव पकड़े और प्रणाम को निरय ही करे ।

यथा स्वतस्वनित्र य नरो धार्यधिगच्छति ।

तथा गुरुतां विधां शुभपूरधिगच्छति ॥ २१८ ॥

(२१८) जैसे कुत्ता से कावत-खादत मनुष्य जस पाता है उमी प्रकार गुरु की सेवा-सुगूपा करते-करते सिध्य गुरु की सम्पूर्ण बिद्या को पाता है ।

मुबडो वा जटिलौ वा स्यादथवा स्याच्छिखाजटा ।

नैन ग्रामऽमिनिम्नोश्चस्त्रयोनाभ्युदियारकचित् ॥ २१९ ॥

(२१९) यद्यपि ब्रह्मचारी मूढ मुढाये जटाधारी व थोटी को जटा के सुम्य बनाये हो तथापि कभी भी सूर्मोदय वा सूर्यास्त समय ग्राम में न रहे यद्यपि ब्रह्मचारी यह दोनों समय बाहर वा ग्राम में बाहर स्थित करे ।

तं चेदभ्युदियान्तर्यः शयानःकामचार्यः ।

निम्नोचेद्राप्यविज्ञानाज्जपन्नुपवसेद्दिनम् ॥ २२० ॥

(२२०) यदि मूर्योदय और मूर्यास्त समय ब्रह्मचारी घर से उपस्थित हो तो प्रायश्चित्त स्वरूप उम दिन जप करता हुआ उपवास करे ।

सूर्येण ह्यभिनिमुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः ।

प्रायश्चित्तमकृत्वाणो युक्तःस्यान्मृतैःनसा ॥ २२१ ॥

(२२१) यदि जपरोक्त लिखित अथवा कथित प्रायश्चित्त न करे तो बड़ा पाप होता है ।

आचम्य प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः ।

शुचौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविवि ॥२२२॥

(२२२) आचमन कर नित्य दोनों सध्याओं में एकाग्र चित्त से उत्तम और पवित्र स्थान में यथाविधि गायत्री का जप करे ।

यदि स्त्री यद्यनरजः श्रेयः किञ्चित्समाचरेत् ।

तत्सर्वमाचरेद्युक्तो यत्र वास्य रमेन्मनः ॥२२३॥

(२२३) स्त्री व छोटा पुरुष कोई उत्तम बात करता हो तो उसको आप भी करे अथवा शास्त्रानुसार जिस कर्म में मन को विश्वास हो वह कार्य करे ।

धर्मार्थविच्यपते श्रेयः कामार्थो धर्म एव च ॥

अर्थ एवैह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थितिः ॥२२४॥

(२२४) किसी के मत में धर्म और अर्थ और किसी के मत में अर्थ और काम, और किसी के मत में केवल धर्म-कल्याणकारी है । अब अपने मत को कहते हैं कि धर्म, अर्थ

और काम तीनों एकत्र हैं और इन्हीं तीनों से सब कुछ प्राप्त होता है ।

आचार्यश्च पिता चैव माता आता च पूर्वजः ।

नार्तेनाप्यवमन्तव्या ब्रह्मणेन विशेषतः ॥ २२५ ॥

(२२५) आचार्य ब्रह्ममूर्ति [परमात्मा की मूर्ति] माता पृथ्वी की मूर्ति पिता ब्रह्मा की मूर्ति और सगा बड़ा भाई गुरु की मूर्ति है ।

आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते ।

माता पृथिव्या मूर्तिस्तु आता स्वोमूर्तिरात्मनः ॥ २२६ ॥

(२२६) आचार्य पिता और सगा बड़ा भाई इन तीनों का अपमान हुआ किन्तु होने पर भी न करे । इस कार्य की पूर्ति ब्राह्मण को विशेष प्रावश्यक है ।

यन्मातापितरौ क्लेशं सहतं समवेत्सुखाम् ।

न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुर्बर्षशतैरपि ॥ २२७ ॥

(२२७) मनुष्य के उपश्र होमे में जो क्लेश माता पिता सहन करते हैं उसका प्रतिफल [बदसा] सौ वर्ष के उपकार करने से भी नहीं हो सकता । यह सब तेजता स्वरूप हैं इनका अपमान कभी न करना चाहिये ।

तयोर्नित्यं त्रिषु कुर्वादाचार्यस्य च सर्वदा ।

तेष्वथ त्रिषु तुष्टपु तपः सर्वं समाप्यते ॥ २२८ ॥

(२२८) माता पिता और आचार्य इन तीनों की सेवा पुत्र या सर्वत्र करनी चाहिये । इनके प्रसन्न रहने से सब तप सम्पूर्ण होते हैं ।

तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते ।

न तैभ्यननुज्ञातो धर्मं मन्यं समाचरेत् ॥२२६॥

(२२६) इन तीनों की सेवा परम तप है । इनकी आज्ञा के बिना कोई अन्य धर्म न करना चाहिये ।

त एव हि त्रयो लोकास्तएव त्रय आश्रमाः ।

त एव हि त्रयो वेदास्तएवोक्तास्त्रयोऽग्नयः ॥२३०॥

(२३०) ❀ यही तीनों पुरुष तीनों लोक, तीनों आश्रम, तीनों वेद और तीनों अग्नि हैं ।

पिता वै गार्हपत्योऽग्निर्माताग्निर्दक्षिणः स्मृतः ।

गुरुराहवनी यस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥ २३१ ॥

(२३१) गार्हस्थ्य अग्नि पिता है, दक्षिण अग्नि माता है, आहवनीय अग्नि गुरु है, वही तीनों अग्नि सर्वमान्य [बहुत बड़ी] हैं ।

त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेषु त्रींल्लोकान्विजयेद्गृही ।

दीप्यमानः स्ववपुषादेवत्रदिवि मोदता ॥ २३२ ॥

(२३२) इन तीनों शुश्रूषा में रत रहने से मनुष्य तीनों लोको को जीत कर और तेजवान होकर देवताओं की नाई स्वर्ग में आनन्द करता है ।

इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम् ।

गुरुशुश्रूषयात्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥ २३३ ॥

(२३३) माता की भक्ति करने से भूलोक, पिता की

भक्ति करने से प्रसन्न होकर साक और गुरु की भक्ति करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ।

सर्वे तस्याहता घर्मा यस्यैतं तत्र आहता ।

अनाहतास्तु यस्यैतं मवास्त्वस्याफला क्रिया ॥२३४॥

(२३४) जिस मनुष्य ने इन तीनों का आदर किया उसने मानो सब धर्मों का आदर कर लिया और जिसने इनका अनादर किया उसकी सब क्रिया निष्फल है ।

यावत्प्रयस्तं भीवेयुस्तावमान्य समान्वरत ।

तप्त्वेन नित्य शुभ पा कुर्यात्प्रयच्छिते रत ॥२३५॥

(२३५) जब तक वह तीनों जीवित रहे तब तक स्वतंत्र होकर कोई दूसरा धर्म न करे । उन्हीं की सेवा भलाई करे और उनका ही अनुगामी रहे ।

तेषामनुपगोघन पारश्व्य यद्यश्नरत ।

तच्चक्षिष्येत्यसम्या मनोवचन धर्मभि ॥ २३६ ॥

(२३६) उनकी सेवा करता हुआ दूसरा धर्म भी करे [मम धारणो कर्म द्वारा] उनसे कह देवे ।

त्रिष्वेतेष्विति कृत्य हि पुरुषस्य समाप्यते ।

एक धर्म एव साक्षात्पधर्मोऽन्य उच्यते ॥ २३७ ॥

(३७) उन्हीं तीनों में मनुष्य के कर्म की जो बात है वह ही जाती है । यत उसकी सेवा के प्रतिष्ठित और मम जो है वह उपधर्म है ।

अशुचि न शुभा विद्यात्तीताशरत्नपि ।

अन्त्यात्पि परममस्त्रीरत्न दुष्कृतादपि ॥ २३८ ॥

(३८) उत्तम विद्या बड़ा सहित नीच वध से भी राब

परम धर्म चाण्डाल से भी लेवे, और सुन्दर स्त्री को दुष्ट कुल से भी ले लेना चाहिये ।

विपादप्यमृतं ग्राह्यं वालादपि सुभाषितम् ।

अमित्रादपि सद्बृत्तममेध्यादपि कांचनम् ॥२३६॥

(२३६) विप, बालक, शत्रु, इन तीनों से क्रमानुसार अमृत, सुभाषण [प्रिय बोलना], सद्बृत्त (उत्त रीति) और काचन की लेना चाहिये ।

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम् ।

विविधानि च शिष्यानि समादेयानि सर्वतः ॥२४०॥

(२४०) स्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, शौच (पवित्रता व उज्ज्वलता) सुभाषण, विविध शिष्य, इन सब को जहा से मिले लेना चाहिये ।

अब्राह्मणादध्ययनमाप्तकाले विधीयते ।

अनुब्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः ॥२४१॥

(२४१) यदि विपत्ति आ पडे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि से पढे और जब तक पढे तब तक उस गुरु का अनुगामी रहे और सेवा करे ।

नाब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत् ।

ब्राह्मणे चाननूचाने काङ्क्षन्गतिमनुत्तमाम् ॥२४२॥

(२४२) उत्तम गति के इच्छुक क्षत्रिय आदि गुरु और मूर्ख ब्राह्मण के समीप अधिक वास न करे ।

यदि त्वात्यन्तिकं त्रासं रोचयेत गुरोः कुले ।

युक्तः परिचरेदेनमाशरीरतिमोक्षणात् ॥ २४३ ॥

(२४३) यदि गुरु के समीप अधिक वास करने का इच्छुक हो तो कतुरता से जीवन पयन्त सेवा करता हुआ वास करे परन्तु ब्राह्मण गुरु के समीप ।

आसमाप्ते शरीरस्य यन्तु शुभपतु गुरुम् ।

स गच्छत्यञ्जमा विप्रो ब्रह्मण्य सद्य शाश्वतम् ॥२४४॥

(२४४) जो ब्रह्मचारी शरीर का त्याग करने पर्यन्त गुरु की सेवा करता है वह विना परिश्रम अविनाशी ब्रह्मसोक को प्राप्त करता है ।

न पूर्वं गुरवे किञ्चिदुपकुर्वीत धर्मवित् ।

स्नास्यस्तु गुरुस्याप्तु शक्या गुर्घर्यमाहरेत् ॥२४५॥

(२४५) धर्मज्ञाता ब्रह्मचारी विद्याध्ययन पर्यन्त गुरु सेवा के प्रतिरिक्त दूसरा उपकार गुरु का न करे, विद्याध्ययन समाप्त करने के पश्चात् * समावर्तन के निमित्त स्नान कर गुरु प्राज्ञा ग्रहण कर यथा-शक्ति दक्षिणा (गुरु-दक्षिणा) दे ।

एत्र हिरण्य गामरथ छत्रोपानहमासनम् ।

धान्य शार्क च वामांसि गुरवे प्रीतिमावहेत् ॥२४६॥

(२४६) धर्मज्ञि पृष्ठी सोमा गच्छ भस्त्र छत्ररी वृत्ता आसन भस्त्र शार्क वस्त्र आंसि प्रीति पूर्वक गुरु को देवे ।

आचार्ये तु म्वलु प्रते गुरुपुत्रे गुणान्विते ।

गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद्भ्रातृमाचरेत् ॥ २४७ ॥

(२४७) गुरु की मृत्यु के पश्चात् यदि गुरु-पुत्र विद्वान् वा गणवान् हो और गुरु-पत्नी व उसके दूसरे कुल के मन्थ विद्वानो को भी गुरु तुल्य जानता रहे ।

* समावर्तन धर्मज्ञि पितृकुल में आने के हतु विवाहादि ।

एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहारवान् ।

प्रयुज्जानोऽग्निशुश्रूपां माधयेद्देहमात्मनः ॥ २४८ ॥

(२४८) जो ब्रह्मचारी हवनेष्टिक है वह गुरु व गुरु-पुत्रादि की अविद्यमानता में (न होने पर) उनके घर और आसन में रह कर अग्नि-सेवा करता हुआ अपने को ब्रह्म में लीन हो जाने योग्य बनावे ।

एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यमविप्लुतः ।

स गच्छत्युत्तमंस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥२४९॥

(२४९) इस प्रकार जो ब्रह्मचारी अखण्ड ब्रह्मचर्य को करता है, वह उत्तम स्थान को लाभ करता है और ससार के आवागमन से मुक्त हो जाता है ।

मनुजी के धर्मशास्त्र भृगुजी का दूसरा अध्याय

समाप्त हुआ ।

❀ अथ तृतीयोऽध्यायः ❀

षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यगुरौत्रैवेदिकं व्रतम् ।

तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १ ॥

(१) छत्तीस व अठारह वा नौ वर्ष पर्यन्त तीनों वेदों के अध्ययनार्थ व्रत (इच्छा) से कार्य करना चाहिये । यहाँ पर तीनों वेदों के अर्थ कर्म, उपासना, ज्ञान भी बहुत से विद्वान् लेते हैं ।

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अविप्लुनब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाचिरोत् ॥ २ ॥

(२) सीनों विद्या हो वेद विद्या एक वेद क्रम से पढ़ कर प्रसन्न होती मनुष्य गृहस्थाश्रम में आये क्योंकि विना वेदाध्ययन किये और ब्रह्मचर्याश्रम के गृहस्थाश्रम नहीं कहला सकता ।

तं प्रतीत स्वधर्मेषु ब्रह्मदायह्यं पितुः ।

सन्निवृत्त्या सस्य आसीनमर्हयत्प्रथमं गवा ॥ ३ ॥

(३) धर्म-कार्यों में प्रसिद्ध ब्रह्मचारी जिसने गुरु द्वारा वेदाध्ययन किया हो जब घर में आये तो पिता को प्रथम घास (गद्दी) पर बैठाकर पानी से पूजा करे । क्योंकि ब्रह्मचारी के पास पिता को देने योग्य कोई धन नहीं है ।

गुरुञ्चानुगतं स्नात्वा समावृत्ता यथाविधि ।

उद्धृत द्वित्रो भार्या सवर्णा सख्यशान्विताम् ॥ ४ ॥

(४) गुरु आज्ञा यथा विधि (स्नानादि करके) समावृत्त सम्कार करे और उद्धृत पश्चात् अपने वर्ण के समान लक्षणों युक्त कन्या से विवाह करे ।

अर्सापिब्रुवा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ५ ॥

(५) जो कन्या माता के सपिण्ड में न हो और पिता के गोत्र में न हो ऐसी कन्या तीनों वर्णों को भार्या बनाने के हेतु मन्नी है ।

महान्तपि समृद्धानि गोत्राभिघनयान्यत ।

स्त्रीसंबन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्षयेत् ॥ ६ ॥

(६) यद्यपि गऊ, बकरी धन-धान्यादि को बहुलता (अधिकता) हो तथापि जो दस कुल जिन्हे प्रागे कहेंगे वजित किये हैं उनमें स्त्री सम्बन्ध (विवाह) कदापि न करे ।

हानक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशासंशम् ।

क्षय्यामायाव्यपस्मारिश्वत्रिकुष्ठिकुलानि च ॥ ७ ॥

(७) जिस कुल में वेदोक्त सम्कार तथा नित्यकर्म न होते हों, जिस कुल में केवल स्त्रिया ही स्त्रियाँ हों पुरुष न हों जिस कुल में पुरुषों के शरीर पर अधिक लोभ हो, जिस कुल में वेदपाठ न होता हो, जिस कुल में क्षयी, अपस्मार, कुष्ठ, मृगी, अग्निमाद्य आदि शारीरिक दूषित रोग हों, यदि ऐसे कुल धनी भी हों तो उनमें विवाह न करे ।

नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गी न रोगिणीम् ।

नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम् ॥ ८ ॥

(८) कपिल रङ्ग, अधिक अङ्ग वाली, रोगिणी, लोम-रहिता, अधिक लोभ वाली, अधिक बोलने वाली, पिंगला रङ्गकी ।

नक्षत्रक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् ।

न पक्ष्यहिष्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम् ॥ ९ ॥

(९) नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पक्षी, साप, म्लेच्छ, पर्वत, दास के नामों पर जिसका नाम हो वा भीषण नाम वाली हो, ऐसी कन्या को न वरे ।

अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् ।

तनुलोमकेशदशनां मृद्वङ्गीमुद्वहेत्स्त्रियम् ॥ १० ॥

(१०) सर्वाङ्ग वाली, सुन्दर नाम वाली, हंसगामिनी तथा हाथी के समान चाल वाली हो और तनु के लोम, केश और दात छोटे हों, ऐसी स्त्री का पाणिग्रहण करे ।

यस्यास्तु न भवेद्भ्राता न विज्ञायेत वा पिता ।

नोपयच्छेत् तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ॥ ११ ॥

(११) जिस कन्या के भ्राता न हो जिसने पिता का नाम भ्रजात हो ऐसी कन्या को न बरे क्याकि पुत्रिका धर्म की रक्षा रहेगी । पिता की विवाह समय यह अभिमाया रहे कि कन्या का पुत्र मेरा होगा उसको पुत्रिका करण कहते हैं यत यह वासक (पुत्र) माना का पुत्र होगा ।

सवर्णाग्ने द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि ।

कामतस्तु प्रवृत्तानामिमा स्युः प्रमशोवरा ॥१२॥

(१२) तीनो वर्णों को स्वजाति की कन्या ही से विवाह करना सर्वोत्तम है और यदि कामवध भय जाति की कन्या को बरे तो निम्नांकित रीति से पाणिग्रहण करना उत्तम होगा ।

शूद्रैश्च भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च शिव स्मृतं ।

से च स्या चैव राष्ट्रस्य तारस्य स्वा च्चाग्रजन्मन ॥१३॥

(१३) शूद्र केवम स्वजाति की कन्या का वक्ष्य स्वजाति और शूद्र की कन्या का क्षत्रिय स्वजाति वैश्य और शूद्र की कन्या का ब्राह्मण चारों वर्णों की कन्या का पाणिग्रहण कर ।

न ब्राह्मण क्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतो ।

कस्मिन्त्वदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्योपदिश्यते ॥१४॥

(१४) किसी इतिहास मे यह नही पाया जाता कि विपत्ति समय से भी ब्राह्मण वा क्षत्रिय ने शूद्र की कन्या बरी हो ।

हीनजातिस्त्रिय मोहादुद्बहन्तो द्विजातयः ।

कुलान्येव नयन्त्याशु सप्ततानानि शूद्रताम् ॥१५॥

(१५) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनो वर्णों यदि मोहवध हीन जाति की कन्या से विवाह करे तो सप्तान और स्वकुम को क्षीघ्र भाग्य कर गते हैं ।

शूद्रावेदी पतन्यत्रेरुतःशयतनयस्य च ।

शौनकस्य सुतोत्पत्या तदपत्यतया भृगोः ॥ १६ ॥

(१६) ❀ 'अत्रि श्रीर उतप्य ऋषि का यह मत है कि शूद्र की बन्गा को बग्ने से तीनो वर्ग पतित (वेधर्म) हो जाते हैं, श्रीर शौनक ऋषि का यह मत है कि शूद्र कन्या से उत्पन्न पुत्र पतित होता है । श्रीर भृगु ऋषि का यह मत है कि पौत्र (पोता) होने से पतित होता है ।

शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम् ।

जनेयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७ ॥

(१७) शूद्र कन्या को अपने पलंग पर बिठाने से ब्राह्मण अधोगति पाता है (नरकवास करना है) और उससे पुत्रोत्पत्ति होने से धर्म-कर्म में गहित हो जाता है, अर्थात् धर्म-कर्म का अधिकार नहीं रहता है ।

देवपित्र्यातिथे यानि यत्प्रधानानि यस्य तु ।

नाशयन्ति पितृदेवास्तन्नय च स्वर्गं स गच्छति । १८ ॥

(१८) जिस ब्राह्मण के गृह पर शूद्र-कन्या देवकर्म और पितृकर्म करती है, उसके दिये हुए हव्य और कव्य को देवता और पितर नहीं लेते और ब्राह्मण स्वर्ग नहीं पाता है ।

वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च ।

तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ १९ ॥

(१९) जो ब्राह्मण शूद्र-कन्या के ओठ से ओठ स्पर्श करे वा मुँह से मुँह अथवा उसके निश्वास (वायु) को अपने शरीर

❀ अत्रि आदि ऋषि मनु के लाखो वर्ष पीछे हुए हैं, अतः इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि यह स्मृति धर्मशास्त्र के पीछे भृगुजी ने रची है ।

से स्पष्ट होन दे वा उससे सन्तानोत्पत्ति करे उसका प्रायश्चित्त नहीं है क्योंकि यह सब कार्य सस्वग से होते हैं ।

चतुर्वर्णमपि वर्णानां प्रेत्य च ह विवाऽदितान् ।

अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहाभिधोषत ॥ २० ॥

(२) इहसोक धीर परसोक मे चारो वर्णों का हिताहित करने वाले पाठ प्रकार के विवाह है इसको हमसे सुमिमे । यह बात भृगुजी कहते हैं ।

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्थं प्राजापत्यस्तथासुरः ।

गाधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ २१ ॥

(२१) १—ब्राह्म २—दैव ३—भार्थ ४—प्राजापत्य, ५—आसुर ६—गाधर्व ७—राक्षस ८—पैशाच । इनमें से आठवाँ विवाह अधम है ।

यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ ।

तद्गुणं सर्वं प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान् ॥ २२ ॥

(२२) जो विवाह जिस वर्ण का धर्म है, जिस विवाह का जो गुणदोष है, जिस विवाह से पुत्रोत्पत्ति होती है, जो गुणागुण है, सो सब धाप लागे से कहेंगे ।

पदानुपूर्व्यां विप्रस्य चतुरोऽधरान् ।

विद्वद्भ्योस्तु तानथ विद्याद्वर्मानराचसान् ॥ २३ ॥

(२३) पूर्व के छ विवाह ब्राह्मण को चार विवाह क्षत्रिय को धीर वैश्य सूत्रो को भी चारो है पर राक्षस विवाह किसी को नहीं ।

चतुरो ब्राह्मणस्याथ नृशस्ताऋषयो विद्वः ।

राक्षसं चत्रियस्यैकमासुर वैश्यशूद्रयोः ॥ २४ ॥

(२४) 'पूर्व के चार विवाह ब्राह्मण को, राक्षस विवाह क्षत्रिय को और आसुर विवाह वैश्यो व शूद्रो के लिए किसी-किसी ने निर्धारित किया है ।'

पञ्चानां तु त्रयो धर्म्या द्वावधर्म्यौ स्मृताविह ।

पैशाचश्चासुरश्चैव न कर्तव्या कदाचन ॥ २५ ॥

(२५) 'अन्त के पाच विवाहो मे से तीन धर्म विवाह और दो अधर्म विवाह हैं, अत आसुर और पैशाच विवाह कदापि न करना चाहिये ।'

पृथक्पृथग्वा मिश्रौ वा विवाहौ पूर्वचोदितौ ।

गान्धर्वो राक्षमश्चैवधर्म्यौ क्षत्रस्य तौ स्मृतौ ॥२६॥

(२६) गान्धर्व और राक्षस विवाह दोनो पृथक् २ हो वा एकत्र हो केवल क्षत्रिय के योग्य कहे हैं ।

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम् ।

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मःप्रकीर्तितः ॥ २७ ॥

(२७) [अब आठो लक्षण कहते हैं] वर और कन्या को वस्त्रालङ्कार देकर वर को बुला कर कन्यादान देवे, वह ब्रह्म विवाह कहलाता है ।

यज्ञे तु दितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते ।

अलङ्कृत्य सुतादानं दैवं धर्मं प्रचक्षते ॥ २८ ॥

(२८) यज्ञ मे ऋत्विजो को अलङ्कार सहित कन्यादान देवे, वह दैव विवाह कहलाता है ।

एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः ।

कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मःस उच्यते ॥ २९ ॥

(२६) एक व दो मऊ भयवा दील वर से लेकर कया प्रदान करे वह धार्पे विवाह कहलाता है ।

सहनौ चरतां धर्ममिति वाचानुमाप्य च ।

कन्याप्रदानमम्मर्च्यं प्राश्नापत्यो विधिः स्मृत ॥३०॥

(३०) वर और कया दोनो धर्म को करे यह बात बर्द कर वर-कन्या की पूजा करके कन्या देवे यह प्राश्नापत्य विवाह कहलाता है ।

ज्ञातिभ्यो ब्रुविसां दत्त्वा कन्यार्यै चैव शक्तिम् ।

कन्याप्रदानं प्राश्नन्वादासुरो धर्म उच्यते ॥ ३१ ॥

(३१) कया भयवा कया की ज्ञाति वामों को धन देकर कया सेना प्रासुर विवाह कहलाता है ।

इच्छन्वान्योन्यसयोगं कन्यायाश्च वरस्य च ।

गान्धर्वं स तु विज्ञेयो मैथुन्यकामसमभम् ॥३२॥

(३२) वर और कन्या परस्पर स्नेहवापुवक जो सयोग करे वह गान्धर्व विवाह कहलाता है । यह विवाह भोगके धर्म है ।

हत्वा क्षिप्त्वा च मित्वा च क्रोशन्ती रुदती गृहात् ।

प्रसभ्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३३ ॥

(३३) गोती पुकारती हुई कन्या को मार-वीर्य बसावृ गृह से हरण करना राक्षस विवह कहलाता है ।

सुतां मर्त्यां प्रमर्त्यां वा रद्धानो यत्रोपगच्छति ।

स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचरथाष्टमाऽधमः ॥३४॥

(३४) सोती स्त्री धन वा भोग मद से प्रमत्त (मस्त), रोगिणी व अज्ञान हो ऐसी स्त्री से एकान्त में सहवास करना

पिशाच विवाह कहलाता है । यह आठवा विवाह और सब से श्रधम है ।

अद्भिरेव द्विजाग्राणां कन्यादानं विशिष्यते ।

इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥ ३५ ॥

(३५) ब्राह्मण को जल से कन्यादान करना उत्तम है और क्षत्रिय आदि का बिना जल के पारस्परिक ॐ इच्छामात्र से केवल वाणी द्वारा कहने से विवाह हो सकता है ।

यो यस्यैषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः ।

सर्वं शृणुत तं विप्राः सर्वं कीर्तयतो मम ॥ ३६ ॥

(३६) जिस विवाह का जो गुण मनुजी ने कहा है, हे ब्राह्मणो ! वह हम भली प्रकार कहते हैं आप सब सुनें ।' (यह श्लोक स्पष्ट रूप से जतलाता है कि यह स्मृति मनुस्मृति नहीं) ।

दश पूर्वान्परान्वंश्यानात्मानं चैकविंशकम् ।

ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकृन्मोचयेदेनसः पितृन् ॥ ३७ ॥

(३७) यदि ब्राह्म विवाह से पुत्रोत्पत्ति हो और शुभ कर्मों को करे तो दस पुस्त ऊपर के और दस पुस्त नीचे के और इक्कीसवा अपने आप को आप से छुडाता है ।

दैवोद्वजः सुतश्चैव सप्त सप्त परावरान् ।

आर्षोद्वजः सुतस्त्रींस्त्रीन्पट्पट् कायोद्वजः सुतः ॥३८॥

(३८) देव विवाह से पुत्र उत्पन्न होकर यदि शभ

ॐ इस विवाह के विषय मे बड़ी गडबडी है । क्योकि बिना वेदोक्त सस्कार के विवाह मान्य नहीं है । यदि इसे मान लें तो सस्कार पन्द्रह ही रह जाते हैं ।

कर्मों वासा हो तो सात पुस्त (पीढी) ऊपर और सात पीढी नीचे की और पन्द्रहवा घपने प्रापका पापों से विमुक्त करता है और घापे विवाह से उत्पन्न पुत्र तीन पीढी ऊपर और तीन पीढी नीचे की और प्राजापत्य विवाह से उत्पन्न पुत्र छ छ पीढी ऊपर और नीचे की पापों से मुक्त करता है यदि शुभ कर्म हो ।

ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्विंशानुपूर्वशा ।

ब्रह्मवर्षस्विन* पुत्रा जायन्ते शिष्टमम्मता ॥ ३६ ॥

(३६) ब्राह्म विवाहादि पूर्व के चारों विवाहों से उत्पन्न पुत्र बड़ा तेजस्वी और शिष्ट (उत्तम पुरुष) मनुष्यों के समान होता है ।

रूपमस्वगुणोपेता घनवन्ता यशस्विन* ।

पर्याप्तभोगा घर्मिष्ठा जीवन्ति च शत समा ॥३७॥

(४) रूप और उत्तम गुण यज्ञ भाग्य धन और धर्म वासा होता है और सौ वर्ष पर्यन्त जीवित रह सकता है ।

इतरषु तु शिष्टेषु नृशमानृतवादिन ।

जायन्त दुर्विवाहेषु ब्रह्मवर्षादिपः सुताः ॥ ३८ ॥

(४१) और अन्य चारों विवाहों से उत्पन्न पुत्र चातक होता है मिथ्याभाषी और ब्रह्म धर्म का शत्रु होता है ।

घनिन्दितै स्त्रीविवाहैरनिन्या मधति प्रजा ।

निन्तिसैनिन्दिता नृशां तस्माश्चिन्त्यान्विबर्षयेत् ॥३९॥

(४२) [१] घनिन्दित विवाह से घनिन्दित सन्तान उत्पन्न होती है और [२] निन्दित विवाह से निन्दित सन्तान होती है । इस हेतु निन्दित विवाह सदैव वर्जित है ।

पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णाश्वपदिश्यते ।

असवर्णाश्वयज्ञेयो विधिरुद्धाहकर्मणि ॥ ४३ ॥

(४३) 'स्वजाति की कन्या से पाणिग्रहण संस्कार जानना और दूसरी जाति की कन्या से विवाह करने की जो विधि है उसे आगे कहेंगे ।

शरः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया ।

वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोत्कृष्टवेदने ॥ ४४ ॥

(४४) 'क्षत्रिय की कन्या तीर को ग्रहण करे, वैश्य की कन्या चौपाया (घोडा, बैल आदि) के हाकने के अस्त्र को और शूद्र की कन्या कपडे के कौने को ग्रहण करे (पकडे) जब उसका विवाह उच्च जाति के पुरुष से होता हो ।'

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा ।

पर्ववर्जं ब्रजेच्चैनां यद्व्रतो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥

(४५) । ३ । ऋतुकाल मे स्त्री से भोग करे किन्तु पर-स्त्री से भोग न करे । परन्तु अपनी स्त्री (४) पर्व के दिन ऋतुकाल मे भोग न करे । यदि स्त्री की इच्छा हो तो बिना ऋतुकाल के भी रति करे, यह नियम है । ऋतुकाल मे स्त्री के समीप सोवे और यदि सामर्थ्य हो तो भोग अवश्य करे, अन्यथा बड़ा दोष है ।

ऋतुःस्वामाविकः स्त्रीणां रात्रयः शोडशः स्मृताः ।

चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सद्विगर्हितैः ॥ ४६ ॥

स्नान के पश्चात् । ४—अकृप्या पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णमासी, सक्रान्ति ।

(४६) ऋतुकाल धर्षान् गमधारण करन का स्त्रियों की स्वाभाविक सोलह रात्रि है इनमे से प्रथम चार दूषित व वज्रित हैं शेष बारह रात्रि रहीं ।

तामामाधारघ्नसन्तु निन्दितैकादशो च या ।

त्रयोन्शी च शेषास्तु प्रशस्ता दशगात्रय ॥ ४७ ॥

(४७) इनमें प्रथम की चार ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि दूषित निन्दित है शेष उत्तम है ।

युग्मासु पुत्रा वायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु ।

तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी भक्तिगोदात्तैश्च स्त्रियम् ॥४८॥

(४८) सम्भवत + सम रात्रि में भोग करने से पुत्र और × विषम रात्रि में भोग करने से कन्या उत्पन्न होती है । इस हेतु पुत्रार्थी (पुत्रोत्पत्ति की इच्छा रखने वाले) सम रात्रि में भोग करें ।

पुमान्पु माऽधिक शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः ।

ममऽपुमान्पु स्त्रियौ वा स्त्रीशोऽस्ये च विपर्ययः ॥४९॥

(४९) पुरुष का शुक्र (बीज) अधिक (बसवान) होने से विषम रात्रि में भी पुत्र उत्पन्न होता है और स्त्री का रज अधिक होने से सम रात्रि में भी कन्या उत्पन्न होती है । यदि स्त्री पुरुष दोनों का शुक्र तथा रज समान हो तो नपुंसक कन्या व पुत्र उत्पन्न होता है । यदि दोनों का शुक्र तथा रज भूत हो तो गर्भ नहीं ठहरता ।

+ सम धर्षान् जो दो से विभाजित हो सके यथा छठवीं घाठवीं इत्यादि ।

× विषम जो दो से विभाजित न हो सके य । पाँचवीं सातवीं इत्यादि ।

निन्द्यास्वष्टामु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ।

ब्रह्मचार्ये व भवति यत्रतत्राश्रमे वसन् ॥ ५० ॥

(५०) वर्जित आठ रात्रियो मे भोग करना परित्यक्तकर देने से प्रत्येक आश्रम मे भी ब्रह्मचारी ही रहता है ।

न कन्यायाः पिता विद्वाग्गृह्णीयाच्छुल्कमणवपि ।

गृह्ण शुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ ५१ ॥

(५१) कन्या का पिता तनिक भी शुल्क (बदला, मुआवजा) न लेवे, लोभ से कुछ भी शुल्क ग्रहण करने वाला कन्या का विक्रय करने वाला कहलाता है ।

स्त्री धनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति वान्धवाः ।

नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम् ॥ ५२ ॥

(५२) पत्नी (स्त्री) के धन, वस्त्र अथवा सवारी को लेकर जो वान्धव अपना कालयापन करते हैं वह बडे पापी होते हैं और नरकवास करते हैं ।

आर्णे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुर्मृषैव तत् ।

अल्पोऽप्येवं महान्नापि विक्रयस्तावैदेव सः ॥ ५३ ॥

(५३) किसी ऋषि ने आर्ष विवाह मे दो गऊ लेना नियत वा योग्य ठहराया है, परन्तु थोडा वा बहुत लेना कन्या विक्रय (बेचना) ही कहलाता है ।

यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः ।

अर्हणं तत्कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम् ॥ ५४ ॥

(५४) जिस कन्या का शुल्क (पलटा) जाति वाले नहीं लेते वह कन्या-विक्रय नहीं कहलाता । शुल्क न लेना कन्या-पूजन है और अनृशस्य है ।

पिष्टमिर्जाद्विमिश्रचेता पतिमिर्देवरैस्त्वया ।

पूज्या भूपयितव्याश्च बहुकन्यासामीभुमि ॥५५॥

(५५) बहुत कल्याण के इच्छुक पिता भाई पति भीरु देवर भूषण (गहने) और वस्त्रों से स्त्री की पूजा करे अर्थात् स्त्री को सन्तुष्ट करे ।

यत्र नार्यस्तु पून्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

यत्रैतास्तु न पून्यन्ते सर्वास्तत्राऽफला क्रिया ॥५६॥

(५६) जिस कुल में स्त्रियों की पूजा होती है उस कुल में देवता रमते (बिहार करते) हैं । और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ सब क्रियाएँ निष्फल होती हैं ।

शोचन्ति साम्यो यत्र विनश्यत्याशु सत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते सद्भिर्सर्वदा ॥ ५७ ॥

(५७) जिस कुल में स्त्रियों को कष्ट होता है वह कुल शीघ्र ही नाश हो जाता है । और जहाँ नारियों को सुख होता है वह कुल सर्वत्र फलता-फूलता है ।

जामयोयानि गहानि शपन्त्यप्रतिपूजिता ।

तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति ममन्तव ॥५८॥

(५८) मातृव्यकीय सुख और माम न वाकर जिस कुल की स्त्रियाँ माप दे देती हैं वह कुल शीघ्र ही नाश हो जाता है अर्थात् वह निर्वस है ।

तस्मात्ता सदा पूज्या भूपत्याश्चादनाशनै ।

भृत्किममैर्नरैर्नित्य मत्कारप्लवेषु च ॥ ५९ ॥

(५९) इस हेतु धर्मेश्वर मनुष्यों को बाहिये कि वह

अपनी स्त्रियो को आवश्यकता से सन्तुष्ट रखवे जिससे वे उत्तम सन्तान सुप्रसव करें ।

संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वैध्रुवम् ॥६०॥

(६०) जिस कुल मे पति पत्नी परस्पर प्रसन्न रहते हैं वहाँ कलह के न होने से सुख मिलता है ।

यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ॥ ६१ ॥

(६१) यदि पति पत्नी परस्पर प्रीति न करें तो किसी प्रकार सन्तान उत्पन्न नही हो सकती और विवाह का प्रयोजन ही निरर्थक हो जायेगा ।

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ६२ ॥

(६२) स्त्री के प्रसन्न रहने से सब कुल प्रसन्न रहता है और स्त्री के अप्रसन्न रहने से सब कुल अप्रसन्न रहता है ।

कुविवाहैः क्रियालोपैर्वेदानध्ययनेन च ।

कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥६३॥

(६३) वर्जित विवाह, धर्म कार्य न करने, वेदाध्ययन न करने, ब्राह्मण अपमान, इन निन्दित बातों के करने से कुल नाश हो जाता है ।

शिल्पेन व्यवहारेण शूद्रापत्यैश्च केवलैः ।

गोभिरश्चैव यानैश्च कृष्या राजोपसेवया ॥ ६४ ॥

(६४) शिल्प वेद, व्यवहार, शूद्र कन्या से विवाह कर

सन्तान उत्पन्न करने गऊ आदि जीवों का द्रव्य विक्रय (मोम सेना और बेचना) करने से ब्राह्मण सकुस माया हो जाता है ।

अयाज्ययाजनैश्चैव नास्तिक्येन च कर्मखा ।

कुस्तान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रत ॥६५॥

(६५) जो यज्ञ कराने के योग्य नहीं उसे सौभद्रग यज्ञ कराना बिना वेद-मन्त्रों में + केवल दुर्गा आदि के स्तोत्रों से कर्म कराना इनसे भी कुस माया हो जाता है ।

मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुस्तान्यम्भवनान्यपि ।

कुलसर्प्या च गच्छन्ति कर्णन्ति च महद्यश ॥६६॥

(६६) जो कुस धनवान न हो किन्तु मन्त्र से सब कर्म होते ही वह कुस बड़ा कहलाता है और भय पाता है ।

वैवाहिकऽग्नीं कुर्वीत गृह्य कर्म यथाविधि ।

पञ्चयज्ञविधानं च पक्तिं चान्वाहिकीं गृही ॥६७॥

(६७) गृह्यसूत्र बलिगत कर्म पंचयज्ञ और मित्य भोजन पाक इन सबको विवाह समय की अग्नि में यथाविधि करना चाहिये ।

पञ्च सनां गृहस्यश्यं शुक्लीं पेपश्युरम्भ्रं ।

कसुडनीं चाटकुम्भरश्च बभ्र्यत यास्तु वाहयन् ॥६८॥

(६८) गृहस्थ के घर में चूहा सिस बड़ा ऋजू आदमी मूसल हानी का बड़ा इनसे काम सेने में जीव मरते हैं किन्तु जीव-हरण की इच्छा न होने से यह हिंसा नहीं कह साती । परन्तु बीबो को हानि घबन्ध पहुँचती है इस हेतु उसका प्रायश्चित्त ही बस्यक है ।

+ यह केवल ब्राह्मणों के लिये है और बगों के लिये नहीं ।

तासां क्रमेण सर्वाणां निष्कृत्यर्थं महापिभिः ।

पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहसेधिनाम् ॥६९॥

(६९) इन कर्मों के प्रायश्चित्त के निमित्त नित्य पचयज्ञ करना चाहिये जिससे जितनी हानि ससार को पहुँची है उतना ही लाभ पहुँच जावे ।

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।

होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥७०॥

(७०) पञ्च महायज्ञ है कि १-वेद का स्वाध्याय करना और सध्या करना, २-पितृतर्पण २-हवन करना ४-बलि देना, ५-अतिथि पूजन, इन सबको क्रमानुसार ब्रह्मयज्ञ, जप। तृयज्ञ, भूतयज्ञ, और मनुष्य-यज्ञ (नरमेव) कहते हैं ।

पञ्चैतान्यो महायज्ञान्नहापयति शक्तितः ।

स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषैर्न लिप्यते ॥७१॥

(७१) जो कोई सामर्थ्यानुसार इन पाचो महायज्ञो को करता है वह नित्य ही हिंसा (जीवहत्या) के पाप से मुक्त होता रहता है ।

देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः ।

न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्रवसन्न स जीवति ॥७२॥

(७२) जो मनुष्य देवता, अतिथि, भृत्य और पितरो (वृद्धो) को भोजन नहीं देता वह जीवित दशा में भी मरे के तुल्य है ।

अहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च ।

ब्राह्मं हुतं प्राशितं च पञ्चयज्ञान्प्रचक्षते ॥७३॥

(७३) १—घ्राहृत २—हुत ३—बहुत ४—ग्राहृत
५—प्राशित यह पांच यज्ञ हैं ।

अपोऽहुतो हुतो होमः प्रहुतो मौक्तिको षष्ठिः ।

ब्राह्म हृतद्विजाप्राथर्षा प्राशित पितृतपसम् ॥७४॥

(७४) इन पाँचों को क्रम से १—जप २—यज्ञ (हवन)
३—भूतबलि ४—प्राथर्वि-यूजा और ५—पितृतपण कहते हैं ।

स्वाध्याय नित्ययुक्त स्याद्देवे चैवेह कर्मणि ।

दैव कर्मणि युक्तो हि विमर्तीद् धराधरम् ॥७५॥

(७५) अन्वयाय किये बिना धर का स्वाध्यायी और
अग्निहोत्री ब्राह्मण सारे ससार को अपम उपरम और सदाचार
से बच में कर सकता है जैसेकि सकराचार्य और स्वामी दयानन्द
के उदाहरण से प्रकट है ।

अग्नौ प्रास्ताहूतिः सम्पगादित्यमुपतिष्ठत ।

आदिरयाजायते ष्टिष्टृष्ट रश्म तत प्रधा ॥७६॥

(७६) अग्नि में जो आहुति पड़ती है वह सूर्य के समोप
जाती है और सूर्य द्वारा जल बरसता है उस से अनाज होता है
अनाज में प्रजा उत्पन्न होती है ।

यथा वायु समाधित्य वर्तन्त सर्वजन्तव ।

यथा गृहस्यमाधित्य वर्तन्त सर्व आश्रम ॥७७॥

(७७) जिस प्रकार वायु के आधय से सब जीव जीने
हैं उसी प्रकार गृहस्य आश्रम के आधय से सब अधय जाते
रहत हैं ।

यस्मारप्रयाऽप्याश्रमिणा ज्ञानेनान्नन शान्त्वहम् ।

गृहस्य नैव धार्यते तस्माज्ज्यष्टाश्रमो गृही ॥७८॥

(७८) वेद के स्वाध्याय और अन्नदान देने से तीनो आश्रमो को गृहस्थाश्रमी नित्य धारण करता है । इस हेतु गृहस्थाश्रम ही बडा है ।

स संघार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ।

सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलन्द्रियैः ॥७९॥

(७९) आगामी जन्म मे अमिट सुख और यहा पर आनन्दित रहने का इच्छुक सदैव गृहस्थाश्रम को धारण करता है, जिस ग्रहस्थ आश्रम को दुर्बलेन्द्रिय धारण नही कर सकते ।

ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा ।

आशासते कृटुं म्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता ॥८०॥

(८०) ऋषि, पितर, देवता, अतिथि यह सब गृहस्थो से भोजन की आश रखते हैं । इस हेतु इन सबको अन्न-जल देना चाहिये । क्योकि वानप्रस्थी और सन्यासी, विद्यादाता, विद्वान इनको जीविका का द्वार गृहस्थ के अतिरिक्त अन्य नही है ।

स्वाध्यायेनार्चयेत्तर्पिन्होमैर्देवान्यथाविधि ।

पितृन्श्राद्धैश्च नानान्नैर्भूतानि बलिकर्मण ॥८१॥

(८१) ऋषियो की पूजा स्वाध्याय (वेद पढने) से, देवता की पूजा अग्निहोत्र करने से, पितरो को पूजा श्रद्धा से उनकी सेवा करने से, मनुष्य की पूजा अन्नदान से, जीवो की पूजा बलिबैश्वदेव कर्म से करनी चाहिये ।

क्षुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा ।

पामूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥८२॥

(८२) अपने बडो (वृद्धो, पितरो) से प्रीति रखे और

भोजन दूध घी फल आदि से नित्य उनका आद्य किया करे ।
क्याकि यह बड़ा यज्ञ है ।

एकमप्याशयद्विप्र पित्रर्षे पाञ्चयज्ञिके ।

न चैवाश्राशपोत्कंचिद् वैश्वदेवं प्रतिद्विजम् ॥८३॥

(८३) पच महायज्ञ मे पितरो के निमित्त जो अग्नि कर्म
कहा है वह यदि न हो सके तो एक या बहुत ब्राह्मणों का भोजन
करावे पर वैश्वदेव निमित्त ब्राह्मण भोजन न करावे ।

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्णेऽग्नौ विधिपूर्वकम् ।

आम्यः क्रुपाद्देवताम्यो ब्राह्मणो होममन्वइम् ॥८४॥

(८४) संस्कार सहित अन्नस्था नाम अग्नि मे जो आमे
देवता कहेंगे उनको नित्य यथाविधि आहुति देवे ।

अग्ने सोमस्य चैवादी तयोश्चैव समस्तयो ।

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो घन्वन्तरय एव च ॥८५॥

(८५) अग्नि सोम—अग्निसोम वैश्वदेव घन्वन्तरि ।

कुड्बै चैवानुमत्यै च प्रजापतय एव च ।

सहसावापृथिव्योरच तथा स्विएकृत्तन्तत ॥८६॥

(८६) कुड्ब अनुमायै प्रजापतये वावापृथिवी स्विएकृते
इन सब के साथ स्वाहा लगाकर आहुति देवे ।

एष सम्यग्घविदुन्वा सधदिषु प्रचिणम् ।

इन्द्रान्तफाप्यतीन्दुम्यः सातुगम्यो वसि इरेत् ॥८७॥

(८७) इसम विधि मे अग्निहोत्र करने प्रवक्षिणा करने
से इन्द्र बरग यम अम्न आदि और उनके सेवकों को अग्निदान
देवे ।

मरुद्भ्य इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वद्भ्य इत्यपि ।

वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोलूखले हरेत् ॥८८॥

(८८) ❀ द्वारदेश मे माहत को, जलस्थान मे जल को, मुसल ओखली के स्थान मे वनस्पति को ।

उच्छ्रीर्षके श्रियै कुर्याद्भद्रकाल्यै च पादतः ।

ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये वलिं हरेत् ॥८९॥

(८९) वास्तु के सर, पाद, मध्य मे कर्म से श्री, भद्र-कालीं, वास्तोष्पति इन सब को देवे ।

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्क्षिणेत् ।

दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तचारिभ्य एव च ॥९०॥

(९०) विश्वदेव निमित्त आकाश मे ओड दे और रात्रि दिन परिभ्रमण करने वाले भूतो को आकाश मे देवे ।

पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत वलिं सर्वात्मभूतये ।

पितृभ्यो बलिशेषं तु सर्वं दक्षिणतो हरेत् ॥९१॥

(९१) वास्तुपृष्ठ (वस्तु की पीठ) मे सर्वात्म भूत को वलि देवे । वलि देने पश्चात् जो अन्न बचे उसे दक्षिण दिशा मे पितरों को देवे ।

शुनां च पतितानां च स्वपचां पापरोगिणाम् ।

वायसानां कृमीणां च शनकैर्निक्षिपेद्भुवि ॥९२॥

(९२) कुत्ता, पतित, डोम, पाप रोगी, कौआ, कृमि इन सब को धीरे से पृथ्वी मे दंवे ।

एवं यं मर्नभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति ।

स गच्छति परं स्थान तत्रोमृतिं पषजुना ॥६३॥

(६३) जो ब्राह्मण सर्वत्र इस विधि से सब भूतों को
साम पहुँचाता है वह ज्ञानी होकर सरस पत्र द्वारा मुक्ति प्राप्त
करता है ।

कृत्वैतद्व्यलिकर्मैवमतिथिं पूर्वमाशयेत् ।

मिषां च मिषदे दद्याद्विधिवद्ब्रह्मचारिणे ॥६४॥

(६४) बलि-वैश्व-कर्म क पशुभात् पर बलों के भोजन
करने से प्रथम अतिथि और ब्रह्मचारी को भोजन सिखा कर
अतिथि-यज्ञ करे ।

यत्पुत्रयफलामाप्नोति गां दत्त्वा विधिवद्गुरो ।

तत्पुत्रयफलामाप्नोति मिषां दत्त्वा द्विजो गृही ॥६५॥

(६५) अपने गुरु की यथाविधि गोदान देने से जो फल
होता है वही फल गृहस्थ को ॐ मिशुक को मिषा देने से प्राप्त
होता है ।

मिषामप्युदपात्र वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ।

वेदतरवार्षविदुषा ब्राह्मणायोपादयेत् ॥६६॥

(६६) जो ब्राह्मण वेदों के सिद्धान्त व तात्पर्य का
ज्ञाता हो उसे यथाविधि प्रीतिपूर्वक भोजन और अन्न देवे ।

ॐ यह छ मिशुक कहलाते हैं —१-सम्याक्षी २-ब्रह्म
चारी ३-विद्यार्थी ४-गुरुगणक ५-बगोही और ६-जिसका
मत माना हो गया हो । इनके अतिरिक्त जो मागते हैं वह मिषा
(मीस) के अधिकारी नहीं ।

नश्यन्ति ऋष्यकव्यानि नगराणामविजानताम् ।

भस्मीभूतेषु विप्रेषु मोहाद्दत्तानि दातृभिः ॥६७॥

(६७) जो मूर्खता के कारण देवता और पितर के अर्थ मूर्ख ब्राह्मण को भोजनादि देते वह सब निष्फल जाता है ।

विद्यातपः समृद्धेषु हुतं विप्रमुग्वाग्निषु ।

निस्ताग्यति दुर्गाच्च महत्तश्चैव क्लिन्वितात् ॥६८॥

(६८) विद्वान् तपस्वी ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है वह भोजनदाता (अर्थात् ब्राह्मण के मुख की अग्नि में हवन करने वाला) बड़े पापों से विमुक्त हो जाता है ।

संप्राप्त्याय त्वतिथये प्रदद्याद्रामनोदके ।

अन्नंचैव यथाशक्ति मत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥६९॥

(६९) जो स्वयं ही अचानक आ गया हो उसको अपनी सामर्थ्यानुसार विश्रामहेतु आसन और अन्न (भोजन) जल देकर उसकी पूजा करे ।

शिलानप्युञ्छतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि जुह्वतः ।

सर्वं सुकृतमादत्ते ब्रह्मणोऽनर्चितो वसन् ॥१००॥

(१००) ❀ जो ब्राह्मण अतिथि विना पूजा पाये घर में रहता है तो उस गृहस्थ का—चाहे वह कितना ही नित्य पंच महायज्ञ और तप व जप का करने वाला हो तथा नित्य जङ्गल से चावल चुन कर निर्वाह करता हो—सब धर्म नाश हो जाता है ।

❀ आचार्यगण इमी प्रकार अपने यज्ञ के व्यसनी थे कि यदि एक वार भी उनके गृह में अतिथि (बटोही) को कष्ट हो तो वह अपना सारा धर्म नाश हुआ समझते थे । प्रत्येक जाति को अतिथि सत्कार आर्यों से सीखना चाहिये ।

सृष्टानि भूमिदक वाक्चतुर्धा च सन्तुता ।

एतान्यपि मतां गृहे नोच्छिद्यन्ते फदाचन ॥१०१॥

(१०१) तूण (घास पृथिवी जल वाक्चतुर्भ्यं (मिठ मायण) से उत्तम पुरुषों का घर भी धूय नहीं रहता ।

एकत्रात्र तु निवसन्नातिविप्राक्षस्य स्मृतः ।

अनित्य हि स्मितो यस्मात्तस्मादतिविरुध्यते ॥१०२॥

(१०२) एक रात्रि के रहने वाले को अतिविधि (पाहुना) कहते हैं । अतः अतिविधि को एक रात्रि से अधिक न रहना चाहिये नैकग्रामीणमतिविधिं विप्र सांगतिकै तथा ।

उपस्थित गृहे विद्याकार्या यत्राग्नयोऽपि वा ॥१०३॥

— (१०३) जिस गृहस्थ के गृह में स्त्री, धीर उगिन उहस्थित हो उनके घर विश्वदेव के समय अतिविधि पाया हो तो अतिविधि है । परन्तु एक ग्रामवासी धीर विधिव हसी कथा कहने वाला अतिविधि नहीं कहाता है ।

उपासत ये गृहस्थाः परपाकमपुद्गयः ।

तेन ते प्रस्य पशुतां भ्रजन्त्यन्नादिदायिनाम् ॥१०४॥

(१०४) जो गृहस्थ भ्रजन्तापस्य विना उद्यम किये दूधपों का मोहन खाते हैं वह भ्रजन्ती जन्म से उस भ्रजन्ता के पशु होते हैं ।

अप्रसोद्योऽतिधिः साय सूर्योदो गृहमेभिना ।

क्षप्ते प्राप्तस्वकाप्ते वा नास्थानरनन्गृहवसन् ॥१०५॥

(१०५) सायकाल को जब अतिविधि घर आये तो

उसे भोजनादि अवश्य देना चाहिये । अ वा समय असमय चाहे जब अतिथि आवे किन्तु भूखा न रहने देना चाहिये ।

न वै स्वर्गं तदपनीयादतिथिं यन्न भोजयेत् ।

घन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं चाऽतिथिपूजनम् ॥१०६॥

(१०६) जो वस्तु अतिथि को न खिलावे वह आप भी न खावे । अतिथि को भोजन देना धन, यश और स्वर्ग के हेतु (अर्थ) है ।

आसनावसथी शय्यामनुव्रज्यामुपासनाम् ।

उत्तमपूतमं कुर्याद्वीने हीं समे समम् ॥१०७॥

(१०७) सेवा-शुश्रूषा, आज्ञा मानता, आसन, गृह और पूजा उत्तम पुरुषो की उत्तम, मध्यम पुरुषो की मध्यम, और अधम (नीच) पुरुषो की अधम करनी चाहिये ।

वैश्वदेवे तु निवृत्ते यद्यन्योऽतिथिराव्रजेत् ।

तस्याप्यानं यथाशक्ति प्रदद्यान्नं वलिं हरेत् ॥१०८॥

(१०८) वैश्वदेव कर्म करने के पश्चात् दूसरा अतिथि आवे तो उसको यथाशक्ति अन्न देवे वलि-कर्म न करे ।

न भोजनार्थं स्ये विप्रः कुलगोत्रेनिवेदयेत् ।

भोजनार्थं हि ते शंभन्वान्ताशीत्युच्यते बुधः ॥१०९॥

(१०९) भोजनार्थं ब्राह्मण को अपना कुल और गोत्र न कहना चाहिये । यदि कहे तो वमन करके खाने वाला कहता है ।

न ब्राह्मणस्य त्वतिथिर्गृहे राजन्य उच्यते ।

वैश्यशूद्रौ सखा चैवं जातयो गुरुरेव च ॥११०॥

(११०) ब्राह्मण के गृह में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भाई, बन्धु गुरु यहाँ सब अतिथि नहीं कहलाते अर्थात् जो अपने से

बड़ा हो और सम्बन्ध और प्रभुता से विलग हो वह सब वर्णों का प्रतिषिद्ध कहलाता है ।

यदि रवतिथिषर्मेण सत्रियो गृहमावजेत् ।

भुक्तवस्वथ विप्रेषु काम समपि भोजयेत् ॥१११॥

(१११) यदि ब्राह्मण के गृह पर सत्रिय प्रतिषिद्धा जाय तो ब्राह्मण के पक्ष में उसका भी भोजनादि से सत्कार करना चाहिये ।

वैश्यशूद्राभयि प्राप्तौ कुटुम्बेऽतिथिषमिथौ ।

भोजयैरसह मृत्यैस्तावानशंस्यं प्रयोजयन् ॥११२॥

(११२) इसी प्रकार देवता करके वैश्य और शूद्र को भी भाई वधुओं के साथ भोजन देना चाहिये ।

इतरानपि ससृगादीन्सप्रीत्या गृहमागतान् ।

मत्कृतयान्न यथाशक्ति भोजयेत्सह मार्यया ॥११३॥

(११३) प्रीति के कारण मित्रादि प्रियजन गृह पर आये हों तो यथाशक्ति स्त्रियों के भोजन के समय उनको भी भोजन देना चाहिये ।

सुभामिनी कुनारीश्च रोगिणी गर्भिणी स्त्रियः ।

अतिथिम्याऽग्न एषैतान्भोजयेदभिचारयन् ॥११४॥

(११४) पुत्रवधु (बेटे की स्त्री) विवाहिता पुत्री छोटा बालक रोगी गर्भिणी स्त्री इन सबको प्रतिषिद्ध भोजन से प्रथम देना चाहिये कुछ सोप विचार न करना चाहिये ।

अदरथा तु य एतस्य पूर्व सुदुक्तोऽभिषघणः ।

न भुञ्जानो न जानाति ष्वगृध्रैर्भग्धिमारमन् ॥११५॥

(११५) भोजन योग्य जितने पुरुषो को कह आये है उन सब को बिना भोजन कराये जो अज्ञानी आप भोजन करता है वह नही जानता कि हमारे शरीर को कुन्ने और गिद्ध खावेगे ।

भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि ।

भुंजीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती ॥११६॥

(११६) ब्राह्मण, सम्बन्धी, और भृत्य (सेवक) को भोजन देकर गृहस्वामी को अपनी पत्नी सहित भोजन करना चाहिये ।

देवानृपीन्मनुष्यांश्च पितृन्गृह्याश्च देवताः ।

पूजयित्वा ततः पश्चाद्गृहस्थः शेषमुग्भवेत् ॥११७॥

(११७) देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, और भूत इन सबके निमित्त यज्ञ करके और सब के भोजनोपरान्त जो शेष रहे उसे गृहस्थ भोजन करे ।

अर्घं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात् ।

यज्ञशिष्टाशनं ह्य तत्ततामन्नं विधीयते ॥११८॥

(११८) जो पुरुष केवल अपने ही लिये भोजन करता है वह पाप को भोजन करता है । यज्ञ का वचा हुआ अन्न उत्तम पुरुषो को भोजन करना चाहिये ।

गजत्विक्स्नातकगुरुन्प्रियंश्चसुग्मातुलान् ।

अर्हयेन्मधुपर्केण परिसंवत्सरात्पुनः ॥११९॥

(११९) राजा, ऋत्विक् (यज्ञ कराने वाला) स्नातक (विद्या व व्रत मे पूर्ण ब्रह्मचारी) गुरु, प्यारा, समुद्र, मामा इन सब को मधुपर्क से प्रतिवर्ष पूजा करनी चाहिये ।

राजा च धोत्रियश्चैव यज्ञकर्मययुपस्थितौ ।

मधुपर्केण मधुज्यौ नन्वयद्य इति स्थिति ॥१२०॥

(१२०) राजा धोत्रिय (वेद पढ़ने वाला) इन दोनों

जो पूजा मधुपर्क से यज्ञकर्म में करनी चाहिये । अन्य समय में नहीं करनी यह साम्प्रविधि है ।

माय त्वक्तस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं धत्ति हरेत् ।

धैर्यदेवं हि नामैतत्सायंशतुर्विधीयते ॥१२१॥

(१२१) सध्या समय पके हुये घन्न से बिना मंत्र के

पत्नी वलि वदय कर्म करे । गृहस्थियों को निरप पंच महायज्ञ यथाविधि करने चाहिये ।

पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य विप्रश्चन्नुत्सयऽग्निमान् ।

विश्वान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यांमामानुमाधिकम् ॥१२२॥

(१२२) प्रत्येक मास की समाप्तस्था में पितृयज्ञ से

अग्निहोत्री ब्राह्मण श्राद्ध करे ।

पितृणां मासिकं श्राद्धमन्वाहार्यं विदुर्धुवा ।

तन्वागिण्यं कर्त्तव्यं प्रशस्तेन प्रयत्नतः ॥१२३॥

(१२३) एक प्रत्येक मास में पितरों का जो श्राद्ध किया

जाता है वह ईश्वर वाली कहलाता है । और उसको उत्तम मांस से करना चाहिये ।

तत्र य मोञ्जनीयां स्युर्ये च धन्याञ्जोत्तमा ।

यावन्तश्चैव दीश्वान्नैस्तान्प्रशक्त्याभ्यरोपत ॥१२४॥

❀ यह पशु मनुष्य के राज्य-काल में मिलाया गया है क्योंकि राजा वर्ग से प्रथम जो पलाउहीन सिजसी के समय में हुआ है मृतक श्राद्ध प्रशस्ति न था ।

(१२४) इस श्राद्ध मे जो भोजन योग्य है और जो अयोग्य हैं जितने चाहिये और जो अन्न भोजन कराना चाहिये वह सब हम कहेगे ।

द्वौ दैवे पितृकर्मो त्रीनेकैकमुभयत्र वा ।

भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्जेत विस्तरे ॥१२५॥

(१२५) श्राद्ध मे दो कर्म है १—पितृकर्म, २—देवकर्म, तिसमे कैसा ही धनी हो परन्तु देवकर्म मे एक और पितृकर्म मे दो ही ब्राह्मण को भोजन करावे, अथवा दोनो कर्मों मे एक ही ब्राह्मण को भोजन करावे, अधिक विस्तार न वढावे ।

सत्क्रियां देशकालौ च शीचं ब्राह्मक्तसंपदः ।

पञ्चैतान्विस्तरौ हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम् ॥१२६॥

(१२६) सत्कार, देश काल, पवित्रता, श्रेष्ठ ब्राह्मण इन सब बातों का नाश विस्तार करने से होता है । अतएव विस्तार न करना चाहिये ।

प्रथिता प्रेतकृत्येषा पित्र्यं नाम विधुक्षये ।

तस्मिन्पुक्तस्यैति नित्यं प्रेतकृत्यैव लौकिकी ॥१२७॥

(१२७) अमावस्या मे श्राद्ध करने से पितरो का उपकार होता है, क्योंकि पितृलोग श्राद्ध करने वाले को गुण, बेटा, पोता, धनादि सब कुछ देते हैं अत श्राद्ध अवश्य करना चाहिये ।

श्रोत्रियाग्नैव देयानि हव्यकश्यानि दातृभितः ।

अर्हत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम् ॥१२८॥

(१२८) दंवता और पितरो के निमित्त जो वस्तु देनी हो वह वेदपाठी बडे पूज्य ब्राह्मण को दे, किसी मूर्ख को न दे । क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को देने से महाफल होता है ।

एकैकमपि विद्वांस देवै पित्र्ये च भोजयेत् ।

पुष्कस्त कृत्वाप्लाति नऽमन्त्रज्ञान्वहनपि ॥१२६॥

(१२६) देव व पितृकर्म मे एक ब्राह्मण को भोजन कराने से भी बड़ा फल होता । और बहुत से मूर्ख ब्राह्मणों के भोजन कराने से बसा फल नहीं होता ।

दूरादेव परीक्षात् ब्राह्मण्यं वेदपारगम्

सीर्यं तद्व्यङ्गरूपानां प्रदाने सौऽविधिः स्मृतः ॥१३०॥

(१३०) दूर से वेदपाठी ब्राह्मणकी परीक्षा करनी चाहिये क्योंकि देवता और पितरों की वस्तु की देने वाला वही है ।

सहस्रं हि सहस्रायामनृचां यत्र भुञ्जते ।

एकस्तान्मप्रविस्त्रीतः सर्वानर्हति धमतः ॥१३१॥

(१३१) एक लाख मूर्ख ब्राह्मणों के भोजन कराने के जो फल होता है, वही फल मात्रमात्रा एक ब्राह्मण के भोजन कराने से होता है ।

ज्ञानात्कृष्टाय देयानि कल्प्यानि च इवीपि च ।

न हि इत्यायसुग्दिग्धी रुधिरस्यैव शुच्यतः ॥१३२॥

(१३२) देवता या पितरों के देने की वस्तु जानी ब्राह्मण को देनी चाहिये । जिस प्रकार रुधिर से सना हुआ हाथी रुधिर ही से धोने से शुद्ध नहीं होता उसी भाँति मूर्ख ब्राह्मण के सत्कार से मूर्खता नहीं जाती ।

यावतो व्रतते ग्रामाद्दृश्यन्मन्त्रवित् ।

यावतो व्रतते प्रेत्य दीप्ताक्षशुलानपोगुडान् ॥१३३॥

(१३३) + 'देवता या पितरो के अन्न के जितने ग्रास मूर्ख ब्राह्मण भोजन करता है उतने बार श्राद्ध करने वाला अग्नि से तृप्त लोहपिण्ड और दुधारे शस्त्र को भोजन करता है ।

ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथाऽपरे ।

तपः स्वाध्यायनिष्ठाश्च कर्मनिष्ठास्तथापरे ॥१३४॥

(१३४) ब्राह्मण चार प्रकार के हैं (१) ज्ञानी (२) तपस्वी (३) वेदपाठी (४) कर्मकाण्डी ।

ज्ञाननिष्ठेषु क्वयानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः ।

ह्वयानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुर्वेपि ॥१३५॥

(१३५) 'पितरो के देने योग्य वस्तु ज्ञानी ब्राह्मण को देनी चाहिये और देवताओं के देने योग्य वस्तु चारों में से जो मिले उसी को देना चाहिये ।

अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्देवमारगः ।

अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्याद्देवपारगः ॥१३६॥

(१३६) 'जिसका पिता वेदपाठी और आप मूर्ख अथवा आप वेदपाठी और पिता मूर्ख हो तो—

ज्यायांसमनयोर्विद्याद्यस्यस्यान्ञ्जोत्रियः पिता ।

मन्त्रसपूजनार्थं तु सत्कारमित्तगोऽर्हति ॥१३७॥

(१३७) 'इन दोनों में जिसका पिता वेदपाठी हो वह बड़ा है और दूसरा भी वेद पढने के कारण सत्कार करने योग्य है । क्योंकि वेदपाठी पिता से पुत्र में सत्कार विधिपूर्वक होते हैं ।

+ आजकल के हिन्दूओ और महामण्डल के पंडितों को इसे बार-बार पढना चाहिये ।

न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं घनैः कार्योऽस्य रुद्रहः ।

नाऽरिं मित्रं य मिघात्त श्राद्धे भोजयद्विजम् ॥१३॥
(१३८) श्राद्ध में मित्र ब्राह्मण को भोजन न कर कुछ घनादि देकर सत्कार करे परन्तु जो ब्राह्मण न मिघात्त हो उसे भोजन करावे ।

यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च ।

तस्य प्रेत्य फल नास्ति श्राद्धेषु च इधिषु च ॥१३९॥
(१३९) जिस किसी के देव या पितृकर्म में मित्र भोजन करता है उसको भोजन कराने का फल परलोक में मिलता ।

यः सगवानि कुर्वते मोहान्श्राद्धेन मानवः ।

स स्वर्गान्चिषते लोकान्श्राद्धमित्रो द्विजाधमः ॥१४०॥
(१४०) जो ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करने के अर्थ मित्रता करता है वह स्वर्ग लोक से भट होता है और वह ब्राह्मण में भवर्ष है ।

स भोजनीयामिहिता पैशाची दक्षिण द्विषैः ।

इहीयास्ते तु मा शोक गौरन्धेर्वैकशरमनि ॥१४१॥
(१४१) ऐसा भोजन पिछाचो का है और इसी सोम फलदायक है । जैसे घन्धी गऊ एक ही गृह में रह सकती है ही वह भोजन उसी लोक में रहता है परलोक में कुछ काम देता ।

यथेरिखे वीजमुत्त्वा न बप्त्वा क्षमते फलम् ।

तथाऽनृचे इविर्दत्त्वा न दात्वा क्षमते फलम् ॥१४२॥

- (१४२) 'जैसे ऊपर भूमि में बीज बोने वाला फल नहीं पाता वैसे ही देवता की वस्तु मूर्ख ब्राह्मण को भोजन कराने से दाता फल नहीं पाता ।

दातन्प्रतिग्रहीतृश्च कुरुते फलभागिनः ।

विदुषे दक्षिणां दत्त्वा विधिवत्प्रेत्य चेह च ॥१४३॥

(१४३) 'पण्डित ब्राह्मण को यथाविधि दक्षिणा देने से दाता और लेने वाला दोनों इस लोक और परलोक दोनों लोको में फल को प्राप्त करते हैं ।

कामं श्राद्धेऽर्चयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वऽग्निम् ।

द्विषता हि हविर्भुक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम् ॥१४४॥

(१४४) श्राद्ध में मित्र को भोजन कराना कुछ हानिकारक नहीं, परन्तु शत्रु यदि पण्डित भी हो तो भी उसे भोजन न कराना । क्योंकि उसके भोजन करने से परलोक में दाता फल नहीं पाता है ।

यत्नेन भोजयेच्छ्राद्धे वह्नवं वेदपारगम् ।

शाखान्तगगथाध्वयुर्छन्दोगं तु ममाप्तिकम् ॥१४५॥

(१४५) 'श्राद्ध में प्रयत्न करके चारों वेदों में पारगत को भोजन करावे अथवा जिसने वेद और उसके व्याख्यान (उपशाखाओं) को यथाविधि पढ़ा हो उसको भोजन करावे ।

एषामन्यतमो यस्य भुञ्जीत श्राद्धमर्चितः ।

पितृणां तस्य तृप्तिःस्याच्छ्राश्वती साप्तपौरुषी ॥१४६॥

(१४६) 'इन वेद पाठियों में से एक को भी यदि पूजा करके श्राद्ध में भोजन करावे तो सात वर्ष पर्यन्त पितरों की तृप्ति होती है ।

एष वै प्रथमं कल्प्या प्रदाने ह्य्यकल्पयोः ।

अनुकल्पस्त्वय इय सदा मङ्गिरसुष्टिं ॥१४७॥

(१४७) ह्य्य धीर कल्प्य ह्य्य दोनो के दान में मुख्य पक्ष को कहा है अथ कौन पक्ष को उत्तम पुरुषो ने धारण किया है सो कहते है ।

मातामहं मातुस्त च स्वस्त्रीय रश्मशुर गुरुम् ।

दौहित्र बिट्पतिं च धुमृत्विग्याज्यौ च भोजदेहा ॥१४८॥

(१४८) १—नामा २—माता ३—मानजा ४—समु ५—बिद्यागुरु ६—दोहित (नाती बेटा वा वेटा) ७—दामाद (आमाता) ८—मौसी-पुत्र ९—यज्ञ कराने वासा १०—यजमान । इन दसों को मुख्य पक्ष न होने से भोजन कराना चाहिये ।

न ब्राह्मण्य परीक्षते दैवै कर्मसि कर्मचित् ।

मिन्मे कर्मसि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्तत ॥१४९॥

(१४९) 'देवकर्म से ब्राह्मण की परीक्षा न लेनी चाहिये परन्तु पितृकर्म से पुरुषार्थ से ब्राह्मणोंकी परीक्षा लेनी चाहिये ।

ये स्तेनपतित क्लीबा ये च नास्तिकशूचयः ।

तान्ह्यकल्पयोर्विप्राननहन्मिनुरप्रवीत् ॥ १५० ॥

(१५०) 'जिन ब्राह्मणों को मनुष्यो ने भोजन कराने से वर्जित किया है वह यह है—थोर महापापी क्लीब (नपु सक नामर्द) नास्तिक ।

अटिहं चानधीयान दुर्बलं कित्तव तथा ।

यास्यन्ति च ये पूगांस्तारच आह्ने न भोजयत् ॥१५१॥

(१५१) अनापारी अमपठ दुर्बल कित्तव (दूषित

चमडे वाला), स्वार्थ से प्रत्येक योग्य वा अयोग्य को यज्ञ कराने वाला, इनको श्राद्ध में न खिलाये ।

त्रिक्रित्सकान्देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा ।

विपण्णेन च जीवन्तो वज्र्याः स्युर्हव्यकव्ययोः ॥१५२॥

(१५२) वैद्य (त्रिक्रित्सक), धन लेकर तीन वर्ष पर्यन्त देवमूर्ति का पुजारी, मांस बेचने वाला, वैश्यो के कर्म से जीने वाला ।

प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः ।

प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव त्यक्ताग्निर्वाधुर्पिस्तथा ॥१५३॥

(१५३) राजा अथवा प्रजा का वेतन भोगी सेवक, कुनखी, जन्म से काले दात वाला, गुरु के प्रतिकूल काम करने वाला, अधिकार होते हुए अग्निहोत्र न करने वाला, सूदव्याज से कालक्षेप करने वाला ।

यक्ष्मी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः ।

ब्रह्मद्विट् परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥१५४॥

(१५४) यक्ष्मा (क्षयरोग) वाला, पशु पालन करके निर्वाह करने वाला, परवेत्ता, पंचमहायज्ञ न करने वाला, ब्राह्मणों से शत्रुता रखने वाला, परधन को अपहरण करने वाला, गणाभ्यन्तर ।

कुशलित्रोऽवकीर्णी च वृषली पतिरेव च ।

पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपनिर्गृहे ॥१५५॥

(१५५) नाज से निर्वाह करने वाला, स्त्री भोग से अपवित्र (पतित) ब्रह्मचारी, शूद्रा स्त्री का पति, दूसरे पति से स्त्री का काणा बेटा, और जिसकी स्त्री ने उपपत्ति किया हो ।

मृतकस्यापको यञ्च मृतकस्यापितस्तथा ।

शूद्रशिष्यो गुरुञ्चैव वाग्दुष्टकृष्टगोलकी ॥१५६॥

(१५६) ❀ वेतन भोगी अर्ध्यापक वेतन देकर विद्याध्ययन करने वाला शूद्र का गुरु शूद्र का शिष्य कड़वी बात करने वाला पतित को विद्या पढ़ाने वाला कुण्ड गोलक ।

अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोर्गुर्गस्तथा ।

प्राज्ञैर्यौनश्च सवन्धै सयोग पतितैर्गत ॥१५७॥

(१५७) अकारण माता-पिता और गुरु की परित्याग करने वाला (असंग होने वाला) जो मनुष्य सयोग बन्ध बन्ध पतित हो गये है उनसे पहले या उनको पढ़ाने वाला और उनसे विवाहादि सम्बन्ध करने वाला ।

आगारदाही गरदः कुरहाशी सामधिक्रयी ।

समुद्रयायी बन्दी च तैलिक कूटकारकः ॥१५८॥

(१५८) घर में अग्नि लगाने वाला विपदाता कुण्ड का अन्न मक्की धोमसता को बेचने वाला समुद्र में जाने वाला बन्दी तैल के अर्ध तैलादि पीसने वाला कूट बात कहने वाला ।

पित्रा विवदमानश्च क्लृप्तो मद्यपस्तथा ।

पापरोम्यमिशस्त्वश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥१५९॥

❀ मनुषी में मूर्ति पूजा करने वाले पुजारी और मास बेचने वाले को एक समान लिखा है परन्तु मूर्त भोग पुजारी को अर्ध्यापक समझते हैं । और वेतन-भोगी अर्ध्यापकी का कार्य करने वाला ब्राह्मण भी ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है । अथ जो वेतन लेकर पढ़ाए है वे न जाने इस पत्नीको को देखते है या नहीं ।

(१५६) पिता से कलह विवाद करने वाला, आप पासा खेलना नहीं जानता और अपने अर्थ दूसरे को पासा खिलाने वाला ❀ शराब पीने वाला, कोढ़ी, अभिशस्त, बहाने से धर्म करने वाला, रस बेचने वाला ।

धनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्रं दिधिषुपतिः ।

मित्रध्रु ग्ध्वृत्तिश्च पुत्राचार्यस्तथैव च ॥१६०॥

(१६०) धनुषबाणधारी, बड़ी सगी बहिन का विवाह हुए बिना छोटी बहिन का पाणिग्रहण कगने वाला, मित्र से शत्रुता करने वाला, द्यूत (जुआ) वृत्ति वाला, पुत्र से विद्याध्ययन करने वाला ।

भ्रामरी गण्डमाली च श्वित्र्यऽथो पिशुनस्तथा ।

उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥१६१॥

(१६१) मृगी, गण्डमाला, श्वेतकुष्ठ, इन रोगों में से कोई एक रोग वाला, दुष्ट पुरुष उन्मत्त (पागल, दीवाना), अन्धा, वेदनिन्दक ।

हस्तिगोश्वोष्ट्रदमको नक्षत्रैश्च जीवति ।

पक्षिणां पोषकी यश्च युद्धाचार्यस्तथैव च ॥१६२॥

(१६२) हाथी, बैल, ऊँट, घोडा, इन सबको बधिया करने वाला × ज्योतिषी (ज्योतिष विद्या से कालक्षेप करने वाला), पक्षी पालने वाला युद्धार्थ अस्त्र-शस्त्र विद्या को सिखाने वाला ।

❀ शराब पीने वाले ब्राह्मणों को ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं, यहा पर मद्य से भाग, गाजा और शराब आदि मादक वस्तुओं का अर्थ लेना चाहिये ।

× महात्मा मनुजी ज्योतिषी को ब्राह्मण की पदवी से गिराते हैं क्योंकि ज्योतिषी स्वार्थपरता वश अनृत (भूँठ) भाषण करते हैं ।

स्रोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणं रतं ।

गृहसवेशको दूतो वृषारोपक एव च ॥१६३॥

(१६३) बंधे हुए पानी को दूसरे स्थान पर से जाने वाला बहते पानी को प्रबन्ध करने वाला (बंधने वाला) सर्वदा गृहसवेश (मेमारीराज) वृत्ति वाला दूत बतन लेकर वृक्ष रोपने (लगाने) वाला ।

श्वक्रीडी स्थनजीवी च कन्यादूपक एव च ।

हिंस्रो वृषस्तवृत्तिश्च गयानां चैव याजकः ॥ १६४ ॥

(१६४) कुत्तों से क्रीडा खेल करने वाला बाज भादि पक्षियो से जीवन निर्वाह करने वाला क्वारी कन्या स मोम करने वाला जीव हिंसा करने वाला शूद्रों से जीवन निर्वाह करने वाला बहुत से पुत्रपौत्रों को यज्ञ कराने वाला ।

प्राचारहीन क्लीवश्च नित्य याचनकस्तथा ।

कृपिजीवी श्लीपटी च सद्भिर्निन्दित एव च ॥१६५॥

(१६५) प्राचारहीन अपुत्रक क नित्य भिक्षावृत्ति करने वाला कृपि से उवरपोषण करने वाला । मोटे पाँव वाला सत्पुरुषों से निन्दा पाने वाला ।

औरध्रिकौमाद्विपिकः परपूर्वापतिस्तथा ।

प्रेतनिर्पातकाश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नत ॥ १६६ ॥

(१६६) भेद भंस से जीवन निर्वाह करने वाला मित्र पति को त्याग कर दूसरा पति करन वाली स्त्री का दूसरा पति धन लेकर शवदाह करने वाला ।

क मनुजी भिक्षा वृत्ति वाला ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानते और जीवहिंसक के तुल्य बतलाते हैं ।

एतान्निर्गर्हिताचारानपाङ्क्तयान्द्विजाधमान् ।

द्विजातिप्रवरो द्विजानुभयत्र विवर्जयेत् ॥ १६७ ॥

(१६७) वे अकारण निन्दिताचरणी है, ब्राह्मणों में अधम हैं, पक्ति में बिठाने के अयोग्य हैं, इन सब को देवता या पितृ-कर्म के भोजन न करावे ।

ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणाग्निरिव शाम्यति ।

तस्मै हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि ह्यते ॥ १६८ ॥

(१६८) जैसे फूस की अग्नि झटपट बुझ जाती है, उसी प्रकार मूर्ख ब्राह्मण है । अतएव हव्य और कव्य उसको न देना चाहिये, क्योंकि राख में हवन नहीं हो सकता ।

अपाङ्क्तदाने यो दातुर्भवत्युर्ध्वं फलोदयः ।

दैवे हविषि विज्ये वा तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १६९ ॥

(१६९) देवकर्म या पितृकर्म में निन्दक ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल परलोक में मिलता है उसी को हम (अर्थात् भृगुजी) कहते हैं कि—

अत्रतर्यद्द्विजैर्भुक्तं परिवेत्तादिभिस्तथा ।

आपाङ्क्तयैर्यदन्यैश्च तद्वैरक्षांसि भुञ्जते ॥ १७० ॥

(१७०) उपरोक्त निन्दक ब्राह्मण जो भोजन करते वह राक्षस भोजन करते हैं, अर्थात् निष्फल होता है ।

दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते ।

परिवेत्ता स विज्ञेयः परिविचिस्तु पूर्वजः ॥ १७१ ॥

(१७१) अविवाहिता सगे बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई विवाह करे और अग्निहोत्र कहे तो बड़ा भाई परिवित्त कहलाता है और छोटा भाई परिवेत्ता कहलाता है ।

परिविधिं परीक्षेत्त यथा च परिविधते ।

सर्वे त नरकं याति दातृयाजकपञ्चमा ॥१७२॥

(१७२) परिविधित परिविधेता परिविधिता (अर्थात् जिस कन्या से विवाह हुआ है) सो उस कन्या को देने वाला और विवाह सस्कार कराने वाला ब्राह्मण यह पापों नरकगामी होते हैं ।

भ्रातृमृतस्य भार्यायां योऽनुरोधेन कामतः ।

धर्मेशापि नियुक्तायां स क्षेयो दिविपूषति ॥१७३॥

(१७३) मृत भाई की स्त्री से भोग करने की विधि को भागे कहेसे उस विधि से भी स्वेच्छा पूर्वक भोग करने वाला दिविपूषति कहलाता है ।

परदारपुत्रायते द्वौ सुतौ कुण्डगालकौ ।

पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्मृते भर्तुरि गोसकः ॥१७४॥

(१७४) पर स्त्री में दो पुत्र होते हैं एक कुण्ड और दूसरा गोसक । इनमें से जीवित पति वाली का पुत्र कुण्ड कहलाता है और मृत पति वाली का पुत्र गोसक कहलाता है ।

तौ तु ज्ञातौ पक्षत्रे प्राणितौ प्रेत्य चेह च ।

दत्तानि इभ्यकृष्यानि नाशयेते प्रदायिनाम् ॥१७५॥

(१७५) इन दोनों (अर्थात् कुण्ड या गोसक) को देव या पितृकर्म में भोजन कराने से और दान देने से दाता को परलोक में कुछ फल नहीं मिलता ।

आपङ्क्तस्यो यावत् पाङ्क्तस्यान्मुञ्चानानमुपरयति ।

यावतां न फलं सन्न दाता प्राप्नोति बालिशः ॥१७६॥

(१७६) ब्राह्मणमण्डसी पतित ब्राह्मण जितने ब्रह्मणों

को भोजन करता हुआ देखता है उतने ब्राह्मणों के खिलाने का फल दाता को नहीं होता और यह दोनों बुद्धिहीन हैं ।

वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः पण्टेः शिवत्री शतस्य तु ।

पापरोगी महस्रस्य दातुर्नाशयते फलम् ॥१७७॥

(१७७) अन्धा, काणा, श्वेतकुष्ठ वाला राजरोगी, इन सबके देखने से यथाक्रम ६०, ६०, १००, १०००, ब्राह्मण भोजन कराने का फल दाता को नहीं प्राप्त होता ।

यावतः मंस्पृशदंगैर्ब्राह्मणाञ्छूद्रयाजकः ।

तावतां न भवेदातुः फलं दानस्य पौर्तिकम् ॥१७८॥

(१७८) शूद्र के वस्त्र में यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण अपने शरीर से जितने ब्राह्मणों को स्पर्श करता है उतने ब्राह्मणों को देने का फल दाता नहीं पाता और श्राद्ध में उत्तम ब्राह्मणों की पक्ति में बैठकर यदि यह भोजन करे तो जितने ब्राह्मण भोजन करते हैं, उन सब के भोजन करने का फल दाता नहीं प्राप्त कर सकता ।

वेदविच्चापि विप्रोऽस्य लोभात्कृत्वा प्रतिग्रहम् ।

विनाशं व्रजति क्षिप्रमामपात्रमिवाभमि ॥१७९॥

(१७९) शूद्र को यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण से ॐ लोभ वश वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण भी जो दान लेवे तो भटपट नाश हो जाता है, जैसे मिट्टी का कच्चा बरतन पानी में ।

नोट—आजकल तो श्राद्ध में भोजन करने वाले सभी ऐसे ही ब्राह्मण हैं ।

ॐ लोभ से वेद-शास्त्र पढ़ना महापाप है, क्योंकि यह तो ब्राह्मणों का धर्म ही है । आजकल जितने वेदपाठी धनोपार्जन अर्थ पढ़ते हैं वह मनुजी के कथनानुसार ब्राह्मणों में से पतित हैं ।

सामभिक्रयिणे विष्टा मियज पूयशाञ्चितम् ।

नष्ट देवल्लके दक्षमप्रतिष्ठ तु धार्ष्टुषौ ॥ १८० ॥

(१८०) सोमसता के बेबने वाले ब्राह्मण को दान देने से दाता दूसरे जन्म में बिष्टाभक्षी पशु होता है और इसी प्रकार जीविकार्य बिक्रिस्ता करने वाले ब्राह्मण को दान देने से दाता धागामी जन्म में रक्षिर और पीव पान करने वाला जीव होता है और तीन वर्ष पर्यन्त बेहन लेकर मूर्ति-पूजन करने वाले ब्राह्मण और ब्याज लेने वाले ब्राह्मण को दान देने से दाता को फल नहीं प्राप्त होता अर्थात् निष्फल होता है ।

यस्य धार्ष्टिप्रफ दक्ष नेह नामुत्र तद्भवेत् ।

मस्मनीव हुत इव्य तथा पौनर्भवे द्विजे ॥१८१॥

(१८१) वैश्य व्रम से निर्वाह करने वाले ब्राह्मण को दान देने से इस लोक और परलोक में दान का फल नहीं होता और प्रथम पति का त्याग पुनर्पति करने वाली स्त्री के दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र को दान देना ऐसा है जैसे राग में हवन करना ।

इतरपु त्वर्षाक्त्वेपु यथोदितेभ्यमायुषु ।

मन्ममुद्माममजास्थिवदन्त्यन्न मनीषिणा ॥१८२॥

(१८२) जो ब्राह्मण वक्ति में बँटने का उपयोग है उसको दान देने से दाता धागामी जन्म में छाती का मोस रक्षिर हृष्टा धानि भदाग करने वाला जीव होता है ।

आपकन्यापइता पटक्ति पाप्यत यद्विजापण ।

तान्निबाधत कान्स्त्र्येन द्विजाग्रयान्पटक्तिपापनान् ॥१८३॥

(१८३) जो पति और धादि ब्राह्मणों से दूषित हो उसे पवित्र करने वाला जो ब्राह्मण है उनका गुणो-

अग्रयाः सर्वेषु देवेषु सर्वप्रवचनेषु च ।

श्रोत्रियान्प्रयजाश्चैव विज्ञयाः पंक्तिपावनाः ॥१८४॥

(१८४) जिस कुल में दम पीठी से वेद का पढना-पढाना चला आता हो उस कुल में उत्पन्न होकर चारो वेद अगसहित जो ब्राह्मण पढ सकता हो वह ब्रह्मण पक्ति पवित्र करने वाला है ।

त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निस्त्रिसुपर्णः षडङ्गवित् ।

ब्रह्मदेयात्मसंतानो ज्येष्ठसामग एव च ॥ १८५ ॥

(१८५) १-त्रिणाचिकेन, २-अग्निहोत्री, ३-त्रिसुपर्णा, ४-व्याकरणादि षडङ्गज्ञाता, ५-ब्राह्म विवाह से उत्पन्न, ६-सामवेद के उस भाग का ज्ञाता जिसमें ब्रह्मविचार है, वह छ पक्ति के पवित्र करने वाले हैं ।

वेदार्थवित्प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः ।

शतायुश्चैव विज्ञेया ब्राह्मणाः पंक्तिपावनाः ॥१८६॥

(१८६) वेदार्थ-ज्ञाता, वेदार्थ-वक्ता, ब्रह्मचारी, सप्तस गोदानदाता, सौ वर्ष की आयु वाला, यह लोग पक्ति को शुद्ध करने वाले हैं ।

पूर्वेद्युरपरेद्युर्वा श्राद्धकर्मण्युपस्थिते ।

निमन्त्रयेत्ऽव्यवगन्सम्यग्विप्रान्यथोदितान ॥१८७॥

(१८७) श्राद्ध करने से एक दिन पहले वा उसी दिन तीन से अधिक अच्छे ब्राह्मण मिल सकें तो उनको निमन्त्रण देवे, यदि न मिल सकें तो एक वा दो वा तीन को भी नेवता देना चाहिये ।

निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा ।

न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्धं च तद्भवेत् ॥१८८॥

(१८८) ❀ निमन्त्रित ब्राह्मण उस रात्रि दिन में स्त्री सम्भोग न करे और वेद पाठ भी न करे और धाद्य कर्ता भी स्त्री-सम्भोग और स्वाध्याय न करे ।

निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्विजान् ।

वायुश्चानुगच्छन्ति तथामीनानुयासते ॥ १८९ ॥

(१८९) निमन्त्रित ब्राह्मण के समीप पितृभोग बड़े रहते हैं और वायु वेष (रूप) में उस ब्राह्मण के अनुगामी रहते हैं ।

कश्चितस्तु यथान्याय इव्यकष्ये द्विजोत्तम ।

कश्चिदप्यतिव्रामन्याप सङ्कर्तां व्रजेत् ॥ १९० ॥

(१९०) × नेत्र वा पितृ कर्म में निमन्त्रण पाकर जो ब्राह्मण गोजन न करे वह उस पाप के कारण ब्राह्मणी वस्त्र में सूकर (मुष्कर) होता है ।

ग्रामन्त्रितस्तु य धाद्य वृषभ्या सह मोदते ।

दातुर्यवदुच्छ्रित किञ्चित्त्मन् प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥

(१९१) अथ कर्म में नेत्रता पाकर जो ब्राह्मण सूकर की स्त्री से भोग करता है वह धाद्यकर्ता के सम्पूर्ण पाप को प्राप्त करता है ।

अश्लोचना शौचपरा सतत भद्रचारिणः ।

न्यस्तशस्त्रा महाभागा पितरः पूर्वदेवता ॥ १९२ ॥

❀ यह समाक राजा वर्ग के राज्यकाल के पश्चात् मिलाया गया है क्योंकि मनुक पितरो का धाद्य यहीं से प्रचलित हुआ है ।

× आजकल तो ऐसा एक भी ब्राह्मण नहीं बीसता । वस्त्र में श्रृषि धाद्य का वर्णन है इसको मिलावट करके पितृ धाद्य बताया गया है ।

(१६२) ❀ पितृलोग भीतर-बाहर से एक, राग-द्वेष तथा क्रोध रहित, स्त्री भोग से रहित, कलह से परे, विद्यादि आठ गुणों से पूर्ण, महाभागी, अनादि देवता रूप हैं, इस कारण श्राद्ध-कर्ता तथा श्राद्ध भोजनकर्ता दोनों क्रोध से रहित हो ।

यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशेषतः ।

ये च यैरूपचर्याः स्युर्नियमैस्तान्निभोधतः ॥१६३॥

(१६३) जिससे उन सबकी उत्पत्ति है और जिन नियमों से जिनका सेवन उन सबको सुनिये—

मनोहरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः ।

तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाःस्मृताः ॥१६४॥

(१६४) ब्रह्मा के पुत्र अर्थात् मनुजी के मरीचि आदि जो पुत्र हैं उनके जो पुत्र हैं सो पितृगण हैं ।

विगट्सुता सोममदः साध्यानां पितरः स्मृताः ।

अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोक विश्रुताः॥१६५॥

(१६५) साधुगण के पितर विराट् के पुत्र सोम सद हैं, देवतो के पितर अग्निष्वात हैं । यह सब मरीचि के पुत्र हैं और लोक प्रसिद्ध है ।

दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् ।

सुपर्णकिन्नराणां च स्मृता वहिष दोऽत्रिजाः ॥१६६॥

❀ श्राद्ध विषय में बहुत कुछ मिलावट और यह सारी कथा महाभारत के पश्चात् उत्पन्न हुई है, अतः इसका अधिक विस्तार नहीं किया गया ।

(१६६) + वैश्य वानव यक्ष गन्धर्व उरग राक्षस
 उपर्युक्त किलर इन सबका पितर अग्नि का पुत्र वह्निवद है ।

सोमया नाम विप्राणां अत्रियाणां हविर्भुजः ।

वैश्यानामाज्यपानाम् शूद्राणां तु मुक्तालिनः ॥१६७॥

(१६७) १-ब्राह्मण २-क्षत्रिय ३-वश्य ४-सूत्र इन
 सब के पितर क्रमानुसार १-सोमया २-हविर्भुज ३-प्राज्यप
 गौर ४-मुक्ताली है ।

सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽगिरः सुता ।

पुलस्त्यास्याज्यपा पुत्रा वशिष्ठस्य मुक्तालिनः ॥१६८॥

(१६८) १-कवि २-अगिरा ३-पुलस्त्य ४-वशिष्ठ के पुत्र
 क्रमानुसार १-सोमया २-हविर्भुज ३-प्राज्यप ४-मुक्ताली है ।

अग्निदग्धानग्निदग्धान्काभ्यान्वर्हिपटस्तथा ।

अग्निष्वात्तोरथ सौम्यांश्चविप्राखामेवनिर्दिरोत् ॥१६९॥

(१६९) अग्निदग्ध अर्चति वानप्रस्थ और गृहस्वी
 अनाग्निदग्ध सन्यासी काभ्य वह्निवद अग्नि स्वात् सोमया
 यह सब ब्राह्मण ही के पितर है ।

य एते तु गुणा मृक्ष्या पितृणां परिकीर्तिताः ।

तपामपीड विज्ञेय पुत्र पीत्रमनन्तकम् ॥ २०० ॥

(२) यह सब मुख्य पितृगण है इनके पुत्र और पीत्र
 अनन्त है ।

अपिम्य पितरो आताः पितृभ्यो देवमानवा ।

देवेभ्यस्तु जगामथ चरं स्याद्वनुपूर्वशः ॥२०१॥

+ इसी १६६ से २१ तक पौराणिक कथा है और
 महाभारत के अनन्तर सम्मिलित की गई है ।

(२०१) ऋषियो से पितरो की उत्पत्ति है, पितरो से देवता और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, देवतो से चर-अचर सारा जगत् उत्पन्न हुआ है ।

राजतैर्भाजनैरेपामथो वा राजतान्वितैः ।

वार्यपिः श्रद्धया दत्तमक्षयायोपक्रन्ते ॥ २०२ ॥

(२०२) चादी के वर्तनो मे अथवा चादी चढे हुए वर्तनो में सब पितरो को केवल जल ही देने से बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है ।

देवकार्याद्द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते ।

दैवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतम् ॥२०३॥

(२०३) ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के द्विज-कार्य से पितृ-कार्य बडा है । इस कारण द्विज-कार्य पृथक होने से पितृकार्य पूर्ण होता है ।

तेपामारक्षभूतं तु पूर्व दैवं नियोजयेत् ।

रक्षांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमागच्छवर्जितम् ॥२०४॥

(२०४) पितृकार्य के रक्षक द्विज-कार्य को प्रथम करना उचित है । रक्षा-रहित कार्य को राक्षस ले लेते हैं ।

दैवाद्यन्तं तदीहेत पित्राद्यन्तं न तद्भवेत् ।

पित्राद्यन्तं त्वीहमानः क्षिप्रं नश्यति सान्वयः ॥२०५॥

(२०५) पितृकार्य के आदि-अन्त मे देव-कार्य करना चाहिये । देव-कार्य के आदि-अन्त मे पितृ-कार्य-कर्ता शीघ्र ही वश सहित नाश हो जाता है ।

शुचिं देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत् ।

दक्षिणाप्रवर्णं चैव प्रयत्नेनोपपादयेत् ॥ २०६ ॥

(११३) हृषम से सप्त बच्चे हृष्य के तीन पिण्ड बना कर बक्षिण दिसा को मुह करके दाहिने हाथ से कुशों के ऊपर उन पिण्डों को एकाग्र चित्त हो देवे ।

न्युप्य पिण्डास्तत्तत्सास्तुप्रतो विधिपूर्वकम् ।

तेषु दर्शेषु तं हस्त निमृन्यास्तेपमाग्निनाम् ॥२१६॥

(२१६) जो विधि कर्मकाण्ड के सूत्र में लिखी है तदनुसार कुशों पर उन पिण्डों को देकर पिण्ड के नीचे का जो कुश है उसकी जड़में हाथ को पोंछि बृह प्रपितामह आदि तीन पुरुषों के कर्मांब—

आचम्योदकपराहृत्य त्रिरायम्य शनैर्गमन् ।

यद्भृशतूष्णं च नमस्कृत्यात्पिण्डान् च मन्त्रवित् ॥२१७॥

(२१७) मन्त्रज्ञाता उत्तरमुख होकर आचमन और तीन प्राणायाम बलानुसार करके बसन्तादि ऋश्रतुओं और पितरों को नमस्कार करे ।

उदक विनयेच्छेषं शनै पिण्डान्तिके पुनः ।

अवशिष्टेषु तान्पिण्डान्यथान्युसान्समाहितः ॥२१८॥

(२१८) पिण्डवाम से प्रथम पिण्ड स्वापन करने के पश्चात् की पश्ची को जो जल दिया जाता है उस पात्र में शेष जो जल है उसको पिण्डों के समीप क्रम से देवे । तत्पश्चात् उन पिण्डों को एकाग्र चित्त हो क्रम से सूखे ।

पिण्डेष्वप्यस्वल्पिकां मात्रां समाधायानुपूर्वशः ।

तेनैव विप्रानासीनान्निविद्यस्पूर्वमाशमेत् ॥२१९॥

नोट—गर्भसूत्र जिनमें कर्मविधि उल्लिखित है कृष्णयजुर्बेद के पश्चात् बने है और कृष्ण यजुर्बेद महाभारत के पश्चात् बना है । अथर्व वेदसूक्त २१६ से २२१ तक सम्मिलित किये हुए ।

- (२१६) पिण्डो से थोडा-थोडा अन्न यथाक्रम लेकर नमन्त्रित बैठे ब्राह्मणो को विधि पूर्वक भोजन करावे ।

धियमाणे तु पितरि पूर्वपात्रेव निर्वपेत् ।

विप्रवद्वापि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाशयेत् ॥२२०॥

(२२०) पिता के गृह मे रहते हुए जो दादा, परदादा वानप्रस्थ और सन्यासी हैं उनका श्राद्ध करे अथवा पिता के ब्राह्मण के स्थान पर पिता ही को भोजन करावे और पितामह, प्रपितामह को पिण्ड देवे और दोनो के निमित्त ब्राह्मण-भोजन भी करावे ।

पिता यस्य निवृत्तः स्याज्जीवेच्चापि पितामहः ।

पितुः स नाम संकीर्त्य कीर्तयेत्प्रपितामहम् ॥२२१॥

(२२१) जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो वह पिता का नाम लेकर प्रपितामह का नाम लेवे ।

पितामहो वा तच्छ्राद्धं भुञ्जीतेत्प्रब्रवीन्मनुः ।

कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत् ॥२२२॥

(२२२) अथवा जिस प्रकार जीवित पिता को भोजन कराना कहा है उसी प्रकार जीवित पितामह को भोजन करावे पिता, प्रपितामह को पिण्ड देवे । इस बात को मनुजी ने कहा है, या पितामह की आज्ञा पाकर पिता, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह को पिण्ड देवे, पितामह को भोजन करा देवे ।

तेषां दत्त्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम् ।

तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत् स्वधैषामस्त्विति ब्रुवन् ॥२२३॥

(२२३) उन ब्राह्मणो के हाथ मे तिल, जल, कुण को

(२०६) दक्षिण दिशा में पृथ्वी को गाय के गोबर से सीप कर शुद्ध करे और उस स्थान पर श्राद्ध कर्म करे ।

अधकाशेषु षोडशेषु नदीतीरेषु चैव हि ।

विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥२०७॥

(२७) स्वभावि शुद्ध वसावि देश जो नदी तट पर जनसूम्य हो ऐसे स्थान पर श्राद्ध करने से पितृगण सदैव तृप्त रहते हैं ।

आसनेषु पक्लप्तेषु षड्विंशत्सु पृथक्पृथक् ।

उपस्यूषोदकान्मग्न्यम्बिप्रांस्तानुपवेशयत् ॥ २०८ ॥

(२८) पृथक्-पृथक् कुक्षासनों पर निमन्त्रित ब्राह्मणों को हाथ-पैर धुला कर और आधमन करके विठसाये ।

उपशय तु तान्विप्रानासनेष्वजुगुप्सितान् ।

गन्धमान्यै सुगमिभिरर्चयेद्देवपूर्वकम् ॥ २०९ ॥

(२९) प्रथम देवकार्य में निमन्त्रित ब्राह्मणों की पूज्यमाना प्रादि से पूजा करे तत्पश्चात् पितृकाम में निमन्त्रित ब्राह्मणों का भी पूजन करे ।

तेषामुद्वेषमानीय सुपविप्रांस्तिलानपि ।

अग्नां कुर्यादनुघातां ब्राह्मणो ब्राह्मणै सह ॥२१०॥

(२१) कुशा तिल गहब जल को ब्राह्मणों को देकर उनकी आज्ञा प्रमाण पर ब्राह्मणों सहित अग्नि में हवन करे ।

अग्नं सोमयमाम्स्यां च कृन्थाप्यायनमादितः ।

इधिर्दानेन विधिवत्परच्चात्सतर्पयेरिपतृन् ॥ २११ ॥

(२११) प्रथम अग्नि, सोम, यम, इन सबको हव्य देवर
तेत्पश्चात् पितरो को अन्नादि देवे ।

अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणात्रेवोपपादयेत् ।

यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रैर्मन्त्रदर्शिभिरुच्यते ॥२१२॥

(२१२) अग्नि न हो तो ब्राह्मण के हाथ ही में हवन
करे । ब्राह्मण अग्नि समान है । इस बात को मन्त्रज्ञाता ब्राह्मणों
ने कहा है । (इस स्थान में केवल अग्निहोत्र की वस्तुओं को
स्वार्थपग्ता से उदरस्थ करना बतलाया गया है) ।

अत्रोधनान्सुप्रसादान्वदन्त्येतान्पुगतान् ।

लोकस्याप्यायने युक्ताञ्छ्राद्धदेवान्द्विजोत्तमान् ॥२१३॥

(२१३) अक्रोधी, प्रसन्नचित्त, पुरातन और उन्नत ससार
में प्रयत्न करने वाले श्राद्ध के पात्र ब्राह्मण ही हैं । इस बात को
मनु आदि ऋषियों ने कहा है, इस हेतु देवता ह्य श्राद्ध को
ब्राह्मण के हाथ में देना सिद्ध है ।

अपसव्यमग्नौ कृत्वा सर्वमावृत्य विक्रमम् ।

अपसव्येन हस्तेन निर्वपेद्दुकं भुवि ॥ २१४ ॥

(२१४) हवन की अग्नि को दक्षिण दिशा में करके
जनेऊ को दाहिने कन्धे पर डाल कर दाहिने हाथ से पिण्ड रखने
की पृथ्वी पर जल देवे ।

त्रींस्तु तस्माद्धविः शंपात्पिण्डान्कृत्वा समाहितः ।

औदकेनैव विधिना निर्वपेद्दक्षिणामुखः ॥२१५॥

☉ देवतर्पण में तो विद्वान् ब्राह्मणों का सत्य ही अधिकार
है क्योंकि विद्वान् ही देवता कहलाते हैं । किन्तु पितृ-तर्पण में
इनका अधिकार पीछे से बतलाया गया है ।

(२१५) हवन से शय वषे हव्य के तीन पिण्ड बना कर दक्षिण दिशा को मुह करके दाहिने हाथ से बुधों के ऊपर उन पिण्डों को एकत्र चित्त हो देवे ।

न्युप्य पितृडांस्ततस्तांस्तुप्रतो विधिपूर्वकम् ।

तपु दर्मेषु स हस्तं निमृज्याभ्लेपभागिनाम् ॥२१६॥

(२१६) जो विधि कर्मकाण्ड के सूत्र में मिली है तदनुसार बुधों पर उन पिण्डों को देकर पिण्ड के नीचे का जो बुध है उसकी बड़में हाथ को पोंछे वृद्ध प्रपितामह आदि तीन पुरुषों के कर्मार्थ—
आश्विन्योदक्षपरावृत्त्य शिवायस्य शनैःप्रन् ।

पठन्मृत्यञ्च नमस्कुर्यात्पितृभुव च मन्त्रवित् ॥२१७॥

(२१७) मात्रजाता उत्तरमुख होकर आश्विन और तीन प्राणायाम बलानुसार करके बसन्तादि छः ऋतुओं और पितरों को नमस्कार करे ।

उदक विनयञ्छेर्णं शनैः पितृदान्तिकं पुन ।

अवजिघ्रस्य तान्पितृदान्यथान्युत्तान्समाहित् ॥२१८॥

(१८) पिण्डदान से प्रथम पिण्ड स्थापन करने के स्थान की पृथ्वी को जो बल दिया जाता है उस पात्र में शोष जो बल है उसको पिण्डों के समीप ऋम से दवे । तत्पश्चात् उन पिण्डों को एकत्र चित्त हो ऋम से सूं दे ।

पितृहव्यस्त्वम्पिकी माश्रीं समाधायानुपूर्वशः ।

तनैव विप्रानासीनान्विधिवत्पूर्वमाशयत् ॥२१९॥

नोट—गर्ममूत्र जिनमें कर्मविधि उल्लिखित है इच्छामयजुर्बंद के पश्चात् बने हैं और इच्छामयजुर्बंद महाभारत के पश्चात् बना है । प्रथम ११६ से २२१ तक सम्मिलित विधे हुए ।

(२१६) पिण्डो से थोडा-थोडा अन्न यथाक्रम लेकर नमन्त्रित बैठे ब्राह्मणो को विधि पूर्वक भोजन करावे ।

धियमाणे तु पितरि पूर्वपासेव निर्वपेत् ।

विप्रवद्वापि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाशयेत् ॥२२०॥

(२२०) पिता के गृह मे रहते हुए जो दादा, परदादा वानप्रस्थ और सन्यासी हैं उनका श्राद्ध करे अथवा पिता के ब्राह्मण के स्थान पर पिता ही को भोजन करावे और पितामह, प्रपितामह को पिण्ड देवे और दोनो के निमित्त ब्राह्मण-भोजन भी करावे ।

पिता यस्य निवृत्तः स्याज्जीवेच्चापि पितामहः ।

पितुः स नाम संकीर्त्य कर्तयेत्प्रपितामहम् ॥२२१॥

(२२१) जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो वह पिता का नाम लेकर प्रपितामह का नाम लेवे ।

पितामहो वा तच्छ्राद्धं भुञ्जीतेत्प्रब्रवीन्मनुः ।

कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत् ॥२२२॥

(२२२) अथवा जिस प्रकार जीवित पिता को भोजन कराना कहा है उसी प्रकार जीवित पितामह को भोजन करावे पिता, प्रपितामह को पिण्ड देवे । इस बात को मनुजी ने कहा है, या पितामह की आज्ञा पाकर पिता, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह को पिण्ड देवे, पितामह को भोजन करा देवे ।

तेषां दत्त्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम् ।

तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत् स्वधैपामस्त्विति ब्रुवन् ॥२२३॥

(२२३) उन ब्राह्मणो के हाथ मे तिल, जल, कुश को

देकर पिण्डों से निजासा हुआ जो थोड़ा-थोड़ा भाग है उसको पिठादि तीनों के ब्राह्मणों को बराबर दवे ।

पाणिभ्यां तूपसगृह्य स्वयमन्नस्य वद्वित्तम् ।

विप्रान्तिष्ठ पितृध्यायश्चानकैरुपनिधिषेत् ॥२२४॥

(२२४) आप दोनों हाथों से सब साध पदार्थ भोजनलय से लेकर पितरों का ध्यान करता हुआ ब्राह्मणों के समीप धीरे से परोसे ।

उभयोर्हस्तयोर्मुक्त पदभ्रमुपनीयत् ।

तद्विप्रभ्युत्पन्त्यसुग सहसा दुष्टञ्च स ॥२२५॥

(२२५) एक हाथ से साये हुए भस्त्र को प्रसुर लोग छीन लेते हैं । भत दोनों हाथों से लाना चाहिये ।

गुण्यांश्च क्षपशाक्याद्यान्ययोदधि घृत मधु ।

विन्यसेत्प्रयत् पूष भूमावेव समाहितः ॥२२६॥

(२२६) शहद दूध भी दधि आदि वस्तुओं से बना हुआ भोजन इस उत्तमता से कि जिसमें पृथ्वी पर न बिखर पावे भूमि पर रखे ।

मक्ष्य भोज्यं च विविधं मृत्तानि च फलानि च ।

ह्यानि चैव मांसानि पानानि भुरभीषि च ॥२२७॥

(२२७) मत्त प्रसन्न करने वाले उत्तम भोज्य पदार्थ धीरे उत्तम फल मूत्र तथा स्त्रादिष्ट वा सुगन्धित वस्तुओं को रखे ।

उपनीय तु तत्सर्वं शनकैः सुममाहित ।

पण्डिपयत् प्रयतो गुणान्प्रधान्प्रचोदयन् ॥२२८॥

(२२८) एकाग्र चित्त हो सब वस्तुओं को ब्राह्मणों के समीप लाकर यह कहकर कि यह मीठा है, यह खट्टा है, परोसे ।

नाश्रुमापातयेज्जातु न कुप्येन्नानृतं वदेत् ।

न पादेन स्पृशेदन्नं न चैतदवधूनयेत् ॥२२९॥

(२२९) रुदन करना, क्रोध करना, असत्य भाषण (अनृत) इन सब को त्याग दे, पाव से अन्न स्पर्श न करे और न उछाल कर अन्न को पात्र में रखे ।

अस्रं गमयति प्रेतान्क्रोपोऽग्नीनृतं वदेत् ।

पादस्पर्शस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम् ॥२३०॥

(२३०) + रुदन करने से प्रेत को, क्रोध करने से शत्रु को, अनृत भाषण से कुत्ते को, पग स्पर्श से राक्षस को, तथा उछालने से पापी को वह अन्न मिलता है ।

यद्यद्रोचेतसांवेप्रेभ्यस्तत्तद्दद्योदयत्सरः ।

ब्रह्मोद्याश्चक्रथाः कुर्यात्पितृणामेतदीप्सितम् ॥२३१॥

(२३१) क्षोभ तथा मत्सर परित्याग कर जो २ वस्तुयें ब्राह्मणों को रुचें सो २ वस्तुओं देवे और परमात्मा की कथा कहे, क्योंकि यह कार्य पितरों का प्रिय है ।

स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि ।

आख्यानानीतिहासांश्चपुराणानिखिलानि च ॥२३२॥

नोट—श्राद्ध का सारा विषय पीछे से सम्मिलित किया गया है ।

+ शोक प्रेत अर्थात् मृतक को अन्न पहुँचना श्राद्धका उद्देश्य बतलाया गया है और इन मिलावटी श्लोको से प्रेत की मिलना गहित बतलाया गया है ।

+ इस श्लोक के सम्मिश्रण में किञ्चित् मात्र शका नहीं है ।

(२३१) वेद धर्मशास्त्र पुराण तथा इतिहासों की कथा भादि प्रति समय ब्राह्मणों को सुनाया करे । इस स्थान पर पुराण से तात्पर्य ब्राह्मण ग्रन्थों से है क्योंकि जिस समय यह प्रब लिखा गया था उस समय अष्टादश पुराणों की रचना नहीं हुई थी ।

हर्षयेषु ब्राह्मणांस्तुष्टो भोजयन् शनै शनै ।

अभाषेनासकृच्चैतान्गुणंश्च परिचोदयत् ॥२३३॥

(२३३) आप हर्षित होकर मिष्टभाषणादि से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे और कीधृता न करे बल्कि यह स्वाविष्ट कीर है यह उत्तम मनु है ऐसे सब वस्तुओं के गुण वर्णन कर ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करे ।

व्रतस्यमपि दौहित्र भ्रातृ यत्नेन भोजयत् ।

कृत्यं चासने दद्यात्तिसैरथ विफिरेन्महीम् ॥२३४॥

(२३४) दौहित्र (नाती) यदि व्रतमे भी हो तो उसको किसी यत्न से ब्राह्मण में भोजन प्रवर्धन करावे । मंपाली कम्बस का आसन व ब्राह्मणों को पृथ्वी पर तिस छिटकावे ।

श्रीणि भ्रातृ पवित्राणि दौहित्र कृतपस्तिहा ।

श्रीणि चात्र प्रगंसन्ति शीचमक्रोचमत्वराम् ॥२३५॥

(२३५) ब्राह्मण में तीन वस्तु पवित्र हैं, १-दौहित्र (नाती) २-मंपाली कम्बस ३-तिस तथा तीन ही वस्तुयें प्रसन्ननीय हैं, १-पवित्रता २-दान्ति ३-धैर्य ।

अत्युष्णं सर्वमन्न स्याद्गृहीरन्ते च वाग्यता ।

न च द्विजातयो म्पुर्त्वा पृष्टा इभिर्गुणान् ॥२३६॥

(२३६) ब्राह्मण भोग भोज धारण कर प्रति उष्ण

(गरम) भोजन करें । यदि भोजनदाता वस्तुओं का गुण पूछे तो भी कुछ न बोलें ।

यावदुष्णं भवन्न्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः ।

पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥२३७॥

(२३७) जब तक भोजन उष्ण (गरम) रहता है और भोजनकर्ता मौन धारण किये रहने हैं तब तक पितर लोग भोजन करते हैं ।

यद्वेष्टितशिरा भुङ्क्ते यद्भुङ्क्ते दक्षिणामुखः ।

सोपानत्क्रश्च यद्भुङ्क्ते तद्वै रक्षांषि भुङ्क्ते ॥२३८॥

(२३८) दक्षिण दिशा को मुख करके और सिर बाधकर या जूता पहन कर जो भोजन करता है वह अनाचारी और राक्षस का भोजन कहलाता है ।

चाण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथैव च ।

रजस्वला च षण्ढश्च नेत्रेरेन्नश्नतो द्विजान् ॥२३९॥

(२३९) चाण्डाल, वराह (सूकर, सुअर), कुक्कुट (मुर्गा), स्वान (कुत्ता), रजस्वला स्त्री, नपु सक, यह सब लोग ब्राह्मण को भोजन करते हुए न देखें ।

होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिधीच्यते ।

दैवे कर्मणि पित्र्ये वा तद्गच्छत्यथ्यातथम् ॥२४०॥

(२४०) देवयज्ञ वा पितृयज्ञ करते समय निम्नलिखित जीवधारियों के दर्शन करने से सब कार्य नष्ट हो जाते हैं ।

घ्राणेन सूकरो हन्ति पक्ष्वातेन कुक्कुटः ।

श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शेनऽवरवर्णजः ॥२४१॥

(२४१) सुघर सू घने से मुर्गा पर फटफटाने से कुत्ता दर्शन से शूद्र स्पृश से सब कार्य नष्ट कर देते हैं ।

रुज्जो वा यदि वा कायो दातुः प्रप्योऽपि वा भवेत् ।

हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्पुन ॥२४२॥

(२४२) काना गजा प्रादि एक भङ्गहीन वा एक अधिक भङ्ग रखने वाला पाहे अपना सेवक ही क्यों न हो परन्तु उसे याज्ञ समय याज्ञ-स्थान से निकाल दे ।

भाक्षयं भिक्षुकं वापि भोजनार्थमुपस्थितम् ।

भाक्षयैरभ्यनुज्ञातः शक्तिं प्रतिपूजयत ॥२४३॥

(२४३) यदि ब्राह्मण वा भिक्षुक जो भोजनार्थ आए तो निमन्त्रित ब्राह्मणों की आज्ञा ग्रहण करके यथाशक्ति प्रत्येक का पूजन करे ।

सावर्षिकमन्नाद्य सन्नीयाप्लाव्य वारिणा ।

समुत्सृजेद्भुक्तवामप्रतो विकिरमुषि ॥ २४४ ॥

(२४४) सब प्रकार के अन्न को व्यंजनावि से मिला कर जल डाल कर उस अन्न को भोजन किये हुए ब्राह्मणों के सम्मुख पृथिवी पर कुक्ष पर डाल दे ।

असंस्कृतप्रमीठानां त्यागिनां कुक्षयोपिताम् ।

उच्छिष्टं मागधेयं स्याद्दर्भेषु विकिरस्वयं ॥२४५॥

(२४५) जो जलक अग्निदाह करने के अयोग्य है और उसकी मृत्यु हो गई है वा जो तर दूषित कुक्ष स्त्रियों को त्याग कर मर गये है उन सब को यह अन्न जो कुक्ष पर डाला गया है, मिलवा है ।

उच्छेपणं भूमिगनमजिह्वस्याशठस्य च ।

दामवर्गस्य तत्पिण्डे मागधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥

(२४६) पृथिवी पर जो जूठा अन्न है वह दास लोगो का है, परन्तु वह दास कुटिल वा नटखट न हो ।

आसपिण्डक्रियाकर्म द्विजाते संस्थितस्य तु ।

अद्वैवं भोजयेच्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥ २४७ ॥

(२४७) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के मृत्यु दिन से सपिण्डी क्रिया पर्यन्त विश्वदेव के निमित्त ब्राह्मण भोजन न करावे । किन्तु प्रेत के निमित्त एक ब्राह्मण भोजन करावे और एक पिण्ड देवे ।

सहपिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः ।

अनयैवावृता कार्यं पिण्डनिर्वपणं सुतैः ॥ २४८ ॥

(२४८) सपिण्डी करने के पश्चात् अमावस्या के श्राद्ध के विधान से पुत्र पिण्ड को देवे ।

श्राद्धं भुक्त्वा य उच्छिष्टं वृत्लाय प्रयच्छति ।

स मूढो नरकं याति कालसूत्रमवाविशराः ॥ २४९ ॥

(२४९) + जो कोई श्राद्धान्न को भोजन कर जूठा अन्न शूद्र को देता है वह मूढ़ अघोशिर (नीचे शिर किये हुए) काल-सूत्र नाम नरक में आता है ।

+ यह श्लोक और इस प्रकार के और भी श्लोक सम्मिलित किये हुए हैं, जिनमें मृतक पितरो के श्राद्ध और मांस-भक्षण का विधान है । क्योंकि श्राद्ध राजा कर्ण से प्रचलित हुआ है और मांस-भक्षण वेद-विरुद्ध है ।

श्राद्धं शुपलीतस्य तदहुर्योऽधिगच्छति ।

तस्या पुराणे तमास पितरस्वस्य शेरत ॥२५०॥

(२५०) श्राद्धात्त भोजन कर जो कोई उस रात्रि को स्त्री-सम्भोग करता है उसका पितर उसी स्त्री के मूल-स्वाम में एक मास पर्यन्त पड़े रहते हैं ।

पृष्ट्वा स्वदितमित्थर्वं तृप्तानाधामयेषत ।

आधान्तांश्चानुधानीयादभि तो रम्यतामिति ॥२५१॥

(२५१) भसी भक्ति भोजन किया है यह पूछ कर सतुष्ट और तृप्त जानकर आचमन कराके श्राद्धकर्ता ब्राह्मणों से कहे कि जायें ।

स्वधास्त्वित्थेव तं अयुर्माहृणास्तदनन्तरम् ।

स्वधाकारं परा आशी सर्वेषु पितृकर्मसु ॥२५२॥

(२५२) उसके प्रत्युत्तर में ब्राह्मण भोग स्वधास्तु कहे पितृकर्मों में स्वधा कहना बड़ा आशीर्वाद है ।

ततो मुक्तवतां तेषामभरोपं निवेदयेत् ।

यथा अयुस्तया कुर्पादनुवावस्ततो दिव्यं ॥२५३॥

(२५३) तत्परवात् सब ब्राह्मणों के धने हुए धन को निवेदन करे जैसा वह ब्राह्मण कहे वैसा करे ।

पित्र्ये स्वतितमित्थेष धाप्य गोष्ठं तु सुधृतम् ।

सपत्नमित्यम्पुदये देवे रुधितमित्थपि ॥ २५४ ॥

(२५४) एकोद्विंश श्राद्ध में तृप्त और प्रसन्न के अर्थ—
स्वादितम् कहना चाहिये । गोष्ठी श्राद्ध में सुधृतम् और अम्पु-
दयिष्व श्राद्ध में सम्पन्न कहना चाहिये । देवता के निमित्त जो
श्राद्ध है उसमें रुधितम् कहना चाहिये ।

नोट—२५ से २५५ श्लोक तक सम्मिलित किये हुए हैं ।

अपराहस्तथा दर्भा वास्तुमम्पादनं तिलाः ।

सृष्टिर्मृष्टिर्द्विजाश्चाग्रयाः श्राद्धकर्मसु संपदः ॥२५५॥

(२५५) अग्रान्ह काल (दोपहर पश्चात्) कुश गोवर आदि से भूमि को शोधना, तिल, उदारता, अन्न आदि का सस्कार, पक्ति के पवित्र कर्ता आह्वरण, यह सब पार्वण श्राद्ध मे सपद हैं ।

दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्नो हविष्याणि च सर्वशः ।

पवित्रं यच्च पूर्वोक्तं विज्ञेया हव्यसम्पदः ॥ २५६ ॥

(२५६) मन्त्र, पूर्वाह्न काल (दोपहर से प्रथम) हविष्य, उपरोक्त विधि से भूमिका शोधना, यह सब देव कर्म की सम्पदा (धन) हैं ।

मुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यच्चानुपस्कृतम् ।

अक्षारलवणं चैव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥

(२५७) मुनियो के अन्न, दूध, सोमलता का रस, वना वनाया मास, विन वना संधा लवण (तमक) आदि यह स्वाभाविक हव्य कहाते हैं ।

त्रिसृज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः ।

दक्षिणां दिशमाकांक्षन्याचेतेमान्वरान्पितृन् ॥२५८॥

(२५८) गोष्ठी श्राद्ध मे 'सुश्रुतम्' कहना चाहिये । इन ब्रह्मणो को विदा करने पश्चात् श्राद्धकर्ता पवित्र हो मौन धारण कर दक्षिण दिशा की ओर होकर पितरो से यह वरदान मागे कि

नोट—श्लोक २५६ से २६१ पर्यन्त मिलाये हुए हैं । क्योंकि मांस तो यज्ञ भ्रष्ट कर देने वाली वस्तु है । यहा मृतक पितृ श्राद्ध आदि को बतलाने के हेतु यह सब सम्मिलित किये गये हैं ।

दातारो नोऽमिषर्धन्ता वेदा सततिरेव च । -

श्रद्धा च ना माघ्यगमवृषद्दु देय च नोऽस्त्विति ॥२५६॥

(२५६) हमारे कृम में दाता वेद तथा सन्तति वृद्धि (उत्पत्ति) ही श्रद्धा बनी रहे विपुल धनादि देने की वस्तुयें हों—

एव निर्वपण कृत्वा पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम् ।

गां विप्रमज्जमग्निं वा प्राशयेदप्सु वाधिपेत् ॥ २६० ॥

(२६०) इस भाँति पिण्डों को देकर तत्पश्चात् उन पिण्डों को गऊ वा ब्राह्मण वा बकरे वा अग्नि की क्षिप्ताने प्रथवा अल में प्रवाह कर दे ।

पिण्डनिर्वपण केचित्पुरस्तादेष कुर्वते ।

धपोमि स्वादयन्त्यन्ये प्रधिपन्त्यनस्तेऽप्सुवा ॥२६१॥

(२६१) कोई प्राचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण भोजन के पश्चात् पिण्डदान होता चाहिये, कोई प्राचार्य उक्त पिण्डों को पक्षियों को क्षिप्ताना और कोई अल में प्रवाह करना और कोई अग्नि में जलना कहते हैं ।

पतिव्रता मर्मपत्नी पितृपूजनतत्परा ।

मध्यम तु ततः पिण्डमघात्सम्यक्सुतार्थिनी ॥२६२॥

(२६२) पतिव्रता स्त्री पितरों की पूजा करने वाले पुत्र उत्पन्न होने की अभिमाया से पितामह के पिण्ड को भी भाँति भोजन करे ।

आयुष्मन्स्य सुत धृते यशोमेधासमन्वितम् । -

धनवन्तं प्रजावन्तं सात्त्विकं चार्मिकं तथा ॥ २६३ ॥

(२६३) हाँ उस स्त्री के आयुष्मान् (दीर्घ आयु वाला),

यशस्वी, धनवान, मेधावान, सात्विकी (सतोगुणी) सन्तति वाला, तथा धार्मिक (धर्मात्मा) पुत्र उत्पन्न होता है ।

प्रक्षाल्य हस्तावाचस्य ज्ञातिग्रायं प्रकल्पयेत् ।

ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा बान्धवानपि भोजयेत् ॥२६४॥

(२६४) हाथ प्रक्षाल कर (धोकर) आचमन करके शेष भोजन अपने वश वालों (कुटुम्बियों) को खिलावे तत्पश्चात् सम्बन्धियों को ।

उच्छेषणं तु तत्तिष्ठेद्यावद्धिया विमर्जिताः ।

ततोऽगृहवलिं कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥२६५॥

(२६५) गृह में ब्राह्मणों के उपस्थित रहने पर्यन्त उनके उच्छिष्ट (जूठे) भोजनादि को यथास्थान रहने दे । ब्राह्मणों के विदा होने पश्चात् उस झूठे स्थान को धोवे तत्पश्चात् गृहवलि करे, यह धर्म है ।

हविर्यच्चिरात्राय यच्चानन्त्याय कल्पयेत् ।

पितृभ्यो विधिवद्दत्तं तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥२६६॥

(२६६) जो हव्य वस्तु विधिपूर्वक देने से पितरों को अविक समय पर्यन्त तृप्त रखती है और असह्य फल देने वाली है वह सब कहते हैं ।

तिलैर्ग्रीहयैर्वैमपैरद्भिर्मूलफलेन वा ।

दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्पितरो नृणाम् ॥२६७॥

(२६७) तिल, जी, घान, उडद, जल, मूल, फल इनमें से कोई एक वस्तु भी शास्त्रानुसार विधिपूर्वक दान करने से एक मास पर्यन्त मनुष्यों के पितर तृप्त रहते हैं ।

द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन श्रीन्मासान्धारिणान् तु ।

धौरभ्रशेषाय चतुर शाकुनेनाथ पञ्च वै ॥ २६८ ॥

(२६८) दो मास पर्यन्त मछली के मांस से तीन मास पर्यन्त हिरन के मांस से चार मास पर्यन्त भेड़ के मांस से पाँच मास पर्यन्त पक्षियों के मांस से ।

पयमार्मांशहागमांसेन पार्षतेन च मग्न वै ।

अष्टावेणस्य मांसेन गोरशेषेण नवैव तु ॥ २६९ ॥

(२६९) षट् (छ) मास पर्यन्त छाग (डकरा) के मांस से सात मास पर्यन्त चित्रमृग के मांस से आठ मास पर्यन्त ऐण नामक हिरण के मांस से नौ मास पर्यन्त सह नामक मृग के मांस से ।

दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमडिपामिरी ।

शशकूर्मयोस्तु मांसन मामानेकादरीष तु ॥ २७० ॥

(२७०) दस मास पर्यन्त बराह (अज्जमी सुभर) वा महिष (भैंसा) के मांस से एकादश (ग्यारह) मास पर्यन्त शशक (झरहा) वा कूर्म (कछुवा) के मांस से ।

सवत्सरं तु गन्धन पयसा पायमेन च ।

घाघ्रीशमस्य मांसेन तन्निर्द्वादशवार्षिकी ॥ २७१ ॥

(२७१) गौदुग्ध वा गौदुग्ध की स्त्रीर से एक वर्ष पर्यन्त

(१) श्लोक २६८ से २७२ तक वामभागियों के सम्मिलित किये हुए हैं और वेद तथा प्रत्यक्ष के विरुद्ध हैं ।

(२) यह विषय सम्भवतः सम्मिलित निया हुआ है क्योंकि मृतक पुरुषों के पित का सम्बन्ध नहीं रहता और वह अपने कर्मागुसार योग्य पा जाते हैं ।

ऐसे वकरे के मास मे जिसके दोनो कान पानी पीते समय पानी को स्पर्श करे वारह वर्ष पर्यन्त ।

कालशाकं महाशल्काः खड्गलोहामिषं मधु ।

आनन्त्यायैव कल्प्यन्ते मुन्यन्नानि च सर्वशः ॥ २७२ ॥

(२७२) कालशाक, महाशल्क (एक प्रकार की मछली) गेडा तथा लाल वकरा, इनमे से किसी एक के मास से असह्य वर्ष पर्यन्त तथा मधु वा सपूर्ण मुन्यन्नो से भी असह्य वर्ष पर्यन्त तृप्त रहते हैं ।

यत्किञ्चिन्मधुना मिश्रं प्रदद्यात्तु त्रयोदशीम् ।

तदप्यक्षयमेव स्याद्वर्षासु च मघासु च ॥ २७३ ॥

(२७३) वर्षा ऋतु मे जिस त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र हो, उस दिन मीठी वस्तुओ को देने से अक्षय (नाश न होने वाला) फल होता है ।

अपि नः सकुने जायाद्यो नो दद्यःत्रयोदशीम् ।

पायसं मधुसर्पिभ्यां प्राक्छाये कुञ्जरस्य च ॥ २७४ ॥

(२७४) पितृ लोग यह अभिलाषा किया करते हैं कि हमारे कुल मे ऐसा पुरुष उत्पन्न होने जो भाद्रपद (भादो) कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि अथवा उस मास की किसी अन्य तिथि मे अपरान्ह (दोपहर पश्चात्) काल मे मधु और घी मिश्रित खीर देवे ।

यद्यद्ददाति विधिवत्सम्यक् श्रद्धासमन्वितः ।

तत्तत्पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम् ॥ २७५ ॥

(२७५) जो वस्तु यथाविधि उत्तम रीति से श्रद्धा सहित पितरो को दी जाती है उसका परलोक मे अनन्त फल होता है ।

विधासाशी मघेभित्य नित्य वामृत भाजन* ।

विमसो मुक्तशप तु यज्ञरोप तयामृतम् ॥२८५॥

(२८५) ❀ गाय क पश्चात् जो कुछ भोजन खेप रहे उसे श्राद्धकर्ता स्वयं खावे यह यज्ञ से शप रखा भोजन पवित्र करने वाला है ।

एतद्वोऽभिहित सर्वं विधान पाञ्चयाञ्चिकम् ।

द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधान भूयतामिति ॥२८६॥

(२८६) मनुजी कहते हैं कि हे ऋषि-वगो पञ्चमहायज्ञ की विधि कही अब ब्राह्मण की मुख्यवृत्ति (जीविना) को कहते हैं तिसको सुना ।

मनुजीके धर्मशास्त्र मनुजीकी संहिताका तृतीय अध्याय समाप्तहुया

चतुर्थोऽध्याय ।

चतुर्थमायुषो मागमुपिषाऽथ गुरौ द्विज* ।

द्वितीयमायुषो माग कृतदागो गृह पसत् ॥१॥

(१) घासी आयु का प्रथम भाग वराध्यायनाथ गुरुद्वय में व्यतीत करे । आयु क द्वितीय भाग में तन्मुखार कर्म करने क हेतु विवाह कर गृहस्थाश्रम में विभरे ।

अद्राहशैव भूतानामल्पद्राहण वा पुन ।

या वृत्तिर्था समास्थाय पिप्रो वीपदनापदि ॥२॥

❀ जो यज्ञ समाप्त कर भाजन करता है वह सदैव घामग्र लाभ करता है ।

(२) ब्राह्मण को अपनी वृत्ति ऐसी रखनी उचित है जिससे जीवो को नष्ट न हो । यदि यह असाध्य हो तो जिस कारण से अल्प कष्ट हो ऐसी विधि से कार्य करे ।

यात्रामात्रप्रसिद्धयर्थं स्वैः कर्मभिरगहितैः ।

अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम् ॥३॥

(३) शुभकर्मों तथा शरीर को क्लेश न पहुँचाने वाली विधि द्वारा अपने शरीर पोषण मात्र (उदर क्षुधा निवृत्त्यर्थं धन संचय करे ।

ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा ।

सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कदाचन ॥४॥

(४) ऋत, अमृत, मृत, ❀ प्रमृत तथा सत्य के ग्रहण और अनृत (असत्यभाषण) के परित्याग द्वारा जीवरक्षा करे ।

ऋतमुच्छ्रिशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम् ।

मृतं तु याचितं भैक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् ॥५॥

(५) उच्छ्रिशिल को ऋतु कहते हैं, अयाचन मिले उसे अमृत कहते हैं । याचना करने पर प्राप्त हो उसे मृत कहते हैं । कृषि को प्रमृत कहते हैं ।

सत्यानृतं तु चाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते ।

सेवा श्ववृत्त्याख्याता तस्मात्ता परिवर्जयेत् ॥६॥

(६) व्यापार का नाम सत्यानृत (सत्य तथा भूठ) है, सेवकाई को कुत्ता-वृत्ता कहते हैं । अतएव विपत्ति समय ब्राह्मण चाणिज्य को तो करले परन्तु सेवकाई कदापि न करे ।

❀ अन्य स्थल पर ब्राह्मण को कृषि करने का निषेध है तथा इस स्थल पर आज्ञा दी है अतएव यह श्लोक सशयात्मक है।

कृष्णपक्षे दशम्यादौ धर्जयित्वा चतुर्दशीम् ।

आद्ये प्रशस्तास्त्रिययो यथैता न तथेतरा ॥ २७६ ॥

(२७६) कृष्णपक्ष में दशमी से लेकर चतुर्दशी के प्रति रिक्त प्रमावस्था तिथि जैसी आद्य में उत्तम है वैसी प्रथम नहीं ।

धुनु बुध्निन्दनर्षोपु सर्वाङ्गमान्समरनुते ।

अधुनु तु पितृमर्वाप्रजा प्राप्नोति पुष्कलाम् ॥ २७७ ॥

(२७७) सम तिथि तथा सम मक्षत्र में आद्य करने से सम्पूर्ण कामना सिद्ध होती है या विषम तिथि तथा विषम मक्षत्र में आद्य करने से विद्वाम् तथा धनधाम् सन्सति होती है ।

यथा शैवापर पक्ष पूर्वपक्षादिशिष्यते ।

तथा भाद्रस्य पूर्वाहोऽपराहो विशिष्यते ॥ २७८ ॥

(२७८) जैसे शुक्लपक्ष से कृष्णपक्ष उत्तम है वैसे ही पूर्वम्हू कास से अपराम्हू कास आद्य में उत्तम है ।

प्राचीनाधीतिना सम्यगपसध्यमसद्विशा ।

पिण्यमानिघनास्कार्य विधिबद्धर्मपाशिता ॥ २७९ ॥

(२७९) दक्षिण कल्हे पर बनेक रक्तकर ग्रामस्य त्याग कृष्ण ग्रहण कर पितरो के धर्म वेद शास्त्रानुसार कर्म करे ।

राश्री भाद्र न हर्षीति राक्षसा कीर्तिता हि सा ।

सध्ययोरुमयाश्वेष सूर्ये शैवाधिगोऽस्त ॥ २८० ॥

(२८०) ऋरात्रि समय आद्य करना उचित नहीं क्योंकि

ऋरात्रि को नियम इस कारण कहा है कि उस समय मान्य (बुद्ध) लोग भूछे मर जावगे तथा उनको दारुण कष्ट होगा । यह यह राक्षसी बतलाया गया और महा पितृ से धर्म पिदा भाद्रि है ।

वह राक्षसी समय है। दोनों सन्ध्या के समय तथा प्रातःकाल तीन घड़ी पर्यन्त भी श्राद्ध करना वर्जित है।

अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्येह निर्वपेत् ।

हेमन्तग्राष्मवर्षासु पाञ्चयार्शिकमन्वहम् ॥२८१॥

(२८१) इस विधि से प्रत्येक वर्ष हेमन्त (जाड़ा), ग्रीष्म (गर्मी) वर्षा (बरसात) तीनों ऋतुओं में श्राद्ध करे तथा पञ्च-महायज्ञ तो नित्य ही करे।

न पैतृयज्ञियो होमो लौकिकेऽग्नौ विधीयते ।

न दर्शेन विना श्राद्धमाहिताग्नेर्द्विजन्मनः ॥२८२॥

(२८२) अग्निहोत्री का पितृ-यज्ञ सम्बन्धी हवन लौकिक अग्नि में नहीं होता तथा अमावस्या के अतिरिक्त अन्य तिथि में श्राद्ध नहीं होता।

यदेव तर्पयन्त्यद्भिः पितृन्स्नात्वा द्विजोत्तमः ।

तेनैव कृत्स्नमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम् ॥२८३॥

(२८३) पञ्च यज्ञ सम्बन्धी श्राद्ध न हो सके तो ब्राह्मण स्नान से निवृत्त हो जल द्वारा तर्पण करे। उसी से सब पितृ यज्ञ के फल को लाभ करते हैं।

वसन्त्वदन्ति तु पितृन्कृद्राश्चैव पितामहान् ।

प्रपितामहास्तथादित्याञ्छ्रुतिरेषा सनातनी ॥२८४॥

(२८४) पर सदैव सनातन से सुनते चले आये हैं कि पिता को वसु, पितामह (दादा) को रुद्र तथा प्रपितामह (परदादा) को आदित्य कहते हैं।

विषासाशौ मवेभित्य नित्य वामृत भोजन ।

विषसो मुक्तशय तु यज्ञशय तथामृतम् ॥२८५॥

(२८५) ❀ श्राद्ध के पश्चात् ओ ब्रुछ भोजन क्षेप रहे उसे श्राद्धकर्ता स्वयं खावे यह यज्ञ से शय रहा भोजन पवित्र करने वासा है ।

एतद्रोऽभिहितं सर्वं विधानं पाञ्चयाणिकम् ।

द्विजातिमुख्यपञ्चिनां विधानं भूयतामिति ॥२८६॥

(२८६) मृगुजी कहते हैं कि हे ऋषि-वर्गो पञ्चमहायज्ञ की विधि नहीं सब ब्राह्मण की मुख्यवृत्ति (जीविका) को कहते हैं तिसको सुनो ।

मनुजीके धर्मशास्त्र मृगुजीकी संहिताका तृतीय अध्याय समाप्तहुमा

चतुर्थोऽध्याय ।

चतुर्थमायुषा मागमुपिषाऽथ गुरौ द्विज* ।

द्वितीयमायुषा मागं कुतदागो गृह वसत् ॥१॥

(१) धरणी आयु का प्रथम भाग वेदाध्यायनाथ गुरुकुल में व्यतीत करे । आयु के द्वितीय भाग में तदनुसार कर्म करने के हेतु विवाह कर गृहस्थाश्रम में विचरे ।

अद्रोदेशैश्च भूतानामप्यद्रोहस्य वा पुन* ।

या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥२॥

❀ ओ यज्ञ समाप्त कर भोजन करता है वह सर्वत्र भ्रान्त्य साम करता है ।

(२) ब्राह्मण को अपनी वृत्ति ऐसी रखनी उचित है जिससे जीवो को नष्ट न हो । यदि यह असाध्य हो तो जिस कारण से अल्प कष्ट हो ऐसी विधि से कार्य करे ।

यात्रामात्रप्रसिद्धयर्थं स्वैः कर्मभिरगहितैः ।

अक्लेरोन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम् ॥३॥

(३) शुभकर्मों तथा शरीर को क्लेश न पहुँचाने वाली विधि द्वारा अपने शरीर पोषण मात्र (उदर क्षुधा निवृत्त्यर्थं धन संचय करे ।

ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा ।

सत्यानृताभ्यमपि वा न श्ववृत्त्या क्रदाचन ॥४॥

(४) ऋत, अमृत, मृत, ❀ प्रमृत तथा सत्य के ग्रहण और अनृत (असत्यभाषण) के परित्याग द्वारा जीवरक्षा करे ।

ऋतमुच्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम् ।

मृतं तु याचितं भैक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् ॥५॥

(५) उच्छशिल को ऋतु कहते हैं, अयाचन मिले उसे अमृत कहते हैं । याचना करने पर प्राप्त हो उसे मृत कहते हैं । कृषि को प्रमृत कहते हैं ।

सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते ।

सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥६॥

(६) व्यापार का नाम सत्यानृत (सत्य तथा झूठ) है, सेवकाई को कुत्ता-वृत्ता कहते हैं । अतएव विगति समय ब्राह्मण वाणिज्य को तो करले परन्तु सेवकाई कदापि न करे ।

❀ अन्य स्थल पर ब्राह्मण को कृषि करने का निषेध है तथा इस स्थल पर आज्ञा दी है अतएव यह श्लोक सशयात्मक है ।

कुशूलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा ।

अ्यहैहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥७॥

(७) नित्य नैमित्तिक धर्मादि क कर्ता को इतना प्रथम सभय करना उचित है जितना तीन वर्ष को मवेष्ट हो वा एक वर्ष वा एक दिन मितव्यय करे ।

चतुर्धामपि चैतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम् ।

ज्यायान्पर परो ह्यपो धर्मतो सौकृद्विषम ॥८॥

(८) चार प्रकार के ब्राह्मण ब्रह्मे गये हैं । उनमें से प्रथम से द्वितीय द्वितीय से तृतीय तथा तृतीय से चतुर्थ उत्तम है । वे धर्म द्वारा लोक को जीत सकते हैं ।

पट्कर्मको मवस्यपी त्रिभिरन्य प्रवर्षत ।

शाम्यामकरचतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥९॥

(९) इन चारों में १—प्रथम पटकर्म द्वारा जीवन निर्वाह करे २—द्वितीय तीन कर्म द्वारा ३—तृतीय दो कर्म द्वारा ४—चतुर्थ एक कर्म से शरीर रक्षा करे ।

वर्षयश्च शिलोष्क्षाम्यामग्निहोत्रपरायण ।

इष्टीपार्यायनान्तीया क्वला निर्वापेत्सदा ॥१०॥

(१०) शिम तथा उख से जीवन ध्यतीत करे अग्निहोत्र करे, तथा प्रमादस्या पौलमासी पत्नीनाम उत्पत्ति समय इन तीनों समयों में यज्ञ करे ।

न सौकृद्वर्ष वतैत इचिइतो कयश्चन ।

अधिष्ठात्तशठां शुद्धां जीवेव्प्राज्ञणजीविकम् ॥११॥

(११) अथ्य भाषण मनोरजम तथा निम्बा व इम्म द्वारा जीविका ग्रहण करना उचित नहीं । ब्राह्मण को छत तथा

मिथ्याभाषण द्वारा आजीविका परित्यागकर शुभतथा सृष्ट्यु-
पकार द्वारा जीविका प्राप्त करनी चाहिये ।

सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् ।

(सतोषमूलं हि सुखं) दुःखमूलं विपर्ययः ॥१२॥

(१२) इन्द्रियो के वश करने के हेतु सदैव मन मे सतोष धारण करे क्योंकि ससार मे सुख का मूल सन्तोष और दुःख का मूल असन्तोष वा अधैर्य्य है ।

अतोऽन्यमनया वृत्त्या जीवस्तु स्नातको द्विजः ।

स्वर्गायुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत् ॥१३॥

(१३) कथित वृत्तियो मे से किसी एक द्वारा कालयापन करे । वेदाध्ययन (सम्पूर्ण समाप्त करने पश्चात् इन्द्रियो को वश कर समावर्त्तन करे । स्वर्ग, आयु तथा यश के हेतु लाभदायक व्रत जो आगे कहेगे उसको करे ।

वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः ।

तद्धि कृर्वन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमांगतिम् ॥१४॥

(१४) आलस्य त्याग वेदानुकूल कर्म करे । तथा वेदज्ञान के अनुसार कार्य करने से अवश्य मुक्ति लाभ करे ।

नेहेतार्थान्प्रसंगेन न विरुद्धेन कर्मणा ।

न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्यामपि यतस्ततः ॥१५॥

(१५) गीत वाद्य (गाना बजाना), अयोग्य तथा अनधिकारी को यज्ञ कराना, इन कर्मों द्वारा कालक्षेप न करे । तथा जो मनुष्य पतित (अर्थात् अपने कर्ण से धर्मभ्रष्ट) हो गया है, उससे वनादि वस्तु ग्रहण न करे ।

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः ।

अतिप्रसक्तिं चैतेषां मनसा सनिवर्त्तयेत् ॥१६॥

(१६) इन्द्रिय मिग्रह (इन्द्रियों को बंध) कर उनकी प्रतिक्रिया भासक्ति को मन से बहिष्कृत कर दे ।

सर्वान्परिरयजेद्बान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः ।

यथातथाध्यायेयस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥१७॥

(१७) जिस धन द्वारा स्वाध्याय (वेदाध्ययन) में व्यतिक्रम हो उसका परित्याग कर दे । जिससे वेदाध्ययन में व्यतिक्रम न होवे ऐसी विधि से कार्य साधन करे ।

वयसः कर्मणोऽर्थस्य भूतस्यामिधनस्य च ।

वेपथाम्बुद्धिसारूप्यमाचरन्निचरेदिह ॥१८॥

(१८) आयु, कर्म धन सुनी हुई बात तीव्रण मायण तथा बुद्धि इन सब के अनुसार आचरणों से सत्कार में जीवन व्यतीत करे ।

बुद्धिबुद्धिकराध्यायु धन्यानि च हितानि च ।

नित्यं शास्त्राययवेद्येते निगमांश्चैव वैदिकान् ॥१९॥

(१९) बुद्धि तथा धन की बुद्धि करने वाले वैदिक (वेदाङ्ग आदि) तथा निगम क्षिप्तकारी वेदक शस्त्रविद्या (युद्ध विद्या) धर्मशास्त्र आदि विद्याओं का नित्य स्वाध्याय किया करे ।

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।

तथा यथा विद्यानाति विज्ञानं चास्परोचते ॥२०॥

(२०) मनुष्य शास्त्र में जैसे २ परिश्रम तथा धन्यास

करता है वैसे २ उसके अर्थ को समझता है ज्ञान को लाभ करता है ।

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥२१॥

(२१) यथा शक्ति नित्यकर्म (अर्थात् पञ्चमहायज्ञ का त्यागन न करे । पञ्च यज्ञ हैं—१—ब्रह्मयज्ञ, २—देवयज्ञ, ३—भूतयज्ञ, ४—पितृयज्ञ, तथा ५ अतिथि यज्ञ ।

एतान्के महायज्ञान्यज्ञशास्त्रविदो जनाः ।

अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेव जुह्वति ॥२२॥

(२२) जो मनुष्य यज्ञ शास्त्र के ज्ञाता हैं परच उन यज्ञो के करने की इच्छा नहीं करते वे सर्वदा इन्द्रियो मे हवन करते हैं ।

वाच्येके जुह्वति प्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा ।

वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिवृत्तिमक्षयाम् ॥२३॥

(२३) जो मनुष्य वाणी से उपदेश कर, तथा प्राणो से परोपकार मे परिश्रम कर इस अक्षय को सिद्ध करना चाहते हैं वह वाणी को प्राणो मे हवन करते हैं ।

ज्ञानेनैवापरे विप्रा यजन्त्येतैर्मखैः सदा ।

ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा ॥२४॥

(२४) प्रत्येक कर्म का मूल 'ज्ञान' है अतएव बुद्धिमान पुरुष ज्ञान दृष्टि से देख इन यज्ञो (मखो) का यजन (देवताओ की पूजा) करे ।

अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा ।

दर्शेन चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि ॥२५॥

(२५) सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर हवन करना प्रचलित है । पौषमासी तथा अमावस्या पर भी हवन करना उचित है ।

सस्यान्त नवसस्येष्ट्या तथर्त्नन्ते द्विजोऽध्वरै ।

पशुना स्वयनस्पाशौ समान्त सामिकैर्मसै ॥२६॥

(२६) नवीनास उत्पन्न होने के समय नवसस्येष्टि से हवन करे पशुस के अन्त में चातुर्मासिक यज्ञ दोनों अयनों में पशु द्वारा हवन करे तथा यप के अन्त में सोमयोग करे ।

नानिष्टवा तवसस्येष्ट्या पशुना चाग्निमान्द्विज ।

नवाभमघान्मासै वा दीर्घमायुर्द्विजोषिषु ॥२७॥

(२७) जो अग्निहोत्री ब्राह्मण दीर्घायु की इच्छा रखता है वह नवीन अन्न जब तक उससे यज्ञ न कर ले तथा पशु मांस जब तक उससे यज्ञ न करते दोनों का भोजन न करे ।

नयेनानर्षिता अस्य पशुहव्येन चाग्नय ।

प्राणानेषाऽद्युमिच्छन्ति नवान्नमिपगर्हिन ॥२८॥

(२८) जो अग्नि नवीनास तथा मांस से तृप्त नहीं होती है वह उस पुरुष के प्राण भक्षण करने की इच्छा करती है जो नवीनास और पशुमांस से यज्ञ न करके प्रथम प्राण भक्षण करने लगा है ।

भासनाशनशय्यामिरङ्गिर्मूत्तफलेन वा ।

नास्य कश्चिद्दसेवृगई शक्तिसोऽनर्षितोऽतिथि ॥२९॥

(२९) बैठने के हेतु भासन जाने हेतु भोजन सोने के हेतु शय्या जल फल तथा मूल आदि से अक्षय्यमुसार अतिथ्य पाये बिना किसी गृहस्थी के गृह पर कोई अतिथि न रहना चाहिये ।

पाखण्डनो विकर्मस्थावैडालवृत्तिकाञ्छठान् ।

हेतुकान्वकवृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नार्कयेत् ॥३०॥

(३०) यदि पाखण्ड, गहित, मास द्वारा उदर पोषण-कर्त्ता, विडालवृत्तिक, स्वऽध्याय न करने वाले, कुतर्की, यह सब अतिथि काल मे आजावे तो वाणी (वाक्) मात्र से भी उनका आतिथ्य न करे किन्तु भोजन अवश्य दे ।

वेदविद्याव्रतस्नाताञ्श्रोत्रियान्गृहमेधिनः ।

पूजयेद्ब्रह्मव्यक्रव्येन विपरीतांश्च वर्जयेत् ॥३१॥

(३१) गृहस्थ, वेद और वर्णों के आचरणी पुरुषों का पूजन हवन करे और भोजन योग्य पदार्थों से आतिथ्य-सत्कार करे, यदि वेद विरुद्ध आचरण व कर्म हो तो उसकी पूजा न करे

शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना ।

संविभागश्च भूतेभ्यः कर्तव्योऽनुपरोधतः ॥३२॥

(३२) जो ब्रह्मचारी वा सन्यासी आदि स्वयमपाकी नहीं है गृहस्थ अपने शक्त्यनुसार उनको भोजनादि दे तत्पश्चात् बालको से जो अन्न जल बचे वह अन्य जीवों को दे ।

राजतो धनमन्विच्छेत्संसीदन्स्नातकः क्षुधा ।

याज्यान्तेवामिनोर्वापि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥३३॥

(३३) यदि स्नातक गृहस्थ क्षुधा से अतीव पीडित हो तो राजा, यजमान, विद्यार्थी इन सब से धन लेवे अन्य से न लेवे यह शास्त्रमर्यादा है ।

न संसीदन्स्नातको विप्रः क्षुधा शक्तः कथंचन ।

न जीर्णमल्लवद्रासा भवेच्च विभवे सती ॥३४॥

(३४) जो गृहस्थ स्नातक तथा वैभवं सम्पन्न हो वह कुशा से कमी भी प्राशक्त (लम्बी हृदय) न हो । और शक्त रहते पीरग (पुराने) तथा मीमे वस्त्र धारण न करे ।

क्लृप्तकश्चनस्वरमधुर्दान्तः शुक्लाम्बरः शुचिः ।

स्वाध्याय चैव युक्तः स्वाभित्यमात्महितेषु च ॥३५॥

(३५) स्वाध्याय और शुभकर्मों में सदैव रत रहे तथा केश (सर के बाल) नख डाँठी कटाकर छोटे रखे श्वेत् वस्त्र धारण करे शुचि (पवित्र) रहे तथा आत्मा को इन्द्रियों के बन्धी मृत न होने दे वरन् इन्द्रियों को आत्मा का दास जाने ।

वैश्वर्षीं धारयेद्यष्टि सादकं च कमण्डलुम् ।

यज्ञोपवीत वेदं च शुभे रौक्मे च कुण्डले ॥३६॥

(३६) वेदाध्ययन के हेतु बास की साठी जिस से भरा कमण्डलु, यज्ञोपवीत तथा सोने के कुण्डलधारणार्थ सदैव अपने पास रखे ।

नक्षेत्रोद्यन्तमादित्य नास्त यान्त कदाचन ।

नोपसृष्ट च धारिस्त्वं न मध्यममसौ गतम् ॥३७॥

(३७) सूर्योदय सूर्यास्त मध्याह्न तथा अहण समय सूर्य का प्रतिबिम्ब जस में न देखे ।

न स्रष्टुष्यद्वत्सतन्त्रीं न प्रधावेष्थ वर्षति ।

न चोदक निरीक्षां स्व रूपमिति धारणा ॥३७॥

(३८) जस बरसते में न दीड़े जस में निज रूप न देखे बच बछड़े की तन्त्री (रस्ती परियाबा वा जेबड़ा) को साँधे शास्त्र में ऐसा लिखा है ।

मृदं गां दैवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथम् ।

प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातंश्च तनस्पतीन् ॥३६॥

(३६) कही जाता हो और सन्मुख मिट्टी, गऊ, देवता ब्राह्मण, घृत, मधु (शहद) चौराहा, प्रज्ञाता (जानी हुई) वन-स्पति मिले तो उनकी प्रदक्षिणा करके जाय अथवा उनको दाहिनी ओर करके जावे ।

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने ।

समानशयने चैव न शयीत तथा सह ॥४०॥

(४०) यद्यपि अधिक कामातुर होवे तो भी रजोदर्शन वाली स्त्री से रति कदापि न करे तथा उसके बराबर शय्या पर स्त्री के सहित न सोवे ।

रजसाभिप्लुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः ।

प्रज्ञा तेजोबलं चक्षुःशैव प्रहीयते ॥४१॥

(४१) जो पुष्प रजोदर्शन वाली स्त्री से भोग करता है उसकी बुद्धि, तेज बल, चक्षु तथा आयु यह सब क्षीण हो जाते हैं

तां विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिप्लुताम् ।

प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुःशैव प्रवर्धते ॥४२॥

(४२) जो पुष्प रजोदर्शन वाली स्त्री से भोग नहीं करता है उसकी तेज, बल, चक्षु तथा आयु इन सब की वृद्धि होती है ।

नाशनीयाद्धार्यया सार्धं नैनामीक्षते चाश्नतीम् ।

क्षुभतीं जृम्भमाणां वा न चासीनां यथासुखम् ॥४३॥

(४३) स्त्री के सहित एक पात्र में भोजन न करे, तथा धीकने भस्माई लेने तथा सुप्त से बैठने की रक्षा में न देखे ।

नाञ्जयन्तीं स्वके नत्र न चाभ्यस्कामनावृताम् ।

न पश्येत्प्रभवन्तीं च तेजस्कामी द्विजाधमः ॥४४॥

(४४) जो ब्राह्मण तेजवान होने की कामना रखते हैं वह स्त्री को सुग्गा वा उबटमादि सगाते वा मलम धमका प्रसवकास (वामक जनते) की रक्षा में न देखें ।

नाभ्यमघादक्यासा न नग्न स्नानमाचरेत् ।

न मूत्र पथि कुर्वीत न मस्मनि न गोमूत्र ॥४५॥

(४५) एक बस्त्र धारण कर भोजन न करे नग्न हो स्नान न करे पथ (रास्ता) भस्म तथा गोस्वाम पर मूत्र न त्यागे ।

न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वते ।

न स्त्रीशुद्धान्यायतनं न वस्त्रमीके फटाघन ॥४६॥

(४६) फुले सेन जल घग्नि चित्ता पर्वत वेवताश्री के शीर्ष (पुरान) मन्दिर वस्त्रमीक (छोटे २ कीड़ों द्वारा एकत्रित की हुई मिट्टी) इन सब पर भी कदापि मलमूत्र त्याग न करे ।

न समस्थपु न गच्छन्नापि च स्थितः ।

न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तक ॥४७॥

(४७) लडे होकर चलते दृष्टे उस गढे में जिसमें जीव रहते हो नदीतट तथा पर्वत की चोटी पर भी मलमूत्र न करे ।

वाय्वग्निधिप्रमादित्यमपः पश्यस्तथैव गा ।

न कणाघन कुर्वीत विसमूत्रस्य विसर्जणम् ॥४८॥

(४८) वायु, अग्नि, सूर्य, जल, ब्राह्मण, गऊ इन सबको देखते हुये भी मल वा मूत्र न त्यागे ।

तिरस्कृत्योच्चरेत्काष्ठलोष्ठपत्रदृशादिना ।

नियम्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोऽवगुण्ठितः ॥४९॥

(४९) सूखेपत्ते, घास फूस, काष्ठ (काठ) आदि से पृथिवी को छुपाकर तथा शीश या अन्य अगो को वस्त्राच्छादित (कपड़े से ढक) कर मौन धारण कर मल व मूत्र विसर्जन करे ।

मूत्रोच्चारसमुत्सर्गं दिवा कुर्यादुदङ्मुखः ।

दक्षिणाभिमुखो रात्रौ संध्ययोश्च तथा दिवा ॥५०॥

(५०) दिवश, प्रात तथा साय को उत्तराभिमुख हो (उत्तर दिशा को मुख कर) तथा रात्रि को दक्षिणाभिमुख हो मल व मूत्र विसर्जन करे ।

छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वां द्विजः ।

यथासुखमुखः कुर्यात्प्राणवाधाभयेषु च ॥५१॥

(५१ छाया, अन्धकार (अंधेरे) प्राणवाधा (प्राणो को कष्ट हो) तथा भय मे रात्रि हो वा दिन जिस ओर मुख करने से सुख प्राप्त हो उस ओर ही मुह करके मल व मूत्र त्याग करे ।

प्रत्यग्निं प्रतिस्वर्यं च प्रतिसोमोदकद्विजान् ।

ग्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२॥

(५२) अग्नि, सूर्य, सोम, जल, ब्राह्मण, गऊ, वायु के प्रति मुख करके मल व मूत्र त्याग करने से प्रज्ञा (बुद्धि) नष्ट हो जाती है ।

नार्ग्निं मुखेनोपघमेभ्रग्नां नेक्षेत स्त्रियम् ।

नामेभ्य प्रक्षितवेद्गनी न च पादौ प्रतापयेत् ॥५३॥

(५३) ❀ अग्नि को मुखसे न फूकना अग्नि में अपवित्र वस्तु न डालना अग्नि में पाव को न तपाना तथा नग्न स्त्री को न देखना चाहिये ।

अधस्तान्नोपदध्याञ्च न चैनमभिषयेत् ।

न चैन पादतः कुर्यात्प्रणयवचमाधरेत् ॥५४॥

(५४) अग्नि को क्षय्या (भारपाई) के मोचे न रखे अग्नि न मोचे अग्नि को पाव से स्पर्श न करे तथा प्राणों को कष्ट न दे ।

नारनीयारसधिवेद्यायां न गच्छन्मनापि संविशेत् ।

न चैन प्रक्षिन्वद्भूमिं नात्मनोपहरेत्स्रजम् ॥५५॥

(५५) सवि वेसा (प्रातः तथा साय) में भोजन न करे न धसे तथा न सोचे भूमि पर रेखायें (भकीर) न खींचे तथा जो फूलमाता अपने शरीर में धारण किंये हूँ उसे प्राण न उतारे अथ्य से उतरना न ।

नाप्सु मूत्रपुरीष वा न श्लोचनं न समुरसृजत् ।

अमृष्यत्तिप्तमन्यदा स्नाहित वा विपाश्वि वा ॥५६॥

(५६) मम मूत्र उत्सार (बूक) अपवित्र वस्तु स्नान, तथा विष इन सब को जल में विस्फुजित वा प्रवाहित न करे ।

नैकः सुध्याञ्चद्रूपगह भर्गाम न प्रवोचयत् ।

नोदकयथाभिमाणत यज्ञं गच्छन्म चाऽपृत् ॥५७॥

❀ अग्नि को मुख से फूकने से शिरोवेदना और अपवित्र वस्तुयें जमाने से वायु दूषित हो जाती है ।

(५७) शून्य गृह मे एकाकी न सोवे, अपने से विद्यादि मे उच्च व श्रेष्ठपुरुष यदि सोता हो तो न जगावे मासिक धर्म वाली स्त्री से सम्भाषण न करे तथा विना निमन्त्रण पाये यज्ञ मे न जावे ।

अग्न्यागारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च सन्निधौ ।

स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत् ॥५८॥

(५८) क्षग्निगृह, गोस्थान (सार), ब्राह्मण के समीप स्वाध्याय मे तथा भोजन मे दाहिना हाथ निकालना चाहिये ।

न वारयेद्गां धावन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित् ।

न दिवीन्द्रायुधं दृष्ट्वा कस्यचिद्दर्शयेद्बुधः ॥५९॥

(५९) दुग्ध वा जल पीती हुई गऊ को कसे भी न हटावे, और इन्द्र धनुष के दर्शन कर किसी को न दिखावे ।

नाधार्मिके वसेद्ग्रामे नव्याधिवहुले भृशम् ।

नैकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वत वसेत् ॥६०॥

(६०) अधर्मी ग्राम (जो गाव धर्म रहित हो) मे न वसे तथा व्याधिग्रस्त ग्राम (गाव) मे भी न रहे, एकाकी परिभ्रमण न करे (राह न चले), विरकाल पर्यन्त पर्वत पर न वसे ।

न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधर्मि ऋजनावृते ।

न पाखण्डिगणाक्रांते नोपसृष्टेऽन्त्यजैर्नृभिः ॥६१॥

(६१) जिस गाव मे शूद्र का राज्य हो वा ग्राम अधर्मी पाखण्डी, चाण्डाल मनुष्य के उपद्रव द्वारा पीडित हो उसमे न रहे

न भुञ्जीतोद्धृतस्नेहं नातिसौहित्यमाचरेत् ।

नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ॥६२॥

(६२) जिस वस्तु से तेम निकाल लिया गया हो उसे भक्षण न करे प्रातः काल व सन्ध्या समय भोजन न करे तथा यदि प्रातः समय अधिक भोजन कर लिया हो तो सायंकाल को भोजन न करे ।

न कुर्वीत वृथा चेटां न वार्यञ्जलिना पिबेत् ।

नोत्तमगे मन्मथमूचयास्रं चातु स्यात्कुतूहली ॥६३॥

(६३) जिस प्रकार से इहलोक तथा परलोक में कुछ लाभ न हो उसको न करे मन्मथसि (बुल्लू) जल न पीवे जाय पर सड़क आदि रस्त कर भक्षण न करे तथा बिना अभिप्राय किसी भेद के जानने की चेष्टा न करे ।

न नृत्येदथवा गायक्यं वादिवायि वाद्यत् ।

नाम्फाटयश्च च न्वेडश्च च रक्तो मिरावयेत् ॥६४॥

(६४) नृत्य गीत वाद्य गीत ठोकना कटकना हास्य गथा आदि के स्वर की प्रतिध्वनि (बालो वासना) इन सब कायो से घृणा करे ।

न पात्रो धान्यवर्षास्यै रुद्राचिदपि भोजन ।

न भिन्नभाण्डे सुञ्जीते न भावप्रतिदूषिते ॥६५॥

(६५) रामा व पात्र म पाव क्तापि न भोये दूरे हुये वा दूषित पात्र म जिमम विन विम होता हो वा अमिच्छा हा भोजन न करे ।

उपानहा पागञ्च घृतमर्नं धारयत् ।

उपवीतमपलहारं स्रजं करकमप्य च ॥६६॥

(६६) इना एतरो उपवीत (जनेऊ) धाम्पण,

फूलमाला, कमण्डलु, वस्त्र, इन सबको यदि किसी ने धारण किया हो तो आप धारण न करे ।

नाविनीतैत्रं जेद्यु ग्यैर्नचक्षुद्भ्याधिपीडितैः ।

न भिन्नशृङ्गाक्षिखुरैर्न बालधिविरूपितैः ॥ ६७ ॥

(६७) जिस रथ में ऐसा बैल जुता हो जिसे रथ में न सिखाया गया हो वा क्षुब्ध पीडित, प्यासा, रोगी व जिसके सींग श्रांख खुर तथा पूँछ खण्डित हो गये हो ऐसे रथ पर न बैठे ।

विनीतैस्तु ब्रजेन्नित्यमाशुर्गैर्लक्षणांनितैः ।

वर्णरूपोपसंपन्नैः प्रतोदेनातुदन्भृशम् ॥ ६८ ॥

(६८) जिस रथ में ऐसे बैल जुते हो जिनको रथ में चलना सिखाया गया हो तथा लक्षण, रूप-रङ्ग जिसका उत्तम हो, उम रथ पर चढ़े पशुओं को पने से न मारे ।

बालातपः प्रेतधूमा वर्ज्यं भिन्नं तथासनम् ।

न छिन्द्यान्नखलोमानि दन्तैर्नोत्पाटयेन्नखान् ॥ ६९ ॥

(६९) प्रातः समय तीन घड़ी पयन्त सूर्य की घूप, जलते शव का धुआ, दूटा आसन, इन सब में दूर (विलग) रहे, लोम तथा नाखून न तोचे तथा नखों को दातों से न काटे ।

न मृन्लोष्ठं च मृद्नीयाच्च छिन्द्यात्करजैस्त्वृणम् ।

न कर्मनिष्फलं कुर्याच्चायत्यागसुखोदयम् ॥ ७० ॥

(७०) मिट्टी तथा ढेले को गर्दन न करे, नख से तृण (तिनका) न तोड़े, व्यर्थ तथा निष्फल कार्य न करे, तथा जिस वाय के करने से सुख न होवे उस कार्य को न करे ।

लोष्ठमर्दां तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः ।

स विनाशं ब्रजत्याशु स्रचकोऽशुचिरेव च ॥ ७१ ॥

(७१) दूसा मर्दन करने वासा तृण तोड़ने वासा दाँतों से मल काटने वासा अपवित्र रहने वासा, धुमसी करने वासा शीघ्र नाश हो जाता है क्योंकि यह सब दसायें विन्ना तथा धर्म की हैं ।

न विगर्ह्यकष्यां कुर्याद्विद्विमास्य न धारमेत् ।

गर्वा च यान पृष्ठेन सर्वथैव विगर्हितम् ॥७२॥

(७२) सोकरीति वा बवरीति मे चित्त मगा कर कषा बार्ता न कहे बालों में मासा न धारण करे बेल की पीठ पर चढ़कर न चले यह सब कार्य वर्जित है ।

अद्दारेण च नात्तीयाद्ग्राम वा वेश्म वापृत्तम् ।

रात्री च वृषमृच्छानि दृशत परिवर्जयत ॥७३॥

(७३) गाँव वा घर यह दोनों धारो और से धिरे हुए होने तो द्वार छोड़ और धोर से लाम (फाँव) कर उसके भीतर न जावे तथा रात्रि समय वृष की जब मे न रहे ।

नात्तौ मीदेत्कदाचिच्च स्वय नोपानद्दौ इत्त ।

शामनस्यो न भुञ्जीत न पाण्डिस्थ न चासन ॥७४॥

(७४) पाँसा न लेने अपना बूटा पाबो के प्रतिरिक्त हाथों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जावे सय्या पर बैठ कर और अधिक धन को हाथ में ग्रहण कर उसमे से थोडा-थोडा निकाल कर तथा घासम पर भोजन-पात्र को रखकर भोजन न करे ।

सर्वथ तिलमण्ड नाद्यादस्तमिते रषी ।

न च नग्न शयीतेह न चोच्छिष्टाः कश्चिद्भजत् ॥७५॥

(७५) रात्रि मे तिलमिश्रित वस्तु न खावे, नग्न न सोवे
लूठे मुह कही न जाये ।

आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत नाद्रपादस्तु संविशेत् ।

आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात् ॥७६॥

(७६) गीले पाव करके भोजन करना उत्तम है परन्तु
गीले पाव सोना वर्जित है । जो मनुष्य पाव धोकर भोजन करता
है वह दीर्घजीवी होता है ।

अचक्षुर्किपयं दुर्गं न प्रपद्येत कर्हिचित् ।

न विण्मूत्रमुपीक्षेत् न बाहुभ्यां नदीं तरेत् ॥७७॥

(७७) ❀ जो देश आखो से नहीं देखा वा जिस देश
मे मृत्यु भय है, उस देश व स्थान पर कभी न जावे, तथा अपने
मल व मूत्र को न देखे तथा नदी को बाहुओ (हाथो)
से न तरे ।

अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न भस्मास्थिकपालिकाः ।

न कार्पासास्थि न तुपान्दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥७८॥

(७८) दीर्घायु का इक्लुक पुरुष वाल, राख, हड्डी, मिट्टी
के छिन्न पात्रो के टुकडे, विनीले तथा भूसे पर खडा न रहे ।

न मंवेच्च पतितैर्न चण्डालैर्न पुञ्कसैः ।

न मूर्खैर्नावलिप्तैश्च नान्त्यैर्नान्त्यावसायिभिः ॥७९॥

(७९) दूसरे ग्रामवासी पुरुष जो पतित, चाण्डाल,

❀ ७७ वा श्लोक सम्मिलित किया गया है, इससे दूसरे
देशो मे जाना वर्जित है क्योकि एक बार जाये बिना कोई आखो
द्वारा नहीं देख सकता ।

पुष्कस घनगवित मूर्ख घोवी प्रादि तथा भ्रत्य बसायी हों
उनके ससर्ग (साध) में एक वृक्ष की छाया में न रहे ।

न शूद्राय मतिं दद्यान्नाच्छिष्टं न द्विष्कृतम् ।

न चास्योपनिशोद्धर्मन चास्य व्रतमादिशत् ॥८०॥

(८०) शूद्रा को निम्न सम्पत्ति न दे दास के प्रतिरिक्त
अन्य शूद्र को जूठा अन्न न दे जो ह्य्य हवन करने पश्चात्
शेष रहा है, वह शूद्र को न दे तथा धर्म व व्रत का उपदेश शूद्र
को न दे ।

यो अस्य धर्ममाचष्टे यश्चैव शिशुति व्रतम् ।

सोऽसृष्टत नाम तम सह तेनैव मञ्जति ॥८१॥

(८१) × जो पुरुष शूद्र को धर्म तथा व्रतोपदेश करता
है वह उस शूद्र सहित असृष्टत नाम मरक को प्राप्त होता है ।

न सहसाम्यां पाण्डिभ्यां कण्डूयदा मन शिरः ।

न स्पृशाच्चैतदुच्छिष्टो न च स्नायाद्दिना तप्त ॥८२॥

(८२) बद्ध करो से शिर म सुवसाय न जूठ हाथो से
शिर स्पर्श करे तथा शिर को छोड़ कण्ठ से स्नान न करे अर्थात्
शिर से पाव पर्यन्त स्नान करे ।

केशप्रहान्प्रहाराश्च शिरस्प्रसान्निभञ्जयेत् ।

शिरस्स्नातश्च तैस्तेन नाङ्ग किञ्चिदपि स्पृशेत् ॥८३॥

× ८१ वा श्लोक पौराणिक कास में सम्मिलित किया
गया है । जब शूद्रो को विद्याध्ययन वञ्चित कर उनको धर्मोपदेश
से विलग रहना प ।

(८३) क्रोधवश अपने व दूमरे के सिर में न मारे, केश (बालों को) न खींचे, यदि सिर में तेल लगा भ्रान्त करे तो अन्य श्रद्धों में तेल न लगावे ।

न राज्ञः प्रतिगृह्णयादराजन्यप्रसूतितः ।

सूनाचक्रध्वजवतां वेश्येनैव च जीवताम् ॥ ८४ ॥

(८४) जो राजा क्षत्रिय न हो तथा कसाई, तेली, कलाल वा ऐसे स्त्री पुरुष जो वेश्या बन कर जीवन व्यतीत करते हों, इनसे ब्राह्मण दान न लेवे ।

दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः ।

दशध्वजसमो वेश्या दशवेश्यासमो नृपः ॥ ८५ ॥

(८५) दश सूना (कसाई) के समान तेली, दश चक्र (तेली) के समान कलाल, दश ध्वज (कलाल) के समान वेश्या तथा दश वेश्याओं के समान राजा है ।

दश सूनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः ।

तेन तुल्यः स्मृतो राजा धोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ ८६ ॥

(८६) जो सौनिक (कसाई) अपने अर्थ दशसहस्र जीव हनन करता है उसके तुल्य वह राजा है, इस राजा का प्रतिग्रह घोर (सख्त) है ।

या राज्ञः प्रतिगृह्णाति लुब्धस्योच्छ्रास्त्रवर्तिनः ।

स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकविंशतिम् ॥ ८७ ॥

(८७) जो राजा लोभी व शास्त्र प्रतिकूल आचरण वाला है उससे जो कोई दान ग्रहण करता है वह यथाक्रम २१ प्रकार के नरकों (जो आगे कहेंगे) में जाता है ।

तमिस्रमन्वतामिस्र महारौरवरौरवी ।

नरक कालसूत्र च महानरकमव च ॥ ८८ ॥

(८८) १—तामिस्र २—मन्वतामिस्र ३—महारौरव
४—रौरव ५—नरक ६—कालसूत्र ७—महानरक + ।

मञ्जीवन महावीचि तपन सप्रतापनम् ।

सपात च सकाकोल कुडमल प्रतिमूर्धिकम् ॥ ८९ ॥

(८९) ८—मञ्जीवन ९—महावीचि × १—तपन ११—प्रतापन,
१२—सपात १३—काकोल १४—कुडमल १५—प्रति मूर्ति ।

सोहसकुञ्जीय च पन्थान शास्मसी नदीम् ।

असिपत्रवन चैव सोहदारकमेव च ॥ ९० ॥

(९०) १६—सोहसकु १७—कुञ्जीय १८—पन्थाना १९—शास्म
सीनदी २०—असिपत्रवन २१—सोहदारक ।

एतद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिन ।

न राम प्रतिगृह्णन्ति प्रेत्य अयोऽमिकांधियाः ॥ ९१ ॥

(९१) नरक-पञ्चाशाता परसोक में कल्याण के इच्छुक
वेद स्वाध्यायी जो ब्राह्मण हैं वह राम से दान नहीं लेते ।

⊛ अज्ञान वसा में महाजड़ हो जाना कष्ट, इच्छा होना और
उसकी पूर्ति न होना इन दुस्रो का नाम नरक है ।

+ यहिहत जीवन व्यतीत करना अति विषयी होना मिरने
से कष्ट पाना अग्नि में जल जाना सपात (चोट) पाना पुषमृत्यु,
मीन जाति में उत्पन्न होना आदि महानरक है ।

× यह भी विविध प्रकार के कष्टों के नाम हैं ।

ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् ।

कायक्लेशांश्च तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ ६२ ॥

(६२) ब्राह्म मुहूर्त्त (चार घडी रात्रि रहे) मे उठ कर धर्म और सुख के साधन का विचार करे, कायक्लेशो का मूल धर्म तथा अर्थ और वेद के तत्त्वार्थ अर्थात् ब्रह्मज्ञान का भी ध्यान करे ।

उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः ।

पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम् ॥ ६३ ॥

(६३) तत्पश्चात् शय्या त्याग कर आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर निश्चिन्तता से स्नान करे । प्रात तथा साय दोनो समय की सत्या मे चिरकाल पर्यन्त जप करता रहे ।

ऋपयो दीर्घसंध्यत्वाद्दीर्घमायुरवाप्नुयुः ।

प्रज्ञायशश्च कीर्त्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥ ६४ ॥

(६४) चिरकाल पर्यन्त सन्ध्या, जप तथा प्राणायाम करने से ऋषि लोगो ने बुद्धि, विद्या, यग, कीर्त्ति तथा ब्रह्मतेज को प्राप्त किया है ।

श्रावण्यां प्रौष्ठपद्मां वाऽप्युपाकृत्य यथाविधि ।

युक्तश्छन्दांस्यधीयीत मासान्विप्रोऽर्धपंचमान् ॥ ६५ ॥

(६५) श्रावणा वा भाद्रपद मास मे यथाविधि विचार सहित साढे चार मास पर्यन्त छन्दयुक्त वेदपाठ करता रहे ।

पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्विहित्सर्जनं द्विजः ।

माघशुक्लस्य वा प्राप्तं पूर्वाह्णे प्रथमेऽहनि ॥ ६६ ॥

(६६) साढे चार मास पश्चात् पुष्य नक्षत्र मे ग्राम के बारह जाकर छन्द का त्याग करे, और श्रावणा व भाद्रो मे

को उपाकर्म किया हो उसको म ष मुक्त प्रतिपदा में पूर्वह् काल (दोपहर से प्रथम उत्सर्जन करे ।

यथशास्त्रं तु कृत्वैयमुत्सर्गं छन्दानां षडि ।

विरमेत्यक्षर्यां रात्रिं तदेवैकमहर्निशम् ॥ ६७ ॥

(६७) साडे चार मास पर्यन्त वेदपाठ करना इस कारण सिखा है कि वर्षा के कारण अन्य काय नहीं हो सकते हैं । उन दिनों में केवल वेद पाठ ही करना चाहिये अन्यथा अन्य काय यथाविधि करमे चाहिये ।

अथ ऊर्ध्वं तु छन्दांसि शुक्लेषु नियतं पठेत् ।

वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्यपक्षेषु सपठेत् ॥ ६८ ॥

(६८) उत्पश्चात् शुक्ल पक्ष में वेद तथा कृष्ण पक्ष में शारङ्गों का पाठ करे ।

नाविस्पष्टमधीयीत न शङ्खजनसन्धिषी ।

न निशति परिभ्रान्तो ब्रह्माधीग्य पुनः स्वदेत् ॥६९॥

(६९) पाठ में स्पष्ट शब्द और स्वर सहित पठे सूत्र के समीप पाठ न करे और यदि रात्रि के आधे पहर में वेदपाठ से [अमित हो जाये तो सोचे नहीं ।

यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत् ।

ब्रह्मछन्दस्कृतं चैव द्विस्रो युक्तोद्यनापदि ॥१००॥

(१००) यथोक्त विधि से नित्य वेद के दोनों भाग अर्थात् छन्द और ब्राह्मण का पाठ करे ।

इमाभित्यमदभ्यायानधीयानि विवर्जयेत् ।

अभ्यापनं च कृत्वाः शिष्याणां विधिपूर्वकम् ॥१०१॥

(१०१) आगे जो अनध्याय कहेंगे उनमें गुरु व शिष्य दोनों वेदपाठ न करें तथा वेद न पढावे ।

कर्णश्रवेऽनिले रात्रौ दिवा पांसुसमूहने ।

एतौ वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥१०२॥

(१०२) रात्रि के समय कान में वायु शनसनाती हो वा दिन में धूल बढ़ती हो तो वर्षा ऋतु में उसी दिन अनध्याय जाने, ऐसा अनध्याय ज्ञाताओं ने कहा है ।

विद्युत्स्तानतवर्षेषु महोल्कानां च संप्लवे ।

आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुर्व्रवीत् ॥१०३॥

(१०३) विद्युत् (विजली) का चमकना, गरजना, वर्षा होने में विजली का दूटना, ऐसे समय में दूसरे दिवस उसी समय तक अनध्याय है ।

एतांस्त्वभ्युदितान्विद्याद्यदा प्रादुष्कृताग्निषु ।

तदा विद्यादनध्यायमृतौ चाभ्रदर्शने ॥१०४॥

(१०४) विद्युत् (विजली) का चमकना, गरजना, जल-वर्षा, यह यदि तीनों सन्ध्या के समय हो. तो वर्षा ऋतु में अनध्याय जानना । परन्तु सदैव अनध्याय न जाने क्योंकि वर्षा ऋतु में तो यह सब होते ही हैं । और यदि अन्य ऋतु में मेघ दिखाई देवें तो भी अनध्यय समझे ।

निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने ।

एतनाकालिकान्विद्यादनध्यायानृतावपि ॥१०५॥

(१०५) आकाश में उत्पात का शब्द हो, भूचाल, चंद्रमा, सूर्य व नक्षत्रों का उपद्रव हो, यह सब जिस समय हो दूसरे दिवस उसी समय तक अनध्याय जाने ।

प्रादुष्कृतेष्वग्निषु तु विद्युत्स्तानित निःस्वने ।

सन्त्योति स्यादनध्याय शोभे रात्रौ यथा दिवा ॥१०६॥

(१६) प्रातः काल के हवन के अर्घ्य काष्ट के सघर्षण से अग्नि उत्पन्न होने के समय बिजली का चमकना तथा मेघ-भार्जन हो परन्तु वर्षा न होवे तो केवल दिवस भर अनध्याय समझे । यदि यही सीमा बात सम्भ्या हवन समय हो तो केवल रात्रि भर अनध्याय समझे ।

नित्यानध्याय एष स्याद्ग्रामेषु नगरेषु च ।

घर्मेनैषुख्यकामानां पूतिगन्धे च सर्वदा ॥१०७॥

(१०७) जो पुरुष धर्म की पूर्ण कामना रखता हो वह चाहे ग्राम हो वा नगर हो जिस समय बुर्गन्धि फैली हो उस समय अनध्याय करावे ।

एन्तर्गतशब्दे ग्रामे शूपक्षस्य च सभिर्नौ ।

अनध्यायो रुधमाने समवाये जनस्य च ॥१०८॥

(१०८) जब तक गाव में शव पड़ा रहे तब तक अशर्मि के समीप रोवम समय तथा अन्य कार्याजें अन समुदाय में अनध्याय जाते ।

उदक मध्यरात्रौ च विश्वमूत्रस्य विसर्जने ।

उच्छिष्टं श्राद्धसुकृच्चैव मनमापि न चिन्तयेत् ॥१०९॥

(१०९) जल में अर्द्ध रात्रि में मूत्र व मूत्र विसर्जन करते समय चिन्त में भी वेद का ध्यान न आने कूठे मुह तथा श्राद्ध भोजन करके स्त्री स्वाध्याय न करे ।

प्रतिशृष्य द्विजो विद्वानेकोद्विष्टस्य केसनम् ।

अ्यह न कीर्तयद्मया राक्षो राहोरुच सूतके ॥११०॥

(११०) + एकोदिष्टश्राद्ध का निमन्त्रण, ग्रहण करके निमन्त्रित दिवस से तीन दिवस पर्यन्त वेद पाठ न करे तथा राजा के सूतक में व चन्द्र मूर्य्य ग्रहण में भी वेद पाठ न करे ।

यावदेकानुदिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति ।

विप्रस्य विदुषो देहे तावद्ब्रह्म न कीर्तयेत् ॥१११॥

(१११) जब तक एकोदिष्टश्राद्ध का गन्धलेप शरीर में रहे तब तक वेद पाठ न करे ।

शसानः प्रौढपादश्च कृत्वा चैवावसक्थिकाम् ।

नाधीयीतामिपं जगध्वा सूतकान्नद्यमेव च ॥११२॥

(११२) × मास व सूतक का अन्न, दोनों में से किसी एक का अन्न, भोजन करके सोते हुए, आसन पर पाव रखे तथा दोनों टिहनो (घुट्ट) को नीचे किये हुए वेदपाठ करे ।

नीहारे वाणशब्दे च संध्ययोरेव चोभयोः ।

अमावस्याचतुर्दश्योः पौर्णमास्यष्टकासु च ॥११३॥

(११३) कुहरा पडते समय वाण-शब्द, दोनों सध्या, अमावस्या, चतुर्दशी, पौर्णमासी, अष्टमी, इन सब में स्वाध्याय (वेदपाठ) न करे ।

अमावस्या गुरुं हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी ।

ब्रह्माष्टकापौर्णमास्यौ तस्मात्ताः परिवर्जयेत् ॥११४॥

+ एकादिष्टश्राद्ध को ऐसा गृहित बतलाया गया है कि सउकी गधमात्र शरीर में आने से वेदपाठ का अधिकार नहीं है ।

× मास भक्षी को वेदपाठ का अधिकार नहीं है, अतः मास भक्षण का निषेध ज्ञात होता है ।

धृग्वेशो देवदैवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः ।

सामवेद स्मृतः पितृभ्यस्तस्मात्साम्याऽऽशुचिर्ध्वनिः ॥१२४॥

(१२४) + धृग्वेद के देवता देव हैं, यजुर्वेद के देवता मनुष्य हैं तथा सामवेद के देवता पितर हैं । इस कारण सामवेद का शब्द पवित्र नहीं है ।

एतद्विदन्तो विद्वांसस्यीनिर्कर्मन्वदम् ।

क्रमतः पूर्वमभ्यस्य परवाद्देदमधीयत ॥१२५॥

(१२५) ब्रह्मविद्या की रीति के ज्ञाता जो पुरुष हैं वह प्रथम मायत्री तथा ॐ का जाप करते हैं और उसके बाद बुद्धि स्थिर हो जाने तक वेद पाठ करे ।

पशुमयङ्कमात्ररिश्वसर्पनकुन्तासुभिः ।

अन्तरागमने विद्यान्ध्यायमहर्निशम् ॥१२६॥

(१२६) पशु मेढक बिस्ती कुत्ता साँप मेढसा बूढ़ा इन सब में से कोई यदि गुठ और विष्य के मध्य से निकल जावे तो एक रात्रि अन्ध्याय करना ।

द्वाषेध धर्जसन्धित्यमनध्यायो प्रयत्नत ।

स्वाध्यायभूमिं चाशुद्धमात्मानं चाशुचिं द्विज ॥१२७॥

(१२७) पाठशाला की भूमि या अथवा शरीर अपवित्र होने लगे तो भी वेद पाठ न करे । इन दोनों अन्ध्यायो में पठना मत्न से त्याग करे ।

+ इस श्लोक का अर्थ वेद बिरह है वेदों में सामवेद सर्वोत्तम माना गया है । यह गगना पौराणिक सप्तमात्मक समय में सम्मिलित की गई है जिसे सिलको ने अपने धाराम के लिए नियत किया है ।

नोट—अन्ध्याय भी बिना फल प्राप्त होते हैं ।

अमावस्यामाष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् ।

ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्यृतो स्नातको द्विजः ॥१२८॥

(१२८) ब्राह्मण स्नातक ऋतुकाल मे भी अमावस्या, अष्टमी, पूर्णमासी, चतुर्दशी को स्त्री सम्भोग क करे ।

न स्नानमाचरेद्भुक्त्वा नातुरो न महानिशि ।

न वासोभिः सहाजस्रं नाऽविज्ञाते जलाशये ॥१२९॥

(१२९) भोजन करने के पश्चात् व आतुर हो तो स्नान न करे, वस्त्र पहने हुए भी वार-वार स्नान न करे । अर्द्ध रात्रिको या विना जाने जल-स्थान मे भी स्नान न करे ।

देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा ।

नाक्रामेत्कामतश्छायां वभ्रुणो दीक्षितस्य च ॥१३०॥

(१३०) देवता, गुरु, राजा, स्नातक, आचार्य, कपिल वर्ण, जो पुरुष यज्ञ करने को हैं इनमे से किसी की छाया को इच्छा से न लावे ।

मध्यंदिनेऽर्धरात्रे च श्राद्धं भुक्त्वा च सामिपम् ।

संध्ययोरुभयोश्चैव न सेवेत चतुष्पथम् ॥१३१॥

(१३१) मध्यदिन, अर्द्धरात्रि, साय, प्रात समय, श्राद्ध मास भोजन कर चौराहे पर न जावे ।

उद्वर्तनमपस्नानं विण्मूत्रे रक्तमेव च ।

श्लेष्मनिष्कृतवान्तानि नाधितिष्ठेत्तु कामतः ॥१३२॥

(१३२) उद्वटन की लोभी पर स्नान करने से जो पानी पृथिवी पर गिरे उस पर, मलमूत्र, रुधिर, खखार, थूक, वमन (कै), इन सब पर भी खडा न होवे ।

(११४) धमावस्था गृह को चतुर्विंशो विष्य को घटमी व पूर्णमासी वेद को नाश करती है, इस कारण इन दिवसों में वेद पाठ न करे ।

पांसुवर्षे दिशां दाहं गोमायुविरुत्ते तथा ।

स्वस्वगोष्ट्रे च रुषति पृह्क्तौ च न पठेद्विज्ज ॥११५॥

(११५) जिस समय घूस उड़ती हो किसी घोर अग्नि लगी हो सियारमी व फुल्ला व गधा व ऊँट ये सब रोने का सा शब्द करते हो तथा पक्ति में वेदपाठ न करें ।

नापीयीत रमशानान्ते ग्रामान्तं गोमज्जेपि वा ।

वासिस्त्वा मैथुन वाम् आद्विक प्रतिगृह्य च ॥११६॥

(११६) रमशान (मरघट) गोशामा ग्राम समीप तथा मैथुन समय के वस्त्र धारण किये हुए श्राद्ध का वस्त्र ग्रहण करके वेदपाठ न करे ।

प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यत्किञ्चिन्द्वाद्विकं भवेत् ।

सदालभ्याप्यनध्याय पाययास्यो हि द्विजःस्मृतः ११७

(११७) श्राद्ध की वस्तु प्राणी हो अथवा जड़ हो इनको ग्रहण करने के पक्षपात् वेदपाठ न करे क्योंकि ब्राह्मण उसका मुक्त न हाय है ।

चौरैरुपप्लुते ग्रामं सअमे चाग्निकारिते ।

आकाशिकमनध्याय विद्यात्सर्वाङ्गुतेषु च ॥११८॥

(११८) जिस ग्राम में चोरी अभिषि होती हो उसमें अग्निदाह में अद्भुत कर्म के देखने में उस समय से दूसरे दिवस के उधी समय तक मनध्याय जाने ।

उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षेपणं स्मृतम् ।

अष्टकासु त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥११६॥

(११६) उपाकरण (उपाकर्म) व उत्सर्ग मे तथा त्रिरात्र अष्टका मे एक रात्रि अनध्याय करना चाहिये ।

नाधीयीताश्वमारूढो न वृक्षं न च हस्तिनम् ।

न नाव न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः ॥१२०॥

(१२०) अश्व (घोडा), वृक्ष, हस्ति (हाथी), नाव, गधा, ऊँट, ऊमर भूमि, यान (सवारी), इन पर बैठ कर वेद-पाठ न करे ।

न विवादे न कलहे न सेनायां न मंगरे ।

न भुक्तमात्र नाजीर्णं न वमित्वा न सूतके ॥१२१॥

(१२१) विवाद मे, कलह मे, सेना के संग्राम मे, अजीर्ण मे, वमन मे, सूतक मे, इन सब मे भी अनध्याय जानना, तथा भोजन करने के पश्चात् भी वेद पठ न करना ।

अतिथि चाननुज्ञाप्य मारुते वाति वा भृशम् ।

रुधिरे च म्रुते गात्राच्छास्त्रेण च परिक्षते ॥१२२॥

(१२२) अति वायु के चलने मे, शरीर से रुधिर निकलने मे, शस्त्र से क्षत (घाव) हो जाने मे, अतिथि की अनाज्ञा व अरुचि मे भी अनध्यय करे ।

सामध्वनावृग्यजुषी नीधीयीत कदाचन ।

वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यक्रमधीत्य च ॥१२३॥

(१२३) सामवेद को मुनकर ऋग्वेद व यजुर्वेद को न पढे वेद का अन्त और अनेक प्रकरण इन तीनों मे से किसी को पढ कर अनध्याय करे ।

ऋग्वेदो देवदेवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः ।

सामवेदः स्मृतः पित्र्यस्तस्मात्तस्याऽऽशुचिर्ध्वनिः ॥१२४॥

(१२४) + ऋग्वेद के देवता वेद हैं, यजुर्वेद के देवता मनुष्य हैं तथा सामवेद के देवता पितर हैं । इस कारण सामवेद का शब्द पवित्र नहीं है ।

एतद्विदन्तो विद्वांसस्त्रयीनिष्कर्षमन्वइम् ।

क्रमतः पूर्वमभ्यस्य परश्चाद्देवमवीयत ॥१२५॥

(१२५) वेदविद्या की रीति के शाखा जो पुरुष हैं वह प्रथम गायत्री तथा ॐ का जाप करते हैं और उससे जब बुद्धि स्थिर हो जाय तब वेद पाठ करे ।

पशुमखड्कमाज्जरिवसर्पनकुत्तासुमिः ।

अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहर्निशम् ॥१२६॥

(१२६) पशु मखक बिस्ली कुत्ता साप मेवला ब्रह्मा इन सब में से कोई यदि गुठ और शिष्य के मध्य से निकल जावे तो एक रात्रि अनध्याय करना ।

द्वावथ बज्रयश्चिन्त्यमनध्यायौ प्रयत्नत ।

स्वाध्यायभूमिं चाशुद्रमात्मानं चाशुचिं द्विज ॥१२७॥

(१२७) पाठभासा की भूमि या अपमा शरीर अपवित्र होवे ता भी वह पाठ न करे । इन दोनों अनध्यायों में पढ़ना यत्न से त्याग करे ।

+ इस श्लोक का अर्थ वेद विरुद्ध है वेदों में सामवेद सर्वोत्तम माना गया है । यह गणना पौराणिक सप्तमात्मक समय में सम्मिलित की गई है जिस शिकको में अपने धारान के लिए नियत किया है ।

नोट—अनध्याय भी बिना फल प्राप्त होते हैं ।

अमावस्यामाष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् ।

ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्यृतो स्नातको द्विजः ॥१२८॥

(१२८) ब्राह्मण स्नातक ऋतुकाल मे भी अमावस्या, अष्टमी, पूर्णमासी, चतुर्दशी को स्त्री सम्भोग क करे ।

न स्नानमाचरेद्भुक्त्वा नातुरो न महानिशि ।

न वासोभिः सहाजस्रं नाऽविज्ञाते जलाशये ॥१२९॥

(१२९) भोजन करने के पश्चात् व आतुर हो तो स्नान न करे, वस्त्र पहने हुए भी बार-बार स्नान न करे । अर्द्ध रात्रिको या बिना जाने जल-स्थान मे भी स्नान न करे ।

देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा ।

नाक्रामेत्कामतश्छायां बभ्रुणो दीक्षितस्य च ॥१३०॥

(१३०) देवता, गुरु, राजा, स्नातक, आचार्य, कपिल वर्ण, जो पुरुष यज्ञ करने को हैं इनमे से किसी की छाया को इच्छा से न लावे ।

मध्यंदिनेऽर्धरात्रे च श्राद्धं भुक्त्वा च सामिषम् ।

संध्योरुभयोश्चैव न सेवेत चतुष्पथम् ॥१३१॥

(१३१) मध्यदिन, अर्द्धरात्रि, साय, प्रात समय, श्राद्ध मास भोजन कर चौराहे पर न जावे ।

उद्वर्तनमपस्नानं विणमूत्रे रक्तमेव च ।

श्लेष्मनिष्य त्वान्तानि नाधितिष्ठेत्तु कामतः ॥१३२॥

(१३२) उद्वटन की लोभी पर स्नान करने से जो पानी पृथिवी पर गिरे उस पर, मलमूत्र, रुधिर, खखार, थूक, वमन (कै), इन सब पर भी खडा न होवे ।

वैरिण्यं नापमेवेत्त सहायं चैव वैरिण्यं ।

अधार्मिकं तस्करं च परस्यैव च योपितम् ॥१३३॥

(१३३) रात्रु, सत्रु का मित्र धर्मों और परस्त्री, इन सबके संग में न रहे ।

न हीदृशमनायुष्यं श्लोकं किञ्चन विद्यते ।

यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेषणम् ॥१३४॥

(१३४) परस्त्री से सम्भोग करने के सहृदय (समान) सस र ने कोई भी वस्तु प्रायु क्षीण करने वाली नहीं है ।

क्षत्रियं चैव सर्पश्च ब्राह्मणं च बहुभुतम् ।

नावमन्देत्त वै मृष्या कृशानपि कदाचन ॥१३५॥

(१३५) जो पुरुष सब वस्तुओं में उत्पत्ति पाने के इच्छुक हो वह क्षत्रिय सर्प तथा बिद्धासु प्राह्मण यद्यपि बूढ़े तथा कृश भी हो तो भी घनादर न करे ।

एतत्त्रयं हि पुरुषं निर्दोषमनितम् ।

तस्मादेतत्त्रयं नित्यं नावमन्स्य बुद्धिमान् ॥१३६॥

(१३६) यह तीनों घनादर होने में नाश करते हैं । इस कारण बुद्धिमान पुरुष इन तीनों का घमादर न करे ।

नामानमघमन्यत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः ।

धामृत्या भियमन्विच्छन्नीनां मन्देत्त दुर्लभाम् ॥१३७॥

(१३७) वृद्धि (बड़ासी) में अपनी घब मानना घबहेलना न करे । मृत्यु पर्यन्त घम की कामना रख व घम प्राप्ति दुर्लभ न जाने ।

सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयात्मात्रं यात्मत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष्ट धर्मः सनातनः ॥१३८॥

(१३८) सत्य और मिष्ट भाषण करे यदि सत्य हो किन्तु कटु हो तो न कहे, तथा यदि प्रिय हो परन्तु असत्य हो तो भी न कहे यह नित्य का धर्म है ।

भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद्भद्रमित्येव वा वदेत् ।

शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्क्रैतनचिन्मह ॥१३९॥

(१३९) अग्रद को भी भद्र (अच्छा) कहना चाहिये, किसी से निरर्थक शत्रुता व विवाद न करे ।

नातिकल्पं नातिमात्रं नातिमध्यंदिने स्थिते ।

नाज्ञातेन समं गच्छेन्नैको न वृषलैः मह ॥१४०॥

(१४०) अति प्रातः अति सन्ध्या, अति दोपहर (मध्य-दिन) के समय अज्ञानपुरुष और शूद्र के साथ एकाकी कही न जाये ।

हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्विद्याहीनान्वयोधिकान् ।

रूपद्रव्यविहीनांश्च जानिहीनांश्च नाक्षिपेत् ॥१४१॥

(१४१) अङ्गहीन, अतिरिक्त (अधिक) अङ्ग वाला मूर्ख, वृषुप, नीच जाति, अथवा द्रव्य वागा इनको कूट भाषण न करे अर्थात् काने को काना न कहे ।

न स्पृशेत्पाणिनाञ्छिष्टो विप्रो गोब्राह्मणानलात् ।

न चापि पश्येदशुचिः सुस्थां ज्योतिर्गणान्दिवि ॥१४२॥

(१४२) जूठे मुख ब्राह्मणो अपने हाथों से ब्राह्मण, गऊ अग्नि को स्पर्श न करे तथा अण्वित्र व अस्वस्थ हो, तो वह ब्राह्मण चन्द्र, सूर्य व नक्षत्रों को न देखे ।

स्पृष्ट्वैतानशुचिर्नित्यमग्निं प्राणानुपस्युरोमृ ।

गात्राणि चैव सर्वाणि नामि पाशितस्तन तु ॥१४३॥

(१४३) जिनको छूना वर्जित है यदि उनको स्पर्श करे तो हाथ में जल लेकर उस जल से प्राण (नाक) कर्णादि इन्द्रियों व सब शरीर का स्पृश करे तथा नामि का पाणि (हथेली) से छुये ।

अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिमिषिकः ।

रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विमर्जयेत् ॥१४४॥

(१४४) अनातुर बिना आश्चर्यकता अपनी इन्द्रियों को स्पृश न करे तथा गुप्त स्वान (अर्घान् कांय मसमूत्र स्थान) के राम (बाम) भी स्पर्श न करे ।

मगलाचारयुक्तः स्यात्प्रयत्नात्मा त्रितन्द्रिय ।

अपच्य जुहुयाच्चव नित्यमग्निमतन्द्रित ॥१४५॥

(१४५) मगलाचार युक्त आत्मभ्यन्तर परिवर्तता रहित त्रितन्द्रिय हो अप वा तृषन करे घातस्य म करे ।

मगलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयत्नात्मनाम् ।

अपता जुहुयतां चैव विनिपाता न विद्यत ॥१४६॥

(१४६) आ मनुष्य यह गर्व बर्मे करता है वह दास्योत् शोषामुगा अमता है उसको दबना अग्य मनुष्य कुछ ही नही प'बा मजन ।

यत्प्रसाभ्यमग्निं यथाशक्तमतन्द्रित ।

नं अग्वाद् परं यममुपघर्षोऽन्य उच्यते ॥१४७॥

(१४७) घातस्य परिष्ठाण कर यथाशक्त नित्य वेदों का

वेदाभ्यासेन सततं शोचेन तपसैव च ।

अद्रोहेण च भूतानां जाति स्मरति पौर्विकीम् ॥१४८॥

(१४८) नित्य वेदाभ्यास, पवित्रता, तप, जीवो पर दया यह सब कार्य करने से पूर्वजन्म (अगले जन्म) की जाति स्मरण (याद) होती है ।

पौर्विकीं संस्मरञ्जाति ब्रह्मवाभ्यसते पुनः ।

ब्रह्माभ्यसेन चाजस्रमनन्तं सुखमरनुते ॥१४९॥

(१४९) पूर्व जन्म की जाति को स्मरण करता हुआ वेदाभ्यास ही करता रहे । वेदाभ्यास द्वारा सदैव सुख प्राप्त होता है ।

सावित्रीञ्चाग्निहोमांश्च कुर्यात्पर्वसु नित्यशः ।

पितृंश्चैवाष्टकास्वर्चेन्नित्यमन्वष्टकासु च ॥१५०॥

(१५०) पर्व मे नित्य गायत्री देवता का हवन और अरिष्ट, त्रास के निमित्त शान्ति हवन करे । अष्ट का अन्वष्ट का मे पित्रो की नित्य पूजा करे ।

दूरादावसथान्मूत्रं दूरात्पादावसेचनम् ।

उच्छिष्टान्ननिषेकं च दूरादेव समाचरेत् ॥१५१॥

(१५१) अग्नि के गृह से दूर देश मे, मूत्र, पादप्रक्षालन, जूठा अन्न, वीर्य इन सब को त्य ग करे ।

मैत्रं प्रासधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम् ।

पूर्वाह्ण एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम् ॥१५२॥

(१५२) विष्टात्याग (अर्थात् आवश्यकताओं की निवृत्ति) शृङ्गारादि, स्नान, दातन, अजन, देवता का पूजन इन सब कामों को दोपहर (मध्याह्न) से प्रथम करना चाहिये ।

दैवतान्यभिगच्छतु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान् ।
ईश्वर श्वैव रक्षार्थं गुरून्व च पर्वसु ॥१५३॥

(१५३) रक्षार्थं देवता धार्मि ब्राह्मण गुरु राजा इन सबका वर्णन पत्र मे करे ।

अभिवादयवृद्धांश्च दद्यान्श्वैषामन स्वकम् ।

कृताञ्जलिरुपासीत गच्छत पृष्ठतोऽन्वितात् ॥१५४॥

(१५४) यदि कोई बूढ अपने गृह पर आवे तो उसका अभिवादन करे और बैठन के हस्तु आमन दवे तथा सामन करबद्ध सडे रहे, जब वह चलने लगे तब आप भी पीछे होकर चले

भुक्तिस्मृत्युक्ति सम्यह्निबद्ध सप्तु कर्मसु ।

धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमवन्दित ॥१५५॥

(१५५) देव शास्त्रानुक्रम जो उत्तम पुरुषो वा समाचार है वह धर्म का मूल है आसम्य परिरत्याग कर उसी आचार पर सदैव चले ।

आचाराश्लमते द्वायुगधाराग्नीष्यिता प्रजा ।

आचारादनमग्र्यपमाचारो इन्त्यलक्षम् ॥१५६॥

(१५६) आयु उत्तम सन्ति अक्षय धम यह सब आचार द्वारा सदा प्राप्त होने है । तथा शरीर मे जो अग्रगुण दोष इन वाला हात है आचार उनको नाश कर देता है ।

दुर्गधारा हि पुरुषो साक भवित निन्दित ।

दुम्भभागी च सतत म्वाधितोऽन्वापुरेव च ॥१५७॥

(१५७) दुर्गधारी मनुष्य ससार मे अपमद्य पाता है

और सदैव दुःख तथा व्याधि ग्रसित रहने कार अल्प जीवित रहना है ।

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः ।

श्रद्धधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥१५५॥

(१५८) जिनमे कोई लक्षण नहीं है, जो किसी का अप्रिय नहीं करता, तथा श्रद्धावान् और उत्तम पुरुषों की नाईं दा चारी है वह सौ वर्ष जीता है ।

यद्यत्पशुशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् ।

यद्यत्मात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥१५६॥

(१५६) जो कर्म परवश है उसका परित्याग तथा स्ववश कर्म का यत्न सहित भेदन करे ।

सर्वं पशुवशं दुःख सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥१६०॥

(१६०) जो कर्म परवश है वह दुःख और जो कर्म स्ववश है वह सुख है । यह सुख दुःख का लक्षण है ।

यत्कर्म कुर्वतोऽभ्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः ।

तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् ॥१६१॥

(१६१) जिस कर्म करने से अन्तरात्मा को रितोष हो उसको सप्रयत्न करे जो इसके विपरीत हो उसका त्याग करे ।

आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम् ।

न हिंस्याद्ब्राह्मणान्गाश्च सर्वाश्चैव तपस्विनः ॥१६२॥

(१६२) + आचार्य, वेदज्ञानदाता, पिता, माता, गुरु, ब्राह्मण, गऊ, तपस्वी इनमे से किसी को न मारे ।

+ यज्ञोपवीत कराने वाला ।

नास्तिक्य वेदनिन्दा च देवतानां च कुत्सनम् ।

द्वय दम्भ च मान च क्रोध तैश्चैव च वर्जयेत् ॥१६३॥

(१६३) नास्तिकता वेदनिन्दा देवता क प्रति कुत्सित भाषण क्षत्रुता द्वय दम्भ मान क्रोध तैश्चैव तीव्र प्रवृत्ति इन सबको परित्याग करे ।

परस्य दण्ड नोद्यच्छङ्कुद्वौ नैव निपातयत् ।

अन्यप्रपुत्राच्छिष्याद्वा शिष्यैर्ष ताडयत्तु तौ ॥१६४॥

(१६४) क्रोधवश किसी को नाडनार्थ (मारने को) दण्ड (वण्ड) न फेंके तथा किसी को शारीरिक हानि न पहुँचावे । परन्तु पुत्र तथा शिष्य को विद्या तथा शिक्षा के अर्थ शरीर पर ताडन (चोट) करना असङ्गत नहीं अर्थात् उचित है ।

ब्राह्मणायावगुरीष द्विजातिर्वधकाम्यया ।

शत वर्षाणि तामिस्रं नरकं परिवर्तते ॥१६५॥

(१६५) ब्राह्मण सत्रिय वैश्य यदि ब्राह्मण की प्राण हत्या (मार डामने) की इच्छा करके वेवस शस्त्र उठाव हुनन न करें तो भी सौ वर्ष पर्यन्त तामिस्र नरक में पतित होते अर्थात् रहते हैं ।

ताडयित्वा तृणानपि सरम्भान्मतिपूर्वकम् ।

एकविंशतिमाजातो पापयानिषु जायते ॥१६६॥

(१६६) यदि क्रोध वश हुनन इच्छा मात्र से एक तृण से भी ताडना करे तो इकतीस जन्म पर्यन्त पापियों (कुत्ता गधा घोड़े की योनि) में उत्पन्न होता है ।

अयुध्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासृङ्गतः ।

दुःखं सुमहदाप्नोति प्रेत्याप्राज्ञतया नरः ॥१६७॥

(१६७) युद्ध न करने वाले ब्राह्मण के शरीर से जो रुधिर पात करता है वह अपनी अज्ञानता के कारण परलोक में बड़ा दुःख भोगता है ।

शोणितं यावतः पांसून्संगृह्णाति महीतलात् ।

तावतोऽब्दानमुत्रान्यैः शोणितोत्पादकोऽद्यते ॥१६८॥

(१६८) युद्ध न करने वाले ब्राह्मण के शरीर से शस्त्र द्वारा रुधिर पात करने वाला, परलोक में महादुखी होता है । और उस रुधिर से भूमि के जितने कण भीग जाते हैं उतने ही वर्ष पर्यन्त परलोक में वह रुधिर पात करने वाला कुत्ता, सियार आदि से भोजन किया जाता है ।

न कदाचिद्द्विजे तस्माद्धिष्ठनवगुरेदपि ।

न ताडयेत्तृणैनापि न गात्रात्स्रावयेदसृक् ॥१६९॥

(१६९) अतएव बुद्धिमान् पुरुष ब्राह्मण के ताडनार्थ कभी भी शस्त्र न उठावे । वरन् तृणमात्र से भी न मारे और न शरीर से रुधिर बहावे ।

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्वनृतं धनम् ।

हिंसात्तश्च यो नित्यं नेहऽसौ सुखमेधते ॥१७०॥

(१७०) जो अधर्मी, अनृत, अपवित्र, व अनुचित रीत्यो-पार्जित धन वाले, तथा हिंसक है वह इस लोक में सुख नहीं पाते ।

न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् ।

अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम् ॥१७१॥

(१७१) अशर्मो घोर पापियो के घनादि का शीघ्र नाश देखकर और अशर्म म कष्ट पाने पर भी अशर्म न कर अर्थात् धर्म को परित्याग न करे ।

नाशर्मरश्चरितो लोफ सद्यः फलति गारिव ।

शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कुन्तति ॥१७२॥

(१७२) अशर्म शीघ्र फल नहीं देता है उसे बीज बोने के पक्षपात् पृथिवी शीघ्र फल नहीं देती बड़े समय उपरान्त फल देती है ।

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चत्पुत्रेषु नपुत्रेषु ।

न त्वव तु कृतोऽशर्म कर्तुर्मवति निष्कल ॥१७३॥

(१७३) यदि अशर्म का फल अशर्मो को नहीं मिलता तो उसके पुत्र को मिलता है । यदि बेटे को न हो तो उसके पुत्र को मिलता है । यदि पुत्र (पेटे) को न मिला तो दौहित्र (माटी) को मिलता तात्पर्य यह है कि अशर्म निष्कल नहीं होता ।

अशर्मैर्णघत तावत्तता मद्राणि पश्यति ।

ततः सपन्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥१७४॥

(१७४) अशर्मो प्रथम तो अशर्म के कारण उन्नत होता है तत्पश्चात् करवाण पाता है तन्तन्तर घात्र विनयी होता है । अन्त का समूल मष्ट ही जाता है ।

मन्यधमायुश्चतुषु शीघ्र सधारमत्सदा ।

शिष्याण्य शिष्याद्दर्शनं बाग्पाहृदरमपत ॥१७५॥

(१७५) भद्र पुण्या का धारण सदर्म व पवित्रता है इसमें शीघ्र दक्षिण रहै श्री पुत्र शान विष्य इन सबको

सम्मार्गं दशविंशतिं श्रैरं ॐ वाणी, घाट, तथा उदर का समय करे ।

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ।

धर्मचाप्यसुखोदकं लोकाविक्रुष्टमेव च ॥१७६॥

(१७६) अधर्म से उपाजित जो अर्थ काम है उसका परित्याग धर्म है परन्तु जो लोक रीति के विकृष्ट है तथा भविष्य मुखदाई नहीं है उसका भी त्याग करना उचित है ।

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः ।

न स्याद्वाक्चपलश्चैव न परद्रोहकर्मधीः ॥१७७॥

(१७७) न तो परिनिन्दावाद में सम्मिलित हो, न हाथ, पाव, वाणी व नेत्र की चपलता करे, क्योंकि यह सब कार्य दुष्ट प्रकृति के प्रकठ करने वाले हैं ।

यनास्य पितरो यातायेन याताः पितामहाः ।

तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्नृष्यते ॥१७८॥

(१७८) जिस मार्ग द्वारा हमारे पूर्वजो ने मुक्ति लाभ किया है सत्पुरुषो के उसी मार्ग पर हमको भी वेदानुक्त कर्मों को चलना चाहिए और इसी प्रकार के कर्म करने से दुख नहीं होता है ।

ऋत्विक्पुरोहिताचार्यैर्मातुलातिथिसंश्रितैः ।

बालवृद्धातुरैर्वैद्यैर्ज्ञातिमन्थन्धिवान्धवैः ॥१७९॥

ॐ वाणी का समय सत्य बोलना, बाहु (हाथ) का समय किसी जीव को क्लेश न पहुँचाना उदर का समय यह है कि यूनाधिक जो कुछ प्राप्त हो उसी को भोजन करके रहे ।

(१७७) ऋत्विज पुण्यहित आचार्यं मामा प्रतिपि
सभित (अपने आश्रय में रहने वाला) वासकं वृद्धं प्रातुरवप
प्राति सम्बन्धी (बुढ़म्भी) वाग्धव

मातापितृभ्यां भ्रामोभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया ।

दुहित्रा दामवर्गेण विषाट् समाधाचरत् ॥१८०॥

(१८०) माता पिता आमाता (वामाव) भ्राता पुत्र
भार्या (पत्नी) दुहिता (पुत्री) तथा अपने दासवर्गों (बाँसी)से
कभी लड़ाई न करे अन्यथा सुख की आशा त्याग दे ।

एतद्विद्वोदान्सत्यन्य सर्वपापै प्रमुच्यते ।

एभिर्जितैश्च जयति सर्वज्जलाकानिमान्गृही ॥१८१॥

(१८१) इन सब से विवाद (लड़ाई) न करने से पारस्य
रिक प्रीति बढ़ती है जिससे सब दुःखों से छूट जाता है । तथा जो
गृहम्भी इन सबसे हार मानकर सतोष सहित इनकी बात सहन
करता है वह सारे ससार को जीत लेता है ।

आचार्यो ब्रह्मलोकश्च प्राजापत्ये पिता प्रभुः ।

अतिथिसिध्न्वृल्लोकेशो देवलोकस्य ऋत्विज ॥१८२॥

(१८२) आचार्य ब्रह्मलोक का ईश्वर अर्थात् ब्रह्मज्ञान
का स्वामी (प्रभु) है उससे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, पिता
राजा की नाई रक्षा व पालन करता है अतिथि इन्द्रवत् सुख और
वर्षा करता है अर्थात् उसके उपदेश द्वारा सुख प्राप्ति होती है ।
और ऋत्विज (यज्ञ कराने वाला) देवलोक अर्थात् अग्नि वायु
आदि देवता के लोकों को बना सकता है ।

जामयोऽप्यमरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः ।

मधुभिर्नोद्यमानांके पृथिव्यां मातृमातुलौ ॥१८३॥

(१८३) भगिनी (वहिन) तथा पत्नी आदि, बान्धव, सम्बन्धी, माता तथा मामा यह सब क्रमानुसार अप्सरा लोक, वैश्वदेवलोक, वरुण लोक तथा मृत्युलोक के स्वामी है ।

आकाशंशास्तु विज्ञेया वालवृद्धकृशातुराः ।

भ्राता ज्येष्ठःसमःपित्रा भार्या पुत्रःस्वकातनुः ॥१८५॥

(१८४) बाल, वृद्ध, कृश (दुबला, कमजोर) भ्रातुर वह चारो आकाश लोक के स्वामी हैं । बडा भाई पिता के तुल्य है और स्त्री का पुत्र अपना शरीर है ।

श्याया स्त्री दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम् ।

तस्मादेतैरधिचिन्तः सहेताऽसंज्वरः सदा ॥१८५॥

(१८५) दास (टहलुआ) अपनी श्याया है, दुहिता बडी कगाल है, अत इन सबकी बात को सहन करे, चिन्त में दुःखी न हो ।

प्रतिग्रहंसमर्थोऽपि प्रसंगं तत्र वर्जयेत् ।

प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्मं तेजः प्रशाम्यति ॥१८६॥

(१८६) दान लेने की सामर्थ्य रखता हो तो भी न लेवे क्योंकि दान ग्रहण करने से ब्रह्मतेज जाता रहता है ।

न द्रव्याणामविज्ञाय विधिं धर्म्यं प्रतिग्रहे ।

प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि क्षुधा ॥१८७॥

(१८७) यद्यपि विपत्ति (आपद समय) में भूक के मारे व्याकुल होवे तो भी दान को उस दशा में न लेवे जब कि उस दान लेने के विधान अर्थात् देवता और मन्त्र से अनभिज्ञ होवे ।

हिरण्यं भूमिमश्वं गामन्नवासस्तिलान्घृतम् ।

प्रतिगृह्णन्निविद्वांस्तु भस्मीभवति दारुवत् ॥१८८॥

(१८८) मोला भूमि घट्ट गऊ घट्ट वस्त्र तिल पी इनमें से किसी एक वस्तु के लेने से मूर्ख ब्राह्मण सक्ती को नार्ई जसकर भस्म हो जाता है ।

दिग्गयमायुग्मन च मूर्गोञ्जाप्योपतस्तनुम् ।

अश्वश्चत्वास्त्वनै वामो घृत तेजस्तिन्ना प्रवा ॥१८८॥

(१८९) साता और रत्न का दान प्रहण करने से प्रायु क्षीण होती है गऊ तथा भूमिका दान गरीर को हानि पहुँचाता है घट्टदान लने से मेरा का क्षति पहुँचती है वस्त्रदान से त्वचा (स्नात) का घन दान से मेरा को निमदान ग्रहण करने से मूर्ख ब्राह्मण की मन्त्रति का क्षति पहुँचती है ।

अतपास्त्वनधीयान प्रतिग्रहकृतिर्दिञ्ज ।

अम्भस्पृग्मप्लवनं च मइ तनैव मञ्जति ॥१९०॥

(१९०) जो ब्राह्मण तप तथा वेदाभ्यास नहीं करता है और दान दिया करता है वह दानदाता सहित डूब जाता है जैसे पानी में पत्थर की नाव ।

तस्मान्निष्ठान्त्विमियाधस्मात्तस्मात्प्रतिग्रहात् ।

स्वल्पकनाप्यऽविद्वान्हि पडक गौरिष सीदति ॥१९१॥

(१९१) अत मूख ब्राह्मण को छोडा दान लेने से भी भयभीत होना चाहिये अन्यथा कीचड में फँस कर जिस प्रकार गऊ कष्ट पाती है उसी प्रकार वह भी कष्ट भोगेगा ।

न वायपि प्रयच्छन्तु वैडालप्रतिकं ऋजे ।

त एकप्रतिकं विप्र नावदविदि धमवित् ॥१९२॥

(१९२) (१) वैडालप्रतिकं य (२) एक (बमुसा) प्रतिक और (३) मूर्ख इन तीनों ब्राह्मणों का धर्मा मा पुरुष बस तक न दवे ।

त्रिष्वग्नेतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् ।

दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥१६३॥

(१६३) उत्तम रीति से उपाजित धन इन तीनों को देने से आगामी जन्म में कुछ फल नहीं देता अर्थात् निष्फल होता है ।

यथा प्लवेनीपलेन निमज्जत्युदके तरन् ।

नथा निमज्जतोऽधस्नादज्ञौ दातृप्रतीच्छकौ ॥१६४॥

(१६४) जिस प्रकार पत्थर की नाव पर चढ़ कर मनुष्य डूब जाता है उसी प्रकार ॐ मूर्ख ब्राह्मण को दान देने वाला और ग्रहण कर्ता, दोनों नरक में पड़ते हैं, अर्थात् दोनों नरकगामी होते हैं ।

धर्मध्वजी सदा लुब्धश्छाद्मिको लोकदम्भकः ।

वैडालवृत्तिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसंभ्रकः ॥१६५॥

(१६५) धर्मध्वजा को लिए हुए सदा लोभी, छद्मवेशी (बहुरूपिया) को नाई बहुवेशधारी लोक (ससार) में कपट (धोके) का प्रचारक वैडालवृत्तिक (विल्ली की तरह जीवक हिंसा करने वाला) मक्का निन्दक, हिंस्रक (जीवहत्या कर खाने वाला) ये विल्ली की आर होने वाले कहलाते हैं ।

अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थमाधनतत्परः ।

शठोमिथ्याविनीतश्च वक्रव्रतचरो द्विजः ॥१६६॥

(१६६) नीचे देखने वाला, निर्दयी, ध्वार्थ साधना में

ॐ मूर्ख ब्राह्मण को दान देने का मनुजी ने १६२ व १६३, १६४ श्लोकमें इस कारण निषेध किया है कि कोई ब्राह्मण मूर्ख न रहे ।

नोट—इस श्लोक के अनुसार आज कल के ब्राह्मण तो अवश्य ही नरकगामी होंगे ।

सदैव तत्पर (सगा हुआ) गठ निठुर धीका देने के लिये विभीषण
 भाव विखसाने वामे यह सब विद्यासकृति के गुण हैं । इन सत्रणों
 से युक्त पुरुष को वेदासकृति कहते हैं ।

ये षड्वर्तिनो विप्रा य च मार्जारलिङ्गिनः ।

ते पतन्त्यन्वतामिस्रं तेन पापेन कमखा ॥१६७॥

(१६७) षड्वर्तिक तथा वेदासकृतिक महाअन्वकार वामा
 जीव योनियो मे जा-मसे है जिसमे अति ही दुःख प्राप्त होते हैं ।

न धर्मस्यापदेशान् पापं कृत्वा मत् परत् ।

व्रतेन पापं प्रच्छद्य कुर्वन्स्त्रीशूद्रदम्भनम् ॥१६८॥

(१६८) पापं कर्म करके धर्म के मिस से व्रत को बरे
 धर्मन् पापकर्म तो करता है परन्तु स्त्री और शूद्र को कुम दिस
 लाता है कि मैं धर्म करता हूँ ।

प्ररयेद्दृष्ट्या विप्रा गच्छन्ते ब्रह्मवादिभिः ।

छद्मनाधरित यश्च व्रतं रक्षांसि गच्छति ॥१६९॥

(१६९) जो पुरुष (भोग) वेद पाठी ब्राह्मणों की निम्ना
 कहते हैं वह इस लोक तथा परलोक में पुत्र पाते हैं और जो
 कपटाङ्गुल करके व्रत धारण करते हैं उनका व्रत रासस व्रत है ।

अस्त्रिंशी लिङ्गिवेषेण यो वृत्तिपुपञ्जीवति ।

स लिङ्गिनां हस्यनस्तिर्यग्गानां च जायते ॥२००॥

नोट—जो वेशधारी केवल वेश ही को धारण करते हैं परन्तु
 वेदानुसार धारण नहीं करते हैं वे ससार को धोका देने से
 महापा के पमागी होते हैं । और पाप भाग का बढ़ाना भी महा
 पाप है । अतएव जो भोग वेषधारियों को सेवा शुभ या करते हैं
 वह भी पापी गिन जाते हैं ।

(२००) जो ब्रह्मचारी व सन्यासी नहीं है किन्तु उनका वेप बनाये रहते वह ब्रह्मचारी तथा मन्थामी से पाप को प्राप्त होते हैं और कीट कृमि की योनि में जन्म पाते हैं इसी प्रकार सब आश्रम वालों को जानना ।

परिकीयनिपानेषु न स्नायाच्च कदाचन ।

निपानकर्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥२०१॥

(२०१) दूसरे के वनवाए हुए कुवा तालाब आदि, (जिनका सिद्धि अर्थात् प्रतिष्ठा न हुई हो) में यदि स्नान करे तो उनमें स्नान करने से उनसे खुदवाने वाले के पापको प्राप्त होता है ।

यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च ।

अदत्तान्युपभुञ्जान एनसः स्वात्तुरीयभाक् ॥२०२॥

(२०२) सवारी, शय्या (चारपाई), कुवा, उद्यान (बाग) गृह (घर) यह सब जिससे हो उस स्वामी की आज्ञा बिना जो निजकार्य में लाता है वह पुरुष उसके स्वामी के पाप के चतुर्थांश को प्राप्त होता है ।

नदीषु तेवखातेषु तडागेषु सरःसु च ।

स्नानं समाचरेन्नित्यं गर्तप्रव्रवणेषु च ॥२०३॥

(२०३) नदी, देवताओं के खान (गार) तथा तडाग (तालाब), वन्द, ऋरना तथा गढा इन सब में नित्य स्नान करे ।

यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुधः ।

यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन् ॥२०४॥

(२०४) यम तथा नियम जिनका वर्णन आगे आवेगा उनमें यम को नित्य धारण करे नियम को नहीं । यमको परित्याग कर केवल नियम को धारण करने से पतित हो जाता है ।

करने क हेतु पक्ति में से उठ कर कुल्हा करने समे वो भी भोजन
त्याग दे ।

अनर्धित श्रुयामांसमधीरायारध योषित् ।

द्विपदश्च नगर्पश्च पतिताश्मवधुतम् ॥२१३॥

(२१३) पूज्य पुंस्य को जो अन्न अनावर मात्र से दिया
जावे व्याधि उत्पादक अन्न जो प्रतिभि तथा विद्वाना को
खिन्नाया हो दूषित गहित पतित इन भोगो का अन्न जिस पर
श्रीक पड़ी हो ।

पिष्टानानुतिनाञ्चान्न क्रतुधिक्रियिष्यस्तथा ।

शैलूपतुभवायान्न कृतञ्जस्याश्रमेव च ॥२१४॥

(२१४) जुगसत्तोर यज्ञ करने के पश्चात् उसको बेचने
बासा मट वर्धा कृतञ्ज ।

कर्मरिष्य निपादस्य रङ्गावतारकस्य च ।

सुवर्षाकृतुर्वेद्यस्य शस्त्रविक्रयिष्यस्तथा ॥२१५॥

(२१५) लोहार निषाद मट गायक के प्रतिरिक्त इन
दोनो की वृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करने बासा सोमार, अस्त्र
बेचने बासा ।

स्वयता शीघ्रिदफ्रानां च चैलनिर्बोजकस्य च ।

रञ्जकस्य चूर्णासस्य यस्य षोपपतिगृह ॥२१६॥

(२१६) कुत्तो से लीजा कर जीवन व्यतीत करने बासा
कसबार रञ्जक (घोड़ी) रञ्जक (रमरेज) नुमस (पत्साद)
गी के घर पर उसका उपपति (दूधरा पति) हो ।

द्वि ये षोपपति स्त्रीभितानां च सर्वशा ।

प्रेतान्नमुद्यदिक्रमेव च ॥ २१७ ॥

(२१७) जो उपपति रहने से प्रसन्न हो, जो स्त्री के वश्य हो अर्थात् जो स्त्री का आज्ञाकारी हो, जिसकी मृत्यु का दसवा हुआ हो उसका अन्न, तथा जो अन्न तुष्टि न करे अर्थात् जिस अन्न से चित्त सन्तुष्ट न हो, इन सबका भोजन न करे ।

राजान्नं तेज आदत्ते शूद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम् ।

आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चर्माविकर्तिनः ॥२१८॥

(२१८) १-राजा, २-शूद्र, ३-सोनार, ४-चमार, इन लोगो का अन्न यथाक्रम १-तेज २-ब्रह्मतेज, २-आयु, ४-यश का नाश करता है ।

कारुकान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णोजकस्य च ।

गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति ॥२१९॥

(२१९) १-कारुक (नापित, नाई), २-निर्णोजक (धोबी) दोनों का अन्न क्रम से १-सन्तान तथा २-बल का नाश करता है, गण (पक्ति) तथा वेद्व्या (गणिका) का अन्न स्वर्गलोक को खोता है तो कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाला है ।

पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुंश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम् ।

विष्ठावाधुं पिकस्यन्नं शस्त्रविक्रयिणोमलम् ॥२२०॥

(२२०) १-चिकित्सक, २-पुश्चली (विषयी), ३-व्याज से निर्वाह करने वाला, ४-शस्त्र बेचने वाला, इनका अन्न क्रमानुसार १-पीव, २-बीज, ३-विष्ठा, ४-खखार के तुल्य है ।

य एतेऽन्ये त्वभोज्यान्नाः क्रमशः परिकीर्तिताः ।

तेषां त्वगस्थिरोमाणि वज्रन्त्यन्नं मनीषिणः ॥२२१॥

नोट—इन श्लोको मे मिलावट ज्ञात हातो है क्योंकि प्रत शब्द के अर्थ मृतक के हैं उसका अन्न कभी होता ही नहीं ।

नाभोश्रियतत यज्ञे ग्रामयाञ्चिकृते तथा ।

स्त्रिया क्लीबेन च हृते भुञ्जीत ब्राह्मणकथित ॥२०५॥

(२०५) वेद न पढ़ा हुआ कविक रीति से गाव में यज्ञ कर्ता स्त्री मनु सक इन लोगो क यज्ञ में ब्राह्मण भोजन न करे ।

अभोकमेतत्साधूनां यत्र जुह्वत्यमी इति ।

प्रतीपमेतद्देवानां तस्मात्तत्परिषर्जयेत् ॥२०६॥

(२०६) इस प्रकार के कर्म करना साधुमा के अयोग्य है और विद्वान् पुरुष इसको घृणित दृष्टि से देखते हैं । अतएव ऐसे कर्मों से बचा रहे ।

मत्तक्रुद्धातुराणां च नावभुञ्जीत कण्ठघ्न ।

कशकीटावपन्नं च पदासृष्ट च क्रमत ॥२०७॥

(२०७) मत्त (वन्मस्त) श्लोधी आतुर इनके घस्र को या जिस घस्र न घान वा कीड़ा पडा हो अथवा जो घस्र जान बूझकर पाव से स्पर्श किया गया हो इन सबका भोजन न करे ।

अग्नापेक्षितं चैव असृष्ट चाप्युद्वयया ।

पत्रत्रिणायसीर्दं च शुना असृष्टमवच ॥२०८॥

(२०८) अग्नापेक्षा करने वाली वा मामिद घर्म्मवाली स्त्री वा दुग्धा दूग्धा घस्र अथवा पदिया की शौच से फोडा हुआ घस्र वा कुत्त का स्पर्श किया हुआ घस्र हो तो उगं न खाये ।

(अग्नापेक्षा) गर्भ गिराने वाली ।

ना —इस प्रकार का घस्र आगे न बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होने हैं ।

गवां चान्नमुपघातं घुष्टान्नं च विशेषतः ।

गणान्नं गणिकान्नं च विदुषां च जुगुप्सितम् ॥२०६॥

(२०६) गऊ का सू घा हुआ, यज्ञादि मे वह अन्न जो उच्च स्वर मे यह कहकर कि कौन भोजन करेगा, दिया गया हो, व बहुत मनुष्यो का अन्न वा वेश्याओ का अन्न, इन सब अन्नो को पण्डित जन निन्दा करते हैं ।

स्तेनगायकयोश्चान्नं तच्छणो वाधुपिकस्य च ।

दीक्षितस्य कर्दर्यस्य वद्धस्य निगडस्य च ॥२१०॥

(२१०) चोर, गायक (गाने वाला), बढई, व्याज से जीवन निर्वाह करने वाला, दीक्षित (जिमका यज्ञ अभी असमाप्त है), कृपण बन्दी (कैदी) वेडी पडा हुआ ।

अभिपस्तस्य पराहस्य पुंश्चन्या दाम्भिकस्य च ।

शुक्तं पयुपितं चैव शूद्रस्योच्छिष्टमेव च ॥२११॥

(२११) दोपी व दुष्ट प्रकृति, पढ (हिजडा), दम्भी आदि का अन्न, वासी अन्न (अर्थात् वह अन्न जो विना खटाई मिश्रित किये खट्टा हो जावे), तथा शूद्र का जूठा अन्न, इन सब को भोजन न करे ।

चिकित्सकस्य मृगयोः ब्रूगस्योच्छिष्टभोजिनः ।

उग्रान्नं सूतिकान्नं च पर्याचान्तमनिर्दशम् ॥२१२॥

(२१२) चिकित्सक (वैद्य, हकीम), शिकारी, दु खी, क्रूर, निर्दयी, जूठा खाने वाला, उग्र (कठिन) अन्न (सरलता से न पचने वाला अन्न), सूतिकागृह (जच्चाखाना) मे बना हुआ भोजन न खाना चाहिये । अथवा जिम स्थान पर लोग एक पक्ति मे भोजन कर रहे हो और कोई मनुष्य अपमान

करने के हेतु पक्षि में से उठ कर कुत्ता करने सगे तो भी मोहन त्याग दे ।

अनर्षित वृषामांसमबीरायाश्च योपित् ।

द्विपदश्च नगर्षश्च पतिताश्मवघ्नतम् ॥२१३॥

(२१३) पूर्य्य पुरुष को जो भक्ष अनादर भाव से दिया जाये व्याधि उत्पादक भक्ष जो अतिवि तथा विद्वानों को खिलाया हो वृषित गर्ह्य पतित इन लोगो का भक्षण जिस पर म्नीक पड़ी हो ।

पिशुनानृतिनाञ्चान्न क्रतुविक्रयिणस्तथा ।

शैलूपतुम्भायान्न कृतघ्नस्याभमेव च ॥२१४॥

(२१४) पुगसखोर यज्ञ करमे के पश्चात् उसको बेचने वाला नट, बर्बा कृतघ्न ।

कर्मरस्य निपादस्य रङ्गावतारकस्य च ।

सुवर्णकस्तुर्बैण्यस्य शस्त्रविक्रयिणस्तथा ॥२१५॥

(२१५) सोहार निपाद नट गायक के अतिरिक्त इन दोनों की वृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला सोनार खरब बेचने वाला ।

स्ववता शीरिडफानां च चैलनिर्णोजकस्य च ।

रञ्जकस्य नृरांसस्य यस्य षोपपतिशू हे ॥२१६॥

(२१६) कुत्तो से म्नीडा कर जीवन व्यतीत करने वाला कलवार, रणक (बोधी) रञ्जक (रंगरेज) मूर्मस (जत्साब) जिस स्त्री के घर पर उसका उपपति (दूसरा पति) हो ।

मुष्पन्ति ये षोपपतिं स्त्रीजितानां च सर्वशः ।

अनिर्दरां च भ्रेतान्नमनुष्टिकरमेव च ॥ २१७ ॥

(२१७) जो उपपत्ति रहने से प्रसन्न हो, जो स्त्री के वश्य हो अर्थात् जो स्त्री का आज्ञाकारी हो, जिसकी मृत्यु का दसवा हुआ हो उसका अन्न, तथा जो अन्न तुष्टि न करे अर्थात् जिस अन्न से चित्त सन्तुष्ट न हो, इन सबका भोजन न करे ।

राजान्नं तेज आदत्ते शूद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम् ।

आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चर्माविकर्तिनः ॥२१८॥

(२१८) १-राजा, २-शूद्र, ३-सोनार, ४-चमार, इन लोगो का अन्न यथाक्रम १-तेज २-ब्रह्मतेज, २-आयु, ४-यश का नाश करता है ।

कारुकान्नं प्रजां हन्ति वलं निर्णोजकस्य च ।

गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति ॥२१९॥

(२१९) १-कारुक (नापित, नाई), २-निर्णोजक (घोवी) दोनो का अन्न क्रम से १-सन्तान तथा २-वल का नाश करता है, गण (पक्ति) तथा वेइया (गणिका) का अन्न स्वर्गलोक को खोता है तो कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाला है ।

पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुंश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम् ।

विष्टावाधुपिकस्यन्नं शस्त्रविक्रयिणोमलम् ॥२२०॥

(२२०) १-चिकित्सक, २-पुश्चली (विषयी), ३-व्याज से निर्वाह करने वाला, ४-शस्त्र बेचने वाला, इनका अन्न क्रमानुसार १-पीव, २-बीज, ३-विष्टा, ४-खखार के तुल्य है ।

य एतेऽन्ये त्वभोज्यान्नाः क्रमशः परिकीर्तिताः ।

तेषां त्वगस्थिरोमाणि वज्जन्त्यन्नं मनीषिणः ॥२२१॥

नोट—इन श्लोको मे मिलावट ज्ञात हातो है क्याकि प्रंत शब्द के अर्थ मृतक के हैं उसका अन्न कभी होता ही नहीं ।

(२२१) जितने अन्न भोजन करने के उपयोग्य हैं वह सब निम्नांकित हैं और त्वक (सात) हृदयी तथा रोम (बास) के मुख्य हैं । यह पण्डितों ने कहा है (अर्घान् वासादि साने मे ओ कट्ट होता है वही इनके अन्न भोजन करने से होता है) ।

सुक्त्वातोऽन्यतमस्यान्नमनमस्या चपरा प्र्यहम् ।

मत्या सुक्त्वा चरेत्कञ्च रतोविशमूत्रमव च ॥२२२॥

(२२२) यदि इनमें से किसी ने अन्न को अमानता में भोजन करे तो तीन विषय उपवास करे । और यदि जान-बूझ कर भोजन करे तो छः व्रत जो आगे कहेंगे उनको करे तथा विषय व मूत्र के भोजन में पृथक्-पृथक् यही व्रत करे ।

नाथाञ्चद्रस्य पकान्नें विद्वानऽध्याद्विनो द्विषः ।

आददीताममेवास्मादृषावेकरात्रिकम् ॥ २२३ ॥

(२२३) विद्वान् ब्राह्मणों को क्षुद्र का बताया हुआ भोजन न सामा चाहिये यदि घर में अन्न न हो तो एक रात्रि के भोजन भर कच्चा अन्न ले लेने में कोई दोष नहीं है ।

आत्रियस्य कद्र्यस्य षडान्यस्य च बाधुर्पः ।

मीमांभित्वाभयं द्वा सममभमकल्पयन् ॥२२४॥

(२२४) कृपण वेदपाठी तथा दानी व्याज सेने वालों को अन्न को देवनाथों ने एक समान बतसाया है ।

तान्प्रज पतिराहैत्यमाकृञ्च विपम समम् ।

— भद्रापूत षडान्यस्य हतमभद्रपेतरत् ॥ २२५ ॥

(२२५) परन्तु प्रजा जी देवताओं की सम्पत्ति से सहमत नहीं हैं बल्कि वे याद द्वारा प्राचीनिका वाले दानी के

अन्न को श्रद्धा व सहृदय होने के कारण उत्तम और कृपण के अन्न को विष के समान निकृष्ट बतलाते हैं ।

श्रद्धयेष्टं च पूर्णं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः ।

श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतैर्धनैः ॥२२६॥

(२२६) आलस्य त्याग कर साहस सहित सदैव यज्ञ करे, कुआ वनवाये, तथा तालाव व दावली को वनवाये । उत्तम रीति से उपार्जित धन लगा कर साहस सहित यह दोनो कार्य करे तो अक्षय धन, सुख तथा यश को प्राप्त करता है ।

दानधर्मं निषेवेत नित्यमैष्टिकपौर्तिकम् ।

परितुष्टेन भावेनपात्रमासाद्य शक्तितः ॥ २२७ ॥

(२२७) उत्तम ब्राह्मण को पाकर शक्त्यनुसार परितुष्ट करने के भाव से सदैव यज्ञ तथा कुआ आदि का दान करे, अर्थात् उत्तम ब्राह्मणो को अपनी शक्ति के अनुसार सन्तुष्ट करे ।

यत्किंचिदपि दातव्यं याचितेनानसूयया ।

उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सर्वतः ॥२२८॥

(२२८) अन्दिक भिक्षुको को निजबलानुसार दान दिया करे, क्योंकि सदैव के देने मे किसी न किसी दिवस कोई पात्र (योग्य) धर्मात्मा आ जावेगा और ज्ञानोपदेश से तार देगा ।

वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षय्यमन्नदः ।

तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चक्षुरुत्तमम् ॥ २२९ ॥

(२२९) प्यासो (तृप्तितो) को पानी पिलाने वाला सन्तोष तथा तृप्ति, क्षुधातुरो को भोजन खिलाने वाला अक्षय

सुप्त तिस्र देने वाला उत्तम सन्तान और पच में दीपक बसाने
वाला उत्तम पत्नी (प्राप्तों) को पाता है ।

भूमिदो भूमिमाभावि दीर्घमायुर्द्विरयद* ।

गृहदोऽग्र्याणि घेरमानि रूप्यदो रूपमुत्तमम् ॥२३०॥

(२३०) १—भूमि २—सोना ३—घर ४—रूप्या इन
का देने वाला क्रमानुसार १—भूमि २—दीर्घायु, ३—उत्तम घर
तथा ४—उत्तम रूप को पाता है ।

वासोदश्चन्द्रसाक्षोप्यमरिवसालोप्यमस्वद* ।

अनदुहः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रह्मस्य विष्टपम् ॥२३१॥

(२३१) १—वस्त्र २—प्रद्वय ३—सैल ४—गऊ का
देने वाला यथाक्रम १—ब्रह्मसोक २—ब्रह्मणी कुमारसोक
३—प्रलय घन ४—सूर्यसोक को पाता है ।

यानशय्याप्रदो भार्यामैश्वर्यममयप्रद* ।

षान्पद* शाश्वतसौख्य ब्रह्मदो ब्रह्मसार्थिताम् ॥२३२॥

(२३२) १—यान [सवागी] २—शय्या, ३—प्रमय
४—वद इमका देने वाला क्रमानुसार १—स्त्री २—घन ३—
प्रक्षय सुख ४ ब्रह्मसोक के तुल्य पद को पाता है ।

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदान विशिष्यत ।

भार्यभगोमहीबासस्तिलकाचनमर्षिषाम् ॥ २३३ ॥

(२३३) जस घन्न गऊ, भूमि वस्त्र तिस्र सोना भी
इन सब दानों में से वेद का दान सर्वोत्तम है ।

यन यन तु भावेन यद्यद्दानं प्रपञ्चति ।

तद्यत्तन्नैव भावन प्राप्नोति प्रतिपूजित* ॥ २३४ ॥

(२३४) जो दान जिस प्रकार दिया जाता है वह उमी विधि से दूसरे जन्म मे प्राप्त होता ।

योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ददात्यर्चितमेव च ।

तावुभौ गच्छतः स्वर्गं नरकं तु विपर्यये ॥२३५॥

(२३५) उत्तम वस्तु का दाता और ग्रहणकर्ता दोनो स्वर्गगामी होते हैं । इसके विपरीत निकृष्ट वस्तु के दान दाता व ग्रहणकर्ता दोनो नरकगामी होते हैं ।

न विस्मयेतः तपसा वदेदिष्ट्वा च नानृतम् ।

नार्तोऽप्यपवदेद्विप्रान्न दत्त्वा परिकीर्तयेत् ॥२३६॥

(२३६) तप करके अभिमान न करे, यज्ञ करके अनृत [असत्य] भाषण न करे, क्रोधयुक्त व दु खी चित्त होकर ब्राह्मण को अपशब्द न कहे, दान देकर प्रकट न करे ।

यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात् ।

आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात् ॥२३७॥

(२३७) १—असत्य भाषण, २—अभिमान करना, ३—ब्राह्मण का अपमान व अनादर करना, ४—दान देकर प्रकट करना, इन सब कार्यों के करने से यथाक्रम १—यज्ञ, २—तप, ३ आयु ४—दान का नाश हो जाता है ।

धर्मशनैः संचिनुयाद्बल्मीकमिव पुत्तिकाः ।

परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यऽपीडयन् ॥ २३८ ॥

(२३८) ऐसी विधि से जिसमे किसी भूत [जीवप्राणी] को कष्ट न होने पावे परलोक के सहायार्थ धीरे-धीरे धर्म सचय [इकट्टा] करे जैसे बल्मीक [चींटी] अन्न सग्रह करती है ।

नामुत्र हि महायार्थं पिता माता च तिष्ठत । १

न पुत्रदारां न भ्रातिर्धर्मस्तिष्ठति क्वचन ॥२३६॥

(२३६) माता पिता स्वजाति सम्बन्धा पुत्र यह सब परलोक में कुछ भी सहायता नहीं कर सकते हैं कवच धर्म ही वहाँ काम आता है ।

एकः प्रजायते अन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एकोऽनुसृष्टे सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥२४०॥

(२४०) जीव भ्रकेसा ही जन्मता है और भ्रकेसा ही मृत्यु पाता है भ्रकेसा ही पुण्य-पाप करता है और भ्रकेसा ही उसका फल पाता है ।

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठमम पिती । १

विमुखावाधवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥२४१॥

(२४१) लकड़ी और मिट्टी के टुकड़े की नाइ बाग्धब या जाति सम्बन्धी मृत शरीर को जलाकर विमुख ही जाते धर्मसे बचते जाते हैं केवल धर्म ही साथ जाता है ।

तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं सचिनुवाञ्छनै ।

धर्मैष हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ २४२ ॥

(२४२) प्रथमक धर्मने सहायतार्थं धर्म को सदैव करता रहे क्योंकि धर्म ही की सहायता से भवसागर से पार होता है ।

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा इतकिन्धिपम् ।

परलोकं नयत्यशु भास्वन्तं स्वशरीरिखम् ॥ २४३ ॥

(२४३) जिस पुरुष का धर्म सहायक है और तप द्वारा जिसका पाप क्षय हो गया है वही धर्म उसका स्वयं में से जाता है

उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं संबन्धानाचरेत्सतः ।

निनीपुः कुलमुत्कर्णमधमानधमांस्त्यजेत् ॥ २४४ ॥

(२४४) कुल को मान देने के हेतु उत्तम-उत्तम पुरुषो से सम्बन्ध करे और अधम पुरुषो का करना चाहिये ।

उत्तमानुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्च वर्जयन् ।

ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम् ॥ २४५ ॥

(२४५) उत्तम-उत्तम पुरुषो से सम्बन्ध करके तथा अधम-अधम पुरुषो का परित्याग करके ब्राह्मण मान-मर्यादा प्राप्त करता है और दोष लगने से शूद्र के समान होता है ।

दृढकारी मृदुदान्तःक्रूरचारैरसंबसन् ।

अहिंसो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं ततः व्रतः ॥ २४६ ॥

(२४६) प्रारम्भ किये हुए कार्य को दृढ चित्त से समाप्त करने वाला, दयालु और क्रूर अत्याचारी के विरोधको सहनशीला इन्द्रिय निग्रह [इन्द्रियो को वश मे करना] और विषयो से उनको अवरुद्ध करने वाला, अधम पुरुषो का परित्याग कर उत्तम पुरुषो से सम्बन्ध करने वाला, आत्महत्या तथा जीवहत्या [किसी जीव का हनन, करना] न करने वाला सुख को प्राप्त करता है ।

एधोदकं मूलफलमन्नमभ्युद्यतंचयत् ।

सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्मध्वथऽभयदक्षिणाम् ॥ २४७ ॥

(२४७) लकड़ी, जल, मूल, फल, अन्न, मधु, अभय यह सब अग्र्यचना [वेमागे] प्राप्त होंवे तो इनको सबसे लेना चाहिये । [परन्तु विषयी, पतित, नपु सक तथा शत्रु से न लेवे] ।

आहृतान्युद्यतां मिथां पुग्स्तान्प्रचोदिताम् ।

मेनेप्रज्रपतिर्ग्रामपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २४८ ॥

(४८) जब किसी वस्तु के दाता ने प्रथम से न कहा हो और ग्रहणकर्ता के समीप बैठकर बिना याचे दे तो उस वस्तु को पतिव के प्रतिरिक्त कुकर्मी से भी लेना चाहिये ग्रहणाभी ने ऐसा कहा है ।

नारनन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पञ्च च ।

न च इत्थं षडत्यग्निर्यस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४९ ॥

(२४९) जो पुरुष ऐसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता है उसके दिये हुए इत्थं तथा कर्म्य को देवता तथा पितर भी पन्द्रह वर्ष पर्यन्त नहीं लेते ।

शय्यां गृहान्कुशान्गन्धानपः पुष्प मयी दधि ।

धानामत्स्यन्ययो मांस शाकं चैव न निनुदित् ॥ २५० ॥

(२५०) शय्या गृह कुश गन्ध अम फूल मणि दधि [दही] धाना [साई] मत्स्य [मछली] दुग्ध मांस शाक इन सबको त्याग न करे ।

गुरुन्मृत्यां रषाञ्जिह्वीर्नवर्षिष्यन्देवतातिथीन् ।

मर्भत प्रतिगृह्य याञ्च तु तृप्येत्स्वय ततः ॥ २५१ ॥

(२५१) यदि माता पिता मेवक स्त्री आदि क्षुधा से पीडित हो तो उनके कष्ट निवारण की इच्छा से देवता व प्रतिधि का पूजन करता हा तो पतिव के प्रतिरिक्त सब से लेने परन्तु आप उसको न चाये ।

गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वार्तैर्गृहे वसन् ।

आत्मनोवृत्तिमन्विच्छन्नगृह्ण यात्साधुतः मदा ॥२५२॥

(२५२) माता-पितादि की मृत्यु के पश्चात् अथवा जीवितावस्था में दूसरे स्थान पर बस कर आत्मवृत्ति के हेतु उत्तम पुरुषों से लेवे ।

आधिकः कुलमित्रं च गोपालो दामनापितौ ।

एते शूद्रेषु मौज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥२५३॥

(५३) जो शूद्र जिसकी कृषि करता है उस शूद्र का अन्न उसके भोजन योग्य है जो शूद्र कुलमित्र है, गोपाल, दास, नापित (नाई) अथवा जिस शूद्र ने सेवाकर्म धारण कर लिया हो उन सबका अन्न न खाना चाहिये ।

यादृशोऽस्य भवेदात्मा यादृशं च चिकीर्षितम् ।

यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत् ॥ २५४ ॥

(२५४) जिस शूद्र का जैसा कुल, जैसा रूप और जैसा करने की इच्छा हो व जिस प्रकार की सेवा करना चाह वैसा ही वह शूद्र अपने को कहे ।

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते ।

स पापकृत्तमोलोके स्तेन आत्मापहारकः ॥ २५५ ॥

(२५५) जो कोई उत्तम पुरुषों में अपने को गुप्त रखता है अर्थात् जैसा है वैसा नहीं कहता वह महापापी है और अपनी आत्मा का चोर है ।

वाच्यार्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्बनिः सृताः ।

तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ २५६ ॥

(२५६) जितने धर्म हैं सो सब बाणी में रहते हैं और बाणी इन सबकी मूल है यह सब बाणी द्वारा निकलते हैं उस बाणी को जिसने धुराया वह सब वस्तुओं का धुराने वाला हुआ ।
महर्षिपितृदेवानां गत्वाऽऽनृण्य यथाविधि ।

पुत्रे सब समासज्य वसेन्माष्यस्यमाधित ॥ २५७ ॥

(२५७) देव ऋषि पितर इन छीनों को ऋण से यथा विधि छुटकर सब वस्तुएँ पुत्र को सौंप कर संसार त्यागी होकर सबको एक दृष्टि से एक सम न देने और गृह ही में रहें ।

एककी चिन्तयेभिस्य भिविक्ते हितमात्मनः ।

एककी चिन्तयानो हि परं भेयोधिगच्छति ॥२५८॥

(२५८) एकांत में प्रवेशा अपनी आत्मा के हित का नित्य ही ध्यान करे इसमें परम बस्याण होगा ।

ण्योदिता गृहस्यस्य बुधिविप्रस्य शारवती ।

स्नातकप्रतकम्परच सखबुद्धिकम् शुभः ॥ २५९ ॥

(२५९) गृहस्थ वृत्ति ब्राह्मण धर्मान् गृहस्थी ब्राह्मण का यह नित्य व्रत कहा तथा बुद्धि की बुद्धि करने वाला स्नातक व्रत भी कहा ।


अनक विप्रो बुधेन धर्त्तयन्वदशास्त्रवित् ।

ष्यवेनकम्नयो नित्य मद्यज्ञाकं महीयत ॥ २६० ॥

(२६०) वेद तथा शास्त्र का ज्ञान ब्राह्मण उपरोक्त गीति से गृहा करने तो सब पापों से छुटकर सर्वत्र ब्रह्मसोक में पुत्रन पाय्य है ।

मनु जी के धर्मशास्त्र भृगु जी की संहिता का अनुष घण्ट्याय समाप्त हुआ ।

❀ पञ्चमोऽध्यायः ❀



श्रुत्वैतानृपयो धर्मान्स्नातकस्य यथोदितान् ।

इदमृचुर्महात्मानमनलप्रभवं भृगुम् ॥ १ ॥

(१) स्नातक के धर्मों को सुनकर ऋषि लोगो ने महात्मा भृगु जी से (जो अग्नि से उत्पन्न हुए है) यह प्रश्न किया कि हे प्रभु !

एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधर्ममनुतिष्ठताम् ।

कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ २ ॥

(२) इस प्रकार ब्राह्मण लोग जो अपने यथोक्त धर्म-पर स्थित रहे और वेद तथा शास्त्र के ज्ञाता हो उनकी मृत्यु क्यो होती है ?

स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः ।

श्रूयतां येन तोषेण मृत्युर्विप्रास्त्रिधांसति ॥ ३ ॥

(३) मनुजी के पुत्र धर्मात्मा भृगुजी ने उन ऋषियो को उत्तर दिया कि जिस दोष से ब्राह्मणो को मृत्यु मारती है, उसको सुनिये ।

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात् ।

आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्रास्त्रिधांसति ॥ ४ ॥

(४) वेदाभ्यास न करने से, आलस्य करने से, आचार परित्याग से, भोजन-दोष से ब्राह्मणो को मृत्यु मारती है ।

लशुनं गृजनं चैव पलाण्डुं कवकानि च ।

अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ ५ ॥

(१) सहसुन गाजर (गृष्म) पलाण्डू (प्याज) कवका (कुकुरमुत्ता) विष्टा आदि अपवित्र वस्तुओं से बिन वस्तुओं की उत्पत्ति है उन सबको ब्राह्मण भोजन न करे ।

सु द्वितान्वृषनिर्यामान्वृश्चनप्रमर्वास्तथा ।

शोष्ठु गर्भ्यं च पेयुषं प्रयत्नेन विप्रर्जयेत् ॥ ६ ॥

(६) वृष का सासा साल रंग का मयवा ओ बाटने से उत्पन्न हो जाहे जिस रंग का हो इन्द्र जो, मई म्याई हुई पक का दुग्ध पेयूषा इस सबको भोजन न करे ।

वृषा कुसरक्षयाच पायसापूपमव च ।

अनुपाकृतमांसानि देवाभ्यानि हवींषि च ॥ ७ ॥

(७) उत्तम वस्तुयें वृद्धों और विद्वानों को खिसाये बिना प्रवेशे कभी न खाये तथा हवन योग्य पदार्थों को हवन किये बिना कभी भोजन न करे, तथा देवों को दान दिये बिना मांस भक्षण न करे ।

अनिर्देशाया गा क्षीरमौष्टमैश्याक तथा ।

आधिक साधिनीक्षीर विवत्सायारश्च गोः पथ ॥ ८ ॥

(८) वृषा उत्पन्न होने से दध दिवस पर्यन्त गऊ का दूध ऊ र्नी एक मुर वाली (अर्षान् घोड़ी आदि) भेड़ गभिरणी (गाभिन) गऊ अथवा वह गऊ जिसका वृषा मर गया हो इन सबका दूध पीना बजित है ।

१ प्राग्नि भी मनुषी का नाम है दसो अध्याय १२—

* यह दसो मन्त्राय धार्या व सन्निधय के पश्चात् सम्मिलित किया गया है क्योंकि ब्रह्म व मासाहारी को राक्षस घना अमर कहा है । यह दबता का भोजन नहीं हो सकता ।

आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना ।

स्त्रीक्षीरं चैव वज्यानि सर्वशुक्तानि चैव हि ॥ ९ ॥

(९) भैंस को छोड़कर शेष बन जीवो तथा स्त्री का दूध वा वह वस्तुये जो किसी खटाई के मिश्रित किये विना खट्टी हो जायें कभी न खानी चाहिये । इनसे विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं ।

दधि भक्ष्यं च शुक्तेषु सर्वं च दधिसंभवम् ।

यानि चैवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफलैः शुभैः ॥ १० ॥

(१०) परन्तु खट्टे पदार्थों में दही वा दही से बनी हुई वस्तुये वा जल से बना हुआ फूल, मूल, फल आदि का भोजन करना वर्जित नहीं है ।

क्रव्यादाञ्छकुनान्मर्वास्तथा ग्रामनिवासिनः ।

अनिर्दिष्टांश्चैकशफांष्टिद्विभं च विवर्जयेत् ॥ ११ ॥

(११) अपक (कच्चा) मासभक्षी, गधा आदि जीव, गाव में रहने वाले कबूतर आदि पक्षी, एक खुर वाले पशु, इनके अतिरिक्त जो शास्त्र में अभक्ष्य कहे गये हैं तथा भेड इन सबका भक्षण वर्जित है ।

कलविद्धं प्लवं हंसं चक्राङ्गं ग्रामकुक्कुटम् ।

सारसं रज्जुवालं च दात्युहं शुक्रमारिके ॥ १२ ॥

(१२) स्वच्छ जल में तैरने वाले हंस, चकवा, गाव का रहने वाला कुक्कुट (मुर्गा), सारस, रज्जुवाल पक्षी, जलकौआ, तोता, मैना इनको भी न खायें ।

प्रतुदाञ्जालपादांश्च कोयटिनखविष्किरान् ।

निमज्जतश्च मत्स्यादाञ्शौनं वल्लूरमेव च ॥ १३ ॥

(१३) चोंच से खाने वाले बटफोड़ नाम पक्षी प्रादि
घाड़ी प्रादि टिटिहरी प्रादि पजे से नोंच कर खाने वाले बाब
प्रादि पानी में डूब कर मछली खाने वाले जीव कसाई के घर
का मांस सूखा मांस इन सबको भी न खाव ।

षफ चैष बलाकां च काकोल सञ्जरीटकम् ।

मत्स्यान्विड्परार्हाश्च मत्स्यानेषु च सर्वशः ॥ १४ ॥

(१४) बगुसा या बसाका (दूसरे प्रकार का बगुसा)
काकोल (घति स्य म कौमा) सञ्जरीट (सडरेवा) मछली
मक्षी पक्षी गाव का सूअर तथा मछली इन सबको भी न खाव ।

यो यस्य मांसमरनाति स तन्मांसाद् उच्यते ।

मत्स्यादभर्षमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विड्जंयत् ॥ १५ ॥

(१५) जो जीव जिसने मांस का भक्षण करता है वह
उस जीव का मक्षी कहलाता है जैसे मछली सबका मांस भक्षण
करती और उसको जिसने खाया उसमें मामो सब मांस भक्षण
कर लिये अतः मछली न खानी चाहिये ।

पाठीनगण्डितायाया नियुक्तौ इन्विकल्पयो ।

राजीवान् मिहत्तुण्डार्श्व सशल्कार्श्वेऽ सर्वशः ॥ १६ ॥

(१६) राजीव मिहत्तुण्ड सशल्क पडना रोहू इन
सबको दबना और पितरा का भोग लगाकर खाना चाहिये ।

न भक्षय क्षत्रगण्डात्तार्श्व मृगाद्विजान् ।

भक्ष्यन्वापि समुत्पिष्टान्मर्षान्पञ्चनखास्तथा ॥ १७ ॥

(१७) जो जीव प्रायः भक्षेले रहते हैं यथा सर्प प्रादि
घोर आ माने हुए नहीं हैं हिरन व पक्षी प्रादि पाँच नख वाले
बन्दर प्रादि इन सबका भक्षण न करे ।

श्वविधं शन्यकं गोधां खडगकूर्पशशांस्तथा ।

भक्ष्यान्पञ्चनखेष्व्राहुरनुप्रांश्चैकतोदतः ॥१८॥

(१८) पाच नख वालो मे, शाली, गोह, सेही, गंडा, कछुआ, खरहा खाने योग्य है और ऊंट को छोड़ एक ओर दात रखने वाले तथा इनके अतिरिक्त जिन २ को वर्जित किया है, वह भक्षण योग्य हैं ।

छत्राकं विड्वगहं च लशुनं ग्राम कुक्कुटम् ।

फलाण्डुं गृजनं चैव मया जग्ध्वा पतेद्विज ॥१९॥

(१९) १—कुकुरमुता, २—गाँव का रहने वाला सूअर, ३—नहसुन, ४—गाव का मुर्गा, ५—प्याज, ६—गाजर इन सब को जान कर भोजन करे तो पतित हो जाता है अर्थात् अपने धर्म पण, आश्रम के पद से गिर जात है ।

अमन्यैतानि पड्जग्ध्वा कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् ।

यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः ॥२०॥

(२०) यदि इन छहो को अज्ञानतावस्था मे भोजन करे तो सन्तपन नाम कृच्छ्रव्रत को करे वा यति चान्द्रायण व्रत को करे, शेष, वृक्षलासादि के भोजन करने मे एक दिन का उपवास करे ।

संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कृच्छ्रं द्विजोत्तमः ।

अज्ञातभुक्तशुद्ध्यर्थं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥२१॥

(२१) जो वस्तु खाने योग्य नहीं है उसको अनभिज्ञता मे खा जाने से जो दोष है उसके विनाशार्थं साल भर मे एक कृच्छ्र व्रत को करे । यदि जान कर खाया हो तो उसके हेतु विशेष कर कृच्छ्र व्रत करे ।

यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्व्याः प्रशस्ता भृगपक्षिणः ।

मृत्यानां चैव चुरयर्थमगस्त्यो ह्याश्वरत्पुरा ।२२।

(२२) यज्ञार्थ वा सेवकों के हेतु उत्तम हिरन तथा पक्षी मारना चाहिये ।+ अगस्त्य ऋषिने पूर्व समय में ऐसा किया है ।

बभ्रुर्हि पुरोडाशा भक्षधार्या भृगपक्षिणाम् ।

पुराशेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मण्यसत्रेषु च ।२३।

(२३) अगमे समय में ऋषियों ने यज्ञार्थ भोजन योग्य हिरनों और पक्षियों को मारा है ।

यत्किञ्चित्स्नेहसयुक्ते मर्त्यं भोज्यमगर्हितम् ।

तत्पयुं पितृमप्याय हविःशेषश्च यद्भवेत् ।२४।

(२४) जो पदार्थ भी और तेल से बने और खाने योग्य हो वह बासी होने तो भी भोजन करे तथा + हव्य भी यदि बासी हो तो भोजन करे ।

धिरस्थितमपि त्वापमूस्नेहाक्त द्विजातिभिः ।

पयगोधूमजं सर्वं पयसरन्वैव विक्रिया ।२५।

(२५) जो वस्तु जो वृत्तों से बनी परन्तु भी व

नोट—यह प्रकरण भी सम्मिश्रित किया हुआ है क्योंकि अमवेद के २१सूक्त में मास महारण प्रत्येक मनुष्य के लिये बर्जित है ।

+यह विषय भी सम्मिश्रित किया हुआ है क्योंकि अगस्त्य समुज्जी के पक्ष्यात् हुये हैं । अगस्त्य को मनु से प्रथम वतसामा सर्वथा प्रसक्त है । क्योंकि मनु ब्रह्मा का नाम है, प्रायः सोम मामते हैं वा परमात्मा का पीत्र (पोता) बतसाठे हैं ।

१—हवन भोजन योग्य पदार्थ यथा मवे हमुष्मा भाषि ।

तेल से परिपक्व हुई हो और वासी हो अथवा जो वस्तु दुग्ध द्वारा बनी हो किन्तु वासी हो तो उसको भोजन न करे ।

एतदुक्तं द्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्यमशेषतः ।

मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवर्जने ॥२६॥

(२६) जो पदार्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के भोजन योग्य व जो श्रायोग्य हैं उनको कहा, अब मांस भक्षण निषेध को कहते हैं ।

प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया ।

यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥२७॥

(२७) प्रोक्षि नाम सस्कार द्वारा जो मांस बना है, यज्ञ में हवन करने से मांस शेष रहा है इन दोनों प्रकार मांस को भोजन करना चाहिये । जब ब्राह्मणों को मांस भक्षण की इच्छा हो तब शास्त्र विधि से मांस भक्षण करे, जब क्षुधा से मृत्यु की आशंका हो तो उस समय भी मांस भोजन करे ।

प्राणस्यान्नमिदं सर्वं प्रजापतिरऽकल्पयत् ।

स्थावरं जंगमं चैत् सर्वप्राणस्य भोजनम् ॥२८॥

(२८) स्थावर व जङ्गम जितनी वस्तुयें ससार हैं सब प्राण के भोजन हैं, इस बात को भी ब्रह्माजी ने कहा है ।

चगणामन्नमचरा दंष्ट्रिणामप्यदंष्ट्रिणः ।

अहस्ताश्च महप्तानां शृगणां चैव भीरवः ॥२९॥

१-चर (चलने वाले) २-अचर (न चलने वाले)

नोट—यह सारा प्रकरण सम्मिलित किया हुआ है, क्योंकि मनुजी ने आगे चलकर मांस भक्षण को सुख से हटाने वाला कहा है । और सुख से प्रथक् करने वाला कर्म ही पाप है ।

(२९) १-चर जीवों का भोजन २-अचर जीव है, दाढ़ वारों का भोजन बिना दाढ़ वाले है हाथ वारों का भोजन बिना हाथ वाले है घूर वीरो का भोजन (भीरु) (डरपोक) है।

नात्ता दुष्पत्यदन्नाद्या प्राणिनोऽहन्यहन्यपि ।

घात्रैव सूष्टा व्यापारव प्राणिनोऽन्तार एव च ॥३०॥

(३०) भोजन योग्य जीवोंको खाने से मक्की को बचाना नहीं होता क्योंकि भक्षण योग्य जीवों को घोर भक्षण करने वाला को वनों को ही ब्रह्माजी ने ही उत्पन्न किया है ।

यज्ञाय जग्धर्मांसस्येप दैवो विधिः स्मृतः ।

अतोऽन्यथा प्रवृत्तित्तु राक्षसो विधिरुष्यते ॥३१॥

(३१) यज्ञ के निमित्त मांस भक्षण करना शास्त्र की विधि है इसके प्रतिरिक्त और मांस भक्षण करना राक्षसी विधि है ।

क्रीत्वा स्वयंभाप्युत्पाद्या परोपकृतमेव वा ।

तेत्रान्विष्टु र्बर्चयित्वा स्वाद्गांस न दुष्यति ॥३२॥

(३२) मोस लिये हुये व दूसरे के साथे मांस को देवता तथा पितर को भोग लगा कर भक्षण करने से पाप नहीं होता ।

नाद्यादविधिना मांस विधिक्षोऽनापदि द्विजः ।

जग्ध्या एविधिना मांसं प्रेत्य तैरपतेऽवशाः ॥३३॥

(३३) ब्राह्मण शास्त्र-विधिज्ञाता है वह आपत्काल के प्रतिरिक्त अन्य दशा में यदि विधिबिह्य मांस भक्षण करे तो

परलोक मे उसके मास को वह भक्षण करता है जिसके मास को उसने भक्षण किया है ।

न तादृशं भवत्येनो मृगहन्तुर्धनार्थिनः ।

यादृशं भवति प्रेत्य वृथा मांसानि खादतः ॥३४॥

(३४) धनार्थं (धनोर्णार्जनार्थं) जो मृग (हिरन) को हनन करता है उमे वैसा पाप नहीं होता जैसा वृथा मासभक्षी को परलोक मे होता है ।

नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः ।

स प्रेत्य पशुतां याति संभावनेकविंशतिम् ॥३५॥

(३५) शास्त्र विधि से जो मास विशुद्ध है उसको जो मनुष्य नहीं ग्रहण करता है वह परलोक मे २१ जन्म पर्यन्त पशु होना है ।

असंस्कृतान्पशुन्मन्त्रैर्नाद्याद्विप्रः कदायन ।

मन्त्रैस्तु संस्कृतानद्याच्छ्राश्वतं विधिमास्थितः ॥३६॥

(३६) जिस मास का संस्कार नहीं हुआ उसको ब्राह्मण कदापि भोजन न करे तथा सदैव शास्त्रानुकूल मन्त्रो द्वारा संस्कार किये दृये मास को भक्षण किया करे ।

कुर्याद्दधृतपशुं सङ्गैः कुर्यात्पिष्टपशुं तथा ।

न त्वेव तु वृथा हन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन ॥३७॥

(३७) जब पशु के मास भक्षण करने की तीव्र अभिलाषा हो तो घी अथवा मीठे का पशु बनाकर भोजन करे किन्तु पशु के हनन करने की इच्छा न करे ।

यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो हि मारणम् ।

वृथापशुघ्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥३८॥

(३८) जो मनुष्य बुधा पशु हनन कनसा है वह परसीक में कई जन्म पर्यन्त उसनी ही बार मारा जाता है जितना वास (रोम) उस मारे हुए पशु के शरीर पर हों ।

यज्ञार्थं पशवः सृष्टा स्वयमेव स्वयमुवा ।

यज्ञस्य मृत्यै सर्वस्य तस्माद्यज्ञे बधोऽवधः ।३९।

(३९) श्री ब्रह्माजी स्वयमेव यज्ञ निमित्त पशु को उत्पन्न किया इससे यज्ञ में जो पशु बध (मर्णात् जीवहत्या) होती है वह बध नहीं कहलाता ।

ओषध्य पशवो वृक्षास्तिर्यग्व्यः पश्चिस्तथा ।

यज्ञार्थनिधन प्राप्त प्राप्नुवन्त्युमृतीः पुन ।४०।

(४) अथ पशु वृक्ष पक्षी कङ्कमा आदि यह सब यज्ञ निमित्त बध किये जाने से प्राणामी जन्म में उत्तम जाति को पाठे हैं ।

मधुपर्के च यज्ञे च पितृद्वेषतकर्मणि ।

अथैव पशवो हिंस्या नान्यत्रोत्पन्नानीन्मु ।४१।

(४१) १-मधुपर्क २-यज्ञ ३-द्वेषकर्म ४-पितृकर्म इनमें पशुबध करना चाहिये अन्य कर्म में न करना चाहिये । यह भी मनुजी ने कहा है ।

एष्वधेषु पशुन्दि सन्वेदत रथार्थमिदृश्वज ।

आत्मानं च पशु जैव गमयत्युत्तमां गतिम् ॥४२॥

यज्ञ में पशुबध वाममार्गीयो ने सम्मसित किया है अथवा बधों में तो यज्ञके अर्थ में अथर्व शब्द आता है जिसका अर्थ यह है कि जिसमें कहीं हिंसा न हो । उसका वही प्रमाण है कि विश्वामित्र ने हिंसा के भय से अपने यज्ञ में स्वयम् रादासों को नहीं मारा बरम् रक्षा के निमित्त रामचन्द्र को बुलाया ।

(४२) ऐसे कर्मों में पशु की हिंसाकर वेदज्ञाता ब्राह्मण अपने आप को तथा उस पशु की उत्तम गति को पहुँचाता है ।

गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्विजः ।

नावेदविहितां हिंसामाश्रयि समाचरेत् ॥४३॥

(४३) गृह में, गुरु के स्थान में व वन (जंगल) में बस कर ब्राह्मण वेदविरुद्ध जीव हिंसा आपद समय में भी न करे ।

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिंश्चराचरे ।

अहिंसामेव तां विद्याद्वेदाद्धर्मो हि निर्वभौ ॥४४॥

(४४) जो हिंसा इस ससार में वेदाज्ञानुसार है उसको हिंसा अर्थात् जीवहत्या न जानना चाहिये क्योंकि वेद ही से धर्म निकला है ।

योऽहिंसकानि भृतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।

स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते ॥४५॥

(४५) जो जीव वध योग्य नहीं है उसको जो कोई अपने सुख के निमित्त मारता है वह जीवित दशा में भी मृतक तुल्य है वह कहीं भी सुख नहीं पाता है ।

यो बन्धनबधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीर्षति ।

ससर्वस्य हितप्रप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥४६॥

(४६) जो मनुष्य किसी जीव को बन्धन में रखने (पकड़ने) वध करने व क्लेश देने की इच्छा नहीं रखता है वह सबका हितेच्छुक है अतएव वह अनन्त सुख भोगता है ।

यद्बुध्यायति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च ।

तदवाप्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥४७॥

(४७) मनुष्य किसी का ऋण नहीं करता वह जिस कार्य का ध्यान करता है अथवा जिस कार्य के करने की इच्छा करता है उसको बिना प्रयास ही पाता है ।

नाऽकृत्वा प्राथिनां हिंसां मांसमुत्पद्यत भवचित् ।

न च प्राथिवेषु स्वर्ग्यस्वस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥४८॥

(४८) जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होती और जीवों की हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है अतः मांस कदापि भक्षण न करना चाहिये ।

समुत्पत्तिं तु मांसस्य वधवन्धौ च देहिनाम् ।

प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणम् ॥४९॥

(४९) मांस की प्राप्ति जीवों का वधन तथा उनकी हिंसा (हत्या) इन बातों को देख कर सब मांस का भक्षण त्याग करे ।

न भक्षयति यो मांसं विधिं हिंसा पितृशवत् ।

स श्लोके प्रियतां याति व्याधिभिरथ न पीड्यते ॥५०॥

(५०) जो मनुष्य विधि परित्याग कर पिशाच की तरह मांस भक्षण नहीं करता है वह श्लोक में सर्व प्रिय होता है और विपत्ति के समय कष्ट नहीं पाता ।

ऋणियों से नीचकृष्ट जीवों को मनुष्यों के रक्षार्थ वध करना तो सिद्ध है परन्तु यज्ञादि के निमित्त पशुवध व जीवहत्या करना बाद को सम्मिश्रित किया गया है । राजा का धर्म है कि रक्षुं प्रायि मनुष्यों को तथा सिंहादि जीवों को मनुष्यों के रक्षार्थ मारे (घासेट करे) ।

इसोक्त ४६ वां तथा ४७ वां अहिंसा का सर्वथा मानने वाला है ।

अनुमन्ता विशमिता तिहन्ता व्रयविक्रयी ।

संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥५१॥

(५१) १-जिनकी सम्मति बिना जीव हिंसा न हो सके, २-शस्त्र से मांस काटने वाला, ३-मारने वाला, ४-बेचने वाला, ५-मोल लेने वाला, ६-वनाने वाला, ७-लाने वाला, ८-खाने वाला, यह आठो घातक (हिंसा करने वाले) ही कहलाते हैं ।

स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति ।

अनभ्यर्च्य पितृन्देवांस्ततोऽन्यो नास्तयण्यकृत् ॥५२॥

(५२) जो मनुष्य दूसरे के मांस द्वारा अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है उससे अधिक दूसरा पापी नहीं है ।

वर्षं वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः ।

मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम् ॥५३॥

(५३) मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त प्रत्येक वर्ष एक बार अश्व-मेघ यज्ञ करता है, तथा अन्य पुरुष जो मांस भक्षी नहीं हैं इन दोनों के पुण्य का फल समान है ।

फलमूलाशनैर्मेध्यैर्मुन्यभानां च भोजनैः ।

न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिर्वजनात् ॥५४॥

(५४) फल मांस परित्याग से होता है वह फल मनुजी के वतलाये हुए अन्य पदार्थों के भोजन करने से नहीं होता है । तात्पर्य यह कि सुख तथा बुद्धि जितनी भोजन द्वारा बढ़ती है उससे कहीं अधिक मांस परित्याग से बढ़ती है ।

मांसमद्ययिताऽपुत्र यस्य मांसमिदमव्यहम् ।

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिण ॥५५॥

(५५) विद्वज्जन मांस के यह भक्षण कहते हैं कि जिसके मांस को मैं इस जन्म में खाता हूँ वह प्रागामी जन्म में मेरे मांस को भक्षण करेगा ।

न मांसमप्ये दोषो न मद्ये न च मेषुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥५६॥

(५६) मद्य (शराब आदि) पीने, मांस भक्षण करने तथा मेषुन करने (स्त्रियों से समोग करने) में प्रायः जीवों की प्रवृत्ति है और वह अज्ञानवद्य इसमें दोष नहीं मानते हैं । परन्तु इन सबका परित्याग महाफल का देने वाला है ।

प्रतगुद्धिं प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धिं तथैव च ।

चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः ॥५७॥

(५७) अब यथाक्रम चारों वर्णों की प्रत शुद्धि तथा द्रव्य शुद्धि को कहते हैं ।

दाज्ञातेऽनुज्ञाते च कृत्तव्यं च सस्विते ।

अशुद्धा घान्धवा मर्षे सूतक च तथोच्यते ॥५८॥

(५८) जिस पर में सूतक होता है उनके वह सम्बन्धी जिनसे संस्कार हो चुके हैं शुद्ध गिने जाते हैं और संस्कार सेने चाहिये । पूढानर्म मजोपवीत्र इत्यादि ।

नोट—धर्मोक्त ११ व १४ म मांस के परित्याग का उपदेश है । जो मांस भक्षण के पक्ष में मनुजी का द्मोक्त विस्तारते हैं वह राक्षसा मूल्य करते हैं ।

दशार्हं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते ।

अर्वाक् संनयनादऽस्थनां त्र्यहमेकाहमेव च ॥५६॥

(५६) वेदपाठी व ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण को एक दिन जब तक शुद्धि का हवन न हो अशुद्धि रहती है। केवल वेदपाठी अग्नि होत्री को तीन दिन पर्यन्त और मूर्ख को दस दिन पर्यन्त सूतक रहता है।

सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिर्तते ।

समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोखेदने ॥६०॥

(६०) सातवें पुरुष में सपिण्डता की निवृत्ति होती है और अपनी मृत्यु के पश्चात् जब जन्म नामका ज्ञान नहीं रहना तब समानोदकता की निवृत्ति होती है।

यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते ।

जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणां शुद्धिमिच्छताम् ॥६१॥

(६१) जो पुरुष सपिण्डी में हो और अधिक शुद्ध की इच्छा रखते हो उनका ॐ सूतक पुत्रादि के उत्पन्न होने में भी मतक के तुल्य होता है।

ॐ यहाँ सूतक की अशुद्धि से यह तात्पर्य है कि सन्तानोत्पत्ति द्वारा उत्पन्न प्रसन्नता अथवा किसी कुटुम्बी को मृत्यु द्वारा उत्पन्न शोक को नित्य कर्मों के करने से विघ्न डाल देता है।

• ५६ वाँ श्लोक मासनिषेध को भी सिद्ध करता है। मास-भक्षी लोग जो मनुस्मृति के श्लोक आने पक्ष में दिखलाते हैं यह उनकी भूल है, क्योंकि मास भक्षण का पाप होता तो मनुस्मृति तथा वेद दोनों में सिद्ध है और मांस भक्षण पक्ष के श्लोक वाम-मार्गियों ने सम्मिलित कर दिये हैं। मनु जैसा ऋषि न तो वेदों के विरुद्ध लिख सकता है तथा न अपनी पुस्तक को दो प्रकार

मर्वेषां शान्तम शौचं मातापित्रोस्तु सूतकम् ।

सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिताः शुचि ॥६२॥

(६२) मृतक का सूतक सबको होता है किन्तु जन्म होने का सूतक केवल माता पिता ही को होता है । इन दोनों में से माता पिताको छूना चाहिए और पिता स्नान करने के पश्चात् छूने योग्य होता है ।

निरस्य तु पुमाठशुक्रमुपस्पृश्यैव शुद्ध्यति ।

वैजिक्यद् भसबन्धानुद्भ्यादुष्वं प्र्यङ्गम् ॥६३॥

(६३) यदि स्त्री सम्भोग के प्रतिरिक्त पुरुष का बीर्य पतन हो जावे तो स्नान कर्णके पवित्र हो जाता है व जिस स्त्री ने उपपत्ति किया हो उस स्त्री में दूसरे पति से पृथोत्पन्न होने में दूसरे पति को तीन दिन सूतक होता है । एक दिन रात्रि में या तीन दिन रातों में ।

अह्ना चैकेन रात्र्या च त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः ।

शवस्पृशो विशुद्ध्यन्ति अपहादुष्कदायिन ॥६४॥

(६४) मृतक के शव को स्पर्श करने वाले तथा मृतक के घर का जल पीने वाले अर्थात् त्रिनवा जस एक ही हो तीन दिन में शुद्ध होते हैं ।

गुरो प्रोत्सस्य शिष्यस्तु पितृमेघ समाधरन् ॥

प्रसहारं सम तत्र दशरात्रश्च शुद्ध्यति ॥६५॥

(६५) गुरु की मृत्यु पर यदि शिष्य उसका शव-वाह करे तो वह भी दस दिन में शुद्ध होता है ।

की एसी मामामा से जिनम मतावरोध हो निरर्थक (रही) कर सक्ता है ।

रात्रिभिर्मासतुन्यामिर्गर्भस्त्रावे विशुध्यति ।

रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥६६॥

(६६) जब गर्भ पात हो जावे (गिर जावे) तो जितने मास का गर्भ हो उतने ही दिन अशीच (अशुद्ध) रहता है । मासिकधर्म में रजोदर्शन के समाप्त होने पर स्नान करके वह स्त्री शुद्ध हो जाती है ।

नृणामकृतचूडानी विशुद्धिर्नैशि स्मृता ।

निवृत्तचूडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥६७॥

(६७) जिसका चूडाकर्म (मुण्डन) न हुआ हो उसकी मृत्यु से एक रात दिन का सूतक होता है । और चूडाकर्म के हो जाने पर मृत्यु पश्चात् तीन रात्रि तक सूतक रहता है ।

ऊनद्विवापिकं प्रेतं निदध्युर्गन्धवा बहिः ।

अलंकृत्य शुचौ भूमावस्थिसंचयनादृते ॥६८॥

(६८) जो लडका दो महीने का होकर मर जावे उसकी अलंकृत करके ग्राम से बाहर जगल में गाडना चाहिये । उसकी अस्थि (हड्डिया) सञ्चय (इकट्ठा) न करनी चाहिये

नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो न च कार्योदकक्रिया

अरण्ये काष्ठवन्धक्त्वा क्षपेयुस्त्र्यहमेव च ॥६९॥

(६९) अति छोटे बालको का अग्नि दाह करना व उनके शव को स्नान कराना यह दोनो कार्य्य न करने चाहिये । केवल जङ्गल में लकडा की नाई छोड आना चाहिये, क्योकि इससे वायु में दुर्गन्धि फैलने का भय नही होता ।

नाऽत्रिषर्षस्य कर्तव्या बान्धवैरुदकक्रिया ।

जातङ्गस्य वा कुपुर्नाग्निं वापि कृते सति । ७०॥

(७०) जो तीन वर्षसे न्यून अवस्था का हो उसके सब को स्नान कराना पर अग्नि दाह न करना चाहिये । यदि दीव निकस जाने पर मरा हो वा मामकरण पश्चात् मरा हो तो दाह करना बल देना चाहिये । यह केवल बसन (रीति) की बात है इसके करने न करने में कोई फल प्रपवा दोष नहीं है ।

सप्तस्यारिययेकमहतीते चपद्यां स्मृतम् ।

अमन्थेकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥७१॥

(७१) सहपाठी के मरने पर एक दिन का सूतक होता है और अम में मानोहक को तीन रात्रि का सूतक होता है ।

स्त्रोष्णामसकृतानां तु त्र्यहाच्छुद्ध्यन्ति बान्धवाः ।

यद्योकेनैव कर्मण शुद्ध्यन्ति तु सनामयः ।

(७२) विवाह के प्रथम बरवान के पश्चात् स्त्री के मरने में पति प्रादि तीन दिन में शुद्ध होते हैं और विवाह के पश्चात् मरने में पिता प्रादि सब तीन दिन में शुद्ध होते हैं ।

अक्षरक्षत्रशान्ना स्युर्निमज्जेयुरथ ते त्र्यहम् ।

मांशाशन च नरनीयु शयीरंश्च पृषक् पितृ ॥७३॥

(७३) सागे नमक न खाना नदी प्रादि में तीन दिन पर्यन्त स्नान करना मांस भक्षण न करना पृषक पृषिणी पर सोना चाहिये ।

सन्निधाषय वै कर्म शशाशीचस्य कीर्तितम् ।

अमन्निधाषय श्रेयो विषमवन्निधान्धवै ॥७४॥

(७४) जो सग्यन्धी समीप उपस्थित हो उनका सूतक

मरने में वर्णन किया गया, अत्र जो सम्बन्धी व कुटुम्बी दूर देश (परदेश) में ही उनका सूतक कहते हैं।

विगर्गं तु विदेशस्थं शृणुयाद्यो ह्यनिदर्शम् ।

यच्छेषं दशरात्रस्य ताघदेवाशुचिर्भवेत् ॥७५॥

(७५) जो सम्बन्धी व कुटुम्बी परदेश में मर जावे यदि उसका सन्देश दश दिन के भीतर अवे तो जितने दिन दश दिन में न्यून हो उतने दिन तक सूतक अर्थात् चित्ता आदि अशुद्धि रहती है।

अतिक्रान्ते दधाहे च त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ।

सम्बत्सरे व्यतीते तु स्पृष्टवैवापो विशुद्ध्यति ॥७६॥

(७६) यदि मरने से दस दिन पश्चात् सुनने में आवे तो तीन दिन रात पर्यन्तक सूतक मानना चाहिये। और यदि वर्ष पश्चात् सुनने में आवे तो सुनने वाला स्नान करके शुद्ध हो जाता है।

निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च ।

सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः ॥७७॥

(७७) दश दिन पश्चात् यदि कुटुम्बियों में किसी का मरण और जन्म सुनने में आवे तो वस्त्रों सहित स्नान करने से शुद्ध हो जाता है।

वाले देशान्तरस्थे च पृथक्पण्डे च संस्थते ।

-सवासा जलमाप्लुत्य सद्य एव विशुद्ध्यति ॥७८॥

(७८) परदेश में समानोदक बालक का मरण सुनने में आवे तो वस्त्रों सहित स्नान करने से उसी समय शुद्ध हो जाता है।

अन्तर्दशाह स्यातां चत्सुनर्मरणावन्मनी ।

तावत्स्यादशु निविप्रो यावत्स्यदनिर्दिशाम ॥७६॥

(७६) एक जन्म पश्चात् दूसरे जन्म का फल दस दिन के भीतर होवे अथवा एक की मृत्यु के पश्चात् दूसरे की मृत्यु प्रथम के दस दिन के भीतर होवे तो प्रथम सूतक समाप्त होने से दूसरा सूतक भी समाप्त हो जाता है ।

त्रिरात्रमाहुराशीरामाचार्ये सस्थिते सति ।

तस्य पुत्रे च पत्न्यां च त्रिवारात्रमिति स्थिति ॥८०॥

(८०) प्राचार्य की मृत्यु में शिष्य को तीन रात्रि का सूतक होता है प्राचार्य की स्त्री व उसके पुत्र की मृत्यु में एक त्रि रात्रि का सूतक होता है यह शास्त्र में उल्लिखित हैं ।

भात्रिये त्वसपत्ने त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ।

मतुल पक्षिणी रात्रिं शिष्यत्विगवा धवेपु च ॥८१॥

(८१) यदि वेद व शास्त्र का अध्ययन करने वाला मर जावे तो मित्रादि होकर उसके समीप रहने वाले अथवा उसके गृह में रहने वाले का तीन रात्रि पर्यन्त सूतक रहता है तथा मामा शिष्य अस्विक भाई बन्धु इनके मरने में पक्षिणि रात्रि (अर्थात् प्रथम और अठ के मध्य की रात्रि) पर्यन्त सूतक रहता है ।

प्र ते राजानि सज्जोतिर्यस्य स्याद्विषय स्थितः ।

अभात्रिय त्वहः कृत्स्ननुष्णान सथ गुरो ॥८२॥

(८२) यदि राजा की मृत्यु दिन में हुई हो तो सारे दिन और यदि रात में हुई हो तो सारी रात्रि उम राज में रहने वाली प्रजा की सूतक होता है । मूर्ख आहारण को गृह्य में उस

गृह वासियो को एक दिन का सूतक होता है, अर्थात्-यदि दिवस में मृत्यु हुई हो तो सारे दिन, और रात्रि में मृत्यु हुई हो तो सारी रात्रि सूतक होता है। सहपाठी की मृत्यु में तथा किंचित् वेदशास्त्र पढाने वाले की मृत्यु में ऊपर लिखे सूतक के अनुसार एक दिन सूतक होता है।

शुद्ध्येद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः ।

वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्ध्यति ॥ ८३ ॥

(८३) ब्राह्मण दश दिन में, क्षत्रिय बारह दिन में, वैश्य पन्द्रह दिन में, शूद्र तीस दिन में शुद्ध होता है।

न वर्धयेदघाहानि प्रत्यूहेन्नाग्निषु क्रियाः ।

न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽप्तशुचिर्भवेत् ॥ ८४ ॥

(८४) पाप के दिन को न बढ़ाना और अग्निहोत्र न छोड़ना चाहिये, अग्निहोत्री सामर्थ्य न रखता हो तो उसके पुत्रादि अग्निहोत्र को कर लेवें। इस कर्म के करने से उसको अपवित्रता नहीं रहती।

दिवाकीर्तिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा ।

शवं तत्पृष्टिनं चैव स्पृष्टवास्नानेन शुद्ध्यति ॥ ८५ ॥

(८५) चाण्डाल, मासिक धर्म वाली स्त्री, जिसने बेटा या बेटा जनी हो, मृतक के छूने वाले, इन सबको छूकर स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं।

आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने ।

सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तिः ॥ ८६ ॥

❀ यह श्लोक बतलाता है कि जितना अधिक ज्ञान होगा उतनी ही शीघ्र शोक से निवृत्त हो जावेगा।

(८६) प्रदुषिता के दर्शन करने में भ्रातृमन कर विधिबत् सक्ति अनुसार (जैसे प्रच्छा ज्ञात हो वैसे ही) सूर्य भगवान् के मन्त्र प्रथवा अस्य किसी पवित्रकर्त्ता के मन्त्र का अप करे ।

नारं स्पृष्टवास्थिसनेह स्नात्वा विप्रो विशुद्धपति ।

आश्वमेव तु निःस्नेह गामालम्यार्कमीक्ष्य वा ॥ ८७ ॥

(८७) ब्राह्मण मनुष्य की सस्नेह (भिकनी) प्रस्थि को त्याग कर स्नान करने से शुद्ध होता है । शुष्क (सूखी) हड्डियों को छोड़कर आश्वमन करके गऊ स्वर्ष प्रथवा सूर्य भगवान् के दर्शन से पवित्र होता है ।

आदिष्टी नोदक ह्यर्थात्प्रतस्य समापनात् ।

समाप्ते तूदक कृत्वा त्रिरात्रेणैव शुद्धपति ॥ ८८ ॥

(८८) ब्रह्मचारी किसी की मृत्यु में जस न देवे जब तक उसका व्रत (ब्रह्मचर्य) सम्पूर्ण न हो जावे व्रत सम्पूर्ण होने पर जस देकर तीन रात्रि में पवित्र होता है ।

श्यासकरवातानां प्रव्रज्यासु तिष्ठताम् ।

आत्मनस्स्यागिनां चैव निवर्तेतोदक क्रिया ॥ ८९ ॥

(८९) स्वधर्म त्यागी जो ऊठा संग्यास धारण किये हो जो शास्त्र प्रतिज्ञस आत्मा का त्यागी हो इन सब की मृत्यु में जस न देना चाहिये ।

पापयत्नमाभितानां च चरन्तीनां च कामतः ।

गर्ममर्तुर्द्रुहां चैव सुरापीनां च योपिताम् ॥ ९० ॥

(९०) पास्तम्ब धर्म (वेद विरुद्ध धर्म) करने वाली

स्वेच्छानुसार चलने वाली, गर्भिणी तथा अपने भर्ता से शत्रुता करने वाली, धाराव पीने वाली, ऐसी स्त्री की मृत्यु में जल न देना चाहिये ।

आचार्य स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम् ।

निर्हृत्य तु व्रती प्रेतान्नव्रतेन वियुज्यते ॥ ६१ ॥

(६१) आचार्य, उपाध्याय, माता-पिता, गुरु इन सबों का दाह आदि करने से ब्रह्मचारी अपने व्रत से अष्ट नहीं होता है ।

दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुरद्वारेण निर्हरेत् ।

पश्चिमोत्तरपूर्वेस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ६२ ॥

(६२) नगर के १-पश्चिम, २-उत्तर, ३-पूर्व, ४-दक्षिण द्वार से यथाक्रम (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ द्वार से) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का शव ले जाना चाहिये ।

न राज्ञमजदोषोऽस्ति व्रतीनां न च सत्रिणाम् ।

ऐन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥ ६३ ॥

(६३) राजा वा ब्रह्मचारी, चान्द्रायणादि व्रतकर्ता, यज्ञकर्ता, इन तीनों को सूतक नहीं लगता क्योंकि राजा तो राजा इन्द्र के स्थान पर बैठता है और ब्रह्मचारी, व्रतकर्ता यह सब सर्वदेव ब्रह्मस्वरूप हैं ।

राज्ञो महात्मिके स्थाने सद्यः शौचं विधीयते ।

प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम् ॥ ६४ ॥

(६४) राजा न्याय करने में पवित्र रहता है अन्य कार्य में नहीं, क्योंकि प्रजा को रक्षा, बिना निहासन पर बैठने के नहीं होती ।

दिम्नाहवहतानां च विद्युता पार्थिव च ।

गोघ्राहणस्य चैत्रार्थे यस्पचेच्छति पार्थिव ॥ ६५ ॥

(६५) राजा बिना जो युद्ध (सड़ाई) हुआ और उसमें जो मनुष्य मर गये विद्युत्पात द्वारा जिन मनुष्यों की मृत्यु हुई गई राजाज्ञा से मारन योग्य मनुष्य मारे गये तथा प्राहण या गऊ के हेतु जो मनुष्य मर गये ऐसे मरण में सूतक नहीं होता तथा निज कार्य के हेतु राजा जिसे सूतक समाना नहीं चाहता उसे भी सूतक नहीं समता ।

सोमाम्न्यर्कानिस्तेन्द्राणां विचाप्पत्यार्यमस्य च ।

अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृप ॥ ६६ ॥

(६६) अथवा अग्नि सूर्य वायु इन्द्र कुबेर, बरुण यम इन सबके वर्णों को राजा धारण करता है ।

लोकेशाविष्टितो राजा नास्य शौच विधीयत ।

शौचाशौर्षं हि मर्त्यानां लोकशप्रभवाप्ययम् ॥ ६७ ॥

(६७) क्योंकि राजा सारे लोक का रक्षक है और उसका सबसे सम्बन्ध है अतएव राजा को किसी प्रकार का सूतक नहीं लगता और वह सब मनुष्यों की अपवित्रता हरण कर सकता है ।

उद्यतैराहवे शस्त्रैः चाप्रधर्महतस्य च ।

सद्यः संतिष्ठते यद्गस्तथा शौचमिति स्थिति ॥ ६८ ॥

(६८) जो वीर क्षत्रिय युद्ध में शस्त्र द्वारा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, वह अपने धर्मानुसार कर्म करने के कारण अपवित्रता के यज्ञ को सम्पूर्ण कर चुके ।

विप्रः शुद्धचत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम् ।

वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टि शूद्रः कृतक्रियः ॥ ६६ ॥

(६६) सारी क्रिया करके मृतक के अन्त में ब्राह्मण जल, क्षत्रिय यान (मवागी) व शस्त्र, वैश्य पैना तथा शूद्र लाठी को स्पर्श कर पवित्र हो जाते हैं ।

एतद्वोऽभिहितं शौचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः ।

असपिण्डेषु सर्वेषु प्रेतशुद्धिं निबोधत ॥१००॥

(१००) भृगुजी कहते हैं कि हे ऋषि लोगो ! आप से सपिण्डो का सूतक हमने कहा । अब उन लोगो को प्रेतशुद्धि को कहते हैं जो सपिण्डी में नहीं हैं ।

असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निहृत्य वन्धुवत् ।

विशुद्ध्यन्ति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बान्धवान् ॥१०१॥

(१०१) जो ब्राह्मण सपिण्डो में नहीं है उसको भ्राता-वत् श्मशान तक ले जाकर तीन रात्रि में पवित्र हो जाता है तथा मामा, मौसी आदि का भी श्मशान तक ले जाकर तीन रात्रि में पवित्र होता है ।

यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुद्ध्यति ।

अनश्नन्नन्नमह्वैष न चेत्तस्मिगृहे वमेत् ॥१०२॥

(१०२) जब मृतक के सपिण्ड के अन्न को भोजन करे तो दश दिन में शुद्ध होता है । यदि अन्न को भोजन न करे और न उसके गृह में बसे तो एक दिन में शुद्ध हो जाता है ।

अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातमज्ञातिमेव च ।

स्नात्वा सचैलः स्पृष्ट्वाग्निघृतंप्राश्यविशुद्ध्यति ॥१०३॥

(१०३) मूतक पाव (चाहे) जिस बर्ण का हो स्वेच्छा
नुसार उसके साथ जाकर और छूत से बस्तों सहित स्नान करे
धी सावे तथा अग्नि स्पर्श करे तब शुद्ध होता है ।

न विभ्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृत शूद्र ण नाययत् ।

अस्वर्ग्यां ब्राह्मि सा स्याच्छूद्रसस्पर्शदूषिता ॥१०४॥

(१०४) जो ब्राह्मण का सवर्गी उपस्थित हो तो उस
मूतक ब्राह्मण को छूद न ले जाये क्योंकि छूद क स्पर्श से उसके
शरीर की अग्नि में ब्राह्मि देना स्वर्ग के अर्थ नहीं होता ।

ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मृन्मनोर्वायुपाञ्जनम् ।

वायु कर्माकालौ च शुद्धे कर्तृषिदेहिनाम् ॥१०५॥

(१०५) ज्ञान तप अग्नि आहार मिट्टी मन जल जेप,
वायु, सूम काम यह सब मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं ।

सर्वेषामेष शौचानामर्थशौच पर स्मृतम् ।

योऽर्थे शुचिर्हि सशुचिर्न मृद्धारिशुचिः ॥१०६॥

(१०६) सब शौच अपत्ति पवित्रता में अथ-शौच (धन को
सत्योचित रीति द्वारा प्राप्त करना) उत्तम है । जिस मनुष्य का
धन पवित्र है वही पवित्र है तथा जो मनुष्य मिट्टी व उसके कारण
पवित्र है परन्तु धन में पवित्र नहीं है वह पवित्र नहीं है ।

चान्त्या शुद्धयन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः ।

अप्यक्षपापा अप्यन तपसा वेदवित्तमा ॥ १०७ ॥

नोट—क्योंकि यह स्मृति मानव-धर्म सूत्रों से स्वार्थ साधन
के अर्थ बनाई गई है । और इसमें बहुत से एतोक वेद तथा शास्त्र
के विरुद्ध सम्मिश्रित किये गये हैं अतएव मिश्रित (ओपक) एतोकों
को विचार पूर्वक त्याग देना चाहिये ।

(१०७) जो पण्डित है वह क्षमा द्वारा शुद्ध होता है, तथा जो मनुष्य त्याग योग्य कार्य करता है वह दान करने से पवित्र हो जाता है और जो पाप करने में सलग्न है वह जप करके पवित्र होता है, तथा वेदाध्ययनी तप करके पवित्र होता है ।

मृत्तोर्यैः शुद्ध्यते शोधयं नदी वेगेन शुद्ध्यति ।

रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥१०८॥

(१०८) जो वस्तुयें पवित्र करने योग्य हैं वह जल व मिट्टी द्वारा तथा नदी प्रवाह द्वारा, जिस स्त्री का चित्त अन्य पुरुष में लगा रहता है वह रजोदर्शन द्वारा, तथा ब्राह्मण संन्यास धारण करने से पवित्र हो जाता है ।

अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति ॥१०९॥

(१०९) जल द्वारा शरीर की सारी इन्द्रिया पवित्र हो जाती हैं, सत्य से मन पवित्र हो जाता है, ब्रह्मविद्या यथा तप से भूतात्मा (लिंग शरीर जीवात्मा सहित पवित्र हो जाता है), तथा ज्ञान द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है ।

एष शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः ।

नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणुत निर्णयः ॥११०॥

(११०) भृगुजी कहते हैं कि हे ऋषियो ! शारीरिक पवित्रता (शुद्धता की विधि को बतला दिया, अब बहुत प्रकार के जो द्रव्य (पदार्थ हैं उनकी शुद्धता की विधि को सुनो) ।

तैजसानां मणीनां च सर्वस्यश्मभयस्य च ।

भस्मनाद्भिर्मृदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥१११॥

(१११) सोने आदि के पात्र रत्नपात्र पत्थर-पात्र यह सब पात्र (वस्तु) भस्म (राख) मिट्टी अन्न से पवित्र हो जाते हैं इस बात को मनु आदि ऋषियों ने कहा है ।

निर्लेप काञ्चन मासृद्धमग्निरेव विशुद्धपति ।

अन्वमरममयं चैव राक्षत आनुपस्कृतम् ॥११२॥

(११२) जिस सुवर्ण (सोने) सद्गुण मोठा वा पत्थर के पात्र में बूझादि नहीं लगी तथा जिस रुपे (चाँदी) के पात्र में रेखा (सक्कीरें) नहीं हैं वह केवल अन्न ही द्वारा शुद्ध हो जाते हैं ।

अपामग्नेरथ सयोगाद्धर्म रीप्य च निर्भमी ।

तस्माद्यो स्वयोन्येव निर्लेके गुणवत्तर ॥११३॥

(११३) अग्नि अन्न के संयोग से स्वर्ण तथा रुपा (चाँदी) उत्पन्न होता है अतएव अपने मूल तत्व द्वारा दोनों की शुद्धता प्रत्युत्तम है ।

ताम्राय कांस्यरैत्यानां श्रुष्या सीसकस्य च ।

शौचं यथाहं क्लृप्य चाराम्बोदकवाग्भिः ॥११४॥

(११४) ताम्र (तांबा) मोहा कांस्य (कासा) पीतम इन सब की पवित्रता भस्म सटाई तथा अन्न से यथाविधि करनी चाहिये ।

द्रवाणां चैव भर्षेणां शुद्धिराप्लवन स्मृतम् ।

शौक्या सहतानां च दारवाणां च तद्वत्तम् ॥११५॥

(११५) जो द्रव (पदार्थ) यथा तैल भी आदि हैं उनको बस्त्र आदि से छान लेवे तथा जमे हुए पदार्थों को दो कृष्ण लेकर उन पदार्थों में जलाने से पवित्र हो जाते हैं । यदि

शय्या (चारपाई) आदि पर जूठन गिर पडी हो तो वह जल के छीटे देने से पवित्र हो जाती है । काष्ठ (काठ) आदि का पात्र जब जूठनादि से अधिक लसा हो तो वह छीलने से पवित्र होता है ।

मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ।

चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ११६ ॥

(११६) यज्ञ-पात्रों की शुद्धता हाथ से करनी चाहिये । यज्ञकर्म में चमस (चमचा) तथा सण्डासी चिमटों की पवित्रता धोने से होती है ।

चरुणां स्रु वस्त्रु च वाणां शुद्धिरुष्णेन धारिणां ।

स्फयशूर्पशकटानां च मुशलोलूखलस्य च ॥ ११७ ॥

(११७) + चरु, स्रुग, स्रुवा, सूप, गाली, मूसल, ओखली, इन सब की शुद्धता उष्ण (गरम) जल से होती है ।

अद्भिस्तु प्रोक्षणां शौचं वहूनां धान्यवासनम् ।

प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥ ११८ ॥

(११८) यदि वस्त्रों का बहुत बड़ा ढेर होवे तो वह जल के छीटे देने से पवित्र हो जाता है । यदि थोड़ा होवे तो जल से धोने से पवित्र हो जाता है ।

चैलवच्चर्मणां शुद्धिर्वैदलानां तथैव च ।

शाकमूलफलानां च धान्यवत्क्षुद्धिरिष्यते ॥ ११९ ॥

(११९) जो पशु स्पर्श योग्य नहीं है उनके चमड़े का पात्र (वर्तन) और माँस का वर्तन इन दोनों की पवित्रता वस्त्र

की पवित्रता की विधि के समान जानना । चाफ मूल फल
इसकी पवित्रता अन्न की पवित्रता की विधि के समान जाननी
च हिये ।

धौशेषाविश्वयोरूपै कुनपानामरिष्टकै ।

श्रीफलैरशुपट्टानां क्षामास्तां गौरसर्षपै ॥१२०॥

(१२०) रोशमी तथा ऊनी वस्त्र क्षारी मिट्टी द्वारा
नपाली कम्बल गीठ द्वारा पटवस्त्र वेल के फल द्वारा तथा तीसी
का वस्त्र सफे सखसो द्वारा पवित्र होता है ।

श्रीमवच्छदशुक्लाशामस्थिततमयस्य च ।

शुद्धिर्विज्ञानता कार्या गोमूत्रेण्यदकेन वा ॥१२१॥

(१२१) शङ्खपात्र स्पर्श योग्य पशु ममा हाथी आदि के
दात मीन तथा हड्डी के पात्र इनकी पवित्रता तीसी (क्षामटी)
के वस्त्रा की पवित्रता की विधि के समान जाननी अथवा गोमूत्र
का जल से मझनी चाहिये ।

प्रावस्यात्पुत्राकाष्ठ च पत्ताल चैव शुद्धयति ।

मार्जनापाङ्गनैर्वेश्म पुन पाकन मृदमयम् ॥१२२॥

(१२२) जस छिन्नकने से छुरण काठ तथा पूजा काष्ठ
। बहारी सोहनी) देने से धायन (गृह के भीतर का चौक)
खीपन मे घर तथा दूसरी बार पकाने से मिट्टी का पात्र शुद्ध
होता है ।

मघैमूत्रै पुरीनेर्षा टीबनै पूयशोषितै ।

सस्पृष्ट नैव शुद्ध्येत पुन पाकन मृदमयम् ॥१२३॥

(१२३) मघ (घण्टा) मूत्र बिछा बहार पीब

सर्वत्र इनमें से कोई एक एक पत्र हो तो वह पत्र इन्हीं चार के पकाने से पवित्र नहीं हो सकता ।

गंमारुनापाञ्चनेन मेरेनोन्नेखनेन च ।

गवां च परिवामेन भूमिः शुद्ध्यति पञ्चमिः ॥१२४॥

(१२४) कुहागी लगाना (मोहनी मारना) लीपना, छिट्छाव करना, उपर की मिट्टी छीनना, गऊ का वास (रहना) इन पाँचों से भूमि पवित्र होती है ।

पक्षिजग्धं गवात्रातमवधृतमदशुतम् ।

दूषितं वंशकीटैश्च मृन्प्रक्षेपेण शुद्ध्यति ॥१२५॥

(१२५) पक्षियों के खाने से जिस वस्तु का एक भाग नष्ट हो गया हो वा तिम वस्तु पर छोक पड़ी हो या जिस वस्तु में वान अथवा कीट पड़ गये हो, यह सब मिट्टी व पानी के एकत्र कर खाने से शूद्ध हो जाते हैं ।

यावन्नापैतन्यमेध्याक्ताद्गन्धो लेपश्च तन्कृतः ।

तावन्मृदाणि चादेयं मर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥१२६॥

(१२६) जिस वस्तु में अपवित्र वस्तु मिश्रित है जब तक उस अपवित्र वस्तु की दुर्गन्धि तथा वह अपवित्र वस्तु उसमें पृथक् न हो जब तक मिट्टी और जल से उसको पवित्र करना चाहिये । यही विधि सब वस्तुओं के पवित्र करने में जानना ।

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन् ।

अदृष्टमद्भिर्निर्णयित्वा यच्च वाचा प्रशस्यते ॥१२७॥

(१२७) देवताओं ने ब्राह्मणों के हेतु तीन वस्तुयें पवित्र

कड़ी है—प्रथम बिना देखी हुई वस्तु दूसरे जस से षोई हुई वस्तु तीसरे जो जस से अष्ट हो ।

आप शुद्धा भूमिगता वैतृष्ययासु गोर्मवेत ।

अध्याप्ताश्चेत्मेधेन गन्धवर्धरसान्विता ॥१२८॥

(१२८) जो जस एक गऊ की प्यास बुझाने योग्य हो अपवित्र वस्तु से निश्चित न हो गन्ध व रस में उत्तम हो तथा भूमि पर स्थित हो वह जस पवित्र है ।

नित्य शुद्ध कारुहस्त पश्ये यक्षप्रमारितम् ।

ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्यं मध्यामिति स्थितिः ॥१२९॥

(१२९) कारीगर का हाथ पसारी की ठूकान की वस्तु तथा ब्रह्मचारी की भिक्षा सर्वत्र पवित्र है । यह शास्त्र की मर्यादा है ।

नित्यमाम्य शुचिं स्त्रीणां शङ्कुनि फलपातने ।

प्रस्रव च शुचिर्वरम श्या भृगुप्रहसे शुचिं ॥१३०॥

(१३०) सम्भोग समय स्त्री का मुँह फल गिराने में पक्षी दूध आने समय बाल्डा शिरन के पकड़ने के समय कुत्ता ।

अग्निहृतस्य यन्मांसं शुचिस्तन्मनुर्ग्रभवीत ।

कन्यादिभ्यश्च इतम्यान्मन्वश्चरुडाल्लाघंश्च दस्युभिः १३१

(१३१) + कुत्ता मित्र आज तथा घासेट खेपने वाले में आ मांस प्राप्त होता है उस मांस को मनु से पवित्र बतसाया है ।

+ यत्र 'व'र' नाममागिवा ने सम्मिलित किया है क्योंकि आगामो इनात्ता म मनु न वयम् 'मन्वरी व्याख्या की है ।

ऊर्ध्वनाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः ।

यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव मलाश्व्युताः ॥१३२॥

(१३२) नाभि के ऊपर का सारा शरीर पवित्र है और नाभि से नीचे का भाग अपवित्र है और जो मल शरीर से पृथक् होता है वह भी अपवित्र है ।

मक्षिका विप्रुवश्ल्याया गौरश्वः सूर्यरश्मयः ।

रजो भूर्वायुरग्निश्च स्पर्शो मेध्यानि निर्दिशेत् ॥१३३॥

(१३३) मक्खी, जल बूँद, छाया, गरु, घोडा, सूर्य-किरण, घूल, भूमि, वायु, अग्नि, यह सब छूने से पवित्र है ।

विण्मूत्रोत्सर्गशुद्ध्यर्थं मृद्वार्यादेयमर्थवत् ।

दैहिकानां मलानां च शुद्धिपु द्वादशस्त्रपि ॥१३४॥

(१३४) मल-मूत्र तथा अन्य बारहो अपवित्र वस्तुओ (जो शरीर से पृथक् होकर गिर जाती हैं) को छूकर जल मिट्टी द्वारा आवश्यकतानुसार धोने से पवित्र होता है ।

वसा शुक्रमसृङ्मज्जा मूत्रविट्प्राणकर्णविट् ।

श्लेष्माश्रु दूषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः ॥१३५॥

(१३५) मनुष्य के शरीर में यह बारह मल (अर्थात् निरर्थक अपवित्र वस्तु) होते हैं । १—वसा (चर्बी), २—शुक (वीर्य), ३—रुधिर, ४—मज्जा, ५—मूत्र, ६—विष्टा, ७—नाक थूक ८—कान का मल, ९—खत्वार, १०—आसू, ११—कीचड, १२—स्वेद (पसीना) ।

एका लिंगे गुदे तिलस्तथैकत्र करे दश ।

उभयोः सप्त दातव्या मृदः शुद्धिमर्षिता ॥१३६॥

(१३६) मिट्टी द्वारा पवित्रता का इच्छुक मनुष्य मिट्टी को एक बार मूत्र-स्थान (सिनेद्रिय) पर और पाँच बार मूल-द्वार पर दस बार धार्ये हाथ में सात बार दाहिने हाथ में लगावे ।

एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुण ब्रह्मचारिशाम् ।

त्रिगुण स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥१३७॥

(१३७) यह दीर्घ अर्षान् पवित्रता गृहस्थ मनुष्यों के लिए है ब्रह्मचारियों को इससे द्विगुण (दूनी) वामप्रस्थी अर्षान् वन में तप करने वालों को इसमें त्रिगुण (त्रिपुनी) सन्यासियों का इससे चतुर्गुण (चौगुनी) करना चाहिये ।

कृत्वा मूत्र पुरार्पं वा स्वान्यान्वान्त उपस्पृशेत् ।

वद्मध्यम्यमागञ्च ब्रह्ममन्तरञ्च सर्षदा ॥१३८॥

(१३८) विष्ठा व मूत्र त्याग करने हाथ-पाँव धोकर प्राणमन करके इन्द्रिया का छुप और भोजन करने के समय तथा व पा क न क समय भी प्राणमन परके अश्रियों को स्पृश करे ।

त्रिगचामस्य पृथ द्वि प्रमृज्यात्ततो मुखम् ।

गार्गीर गार्गर्मन्त्रान्ति ग्याशकृन्तु मन्त्रमकृत् ॥१३९॥

(१३९) त्रिगुण (त्रिगुण की पवित्रता) के हेतु प्रथम तीन गार्ग्यमन्त्र करके पश्चात् दो बार मुह धोके तथा गार्गीर मन्त्र करके दो बार मुह धोके तथा प्राणमन करे ।

पुत्राणां मार्गिकः शय्य वपन न्यायवर्तिनाम् ।

यज्यन्तश्चापहन्वन्त द्विजान्द्विष्यन्त माजनम् ॥१४०॥

राज्य म रहन वाल पुत्र का मार्गिक एवं द्वार

और (हजामत) कराना चाहिये । उस शूद्र की पवित्रता वैश्य तुल्य है और ब्राह्मण की जूठन उसका भोजन है ।

नोच्छ्रष्टं कुर्वते मुख्या विप्रुषोऽङ्गं पतन्ति याः ।

न श्मश्रुणि गतान्यास्थं न दन्तान्तरधिष्ठितम् ॥१४१॥

(१४१) थूक की बूद शरीर के किसी भाग में गिर जावे तथा मोछ का बाल मुँह में जाता रहे और दात में जो वस्तु लगी हो यह सब अपवित्र नहीं हैं ।

स्पृशन्ति विन्दवः पादौ य आचामयतः परान् ।

श्रोमिकैस्ते समाज्ञया न तैराप्रयतो भवेत् ॥१४२॥

(१४२) कोई मनुष्य किसी को आचमन कराता हो और आचमनकर्ता के मुँह से जल की बूद जमीन पर गिर कर आचमन कराने वाले के पाव पर पड़े तो वह बूद भूमि के जल के तुल्य है, उससे अपवित्रता नहीं होती ।

उच्छ्रष्टेन तु मंस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन ।

अनिधायैव तद्द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात् ॥१४३॥

(१४३) यदि हाथ में कोई वस्तु ग्रहण किये हुए किसी जूठे पुरुष से छू जावे तो वह वस्तु हाथ में ग्रहण किये ही आचमन ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है ।

वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत् ।

आचामेदेव भुक्त्वान्नं स्नानं मैथुनिनःस्मृतम् ॥१४४॥

(१४४) वमन करने वाला तथा विसूचिका वाला (दस्त का रोगी) स्नान करने के पश्चात् घी खावे और अन्नादि भोजन करके आचमन करे तथा स्त्री सम्भोग करके स्नान करे ।

सुप्त्वा घृत्वा च सुक्त्वा च निष्ठीव्योक्त्वानृतानि च ।

पीत्वापोऽध्येष्यमाखरचभ्रात्रामेग्रयतोऽपिसन् ॥१४५॥

(१४५) निग्रा सेकर (सोकर) छीक कर, भोजन करके सखार कर अनृत भाषण करके तथा अस पीकर पवित्र होने पर भी प्राचमन करे ।

पप शौचाविधिं कृन्तो द्रव्यशुद्धिस्तथैव च ।

उक्तो ष सर्वत्रर्षानां स्त्रीणां घर्माभिर्भोवत् ॥१४६॥

(१४६) भृगुजी कहते हैं कि हे ऋषि लोगो ! यह सब वर्गों की शुद्धि की विधि कही तथा वस्तुमा की पवित्रता को भी कहा अब इसके पश्चात् सि यो के घर्म का कहते हैं ।

बालया वा युवया वा वृद्धया वापि योपिता ।

न स्नातश्रेण कर्तव्यं किञ्चित्कार्यं गृहेऽपि ॥१४७॥

(१४७) स्त्री वामा (सड़की) युवा या वृद्ध ही गृह में कोई कार्य स्वतन्त्रता पूर्वक न करे ।

बाल्ये पितुर्वरो तिष्ठेत्पाश्चिग्राहस्य यौवने ।

पुत्रायां भवति प्रते न भजं स्त्री स्वतन्त्रताम् ॥१४८॥

(१४८) स्त्री बाल्यावस्था (सड़कपन) में अपने पिता के अधीन है पुत्रावस्था में अपने पति के अधीन रहे पति की मृत्यु के पश्चात् अपने पुत्रों की अधीनता में रहे । कभी स्वतन्त्र न रहे ।

नोट— प्राचमन करने से कफ आदि की निवृत्ति होती है और माने होमन आदि से जा कफ का बल ऊपर की बढ़ता है

पिता तिभ सुतैर्वापि नेच्छेद्विरहमात्मनः ।

एषां हि विरहेण स्त्री गृहो कुर्यादुभे कुले ॥ १४६ ॥

(१४६) स्त्री को उचित है कि भाई, बाप और पुत्र से विलग होने की इच्छा स्वप्न में भी न करे, क्योंकि उक्त मनुष्यों से विलग होने में स्त्री ❀ दोनों कुलो को कलकित करती है ।

सदा प्रहृष्टया भाव्यां गृहकार्येषु दक्षया ।

सुसंस्कृतोपस्कृत्या व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५० ॥

(१५०) सदैव प्रसन्नचित्त और गृह-कार्य में दक्ष (सलग्न) रहे, गृह-वस्तुओं को भली प्रकार यथाविधि रखे तथा अपव्यय न करे ।

यस्मै दद्यात्पिता त्वेनां भ्राताचानुमतेः पितुः ।

तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्घयेत् ॥ १५१ ॥

(१५१) पिता जिससे विवाह कर दे अथवा पिता की आज्ञा से भाई जिसके साथ विवाह कर दे उसकी सेवा-शुश्रूषा में तत्पर रहे तथा पति की मृत्यु पश्चात् किसी अन्य पुरुष से सम्बन्ध न करे (अर्थात् सुहवत, रतिदान न ले) ।

मंग्लार्थं स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः ।

प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम् ॥ १५२ ॥

(१५२) विवाह में शान्ति-मन्त्र पढ़ना वा श्री ब्रह्माजी के अर्थ यज्ञ करना, यह दोनों स्त्रियों के अग्रन्तः के हेतु है तथा दान पति के स्वामी होने का कारण है ।

❀ दोनों कुल से तात्पर्य पति तथा पिता के कुल से है ।

अनृताश्चतुर्दशैश्च मन्त्रमस्कारकृत्यति ।

सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योपितः ॥ १५३ ॥

(१५३) ऋतुकास अथवा अन्य समय में मन्त्र सस्कार करने वाला पति इस लोक (ससार) में परलोक में स्त्रियों को सुख देता है ।

विशालं कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः ।

उपचर्य स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ १५४ ॥

(१५४) यदि पति निष्ठुर हाने तथा बूसरी स्त्री से प्रीति रखता हो अथवा गुणहीन हो तो भी पतिव्रता स्त्री सर्वत्र उसकी सेवा देवता की नाई करती है ।

नास्ति स्त्रीणां पूयग्यज्ञो न अत नाप्युपोषणम् ।

पति शुभपते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥ १५५ ॥

(१५५) क्योंकि स्त्रिया विवाहोपरान्त पति का आधा अङ्ग (शरीर) हो जाती है अतएव स्त्रियों को पृथक् यज्ञ वा व्रत करना पाप है । केवल पति की सेवा धर्मूपा ही करनी उचित है ।

पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा ।

पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरन्किञ्चिदप्रियम् ॥ १५६ ॥

(१५६) पतिलोक में जाने की इच्छा रखन वाली पतिव्रता स्त्री पति के जीवित रहन में मृत्युके उपरान्त अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य न करे ।

☞ पतिव्रता शब्द पति + व्रता शब्दों से योगिक है । पति के अर्थ भर्ता तथा व्रत के अर्थ दृढ प्रतिज्ञा के हैं अतः जो स्त्री अपने पति के विवाह प्रतिज्ञा को दृढ नियम द्वारा निभाती है वह पति व्रता कहलाती है ।

कामं तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः ।

न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥१५७॥

(१५७) अपने पति की मृत्यु पश्चात् दूसरे पति का नाम तक भी न लेवे । उत्तम मूल, फल-फूल, इच्छानुसार कल्प भोजन करके निर्दोष शरीर (कामेच्छा रहित) रह कर जीवन व्यतीत करे ।

आसीतामरणात्त्वान्ता नियता ब्रह्मचारिणी ।

यो धर्म एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम् ॥१५८॥

(१५८) जिस स्त्री का एक ही पति है वह पतिव्रता धर्म की इच्छा करती हुई, अपने मरण पर्यन्त नियम ब्रह्मचारिणी रह कर क्षीण शरीर से जीवन निर्वाह करे ।

अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंतितम् ॥ १५९ ॥

(१५९) यदि कहो कि पुत्र विना स्वर्ग-प्राप्ति नहीं हो सकती अतएव दूसरे पति को वरण करना चाहिये । इसका उत्तर यह है कि कई सहस्र कुमार ब्रह्मचारी ब्राह्मण सन्तति विना स्वर्गारोहण कर गये । इस बात को समझ कर सन्तान के विना ही नियम में रहे ।

मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता ।

स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ १६० ॥

(१६०) पति की मृत्यु के पश्चात् पतिव्रता स्त्री ब्रह्मचर्यावस्था में स्थित रहे तो सन्तान न होने पर भी स्वर्ग में जाती है, जैसे कुमार ब्रह्मचारी स्वर्ग को गये ।

अपत्यलोभाया तु स्त्री मर्तारमतिवर्तते ।

सेह निन्दामवाप्नोति पतिसोकाश्च हीयते ॥ १६१ ॥

(१६१) जो स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से दूसरे पति से सम्भोग करती है वह ससार में निन्दा पाती है और परसोक में पतिसोक को नहीं प्राप्त करती है ।

यान्यात्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे ।

न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्भर्तापदिरस्यते ॥ १६२ ॥

(१६२) दूसरे पति से जो सन्तान उत्पन्न होती है वह सास्त्रानुसार अपनी सन्तान नहीं कहलाती क्योंकि पतिव्रता स्त्री को शास्त्र में दूसरा पति नहीं लिखा है ।

पतिं हित्वापकृष्टं स्वमुत्कृष्टं या निषेवत ।

निन्द्यैव सा भवेत्सोके परपूर्णेति चोच्यते ॥ १६३ ॥

(१६३) जो स्त्री अपने अल्पगुणी पति को त्याग कर दूसरे अधिक गुणी पति को बरण (ग्रहण) करती है वह ससार में निन्दनीय होती है तथा दो पति वाली कहलाती है ।

अभिचाराद्यु मर्तुं स्त्री लोके प्राप्नोति निन्दयताम् ।

शृगाल्यानिं प्राप्नोति पापरोगैश्च पीडयत ॥ १६४ ॥

(१६४) दूसरे पति में सम्भोग करने से स्त्री ससार में अपयश पाती है, शीशु का जन्म पाती है तथा पाप रोगों से दुःखी होती है ।

नोट—स्त्री का दूसरे पति की इच्छा करना कामवृत्ति के कारण है अतएव वह स्त्री तथा वह पुरुष जो विधियों की इच्छा से दूसरा विवाह करते हैं शीशु की योनि को प्राप्त होते हैं ।

पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता ।

सा भर्तृलोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ १६५ ॥

(१६५) जो स्त्री दूसरे पति से सम्बन्ध (सम्भोग) नहीं करती तथा मन, वाणी व शरीर को अपने वश में रखती है, वह परलोक में पतिलोक प्राप्त करती है तथा उत्तम पुरुष उस स्त्री को साध्वी कहते हैं ।

अनेन नागीवृत्तेन मनोवाग्देहसंयता ।

इहाग्र्यां कीर्तिमाप्नोति पतिलोकं परत्र च ॥ १६६ ॥

(१६६) + इस प्रकार मन, वाणी, शरीर का यम (वश में) करके इस लोक में अपार कीर्ति लाभ करती है और परलोक में पतिलोक को प्राप्त करती है ।

एवंघृतां सवर्णां स्त्री द्विजातिः पूर्वमारिणीम् ।

दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित् ॥ १६७ ॥

(१६७) धर्मज्ञाता ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य ऐसी अपनी जाति की स्त्री की मृत्यु में उसका शवदाह अग्निहोत्र को अग्नि व यज्ञपात्रों से धर्मानुसार करें ।-

भार्यायै पूर्वमारिण्यै दत्त्वाग्नीनन्त्यकर्मणि ।

पुनर्दारक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेवं च ॥ १६८ ॥

(१६८) तत्पश्चात् अन्त्येष्टी कर्म करके दूसरी विवाह करें तथा अग्नि को स्थापन करें ।

+ यह श्लोक सर्वथा सम्मिलित किया हुआ है क्योंकि विवाह प्रकरण के मन्त्री द्वारा जो प्रतिज्ञा होती है उसके सर्वथा विरुद्ध है और अन्याय में सम्मिलित है ।

घनेन विधिना नित्य पञ्चयज्ञान्नं दापयत् ।

द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे बसत् ॥ २६६ ॥

(१६६) इस विधि से सन्निव पञ्चयज्ञ को करे उनको कमी परित्याग न करे तथा आयु के दूसरे भाग तक विवाह करके गृह में रहें ।

मनु जी के धर्मशास्त्र शृगु जी की संहिता का पंचमोऽध्याय समाप्त हुआ ।



❦ षष्ठोऽध्यायः ❦



एवं गृहाभमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः ।

घने बसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥

(१) इस रीति से गृहस्वामम को पूर्ण करके स्नातक द्विज सांसारिक विस्तारों को छोड़ जितेन्द्रिय होकर वामप्रस्थ ब्राह्मण के मिमित्त वन में बस कर जीवन व्यतीत करे ।

गृहस्थस्तु यदा परयेद्वृक्षीपक्षितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारभ्य समाभपत् ॥ २ ॥

(२) गृहस्थ पुरुष अपने को वृक्षावस्था में देखे और पौत्र (पुत्र के पुत्र) को देखे तब तब में बास करे ।

सत्यन्य ग्राम्यमाहारं सर्वं शैव परिच्छेदम् ।

पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वर्नं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥

(३) गाँव के माहार और घर की सामग्री को त्याग करके तथा स्त्री को पुत्र को छोड़ कर वन में जावे अपना सपत्नीक वन को जावे ।

अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम् ।

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥

(४) अग्निहोत्र को तथा सामिग्री सहित घर की अग्नि को लेकर और इन्द्रियजित होकर गाव का परित्याग कर वन में रहे । सामर्थ्य भर (अर्थात् जहा तक हो सके) किसी नगर में न जावे ।

मुन्यन्तैर्विविधैर्मोर्धयैः शाकमूलफलेन वा ।

एतानेव महायज्ञान्निर्वपेद्विधिपूर्वकम् ॥ ५ ॥

(५) विविध प्रकार के मुनि अग्नि से तथा पवित्र शाक, मूल, फल इनसे शास्त्रानुसार यथाविधि पच महायज्ञो को करे ।

वसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्प्रगे तथा ।

जटाश्च विभ्रयान्नित्यं श्मश्रुलोमनखानि च ॥ ६ ॥

(६) चमडा व वस्त्र का टुकडा पहन कर साय, प्रातः स्नान करे, जटा, मोछ, बाल तथा नख बढावे अर्थात् क्षौर न करावे ।

यद्भक्ष्यं स्यात्ततो दद्याद्भलिं भिक्षां च शक्तिः ।

अमूलफलभिक्षाभिरचयेदाश्रमागतान् ॥ ७ ॥

(७) जो वस्तु भोजन के लिए उपस्थित हो उसी से बलि वैश्य कर्म करे और उसी को ब्रह्मचारी आदि को भिक्षा देवे तथा जो अतिथि घर पर आ जावे उसकी कन्द, मूल, जल, फल आदि से पूजन करे ।

नोट—श्राद्ध में जहा पितरो को बुलाना लिखा है वही इन्ही पितरो से तात्पर्य है जो इस रीति से वानप्रस्थ तथा सन्यास में उपस्थित होते हैं ।

स्वाध्याये नित्युक्तः स्यादान्तो मैत्रः समाहित ।

दाता नित्य मनोदाता सर्वभूतानुकम्पक ॥ ८ ॥

(८) नित्य वेदपाठ करण्य को स्थिर रखे सबका मित्र होकर रहे । क्षीय धाम श्लेष प्रादि को सहन करे, किसी से कुछ न लेवे सब भूतों (जीवों) पर दया रखे ।

वैतानिक च जुहुयादग्निहोत्र यथाविधि ।

दर्शमस्कन्दयन्यर्ष पौर्णमास च यागतः ॥ ९ ॥

(९) सास्त्रोक्त विधि से अग्निहोम करे । दर्शन, पौर्णमास इन नियमित मन्त्रों को भी करता रहे ।

ऋषेष्ट्याग्रयण्य चैव चातुर्मास्यानि वाहरेत् ।

उत्तरायण्य च क्रमशो दक्षिणायनमेव च ॥ १० ॥

(१०) ऋषिग्राम्य च आतुर्मास उत्तरायण्य दक्षिणायन कर्मों को करे ।

वासन्तशारदैर्ष्यैर्हृन्त्यन्नै स्मयमाह्वै ।

पुरोडाशारूपरूपैव विधिबन्धिर्षित्युक्तः ॥ ११ ॥

(११) वसन्त तथा शरद ऋतु में जो भोजन योग्य पवित्र अन्न (पुण्यन्न) उत्पन्न होता है उसे स्वयं जाकर सास्त्रोक्त विधि द्वारा पृथक्-पृथक् पुरोडास व चर देवताओं को यज्ञविधि होने के निमित्त देवे ।

देवताभ्यस्तु तदुद्युत्वा बन्धु मेघ्यतर इवि ।

शेषमात्मनि युञ्जीत क्षमस्य च स्वयं कृतम् ॥ १२ ॥

(१२) अति पात्र तथा उत्तम हवन योग्य पदार्थ को हवन द्वारा अग्नि वायु प्रादि देवताओं को देवे । हवन के

पश्चात् जो शेष रहे उसे स्वयम् भोजन करे तथा अपने बनाये हुए क्लवण पदार्थों को भी खावे ।

स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च ।

मेध्यवृक्षोद्भवान्यघात्स्नेहांश्च फलसंभवान् ॥ १३ ॥

(१३) पृथ्वी, जल व पवित्र वृक्ष से जो शाक, मूल, फूल, फल उत्पन्न हुए हैं तथा फल से उत्पन्न तेल से भी भोजन करे ।

वर्जयेन्मधु मांस च भौमानि कवकानि च ।

भूस्त्रुणं शिग्रुकंचव श्लेष्मातकफलानि च ॥ १४ ॥

(१४) + शराव, मांस व पृथ्वी के क्षत्राकार व भूतृण जो मलावा देश में प्रसिद्ध है व शकर शाक जो बाह्लाक देश में प्रसिद्ध है व बहेडा इन सबका भोजन करना परित्याग करे ।

त्यजेदाश्वयुजे मासि सुन्यन्नं पूर्वचितम् ।

जीर्णानि चैव वासांसि साकमूलफलानि च ॥ १५ ॥

(१५) मुनियो का अन्न जो सूचित किया है, जीर्ण वस्त्र (पुराने वसन) शाक, मूल, फल इन सबको आश्विन मास में त्याग दे ।

न फालकृष्टमशनीयादुत्सृष्टमपि केनचित् ।

न ग्रामजातान्यातौऽपि मूलानि च फलानि च ॥ १६ ॥

(१६) जो वस्तु हल द्वारा उत्पन्न हुई तथा जो क्षेत्र (खेत) के समीप हो चाहे उसे क्षेत्र स्वामी ने त्याग दिया हो

क्लवणान्नि पृथक् करने से यह तात्पर्य है कि हवन में लवण मिश्रित पदार्थ न डाले जावें ।

+ १४ वें श्लोक में मद्य मास का निषेध है । अतएव जहा मास भक्षण लिखा है यह सब सम्मिलित किया हेम्रा है ।

परन्तु तमे भोजन न करे तथा दुःखी होने पर भी इस वनाये विना गांव के भीतर जो फस भूस उत्पन्न हुए हों उनका भोजन न करे ।

अग्निपकाशनो वा स्यात्कालपक्वसुगोष वा ।

अरमदुद्धी भवेद्वापि दन्तोलूखलिकोऽपि वा ॥ १७ ॥

(१७) जो वस्तु अग्नि द्वारा प्रपक्वा समय पाकर परि पक्व [पकी] हुई हो उसको भोजन न करे । पत्थर से कुट्ट कर प्रपक्वा दातो की घोबसी बनाकर भोजन करे ।

सद्यश्चाक्षको वा स्थान्मामसचयिकोऽपि ।

पयमासनिश्चयो वा स्थान्ममानिश्चय एव वा ॥ १८ ॥

(१८) एक दिन के भोजन योग्य वस्तु का ज्ञे प्रपक्वा एक मास व छ मास व एक वर्ष के भोजन योग्य पदार्थ [वस्तु] को रखे ।

नक्तं चान्नममरणीयाद्वा वा हृत्य शक्तिस्तः ।

चतुर्युक्कालिको वा स्यात्स्याद्वाप्यष्टमकालिकः ॥ १९ ॥

(१९) अपने वसानुसार दिन में लान्द्र रात्रि में भोजन करे व एक दिवस उपवास करे दूसरे दिवस एक बार भोजन करे प्रपक्वा तीन दिवस उपवास करे चौथे दिवस एक बार ही भोजन करे ।

चान्द्रायणविधानैर्वा शुक्लकृष्ण च वर्धयेत् ।

पद्यान्तयापाप्यग्नीयाधवागू कथितां मरुत् ॥ २० ॥

(२०) चन्द्रायण व्रत को करे प्रपक्वा प्रमावस्था व पौर्णमासी व दिवस याद जो की भाषी थावे ।

पुष्पमूलफलैर्वापि केवलैर्वर्तयेत्मदा ।

कालपक्वैः त्वयंशीर्णै वैश्वानस मते स्थितः ॥ २१ ॥

(२१) जो फल, फूल, कन्द मूल अर्थात् शकरकन्दी आदि स्वयं काल प्राकर पक गये हो उनको खाकर समय व्यतीत करे तथा यथासम्भव इन्द्रियो को विषयो से पृथक् रखे ।

भूमौ विपरिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रपदैर्दिनम् ।

स्थानामनाभ्यां विहरेत्मवनेषूपयन्नपः ॥ २२ ॥

(२२) बानप्रस्थ आश्रम मे रहकर केवल भूमि ही पर लोटा करे व पाव के अगले भाग के बल से सारे दिन खडा रहे तथा स्नान व आसन मे विहार करे, तीनों काल अर्थात् प्रात दोपहर, सायकाल को स्नान करे ।

ग्रीष्मे पञ्चतपास्तुः स्याद्वर्षास्वभ्रावकाशिकः ।

आर्द्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशौ वर्धयंस्तपः ॥ २३ ॥

(२३) शनैः, शनैः [धीरे-धीरे] ऋ तप को बढ़ाता हुआ ग्रीष्म [गर्मी] मे पचाग्नि लापे, वर्षा मे बिना छत वाले घर मे रहे अर्थात् खुले मैदान मे रहे, हेमन्त [जाड़े] मे गीला कपडा पहने रहे ।

उपस्पृशस्त्रिपवणं पितृन्देवांश्च तर्पयेत् ।

तपश्चरंश्चोग्रतरं शोषयेद्देहमात्मनः ॥ २४ ॥

(२४) तीनों काल मे स्नान करने के पश्चात् देवा तथा

ऋ तप करना दुख के हितु नही किन्तु सहनशीलता उत्पन्न करने के अर्थ बानप्रस्थ को आवश्यक है क्योंकि उसे भविष्य मे सस्युर-मे विजय प्राप्त करनी है ।

पितरो का तर्पण करे । उग्र तप को करता हुआ अपने शरीर को सुखावे ।

अग्नीनास्मनि घैतानान्समागप्य यथाविधि ।

अनग्निरनिकृत्वा स्यान्गुनिमूर्त्तफलाशन ॥ २५ ॥

(२५) यथाविधि अग्नि होत्र की अग्नि को अपने गृह में स्थित करे । सत्पद्मात् अग्नि तथा स्नान से पूजक होकर मूल फल खाता हुआ शास्त्र को विचारे ।

अप्रयत्न सुस्वार्थेषु ब्रह्मचारी बराशयः ।

शरणध्वममश्चैव वृक्षमूलनिकृत्वन ॥ २६ ॥

(२६) सुख के लिये प्रयत्न न करे ब्रह्मचारी होकर अग्नी पर (म सोबे, वृक्ष मूल में वास करे तथा वासस्थान से प्रीति न करे ।

तापसध्वष विप्रपु यात्रिक मैक्ष्यमाहरत् ।

गृहमेभिषु चान्येषु द्विषेषु वनवासिषु ॥ २७ ॥

(२७) तपस्वी ब्राह्मण से भिक्षा मागे अथवा जो वन वासी विप्र गृहस्थ हैं उनसे भी भिक्षा याचन करे [मागे] ।

ग्रामादाहृत्य धारणीयादष्टौ ग्रासान्यत वसन् ।

प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकमेन वा ॥ २८ ॥

(२८) अथवा ग्राम से भिक्षा याचन करके आठ ग्राम खावे वन में वस कर दोनों हाथ व मिट्टी के पात्र के ठीकरे [टुकड़े] से भिक्षा ग्रहण करे ।

एताश्चान्यारथ सवेत दीक्षा विप्रो वन वसन् ।

विधिधारणौप निपदीगन्म ससिद्धये भुक्तिः ॥ २९ ॥

(२६) वन मे वस कर इस दीक्षा का तथा अन्य दीक्षा भी सेवन करे और विविध X उपनिषदो मे जो वेद की श्रुतिया है उनको आत्मा की भली प्रकार सिद्धि प्राप्त करने के लिए पढे तथा समझे ।

ऋषिभिर्ब्रह्मणैश्चैव गृहस्थैरेव सेविताः ।

विद्यातपोविद्वद्ध्यर्थ- शरीरस्य च शुद्धये ॥ ३० ॥

(३०) शरीर-शुद्धि के लिये तथा तप बढ़ाने के लिये उस विद्या का सेवन करे जिस विद्या का सेवन ऋषि तथा गृहस्थ ब्राह्मणो ने किया है ।

अपराजितां वास्थाय ब्रजेद्दिशमजिह्वगः ।

आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः ॥ ३१ ॥

(३१) + चाहे एक स्थान पर बैठ कर समाधि द्वारा प्राकृत पदार्थों से पृथक्त्व प्राप्त करे अथवा किसी और को जल दालू खाता हुआ चलदे, जब तक कि शरीरका नाश न हो जावे ।

आसां महर्षिचर्याणां, त्यक्त्वाऽन्यतमया तनुम् ।

बीतशोकमयो, विप्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३२ ॥

(३२) वह सब आचरण जो बड़े-बड़े ऋषियो ने कहे

X उपनिषदो से तात्पर्य गुणलीला अर्थात् परोक्ष पदार्थ जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान कराने वाली पुस्तकें हैं जिनमे वेद मन्त्रो के द्वारा ब्रह्मज्ञान क व्याख्या की गई है ।

+ ३१ वें श्लोक मे उनकी अवस्था वालो के अर्थ उपदेश हैं जिनको मुक्ति का उपकार हो गया है और अब किसी साधन की आवश्यकता नही है ।

है उगम से किसी प्राचरण द्वारा सरीर को परित्याग करके लोक तथा भय को छोड़ कर ब्रह्मलोक में प्रजित होता है ।

वनपु च बिरुत्यैषं तृतीय भागमायुष ।

चतुर्थमायुषा भाग त्यक्त्वा सङ्गान्परिव्रजत् ॥ ३३ ॥

(३३) इस प्रकार आयु का तीसरा भाग वन में व्यतीत करके सग को त्याग कर आयु के चतुर्थ भाग में संन्यास को धारण करे ।

आधमात्प्रथम गत्वा हुतडोमो जितेन्द्रिय ।

मिच्छावसिपरिभ्रान्त प्रमज्जन्त्येत्य वर्धते ॥ ३४ ॥

(३४) जितेन्द्रिय हो यज्ञ को सम्पूर्णा कर यथाक्रम एक आश्रम क पञ्चान् दूसरे आश्रम को ग्रहण कर मिच्छा तथा वसि कम से श्रमित यथा हुया संन्यास धारण कर परलोक में ब्रह्मपद को प्राप्त करता है ।

श्रृणानि त्रीण्ययाकृत्य मनोमोक्ष निषेशवेत् ।

अनयाकृत्य मासतु सवमानां प्रजत्पथ ॥ ३५ ॥

(३५) तीनों श्रृण जित्हे वक्श्रृण पितृश्रृण तथा श्रृवि श्रृण रश्म है चुका कर मन को मोक्ष में सगाये । इन तीनों श्रृणा क श्रृणाम श्रृना को मोक्ष का संबन करता है वह मरक म जना है ।

अध्याय विविषद्वापुत्रान्शौत्पाद्य धर्मत ।

श्रृष्टा च शक्तिना यज्ञमनो मासो निवशयत् ॥ ३६ ॥

(३६) श्रृष्टि म ब्रह्म का अध्ययन करके धर्म स पुत्रोत्पन्न क क मी शक्ति क धनमार यज्ञ करता हुआ मोक्ष में मन की

अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान् ।

अनिष्टा चैव यज्ञश्च मोक्षमिच्छन्प्रजत्यधः ॥ ३७ ॥

(३७) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेदाध्ययन न करके धर्म द्वारा पुत्र उत्पन्न न करे तथा यज्ञ का अनुष्ठान न कर मोक्ष की इच्छा करता है वह नरक में जाता है, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल वेदाध्ययन कर जीवात्मा की अज्ञानता को दूर करने के निमित्त है ।

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेद्गृहात् ॥ ३८ ॥

(३८) प्रजापत्य यज्ञ को करने पश्चात् सब को दक्षिणा देकर तथा अग्नि को अपनी आत्मा में रख ब्राह्मण अपने गृह को परित्याग करे अर्थात् सत्यास धारण करे ।

यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रत्रजत्यभयं गृहात् ।

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३९ ॥

(३९) जो वेदाध्ययनी पुरुष सब भूतो [जीवो] को अभय प्रदान कर गृह त्याग करता है अर्थात् सत्यास धारण करता है वह ससार में निडर होकर धर्मोपदेश कर सकता है ।

यस्मादणवपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयम् ।

तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतरचन ॥ ४० ॥

(४०) जिस शक्ति-सम्पन्न [सामर्थ्यवान्] ब्राह्मण में धर्मत्मा होने के कारण सब भूत [जीव] निडर हो अर्थात् किसी जीव को भय न हो तथा वह सब से प्रेम करता हो उसको आगामी जन्म में कुछ भी भय नहीं रहता ।

अगारादमिनिष्कान्तं पश्चिन्नोपशितो मुनि ।

समुपोदेषु क्लामेषु निरपेक्षं परिब्रजेत् ॥ ४१ ॥

(४१) ससार त्यागी तथा स्नानादि से शुद्ध हो विचार करता हुआ और दूसरे के दिय हुए अन्नमादि में अनिच्छुक ही सम्यास को धारण करे ।

एक एव चरेन्नित्यं सिद्ध्यर्थममहायवान् ।

सिद्धिमेकस्य सपर्यग्न अहाति न होयते ॥ ४२ ॥

(४२) किसी की सहायता की इच्छा न करे सदैव इकाकी [अकेला] रहे जो सिद्धि के अर्थ एक ही की सिद्धि होती है इस बात को देखकर किसी को त्याग नहीं करता उनको भी कोई नहीं त्यागता ।

अनग्निरनिकृत् स्याद्ग्राममभार्यमाभवेत् ।

पेक्षकोऽशकुमुको मुनिर्भाषसमाहि ॥ ४३ ॥

(४३) अग्निहोत्रादि सांसारिक कर्म तथा घर की इच्छा को परित्याग कर बुद्धि को स्थिर रख कर मुनिवृत्ति में मन लगाये तथा गाव से भिक्षा माग कर निर्वाह करे । ब्रह्म में भिन्न वृत्ति लगाये हुए अन्नार्थ गाँव का प्रायम न ।

कपालं च चमूस्तानि कुर्वन्समऽमहायता ।

समता चैव सर्वस्मिन्नतन्वृक्तस्य सद्यथम् ॥ ४४ ॥

(४४) मुक्त का सक्षण है कि भिक्षार्थ मिट्टी का पात्र रखे वृक्ष की छाँट में निवास करे ऐसे बस्त्र रखे जो किसी कार्य के योग्य न हो किसी से सहायता की इच्छा न करे तथा सब जोकों को एक समान चमक ।

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम् ।

कलमेव प्रतीक्षेत निर्देश मृतको यथा ॥ ४५ ॥

(४५) मृत्यु वा जीवन इन दोनों में से किसी की इच्छा न करे केवल समय का ही ध्यान रखे, जैसे सेवक अपने स्वामी की आज्ञा का ही ध्यान रखता है, क्योंकि जीवन व मृत्यु की इच्छा का राग द्वेष विना नहीं हो सकती ।

दृष्टिपूर्तं न्यमेत्पादं वस्त्रपूर्तं जलं पिबेत् ।

मत्स्यपूर्तां वदेद्वाचं मनःपूर्तं समाचरेत् ॥ ४६ ॥

(४६) बाल तथा हड्डी से पृथक् रहने के हेतु भूमि पर देखकर पाँव रखे, छोटे २ जीवों के रक्षार्थ छान कर जल पीवे, सत्य वचनों ही को बोले, मन को इच्छा से रहित रखकर प्रत्येक समय पवित्रात्मा रहे ।

अतिवादांस्तितिचेत् नाचमन्येत कंचन ।

न चेमं देह माश्चित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥ ४७ ॥

(४७) लोगों के अपशब्दों को सहन करे, किसी का अपमान न करे, न किसी से शत्रुता करे, तथा अपने चित्त में सांसारिक मनुष्यों को नाशवान जानकर किसी से प्रीति व वैर (शत्रुता) का ध्यान भी न करे ।

क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टं कुशलं वदेत् ।

सप्तद्वागवकणां च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ४८ ॥

(४८) यदि कोई सन्यासी पर क्रोध करे तो सन्यासी उस पर क्रोध न करे, और यदि सन्यासी से बुराई करे तो सन्यासी अपने उत्तम शब्दों द्वारा उसको प्रसन्न करे । पंच ज्ञानेन्द्रिय, व मन तथा बुद्धि इन सारों से जो वस्तु ग्रहण की

गई हो उसके विषय में वाणी द्वारा कथन करें। सप इन्द्रियों को सम्बन्धित वस्तु के विषय में भ्रुक (धुप) रहे वरम् ब्रह्मबाधो वातसाप करे।

अप्यास्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।

आत्मनैव सहायेन सुसार्था विचरदिह ॥ ४६ ॥

(४६) आत्मा में प्रीति करता रहे प्रत्येक वस्तु का अनिच्छुक रहे। मांस भक्षण त्याग दे कवल अपनी आत्मा ही को सहायक जान कर सुख के अर्थ इस लोक में विचरे।

न चोत्पातनिमित्तायां न नक्षत्राङ्गविद्यया ।

नानुशासनबादाभ्यां मिषा लिप्सत कर्हिचित् ॥ ४७ ॥

(४७) भ्रूबाध आँसु का फटकना आदि नक्षत्र तथा हस्तरेखा (हाथ की रेखा) इनका फल कहकर नीतिशास्त्र का उपदेश करके कभी मिषा ग्रहण की इच्छा न करे।

न तापसैर्ब्राह्मणैर्वा षयोमिरपि वा स्वमि ।

अकीर्णमिच्छुकैर्वान्यैरागार सुपसम्बत् ॥ ४८ ॥

(४८) तपस्वी ब्राह्मण पक्षी कृता भिक्षुक यह सब जिस घर में हो उस गृह को त्याग दे अर्थात् वहाँ से मिश्रायाचन न करे।

क्लृप्तकेशनखरमभुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान् ।

विचरेभियतो निग्य सर्वभूतान्पपीष्यन् ॥ ४९ ॥

(४९) बाल (केश) नख मोछ को छोटा रखे दण्ड कमण्डलु तथा पात्र को पास रखे किसी जीव को नष्ट न पीड़ा न देवे, सर्वदेव अचिन्त्य (चिन्ता रहित) होकर विचरे।

अत्तेजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर्ब्रणानि च ।

तेषामद्भिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥ ५३ ॥

(५३) जो पात्र कासी व पीतलादि के हैं उनको परित्याग कर तूँबा आदि को रखे, जो अछिद्र हो और उनका जल व मिट्टी से पवित्र करे, जैसे यज्ञ मे चमस नाम पात्र को पवित्र करते हैं ।

अलाबु दारुपात्रं च मृन्मयं वैदलं तथा ।

एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ॥ ५४ ॥

(५४) लौकी, काठ, मिट्टी व बाँस का पात्र अपने पास रखे, सन्यासी के केवल उतने ही पात्र है जो उसके कायार्थ अत्यन्तावश्यकीय हैं और उन्ही को अपने समीप रखे, ऐसा मनुजी ने कहा है ।

एककालं चरेद्भैक्षं न प्रसज्जेत विस्तरे ।

भैक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विपयेष्वपि सञ्जति ॥ ५५ ॥

(५५) केवल एक काल (समय) ही भिक्षा याचन करे, अधिक भिक्षा ग्रहण करने से सन्यासी सासारिक विषयो मे लिप्त होकर अपने सन्यासनामी व्रत को तोड देता है ।

विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवञ्जने ।

वृत्ते शगवसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत् ॥ ५६ ॥

(५६) जिस समय गृहस्थ के घर मे धुआ न हो, मूसल का शब्द न हो, अग्नि भी प्रज्वलित न हो तथा सब मनुष्य, भोजन से निवृत्त हो गये हो, जूठी पत्तलादि घर से बाहर फेंक दी गई हो नित्य उस समय ही सन्यासी भिक्षा-याचन को जावे ।

अज्ञामे न विपादी स्याञ्ज्ञामे चैव न हर्षयेत् ।

प्राणयात्रिकमात्रं स्यान्मात्रासशास्त्रिनिर्गतं ॥ ५७ ॥

(५७) भिक्षा न प्राप्त हो तो विपाद न करे । (दुखी न हो) तथा भिक्षा प्राप्त हो जावे तो हर्षित न हो जिसमें प्राणरक्षा हो वही करे तथा बण्डे आदि सामग्री मले बुरे की चिन्ता न करे, जसा भिक्षा जावे उसी से कार्य कर लेवे ।

अभिपूजितस्त्राभांस्तु जुगुप्सेसैव सर्वशः ।

अभिपूजितस्त्रामैश्च यतिर्मुक्तोऽपि बद्धयते ॥ ५८ ॥

(५८) जो वस्तु पूजा से प्राप्त हो उसकी निन्दा न करे अपात् उसे ग्रहण न करे तथा पूजा में प्रसन्न होमे से मुक्तस्थ सन्यासी बन्धन में पड़ जाता है क्योंकि माम की इच्छा बहुत बड़ा बन्धन है ।

अन्याकाम्यबहारेण रहत्यानासनन च ।

हियमायानि विपयैरिन्द्रियाणि निषर्तयेत् ॥ ५९ ॥

(५९) अल्प भोजन करे एकाम्त वास करे विषयो से इन्द्रियो को निवृत्त करे, अपर्त्तु मन को इच्छा तथा लोभ से रहित रखे ।

इन्द्रियाणां निरापेन रागद्वेषपेश च ।

अहिंसया च भूतानममृतत्वाय कल्पते ॥ ६० ॥

(६०) इन्द्रियो का निग्रह (रोकना) राग-द्वेष से पूजक रहना किसी जीव की हत्या न करना इन कर्मों से समय ही मोक्ष-प्राप्ति के योग्य हो जाता है ।

अवेक्षेत गतीन्तृणां कर्मदोषसमुद्भवाः ।

निरये चैव पतनं यातनारथ यमस्य ॥ ६१ ॥

(६१) कर्म दोष के कारण मनुष्यो की दशा, उनका नरक मे पतन, तथा यम के यहा अति दु ख भोगना, इन सब बातो को देखे अर्थात् विच र करे ।

विप्रयोगं प्रियैश्चैव संप्रोगं च तथाऽपियैः ।

जरया चाभिमवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम् ॥ ६२ ॥

(६२) प्रिय पदार्थों का वियोग, अप्रिय पदार्थों का सयोग, वृद्धावस्था मे अपमान और अनादर, पाप कर्मों से दु ख, शोक व व्याधि की यातनायें भोगना, इन सब दशाओ पर भी ध्यान देवे ।

देहादुःक्रमणं चात्मात्पुनर्गमे च संभवम् ।

योनिकोटिसहस्रेषु सृतीश्चास्यान्तरात्मनः ॥ ६३ ॥

(६३) शरीर से प्राण का निकलना, पश्चात् गर्भ मे स्थित रहना, करोडो योनि मे उत्पन्न होना, इन बातो पर भी ध्यान करके मुक्ति-प्राप्ति के अर्थ साधन करे ।

अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम् ।

धर्मार्थप्रथवं चैव मुखसंयोगमक्षयम् ॥ ६४ ॥

(५५) देहधारी मनुष्यो को अधर्म से दु ख होना, धर्म तथा अर्थ से अक्षय सुख होना, इसे विचार कर अधर्म का त्याग करे तथा धर्म का पालन करके सुख-प्राप्ति का प्रयत्न करे ।

सूक्ष्मतां चान्वेक्षेत् योगेन परमात्मनः ।

देवेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वधमेषु च ॥ ६५ ॥

(६५) योग तथा सूक्ष्म दृष्टि की विधि से परमात्मा के ज्ञान को लाभ करे, और देहधारियो में उत्तम, मध्यम, अधम

दशा को पुण्य कर्म व पापकर्म अर्थात् धर्मधर्म का फल समझ कर ध्याम पूर्वक विचार करे ।

दूषितऽपि चरद्धर्म यत्र तत्राधमे रत ।

सम सर्वेषु भूतषु न स्तिग धर्मक्षरणम् ॥ ६६ ॥

(६६) यदि किसी ध्यात्रम में रहकर उसकी सासारिक विधि को कार्य में न लाता हो किन्तु सब जीवों से निज धारमा तुस्य (समान) व्यवहार करे तो वह दूषित (बुरा) नहीं क्योंकि सासारिक (१) दिक्षावती चिन्ह धर्म का कारण नहीं ।

फल कृतकृष्यस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् ।

न नामग्रहणादेव तस्य धारि प्रसीदति ॥ ६७ ॥

(६७) निर्मली फल यद्यपि जल को स्वच्छ करता है परन्तु उसके नाममात्र क लेने से जल स्वच्छ नहीं होता जब उसको घिस कर पानी में डालने तभी जल स्वच्छ होगा । इसी प्रकार केवल (२) वेद ही धारण कर लेना धर्म-नहीं है बल्कि उस धर्म पर चलना धर्म कहलाता है ।

सरधरार्थं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा ।

शरीरम्पास्यय श्वैव समीच्य षसुर्धा परेत् ॥ ६८ ॥

(६८) जीवों के रक्षार्थ दिवस व रात्रि प्रत्येक समय भूमि को देखकर पहले जिससे पीबहिंसा न हो वरन् जीवों के शरीर को भी बह न हो ।

१ व २—जो मनुष्य केवल वेपथारी व समा में नाम सिमाने स अपन को धर्मात्मा मानते है वह इस पर ध्याम देवे कि महात्मा मनुजी कबस दिक्षावती चिन्हों को धर्म नहीं मठलाते ।

अहाराऽया च याञ्जन्तून्हिनस्त्यज्ञानतो यतिः ।

। तेषां स्नात्वा विशुद्ध्यर्थं प्राणायामान्पडाचरेत् ॥६६॥

(६६) सन्यासी अज्ञानता में जो जीवहिंसा करता है उस पाप से मुक्त होने के अर्थ स्नान करके छ प्राणायाम करने से शुद्ध हो जाता है ।

प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः ।

व्याहृतिप्रणवैयुक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० ॥

(७०) व्याहृत तथा प्रणव (४०कार) करके विधिवत् तीन प्राणायाम भी करे तो उस ब्राह्मण का परम तप है ।

दहन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।

तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥७१॥

(७१) जिस प्रकार अग्नि के तपाने से सब धातुओं का मूल दूर हो जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इन्द्रियों के सब दोष दूर हो जाते हैं ।

प्राणायामौर्द्वेद्दोषान्धारणाभिश्च क्लिष्विषम् ।

प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान् ॥ ७२ ॥

(७२) प्राणायाम द्वारा इच्छा आदि दोषों को भस्मी-भूत कर देना चाहिये, परमात्मा में चित्तवृत्ति लगा कर पाप को इन्द्रिय-निग्रह (वश में) करके विषयों का ध्यान द्वारा लोभ, मोह, क्रोधादि को दूर कर देना चाहिये, तथा अनीश्वरवाद, अर्थात् ईश्वर से पृथक्ता कराने वाले कार्य व तर्कों को त्याग देना चाहिये ।

उच्चावचेषु मृतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ।

ध्यानयोगेन सपस्वेद्गतिमस्यात्तरात्मन ॥ ७३ ॥

(७३) जीवों में उच्च व अधम (छोटा बड़ा) आत्मा के गुणों से होता है, उसका योग विधि से ध्यान करके उसकी भ्रान्तरिक दशा का ज्ञान प्राप्त करे जिसे सासारिक मनुष्य भर्त्सन् सृहस्वादि किञ्चित् मात्र भी नहीं जान सकते हैं ।

सम्यग्दर्शिसपञ्च कर्ममिर्न निवृष्यते ।

दर्शनेन विहीनस्तु ससागप्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥

(७४) दर्शन सास्त्रानुसार प्रत्येक वस्तु (तत्त्व) की सत्य तथा वास्तविक दशा का ज्ञान कर्म-बन्धन वस पुनर्जन्म नहीं लेता तथा जो तत्त्वज्ञान से रहित है वह बार-बार जन्म लेता और मृत्यु पाता है अर्थात् बार-बार शरीर धारण करता है ।

अहिंसयेन्द्रियासु गीर्षादिभ्यैश्चैव कर्मभिः ।

तपसश्चरशौचोऽग्नौ साधयन्तीह तत्पदम् ॥ ७५ ॥

(७५) अहिंसा इन्द्रियो के विषय से विरक्ति वेदानुसार कर्म करना तप करना इसके द्वारा बुद्धिमान् पुरुष ब्रह्मपद को साधन करता है ।

अस्थिरपूण स्नायुपुत्र मांसशोषितक्षेपनम् ।

धर्माबन्धु दुर्गन्धि पूर्यं सूत्रपुरीषयो ॥ ७६ ॥

(७६) अन्न शरीर का वर्णन करते हैं । हृद्दी का स्तम्भ (क्षमधा) रगो द्वारा कसा हुआ तथा मांस व दधिर से मिषा (भिसा) हुआ जमड़े (क्षाल) से बंधा हुआ दुर्गन्धिपूर्ण, मस मूत्र से भरा हुआ है ।

जराशोकममाविष्टं रोगायतनमातुग्म् ।

रजस्वलमनित्यं च भूतावाममिमं त्यजेत् ॥ ७७ ॥

(७७) बुढ़ पे तथा सासारिक चिन्ताओं के कारण रोग का घर, भूक, प्यास और अन्य अग्नियो के कष्ट मे दुखी (पीडित) मानापमान की चिन्ता से चिंतित तथा नाशवान अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ घर है जिसमे जीवात्मा वास करता है । अतएव ईसन्तरक-कुण्ड (पुन शरीर धारण करने) से बचाने वाले कर्मों को करे ।

नदीकूलं यथा वृक्षो वृक्षं वा शकुनिर्यथा ।

तथा त्यजन्मिमं देहं कृच्छ्राद्ग्रह्णामुच्यते ॥ ७८ ॥

(७८) जैसे नदी के प्रवाह से नदी के किनारे के वृक्ष अपने स्थान को त्याग देते है तथा जैसे पक्षी अपने वृक्षो को त्याग देते हैं । वैसे परब्रह्म की भक्ति करने वाला भक्त शरीर को त्याग कर सासारिक कष्टो से मुक्त हो जाता है ।

प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम् ।

विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम् ॥ ७९ ॥

(७९) सुकृत (उत्तम) कार्यों मे प्रिय अर्थान् उत्तमता और दुष्कृत (अवर्म, बुरे कार्यों) अप्रिय अर्थान् बुराई के विचार को सर्वथा त्याग कर ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म के ध्यान मे निमग्न हो जाना चाहिये ।

यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः ।

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शश्वतम् ॥ ८० ॥

(८०) जब सासारिक विषयो को घर्म के प्रतिकूल

(विरुद्ध) समझ कर तथा उसके दोषों का ज्ञान लाभ कर त्याग देता है वह ब्रह्मलोक तथा परलोक में सुख प्राप्त करता है ।

अनेन विधिना सर्वास्त्कामज्जाच्छनैः शनैः ।

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मययेवावतिष्ठते ॥ ८१ ॥

(८१) इस विधि से धीरे धीरे सब प्रकार के कर्मों का परित्याग कर क्रोध लोभ मोहादि से विमुक्त होकर ब्रह्म (परमात्मा) के स्वरूप में निमग्न हो जाता है ।

ध्यानिकं सर्वमेवैतद्यदेतदमिश्रितम् ।

न अनध्यात्मवित्कारिचत्क्रियाफलसुपारजते ॥ ८२ ॥

(८२) सत्तानादि के प्रतिबन्धन को तोड़ना मानापमान का विचार न होना आदि बातें जीवात्मा को परमात्मा के ध्यान से प्राप्त होती हैं तथा अनारमजानी (अर्थात् आत्मा को न जानने वाला) सासारिक दुःखों से विमुक्त होकर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता ।

अधियन्न ब्रह्म जयेत्पिदैविकमेव च ।

अध्यास्मिर्न च सततं वेदान्ताभिहितं च यत् ॥ ८३ ॥

(८३) जो वेद सत्सार में यज्ञ देवता तथा जीव के स्वरूप को दर्शाकर ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कराता है अर्थात् देता है जो वेद के अध्ययन (पढ़ने) तथा अध्यापन (पढ़ाने) में सदैव रत (लगा) रहे ।

इदं शक्यमज्ञानमित्येव विज्ञानताम् ।

इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम् ॥ ८४ ॥

(८४) मूर्ख तथा विद्वान् जो सुख और मुक्ति की अभिशाया रखते हैं उनको इदं नाम (इच्छित वस्तु के प्राप्त करने)

का सत्य मार्ग बतलाने वाला केवल वेद ही है । अतएव वेद का स्वाध्याय सदैव करता रहे ।

अनेन क्रमयोगेन परित्रजति यो द्विजः ।

स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्मधिगच्छति ॥ ८५ ॥

(८५) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इस विधि से सन्यास धारण करता है वह इस लोक में पाप से विमुक्त होकर परलोक में परब्रह्म को पाता है ।

एष धर्मोऽनुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम् ।

वेदसंन्यासिकानां तु कर्मयोगं निबोधत ॥ ८६ ॥

(८६) भृगुजी ऋषियो से कहते हैं कि अब हम चारों प्रकार के सन्यासियों के साधारण धर्म बतला कर कुटीवर (मठाधीश) सन्यासियों के विशेष धर्म को आप लोगों को बतलाते हैं । चार प्रकार के सन्यासियों के यह नाम हैं—कुटीवर भावुक, हस, परमहस ।

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ।

एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ ८७ ॥

(८७) ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यती विशेष अर्थात् सन्यासी, यह चारों आश्रम पृथक् गृहस्थ ही से उत्पन्न हैं ।

सर्वेऽपि क्रमशत्वेते यथाशास्त्रं निपेविताः ।

यथोक्त कारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम् ॥ ८८ ॥

(८८) जो ब्राह्मण शास्त्र-विधि से इन चारों-आश्रमों का सेवन करता है वह परमगति अर्थात् मोक्षपद को लाभ करता है ।

एष वाऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।

पुत्रयोऽक्षयफलं प्रत्य राज्ञो धर्मं निबोधत ॥ ६७ ॥

(६७) मृगुषी कहते हैं कि हे ऋषिजनो ! आपसे ब्रह्मणो का चार प्रकार का धर्म कहा है । वह धर्म पवित्र है तथा परलोक में उसका फल प्रलय है । इसक पदवाद् राज्ञो का धर्म कहते हैं ।

मनुषी के धर्मशास्त्र मृगुषी की संहिता का
छठा अध्याय समाप्त हुआ ।

❀ सप्तमोऽध्याय ❀

राजधर्मा प्रवक्ष्यामि यथाह्वयो भवेन्नृप ।

समधर्मश्च यथा तस्य सिद्धिरश्च धरमा यथा ॥ १ ॥

(१) मृगुषी कहते हैं कि भव हम राज्ञो के धर्म और उनकी उत्पत्ति को कहते हैं तथा जिस विधि से राजा लोग अपने जीवन को सफल कर सके हैं उस विधि को भी बर्णन करते हैं ।

ब्राह्म प्राप्तेन सस्कारं चत्रियण यथाविधि ।

सर्वस्यास्य यथान्यार्यं कर्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥

(२) क्षत्रिय यथाविधि यज्ञोपवीत (जमेऊ) धारण कर वेदारम्भादि सस्कारो को करके अपनी प्रजा के रक्षार्थं श्याय संविरत (सगा) रहे यथाशक्ति अभ्यास न करे ।

अराजकं हि क्षाकंऽस्मिन्सर्वतो विद्रुतं भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमजसृत्प्रभु ॥ ३ ॥

(३) जो देश सब ओर से भयदायक है तथा जिसमे राजा नहीं है उस देश के रक्षार्थ श्री ब्रह्मा जी ने राजा को उत्पन्न किया ।

इन्द्रानिलयमाकाशाग्नेश्च वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निहृत्य शाश्वती ॥ ४ ॥

(४) ॐ(१) इन्द्र, (२) यमराज, (२) वायु, (४) सूर्य. (५) अग्नि, (६) वरुण, (७) चन्द्रमा, (८) कुवेर, इन आठों के अश से श्री ब्रह्माजी ने राज को उत्पन्न किया ।

यस्मादेपां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः ।

तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ ५ ॥

(५) क्योंकि देवताओं के अश से राजा की उत्पत्ति है अतएव राजा सब भूतो (जीवो) को अपने तेज से वश में करता है ।

तपत्यादित्यवच्छैषां चक्षूषि च मनांसि च ।

न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम् ॥ ६ ॥

(६) देखने वाले के नेत्रों तथा मन को सूर्य की नाई तपाता है, कोई मनुष्य भूमि पर राजाओं के सम्मुख होकर उनको देख नहीं सकता, क्योंकि उनका तेज सूर्य के समान है ।

ॐ राजा के आठ कार्य हैं—१-इन्द्र से पालन, २-यमराज से न्याय, ३-सूर्य से प्रकाश अर्थात् शिक्षोन्नति, ४-अग्नि से पवित्र वेद को पृथक करना, ५-चन्द्रमा से प्रजा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना, ६-वरुण से शान्ति स्थापित करना, ७-कुवेर से धन की रक्षा करना ।

सर्वेषु मपि चैतर्षा वेदस्मृतिविधानतः ।

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठं म प्रीनताश्रमतिं द्वि ॥ ८६ ॥

(८६) वेद तथा शास्त्रानुसार चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है क्योंकि श्रेष्ठ से नो आश्रमों में रहने का म पुरषों का भोजन तथा वस्त्र से गृहस्थ भी प सत करता है ।

यथा नदीनदा सर्वे सागरं यान्ति सस्यतिम् ।

तथैवाश्रमिषु सर्वे गृहस्थे यान्ति सस्यतिम् ॥६०॥

(६) जिस प्रकार नदी-नाले सब समुद्र में जाकर स्थित रहते हैं उसी प्रकार सब आश्रमों में गृहस्थ ही में स्थित रहते हैं क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति तथा पामन गृहस्थ द्वारा होता है ।

चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्द्विजैः ।

दशलक्षशक्यो धर्मं सवितम्ब्यं प्रयत्नतः ॥ ६१ ॥

(६१) चारों आश्रमों में नित्य द्विज सदेव दश लक्षणों मुक्त धर्म को प्रयत्न सहित ग्रहण कर ।

धृतिश्चमादमोऽस्तेषु शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धार्मिक्या मत्यमत्राभो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ ६२ ॥

(६२) धर्म के दश लक्षण यह हैं—धृति (दृढता) क्षमा (हानि पहुँचाने का से प्रतिशोध व प्रतिकार न लेना) दम (मन को विषयों से रोक्ना) अस्तेय (किसी प्रकार की चोरी न करना) शौच (शरीर मन जीव बुद्धि को कुप्रवृत्तियों से पृथक् रक्ता) इन्द्रिय निग्रह (इन्द्रियों को बन्ध में रक्ता) धी (शास्त्र अध्ययन व स्वाध्यय द्वारा बुद्धि बढ़ाना) विद्या (जीवात्मा परमात्मा प्रकृति के सत्य स्वल्प को जानना)

सत्य (निज ज्ञान विरुद्ध न कहना), अश्रोध (किसी पर अकारण क्रोध न करना) । यह धर्म के दश ऐसे लक्षण हैं जिनके हेतु किसी सासारिक सामग्री की आवश्यकता नहीं वरन् इनका सम्बन्ध केवल आत्मा से है ।

दशलक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते ।

अधीत्य नानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ६३ ॥

(६३) जो मनुष्य धर्म के इन दश लक्षणों को जानकर इसके अनुसार आचरण तथा व्यवहार करता है वह परमगति अर्थात् मोक्ष पद को लाभ करता है ।

दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्ममाहितः ।

वेदान्तं विधिवच्छ्रुत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ॥ ६४ ॥

(६४) मन को चिन्ता रहित करें, इस दश लक्षण युक्त धर्म को पूर्ण कर यथाविधि वेदान्त शास्त्र को सुन तथा पढ़ कर तीनों ऋणों से मुक्त होकर सन्यास धारण करे ।

संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन् ।

नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वर्ये सुखं वसेत् ॥ ६५ ॥

(६५) इस प्रकार सब कर्मों को त्याग, कर्म दोषों से विमुक्त हो वेदाभ्यास करता हुआ सासारिक दुखों से विमुक्त हो पुत्र के ऐश्वर्य से सुखी रहे ।

एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमोऽस्पृहः ।

संन्यासेनापहृत्यैनः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ६६ ॥

(६६) इस प्रकार सब कर्मों को त्याग, आत्मज्ञान को ही विशेष मानकर स्वर्गादि की इच्छा को परित्याग कर सन्यास द्वारा पाप को दूर करके परम गति को पाता है ।

एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।

पुण्याऽद्यफल प्रस्य राज्ञां धर्म निबोधत ॥ ६७ ॥

(६७) शृगु जी कहते हैं कि हे ष्ट्रियजनो ! आपसे ब्रह्मणो का चार प्रकार का धर्म कहा है । वह धर्म पवित्र है तथा परलोक में उसका फल प्रदाय है । इसके पदवात् राजाधर्मों का धर्म कहते हैं ।

मनुजी के धर्मशास्त्र शृगु जी की संहिता का छठा अध्याय समाप्त हुआ ।

❀ सप्तमोऽध्याय ❀

राजधर्माप्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवन्नुप ।

समधरश्च यथा तस्य सिद्धिरश्च चरमा यथा ॥ १ ॥

१) शृगु जी कहते हैं कि अब हम राजाधर्मों के धर्म और उनकी उत्पत्ति को कहते हैं तथा जिस विधि से राजा लोग अपने जीवन को सफल कर सकते हैं उस विधि को भी बर्णन करते हैं ।

ब्राह्म प्राप्तेन सम्कारं क्षत्रियेषु यथाविधि ।

मवक्ष्यास्य यथायाय कर्तव्य परिश्रमम् ॥ २ ॥

(२) क्षत्रिय यथाविधि यज्ञोपवीत (जमेऊ) धारण कर वेदाग्निादि यज्ञकारों को करके अपनी प्रजा के रक्षार्थ त्याग से विरत (मगा) रहें यथाशक्ति ग्रन्थाय न करें ।

अराजकं हि लोकऽस्मिन्सर्वता बिभ्रुस्त भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमजसुत्प्रसु ॥ ३ ॥

(३) जो देश सब ओर से भयदायक है तथा जिसमें राजा नहीं है उस देश के रक्षार्थ श्री ब्रह्मा जी ने राजा को उत्पन्न किया ।

इन्द्रानिलयमार्काशाग्नेश्च वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निहृत्य शाश्वती ॥ ४ ॥

(४) ॐ (१) इन्द्र, (२) यमराज, (२) वायु, (४) सूर्य (५) अग्नि, (६) वरुण, (७) चन्द्रमा, (८) कुवेर, इन आठों के अश से श्री ब्रह्माजी ने राज को उत्पन्न किया ।

यस्मादेपां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः ।

तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ ५ ॥

(५) क्योंकि देवताओं के अश से राजा की उत्पत्ति है अतएव राजा सब भूतो (जीवो) को अपने तेज से वश में करता है ।

तपत्यादित्यवच्चौषां चक्षूषि च मनांसि च ।

न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम् ॥ ६ ॥

(६) देखने वाले के नेत्रों तथा मन को सूर्य की नाई तपाता है, कोई मनुष्य भूमि पर राजाओं के सम्मुख होकर उनको देख नहीं सकता, क्योंकि उनका तेज सूर्य के समान है ।

ॐ राजा के आठ कार्य हैं—१-इन्द्र से पालन, २-यमराज से न्याय, ३-सूर्य से प्रकाश अर्थात् शिक्षोन्नति, ४-अग्नि से पवित्र वेद को पृथक् करना, ५-चन्द्रमा से प्रजा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना, ६-वरुण से शान्ति स्थापित करना, ७-कुवेर से धन की रक्षा करना । -

सोऽग्निर्भवति वायुरच साऽर्कं सोम म चर्मराट् ।

स कुवेरं म परुषः म महद्द्रु प्रभावत ॥ ७ ॥

(७) वही राजा समयानुसार अपने बल से प्रत्येक देवता के काय को मनुष्य समूह के चर्च करता है और उस समय वह (राजा) उसी देवता के तुल्य है ।

बालोऽपि नाबमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिप ।

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥

(८) यदि राजा बालक भी हो तो भी मनुष्य उसको तुल्य न समझे क्योंकि राजा किसी पर मनुष्य बन में द सा वत् स्थित है ।

एकमेव दहत्यग्निर्नरं दुरूपसर्पिणम् ।

कुल दहति राजाग्नि सपशुद्रव्यसचयम् ॥ ९ ॥

(९) अग्नि के समीप तथा सम्मुख जो कोई जाता है अग्नि केवल उसी को भस्म करती है परन्तु राजा कभी अग्नि घनादि सामग्री तथा गण्डो सहित कृसी को भस्म न देती है ।

कार्यं माऽवश्यं शक्तिं च दशकालो च तन्वत ।

कुम्भे घर्मसिद्धयथ विश्वरूपं पुन पुन । १० ॥

(१०) राजा अपने कार्य दक्ष क स तथा अपने लक्ष्मि अनुसार तत्व को विचार अर्थात् सत्यासत्य निर्णय कर अपने तत्पर्य को सिद्ध क ने क चर्च प्रत्येक बार और प्रत्येक समय सिद्ध भिन्न देवता के रूप को धारण करता है ।

श्लोक १ से रूप धारण करने से यह ता पर्य है कि राजा प त्तम करने के समय इन्द्र व न्य य समय यनराज तम शिक्षा प्रच र के समय सूर्य आदि का रूप हो जाता है ।

यस्य प्रसादे पत्ना श्रीर्विजयश्च पराक्रमे ।

मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः ॥ ११ ॥

(११) जिस राजा की प्रसन्नता में लक्ष्मी रहती है और पराक्रम में विजय तथा क्रोध में मृत्यु वसती है वह राजा सब तेजो का धारण करने वाला है ।

तं यस्तु द्वेष्टि संमोहात्सविनश्यत्यसंशयम् ।

तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२ ॥

(१२) जो मनुष्य मोहवश ऐसे राजा से शत्रुता करता है, उसका नाश अवश्यम्भावी है । ऐसे मनुष्य के नाश के हेतु राजा शीघ्र ही मन लगाता है ।

तस्माद्धर्मं यमिष्टेषु स व्यस्येन्नराधिपः ।

अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मं न विचालयेत् ॥ १३ ॥

(१३) अतएव योग्य वा अयोग्य कार्य जिस प्रकार राजा वेद के शिक्षानुसार नियत करे उससे कभी विचलित न होना चाहिये ।

तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम् ।

ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्पूर्वमीश्वरः ॥ १४ ॥

(१४) ईश्वर ने सब कार्यों को राजा के द्वारा सत्य न्याय मुक्त कराने के लिये तथा जीवों के रक्षार्थ पहले ही दण्ड का प्रवन्व (विधान) किया ।

तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि ।

भयान्द्रोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च ॥ १५ ॥

(१५) इस दण्ड के भय से चराचर जीव-भोग करने

के हेतु समर्थ होते हैं और अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकते ।

त देश कालौ शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तत्र च ।

यथाहृतं सप्रबन्धेभरेष्वन्यापवर्तिषु ॥ १६ ॥

(१६) वेद्य काल शक्ति विद्या को देखकर अपराधियों को उनके वित्तानुसार तथा भालानुसार यथाक्रम योग्य दण्ड देवे ।

स राज्ञा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः ।

चतुर्धामाभ्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १७ ॥

(१७) संसार में दण्ड ही राजा है तथा दण्ड ही के कारण राजा पुरुष है और शेष सब लोग स्त्री है । दण्ड कायों का फल देने वाला चारों भाश्रमा के धर्म का प्राज्ञावाता और उत्तरदाता है ।

दण्डं शास्ति प्रजां सर्वा दण्ड एवामिरचिति ।

दण्डं मत्तेषु जागर्ति दण्डं धम विदुर्बुधा ॥१८॥

(१८) सबका रक्षक प्राज्ञा देने वाला तथा सोते दुर्घों को भेत-न्य करने वाला वही दण्ड है । उसी दण्ड को पण्डित लोग धम कहते हैं ।

ममीदृश्य स घत सम्यक्सत्वा रञ्जति प्रजाः ।

अममीच्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ १९ ॥

(१९) जिस समय राजा ध्यान से विचार कर दण्ड देता है तब प्रजा को विश्राम व आनन्द मिसता है तथा जब वही दण्ड बिना विचार किये दिया जाता है तब सारी प्रजा का सब ओर विनाश कर देता है ।

यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतन्द्रितः ।

शूले मत्स्यानिवाभच्यान्दुर्वलान्वलवत्तराः ॥ २० ॥

(२०) दुर्बल मनुष्यो को बलवान् जीना दुस्तर [कठिन] कर दें, यदि राजा के आलस्य तथा कुप्रबन्ध से अपराधी दण्ड न पावें ।

अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिह्याद्द्विस्तथा ।

स्वाम्यं च न स्यात्कस्मिश्चित्प्रवर्तेताधरोत्तरम् ॥ २१ ॥

(२१) ❀ यदि दण्ड न दिया जावे तो, अच्छे पुरुषो का सारा धन घूर्त लोग अपहरण करलें ।

सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः ।

दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगद्भोगाय कल्पते ॥ २२ ॥

(२२) जितने जीव है सब दण्डनीय हैं । पवित्र मनुष्य -दुर्लभ हैं । दण्ड-भय से सारे जीव कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं ।

देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतंगोरगाः ।

तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः । २३ ॥

(२३) देव, दानव, गन्धर्व, राक्षस, पक्षी, साप यह सब दण्ड द्वारा ही कर्म करने का सामर्थ्य रखते हैं ।

दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरेन्सर्वसैतवः ।

सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात् ॥ २४ ॥

❀ इस श्लोक में काक शब्द घूर्तों के अर्थ में आया है ।

+२५ वें श्लोक में जिस दण्ड का वर्णन है यह अति भयानक है जिनका तात्पर्य पुलिस से है ।

(२४) दण्डनीय पुरुषों को दण्ड न देने से व धदण्ट नीय पुरुषों को दण्ड देने से सब वर्ण कुछ हो जावेये तथा मर्यादा दूट जावेगी सारा ससार क्रोषित हो जावेगा ।

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डरश्चरति पापहा ।

प्रसास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चत्साधु पर्यति ॥ २५ ॥

(२५) जहाँ श्याम व धरुण (सास कासा) नेत्र-पाप नाशक दण्ड बन्द कर सगाता है वहाँ प्रजा को मोह नहीं होता किन्तु यह उसी दशा में होता है जब दण्ड-दाता (दण्ड देने वाला) भसी भाति विचार पूर्वक दण्ड देवे ।

सत्याहु सप्रणतार राजानं सत्यवादिनम् ।

समीक्ष्यकारिणं प्राह्य धर्मकामार्थकाबिदम् ॥ २६ ॥

(२६) जो राजा सत्यवादी दूरदर्शी धर्म-कर्म ज्ञाता चतुर तथा कार्य-तत्पर है उसी में दण्ड देने की सामर्थ्य है ।

तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गैशाभिषर्षते ।

कामात्मा विषमं दुद्रा दण्डमैव निहन्यते ॥ २७ ॥

(२७) इस दण्ड को देने से राजा धर्म काम धर्म से बढता है जितने मनुष्य कामी क्रोधी छली तथा नीच हैं वह सब दण्ड द्वारा ही मारे जाते हैं ।

दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धररथाऽऽतृतात्मनि ।

धर्माद्विचलित इन्ति नृपमेष सबाधवम् ॥ २८ ॥

(२८) दण्ड बहुत ही तेजवान् है । जो राजा शास्त्रज्ञाता नहीं है । वह दण्ड ही को धारण नहीं कर सकता । वही दण्ड अधर्मी राजा को उसके सम्बन्धी तथा बाधकों सहित मर कर देता है ।

ततो दुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम् ।

अन्तरिक्षगतांश्चैव मुनीन्देवांश्च पीडयेत् ॥ २६ ॥

(२६) वही दण्ड तो अधर्मी राजा द्वारा दिया जाता है दुर्ग (किला), राष्ट्र (राज्य), चर, अचर, लोक, अन्तरिक्ष (अर्थात् ऊपर के लोक) में जो मनुष्य व देवता लोग हैं उनको पीडा पहुँचाता है ।

सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥

(३०) जो राजा शरणागत को शरण नहीं देता व मूढ (मूर्ख) लोभी तथा सासारिक विषय भोगों में लिप्त है, वह न्याय शास्त्रानुसार दण्ड देने की सामर्थ्य नहीं रखता है ।

शुचिना सत्यसंधेन यथाशास्त्रानुसारिणा ।

प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३१ ॥

(३१) जो राजा पवित्र, सत्यवादी, शास्त्रानुरोधी, शरणागत-पालक तथा बुद्धिमान् है वह निस्सन्देह दण्ड देने की सामर्थ्य रखता है ।

स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याद्भृशदण्डश्च शत्रुषु ।

सुहृत्सिद्धः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ ३२ ॥

(३२) अपने राज्य में न्यायानुसार चले, शत्रु को कठिन दण्ड देवे, सुहृदी व शुभचिन्तकों के साथ दया का बर्ताव करे तथा अल्प अपराधी ब्राह्मणों को क्षमा करे इससे अपने राज्यकी दृढता होती और शत्रुओं को भय रहता है ।

एवंवृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः ।

विस्तीर्यते यशो लोके तैलविन्दुरिवाम्भसि ॥ ३३ ॥

(३३) + इस रीति से रहकर क्षिमोच्छ द्वारा जीवन व्यतीत कर तो उस राजा का यश सोक में फँस जाता है—जैसे वेस की एक बूँद जल पर फँस जाती है ।

अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरभितात्मनः ।

सक्षिप्यते यशो सोक्रे घृतबिन्दुरिदाम्मसि ॥ ३४ ॥

(३४) जो राजा इसके प्रतिद्वन्द्व कार्य करता है और जिसने अपनी आत्मा को जल नहीं किया उसका यश सोक में नहीं फँसता है—जैसे घी की बूँद पानी में नहीं फँसती है ।

स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः ।

वर्णानामभ्रमाणां च राजा सुष्टोऽग्निरक्षिता ॥ ३५ ॥

(३५) जो वर्ण तथा आश्रम अपने अपने धर्म पर आरुढ़ है उनकी रक्षा के निमित्त राजा उत्पन्न किया गया है ।

तेन यद्यत्समुन्मथन कर्त्तव्यं रक्षता प्रजा ।

तत्तद्वोऽहं प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ३६ ॥

(३६) भृगुजी कहते हैं कि हे ऋषि सोगो ! जो राजा अपने कर्मधारियों सहित प्रजा की रक्षा में सलग्न रहते हैं उनके करने योग्य कर्मों को हम सोगो से यथाक्रम कहेंगे ।

ब्राह्मणान्पयुं पामीन प्रातरुत्थाय पार्थिवः ।

श्रीविद्यद्वद्भान्विदुपस्मिष्ठक्षपां च शासने ॥ ३७ ॥

(३७) राजा प्रातःकाल उठ कर ऐसे ब्राह्मणों का—जो

+ नोट—मनुजी राजा को परोपकार के धर्म राज्य की प्राप्ति के लिए स्वावश्यकता के लिये नहीं अतएव क्षिमोच्छ वृत्ति जीवन निर्वाह करना चाहिये ।

ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को अर्थ सहित सत्योचित रीति से जानते ही दर्शन और पूजन करे ।

वृद्धांश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः शुचीन् ।

वृद्धसेवी हि सततं ^{राज्ञो} राज्ञोभिरपि पूज्यते ॥ ३८ ॥

(३८) अपने वृद्धो तथा वेद-ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणो की सेवा शूश्रूषा नित्य ही राजा को करनी चाहिये । इससे राजा को शशु लोग भी पूजते हैं ।

तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः ।

विनीतात्मा हि नृपतिर्न विनश्यति कर्हिचित् ॥३९॥

(३९) स्वाभाविक बुद्धि तथा वेदाध्ययन से उत्पन्न बुद्धि द्वारा यदि विनीत हो तो भी अधिक विनय के अभिप्राय से ब्राह्मणो से विनय किया करे जिससे नष्ट न हो ।

बहवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः ।

वनस्था अपि राज्यानि विनयान्प्रतिपेदिरे ॥ ४० ॥

(४०) बहुत से राजा विनीत न होने के कारण राज्य तथा धन सहित नष्ट हो गये और वनवासी राजाओ ने विनय द्वारा ही राज्य प्राप्त किया है ।

वेनो विनष्टोऽविनयान्नहृषचैव पार्थिवः ।

सुदासो यवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च ॥ ४१ ॥

(४१) वेन, नहुष, यवन पुत्र सुदास, सुमुख तथा निमि यह सब राजा विनय न करने के कारण ही नष्ट हो गये ।

पृथस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च ।

कुवेरश्च धनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः ॥ ४२ ॥

(४२) विनय करने के कारण पृथु तथा मनु ने राज्य पाया कुबेर भगवान् के भण्डार के क्रीपाध्यक्ष हुए माधि के पुत्र विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गये ।

शैविद्यैर्म्यस्ययीं विद्यां दण्डनीतिं ग शारवधीम् ।

भ्रान्दीचिर्कीं चात्मविद्यां वार्त्तारम्भारथ साकत ॥४३॥

(४३) तीन वेदों के ज्ञाताओं से तीनों वेद दण्डनीति ज्ञाताओं से नीतिशास्त्र ब्रह्मविद्या ज्ञाताओं से ब्रह्मविद्या को पढ़ें तथा धन प्राप्ति के उपाय-ज्ञाताओं से कृषि व्यापार और पशु पालन व चिकित्सा भादि को सीखें ।

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्विद्वानिशम् ।

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशं स्थापयितुं प्रजां ॥४४॥

(४४) रात्रि दिवस इन्द्रियो को वश में करने का प्रयत्न करे जो राजा जितेन्द्रिय है वह सारा प्रजा को अपनी अधीनता में रख सकता है तथा जो इन्द्रियजित् नहीं है अर्थात् विषयी है वह अवश्य मष्ट होता है ।

दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च ।

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ४५ ॥

(४५) दश दोष काम से उत्पन्न होते हैं आठ दोष क्रोध से उत्पन्न होते हैं । इन गठारह दोषों को प्रयत्न करके परित्याग करना उचित है ।

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनपु महीपतिः ।

वियुज्यतेऽर्यधर्माभ्यां क्रोधजप्त्वात्मनैव तु ॥ ४६ ॥

(४६) कामों द्वारा उत्पन्न व्यसनो में सिप्ट होने से

राजा के धर्म तथा अर्थ का नाश हो जाता है और क्रोधात्पन्न व्यसनो मे लिप्त होने से राजा स्वय नष्ट हो जाता है ।

मृगयाऽक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः । ✓

तौर्यत्रिकं वृथाख्याच कामजो दशको गुणः ॥ ४७ ॥

(४७) काम द्वारा उत्पन्न दस व्यसन यह हैं—१-मृगया (शिकार खेलना), २-पासा खेलना, ३-दिन मे सोना, ४-परिवाद (दूसरे का दोष प्रकट करना), ५-स्त्री की सेवा करना, ६-मद्य पीकर मस्त हो जाना, ७-नाचना, ८-गाना, ९-बजाना, १०-व्यर्थ घूमना ।

पैशुन्यं साह वं द्रोहं ईर्ष्या सूर्यार्थदूषणम् । ✓

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ४८ ॥

(४८) क्रोध द्वारा उत्पन्न आठ व्यसन यह हैं—१-ना जाने दोष को कहना, २-निज बल द्वारा काम करना, ३-छल से किसी को मार डालना, ४-ईर्ष्या, ५-किसी के गुण मे दोष लगाना, ६-कटु भाषण, ७-अर्थ को चुराना अथवा देने योग्य पदार्थ को न देना ८-दण्ड से ताडन करना ।

द्वयोरप्येतयोमूलं यं सर्वे कवयो विदुः ।

तं यत्नेन जयेन्लोभं तज्जायेतावुभौ गणौ ॥ ४९ ॥

(४९) उपरोक्त त्याग योग्य दोषो का मूल लोभ है अर्थात् लोभ करने से इनकी उत्पत्ति होती है । अतएव लोभ का यत्न करके परित्याग कर देना उचित है । निर्लोभी होने से सब बश मे हो जाते हैं, यह बात बुद्धिमानो ने कही है ।

पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् । ✓

एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ५० ॥

(५) क्रम द्वारा उत्पन्न दायों में मद्य पीना पाँचास बेसना स्त्री वशीभूत हाना + ब्राह्मेत संयमा यह चारों यथाक्रम (एक दूसरे से) निकृष्ट हैं ।

दण्डस्य पातनं चैव धान्यपारुष्यार्थरूपणे ।

क्रोधञ्च पि गच्छे विघातकृष्टमेतत्त्रिकं सदा ॥ ५१ ॥

(५१) १—क्रोध द्वारा उत्पन्न व्यसनो में दण्ड से हनन करना २—कटु भाषण ३—देने योग्य पदार्थ को न देना यह तीन सदाव निकृष्ट हैं ।

सप्तकस्यास्य बर्गस्य सर्वशैवानुपज्ञिणा ।

पूर्वं पूव गुह्यतरं विघाद्व्यमनमात्मवान् ॥ ५२ ॥

(५२) इन सातों का वासस्थान एक ही है इसमें मद्य क्रम एक दूसरे से अधिक निकृष्ट है ।

✓ व्यमनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टसुच्यते ।

व्यमन्यधीऽधो भ्रजति स्वर्पात्यव्यसनी मृतः ॥ ५३ ॥

(५३) व्यसनी तथा मृत्यु में व्यसन निकृष्ट है, क्योंकि व्यसनी नरक में जाता है और जिसने व्यसन परित्याग कर दिये हैं वह मृत्यु के पश्चात् मुक्त पाता है । अतएव व्यसन से मृत्यु उत्तम है ।

मौसाङ्घ्रास्रविदं शूर्गम्यम्बस्रघान्कुलोद्भवान् ।

सधिवान्सप्त पाष्टौ वा प्रफुवीत परीक्षितान् ॥ ५४ ॥

(५४) जो लोग शास्त्रज्ञाता धूर्वीर लब्धमक्ष (अर्थात्

+ श्लोक ५ में मनुजी तो राजा के हेतु ब्राह्मेत का निषेध करते हैं परन्तु कनिषुगी राजा इसको अपना धर्म मानते हैं ।

वति की तह कौ पहुँचे हुए), उत्तम कुलवान् हो, उनकी परीक्षा लेकर राजा उनका सचिव (मन्त्री) बनावे तथा वह सचिव सख्या मे ७ वा ८ हो ।

अपि यत्सुकरं कर्म यदप्येकेन दुष्करम् ।

विशेषतोऽमहायेन किं तु राज्यं मपोढयम् ॥ ५५ ॥

(५५) जो कार्य सरल है वह भी एकाकी नहीं हो सकता और राज-काज तो बड़ा भारी काम है, वह किस प्रकार एकाकी हो सकेगा ?

तै सर्थ चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं मधिविग्रहम् ।

स्थानं समुढ्यं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ ५६ ॥

(५६) इन मन्त्रियो से निम्न लिखित विषयो पर नित्य मन्त्रणा (परामर्श) करे अर्थात् सिन्ध, दिग्रह, धन, नगर, राज्य, रथखाना आदि सेनापालन, अन्न, सोना, रूपादि की उत्पत्ति स्थान, अपनी तथा राज्य की रक्षा और प्राप्त धन को उत्तम लोगों को दान देना ।

तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ।

समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्वितमात्मनः ॥ ५७ ॥

(५७) सचिवगण (मन्त्रिमण्डल) जो मन्त्रणा (सलाह) दे उसको पृथक्-पृथक् अथवा एक ही बार समझ कर उचित आज्ञा देवे जिसमे भला हो ।

सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपरिचता ।

मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा पाङ्गुगयसंयुतम् ॥ ५८ ॥

(५८) सब मन्त्रियो मे जो अधिक विद्वान् तथागुण-

वान् हो उसके साथ छः गुण वाले परम मन्त्र को विचारे । छः गुण धारण करते ।

नित्य तस्मिन्समाश्वस्तं सर्वकार्याणि निःश्रियेत् ।

तेन सार्धं विनिश्चित्य यतः कर्म समारमेत् ॥ ५६ ॥

(५६) सबव उस पर विश्वास करके सारे कार्य करे तथा उसकी सम्पत्ति लेकर कार्य को प्रारम्भ करे ।

अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राधान्यस्थितान् ।

सम्यगर्थसमाहर्तुं नमास्थान्मुपरीक्षितान् ॥ ६० ॥

(६) जो मनुष्य शुद्ध व सर्वज्ञाता है—उत्तम व उचित रीति से धन प्राप्त करने वाले हैं तथा उत्तम विधि से जिनकी परीक्षा हो चुकी है ऐसे धौर भी सम्पत्ति नियत करे ।

निर्वर्षतास्य यावन्निरितिर्कर्तव्यता नृभिः ।

तावतोऽवन्द्रितान्दधान्प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६१ ॥

(६१) जितने मनुष्यो से कार्य सम्पादन हो सके उतने ही मनुष्यो को गौकर रखने परन्तु वह मनुष्य चतुर कार्य-कुशल तत्पर तथा दक्ष हों ।

तेषामर्षे नियुञ्जीत शूकान्कुलोद्गतान् ।

शुचीनाक्काकर्मान्ते भीरुनन्तनिवेशने ॥ ६२ ॥

(६२) इन मन्त्रियो से चतुर कुलवान शुद्ध व पवित्र अनिच्छुक तथा धैर्यवान् हो उनको कार्य सौंप दे जिसमे धन प्राप्त हो तथा जो मनुष्य कायर व डरपोक हों उनको कोट (किला) के भीतर रखे ।

दत्तं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।

इतिताकारचेष्टस्य शुचिं दत्तं कुलाद्गतम् ॥ ६३ ॥

(६३) जो मनुष्य शास्त्र-विशारद [ज्ञाता], सैन व आकर [रूप] को समझने वाला, शुद्ध व पवित्र, चतुर [दत्त] तथा कुलवान् हो उनको दूत नियत करे ।

अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्देशकालवित् ।

वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६४ ॥

(६४) राजा के निमित्त ऐसे दूत की आवश्यकता है जो राजा का मित्र, स्वामी को प्रसन्न रखने व ला, शुचि, दक्ष, प्रत्येक बात स्मरण रखने वाला, देशकाल-ज्ञाता, सुरूपवान [सुन्दर] सुवार्तालाप करने वाला तथा निडर हो ।

आमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डवैनयिकी क्रियाः ।

नृपतौ काशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययो ॥ ६५ ॥

(६५) सचिव के अधीन दण्ड है, दण्ड के अधीन न्याय है, राजा के अधीन कोष व राज्य है, दूत के अधीन सन्धि तथा विग्रह है ।

दूत एव हि संधत्ते भित्तयेव च संहतान् ।

दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ ६६ ॥

(६६) दूत ही विगडे हुए [शत्रु] को मिलाता है अथवा दूत ही मिले हुए [मित्र] को विगाडता है । जिसके द्वारा सन्धि [मिलाप] तथा विग्रह [विगाड] होता है वह दूत ही करता है ।

स विद्यादस्य कृत्येषु निगूढंगितचेष्टितैः ।

आकारमिगित्तं चेष्टा भृत्येषु च चिक्रीपितम् ॥ ६७ ॥

(६७) सब अधिकारियो से दूत ही राजा की बात, सैन आकार, चेष्टा तथा राजा के करने योग्य सब कार्य को जाने, अन्य सेवको को पूर्ण भेद ज्ञात न होना चाहिये ।

धुवूष्वा च सव तरवेन परराजचिकीपितम् ।

तथा प्रयत्नमाविष्ट धयात्मान न पीडयेत् ॥ ६८ ॥

(६८) अन्य राजाओं के विषय का सत्य तत्व [वृत्तास्त] अपने प्रयत्न से ज्ञात करे तथा ऐसा धयाय करे जिससे अपनी आत्मा को पीड़ा [दुःख] न पहुँचे ।

जांगले सस्यसपन्नमार्यप्रायमनाविराम् ।

रम्यमानतसामन्त स्वाजीर्ष्यं देशमावसेत् ॥ ६९ ॥

(६९) जिस देश में अल्प जल व घास हो तथा वायु, भूप व अन्न अधिक हो उसे जाङ्गल कहते हैं । उसमें तथा जिस देश में सज्जन पुरुष हों, नीरोग हों, जो फस फूल व वृक्षादि से मनोहर हो वहाँ की प्रत्येक दिशा के मनुष्य विनीत हो, वहाँ कृषि व्यापारादि भन प्राप्ति के साधन सरलता से प्राप्त हो सक ऐसे देश में राजा निवास करे ।

अन्वदुर्ग महीदुर्गमधुर्ग वार्धमेव वा ।

नुदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाभित्य वसेत्पुरम् ॥ ७० ॥

(७०) १—जिसके चारों ओर पानी न हो २—अहाँ की भूमि ठण्डी हो ३—जिसके चारों ओर पानी हो ४—जिसके चारों ओर वृक्ष हो ५—जिसके चारों ओर वीर योद्धा बसते हों ६—जिसके चारों ओर पहाड़ हो । यह छः स्थान दुर्ग (फोर्ट) के समान हैं एवं स्थान पर राजा निवास करे वहाँ पर दूसरे की सेना न जा सके ।

सर्वेश तु प्रयत्नन गिरिदुर्गं समाभयेत् ।

एषां हि वाहुमुत्थेन गिरिदुर्गं विशिष्यते ॥ ७१ ॥

(७१) जिस देश के चारों ओर पहाड़ हैं उसमें निवास

करे, जहाँ तक ऐसा स्थान (देश) मिले अन्य स्थान में निवास न करे । इन सबों में ऐसा देश उत्तम है ।

त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वेषां मृगगर्ताश्रयाऽप्सराः ।

त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवंगमनरामराः ॥ ७२ ॥

(७२) प्रथम तीन दुर्गों (कोटों) में, हिरन, चूहा, जल के जीव रहते हैं । पिछले तीन कोटों में बन्दर, मनुष्य, देवता रहते हैं ।

यथा दुर्गाश्रितानेतान्नोपहिंसति शत्रवः ।

तथारयो न पिंसन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम् ॥ ७३ ॥

(७३) जिस प्रकार हिरन आदि अपने कोट में बसने से शत्रुओं से कष्ट नहीं पाते हैं, उसी प्रकार राजा दुर्ग में बसने से शत्रुओं से पीडा नहीं पाता है ।

एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः ।

शतं दशसहस्राणि तस्माद्दुर्गं विधीयते ॥ ७४ ॥

(७४) दुर्गवासी एक धनुर्धारी प्रकार (कोट की दीवार) के बाहर के सौ योद्धाओं से लड़ सकता है तथा दुर्गवासी सौ मनुष्य बाहर के दश सहस्र मनुष्यों से युद्ध कर सकते हैं । अतएव दुर्ग बनाने का उपदेश करते हैं ।

तत्स्यादायुधसंपन्नधनधान्येन वाहनैः ।

ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यन्त्रैर्यवसेनोदकेन च ॥ ७५ ॥

(७५) दुर्ग के भीतर यह सामग्री उपस्थित रहनी चाहिये—शस्त्र, धन, धान्य (अन्न), ब्राह्मण, शिल्पी (कारीगर) यन्त्र (कल), घास, पानी तथा ई धन आदि ।

तस्य मध्ये सुपर्याम कारयेद्गृहमात्मनः ।

गुप्त सर्वतुक् शुभ जलक्षयसमन्वितम् ॥ ७६ ॥

(७६) उस दुर्ग में अपना प्रासाद (मकान) ऐसा बनावे कि जिसमें पूषक २ स्त्री देवता सस्त्र तथा अग्नि के गृह हो सारी भी हो सब ऋतुओं के फल पूर्य उपस्थित हो गृह प्येत रंग का हो तथा उसमें वावसी रूप व वृक्ष हों ।

सवृष्यास्योद्गहेद्भार्या सवर्षां सप्तयान्विताम् ।

कुले महति संभृतां हृष्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ७७ ॥

(७७) उस गृह में उस कर अपनी आसि की उत्तम कुल की कन्या से विवाह करे जो हृदय को प्यारी हो स्वयंती गुणवती व सहवय हो ।

पुरोहित च कुर्वीत ऋष्यादेव चत्विजः ।

तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वैयानिकानि च ॥ ७८ ॥

(७८) पुरोहित व ऋत्विज इन दोनों को अधिकार दे यह दोनों राजा के अग्निहोत्र आदि गृह के कार्यों को करे ।

यजेत राजा ऋतुभिर्विभिधैराप्तदक्षिणैः ।

धर्माथ चैव विप्रेभ्यो दद्याद्भोगान्चनानि च ॥ ७९ ॥

(७९) विभिन्न यज्ञों को मले प्रकार दक्षिणा देकर करे । धर्माथ ब्राह्मणों का भोग (धर्मार्थ गृह सभ्या धाम्नुपण वस्त्रादि) व धर्म दसे ।

सांख्यस्तारिकमाप्सैश्च राष्ट्रदाहाग्यवृषलिम् ।

म्याद्याम्नायमरो स्ताके स षट्पितृवन्नृषु ॥ ८० ॥

(८०) राजा अपने राज्य से अपना भाग प्रतिभय लेवे देवान्नुमार कर्य करे, सारी प्रजा का अपनी सन्ताप की

नाई पालन करे तथा प्रजा उसको पिता के समान समझ कर उसकी आज्ञा माने ।

अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्र तत्र विपरिचयः ।

तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षोरन्तृणां कार्याणि कुर्वताम् ॥८१॥

(८१) प्रत्येक स्थान पर विविध कार्यों का एक-एक अध्यक्ष नियत करे, वह अध्यक्ष राजा के कर्मचारियों के काम का निरीक्षण करें ।

आवृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत् ।

नृपाणामक्षयो ह्येपः निधिर्ब्राह्मोऽभिधीयते ॥ ८२ ॥

(८२) जो ब्राह्मण गुरुकुल से विद्याध्ययन समाप्त कर अपने पिता के गृह आवे, राजा उनका पूजन करे, वे ब्राह्मण अक्षय कोप हैं ।

न तं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति ।

तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ब्राह्मणेष्वक्षयो निधिः ॥८३॥

(८३) जो धन व सामग्री ब्राह्मण को दी जाती है वह अक्षय है, उसको चोर चुरा नहीं सकता । अतएव राजा अपने धन से ऐसे ब्राह्मणों की सेवा-शुश्रूषा तथा पूजा करे ।

न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित् ।

वरिष्ठमग्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम् ॥ ८४ ॥

(८४) ब्राह्मण के मुख से जो हवन किया गया अर्थात् देवता व पितरो व ऋषियों के निमित्त जो उनको भोजन कराया जाता है) चाहे परमेश्वर के प्रसन्नार्थ भोजन

ब्राह्मण से तात्पर्य पूर्णज्ञानी, जितेन्द्रिय, धर्मोपदेश करने वाले ब्राह्मण से है ।

कराया मया है वह गिरता नहीं न कष्ट होता है, न दुःख देता है तथा ऐसा हवन [अर्घन्ति ब्रह्मभोज] अग्निहोम से उत्तम है ।

सममब्राह्मणे दानं त्रिगुणं ब्राह्मण्यमुच्यते ।

प्राचीते शतसाहस्रमनन्त वेदपारगे ॥ ८५ ॥

(८५) × ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय मादि को जितना देवे उतना ही मिसता है मूर्ख ब्राह्मण को देने से दूना मिसता है । वेद का एक शाखा पढ़े हुए को देने से लाख गुना मिसता है तथा समस्त वेदपरागामी [पढ़े हुए] को देने से अनन्त फल मिसता है ।

पात्रस्य द्विविद्यपेश भक्षणस्तथैव च ।

अल्प वा बहु वाप्रेत्य दानस्य धनमश्नुते ॥ ८६ ॥

(८६) वाता की भटा तथा दानग्रहणकर्ता ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण की उपदर्ष्या के तेज के कारण दान का अल्प वा बहुत फल प्रायामी जन्म में अवश्य मिलता है ।

समोत्तमाधमै राजा स्वाहृतं पालयन्प्रजा ।

न निवर्तेत संग्रामात्पात्र धर्ममनुस्मरन् ॥ ८७ ॥

(८७) जो राजा प्रजा का पालन करता हुआ क्षात्रधर्म का ध्यान रखता है यदि उसे युद्ध निमित्त उससे बड़ा या छोटा राजा पुकारे तो वह उसके निमित्त युद्ध करे मुँह न मोड़े ।

संग्रामेष्वनिवर्तिस्व प्रजानां चैव पालनम् ।

शुभ्रूपा ब्राह्मणानां च राज्ञां भेयस्कर परम् ॥ ८८ ॥

× यह श्लोक सर्वथा सन्निहित किया हुआ है क्योंकि मूर्ख कभी ब्राह्मण हो ही नहीं सकता ।

(८८) १-युद्ध मे घोरता धारण करना, २-प्रजा पालन करना, ३-नाह्यणो की सेवा-शुश्रूषा करना । यह तीन कार्य राजा को सबसे अधिक आनन्द देने वाले है ।

आहवेष्टु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो भवीक्षितः ।

युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गयान्त्यपराड्मुखाः ॥ ८९ ॥

(८९) रण मे युद्ध से विमुख न होकर लडते हुए जो क्षत्रिय वीरगति पाता है वह स्वर्ग मे जाता है ।

न कूटैरायुधर्हन्याद्युध्यमानो रणे रिपून् ।

न कर्णिमिर्नापि दिग्धर्नाग्निज्वलिततेजनैः ॥ ९० ॥

(९०) जो शस्त्र विष बुझे है, जिनके उपर लकड़ी तथा भीतर से लोहा है, जिस तीर की गासी कर्णरूप है तथा जो अग्नि मे तपाये हुए है ऐसे अस्त्रो से युद्ध मे शत्रुओ को न मारो ।

न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीवं न कृताञ्जलिम् ।

न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीत्तिवादिनम् ॥ ९१ ॥

(९१) भूमि पर स्थित, क्लीव (नपुंसक), हाथ जोडने वाला, जिसके सिर के बाल खुले हो, बैठा हुआ, ऐसा कहने वाला कि मैं तुम्हारा हूँ इतने पुरुषो को न हनन करे ।

न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम् ।

नायुध्यमानं पश्यन्तं यः परेण समागतम् ॥ ९२ ॥

(९२) सोता मनुष्य सनाह (कचच) न धारण किये हो, नि शस्त्र, युद्धेच्छुक न हो, किसी के साथ तमाशा देखने आया हो, ऐसे मनुष्यो को भी न मारे ।

नायुधव्यसनप्राप्तं नार्तं नातिपरीक्षितम् ।

न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ९३ ॥

(६३) क्षिप्र मस्त्र धाला पुत्रादि की मृत्यु के कारण धोकार्त कठिन भाव सपा हो भयातुर युद्ध से परामुक्त (भामा हुमा) इन सबको सज्जनों के धर्म की विचार कर न मारे ।

यस्तु भीतः परावृत्त सग्रामे हन्यते परैः ।

मर्त्यैर्वैदुष्यकृत किञ्चित्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ६४ ॥

(६४) जो मनुष्य भय बल रण से परामुक्त होकर दूसरे के हाथ से भायस होकर मारा जाता है वह अपने स्वामी के पाप को पाता है ।

यश्चास्य सुकृतं किञ्चिदमुत्रार्थमुपाजितम् ।

मर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तइतस्य तु ॥ ६५ ॥

(६५) जो क्षत्रिय युद्ध से परामुक्त होकर मारा जाये उसके पुण्य कर्मों का फल उसके स्वामी को प्राप्त होता है ।

रघार्षं हस्तिर्न छत्रं घनं धान्यं पशुन्निग्रयं ।

सर्वद्रव्याणि कुर्ष्यं च यो यत्कपति तस्य तत् ॥ ६६ ॥

(६६) रथ घोड़ा हाथी छत्र घन धान्य पशु स्त्री तथा सारा द्रव्य सोना चाँदी के प्रतिरिक्त चीसा पीतल आदि इन सबको जो पीतता है वही उसका स्वामी है ।

राष्ट्रश्च दण्डं रुद्धारमित्येषा वैदिकी भुक्तिः ।

राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम् ॥ ६७ ॥

(६७) सोना चाँदी नूनि आदि जो उत्तम वस्तुयें जीत में प्राप्त हो उनका पाने वाला अपने राजा को देवे देह बेच में सिखा है तथा राजा उस वस्तु को उन सब धूर्तों को बाँट दे जिन्होंने बेश विजय किया है ।

एषोऽनुसंस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः ।

अस्माद्धर्मान्न च्यवेत क्षत्रियोधनन् रणे रिपून् ॥६८॥

(६८) क्षत्रिय शूरवीरो का भी धर्म यही कहा है कि वे रण मे शत्रु को मारते हुए क्षात्र धर्म को न छोडे । यदि वे क्षात्र धर्म त्याग दें तो क्षत्रिय कहलाने योग्य नही हो सकते ।

अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः ।

रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ ६९ ॥

(६९) अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, प्राप्त वस्तु की रक्षा करे, रक्षित की उन्नति करे तथा उन्नत वस्तु को ❀ शुभ कार्यों मे व्यय करे ।

एतच्चतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम् ।

अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कुर्यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥

(१००) राजा के पुरुषार्थ का प्रयोजन भी चार प्रकार का है, उसको जाने और आलस्य त्याग उन चारो का सेवन करे जो उपरोक्त श्लोक मे कथित हैं ।

अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षोदवेक्षया ।

रक्षितं वर्धयेद्वृद्ध्या वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥१०१॥

(१०१) अलब्ध वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करे, जो दण्ड द्वारा प्राप्त हो उसकी रक्षा करे, जिस वस्तु की रक्षा देखने मात्र से होती है उसकी उन्नति देखने से करे, व्याज से बढे हुए धनादि को दान मे लगावे ।

❀ विद्योन्नति, अनाथरक्षा, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी आदि की सहायता मे व्यय करे ।

नित्यमुद्यत्तदमडः स्यान्नित्यं विवृतपौरुषम् ।

नित्यं सवृतसखायो नित्यं छिद्रानुसार्थरेः ॥ १०२ ॥

(१०२) हाथी घोडा आदि की सवारी तथा मुठ के नियम (रीति) सीखने का अभ्यास करे, अस्त्रविद्या द्वारा सर्वदा अपने पौरुष का यश प्राप्त करे मन्त्र (समाह्व आचार वेद्य आदि को प्रकट न करे तथा शत्रु के दोष को आमतार रहे इन सब कार्यों को सर्वत्र करता रहे ।

नित्यमुद्यत्तदमडस्य कृत्स्नमुद्विजते श्वगत् ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधदत् ॥ १०३ ॥

(१०३) जिस राजा के राज्य में अपराध करके बन्ध से नहीं बच सकता है उस राजा से सब भयभीत रहते हैं अतएव राजा को उपित्त है कि अपराधी को दण्ड देकर सबको अपने अधीन रखे ।

अमातयैष वर्तेत न कर्मचन मायया ।

शुद्धभेदारिप्रपुर्का च मायां नित्यं स्वसम्भृतम् ॥ १०४ ॥

(१०४) स्वयं छल न करना शत्रु के छल को सर्वत्र आमतार रहना अपने आशिकों की रक्षा उत्तम उपाय द्वारा करना राजा का मुख्य धर्म है ।

नास्य छिद्रं परो विद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु ।

गूहस्त्वर्म इवांगानि रक्षाद्विषरमात्मन ॥ १०५ ॥

(१०५) राजा के दोष को दूसरा न जाने परन्तु राजा दूसरे के दोष को ज्ञान सेवे जैसे शत्रुका अपने शत्रु को छिपाता है वैसे ही राजा अपने दोषों को छिपावे ।

वक्वच्चिन्तयेदर्थान्मिहवच्च पराक्रमेत् ।

वृक्वच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्यतेत् ॥ १०६ ॥

(१०६) दगुले की नाई अपने अर्थ [हित] का विचार करे, सिंह की नाई पराक्रम करे, भेडिये की नाई वस्तु प्राप्त करे, खरहे की नाई भागे ।

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः ।

तानानयेद्वशं सर्वांसामादिभिरुपक्रमैः ॥ १०७ ॥

(१०७) इस प्रकार विजयी राजा १—साम, २—दाम, ३—दण्ड, ४—भेद । इन चार उपायो से शत्रु को अपने अधीन करे ।

यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः ।

दण्डेनैव प्रसह्यैतांश्छिनकैर्वशमानयेत् ॥ १०८ ॥

(१०८) जब शत्रु साम, दाम, भेद से अपने वश में न होवे तो दण्ड द्वारा ही शत्रु को अधीन करे ।

सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः ।

सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं गण्डाभिवृद्धये ॥ १०९ ॥

(१०९) साम, दाम, दण्ड, भेद, चारो उपायो मे साम तथा दण्ड की प्रशंसा राज्य की उन्नति के हेतु पण्डित लोग करने हैं ।

यथोद्धरति निर्दाता क्वं धान्यं च रक्षति ।

तथा रक्षोन्नुपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ११० ॥

१—सन्धि व विग्रह (मेल व लड़ाई), २—धनादि देना, ३—सजा, ४—शत्रु की सेना मे फूट डालना ।

(११०) जिस प्रकार किसान धान की रक्षा करता है तथा भास आदि निकाल डालता है उसी प्रकार राजा राज्य की रक्षा करे और शत्रुओं को नष्ट करे ।

मोहाद्राजा स्वराष्ट्र यं कर्मयत्यनवेक्षया ।

सोऽचिराद्भ्रम्यते राज्याधीविताद्य सभाच्चर ॥१११॥

(१११) जो राजा बिना सोचे विचारे मोहबला प्रजा को कष्ट देता है वह योद्धे ही समय में अपना राज्य अपने प्राण भाई बन्धु सब को नष्ट-भ्रष्ट कर डालता है ।

शरीरकर्षणात्प्राणा क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ।

तथा राज्ञामपि प्राणा क्षीयन्त राष्ट्रकर्षणात् ॥११२॥

(११२) जिस प्रकार शरीर को दुःख देने से प्राण की दुःख होता है, उसी प्रकार राज्य धर्याद् प्रजा के दुःखी होने से राजा का प्राण दुःख पाता है ।

राष्ट्रस्य सप्रह नित्य विधानमिदमाचरेत् ।

सुमरुसीतराष्ट्रो हि पार्थिव सुखमेषते ॥ ११३ ॥

(११३) प्रजा की उत्पत्ति के लिये नित्य नियम तथा नीति का पालन करे । जिस राजा की प्रजा में मनी भाँति उत्पत्ति पाई हो उसी प्रकार के कार्य करने वाला राजा उत्पत्ति पाता है ।

द्वयास्त्रयाणां पञ्चानां मध्य गुन्ममधिष्ठितम् ।

तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य सप्रहम् ॥ ११४ ॥

(११४) वह तीन पाषाणों के मध्य में रक्षा का गृह बनावे और उनमें प्रबन्ध करने के हेतु अपने कामचारी रखे ।

ग्रामस्याधिपतिं कुर्याद्दशग्रामपतिं तथा ।

विंशतीशं शतेशं च सहस्रपति मेव च ॥ ११५ ॥

(११५) योग्यतानुसार किसी को एक गाव का, किसी को दस गाव का, किसी को बीस गाव का, किसी को सौ गाव का तथा किसी को सहस्र गाव का स्वामी बनावे ।

ग्रामदोषान्समुत्पन्नान्ग्रामिकः शनकैः स्वयम् ।

शंसेद्ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशने ॥ ११६ ॥

(११६) गांव मे कुछ उपद्रव हो तो गाव का रक्षक (स्वामी) दस गांव के स्वामी से चुपके से कहे और वह बीस गाव के स्वामी से कहे ।

विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत् ।

शंसेद्ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ ११७ ॥

(११७) बीस गाव का स्वामी सौ गाव के स्वामी से कहे और वह हजार गाव के स्वामी से कहे ।

यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः ।

अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्नुयात् ॥ ११८ ॥

(११८) नित्य राजा का भागें जैसे अन्न, पान, काष्ठ आदि जो ग्रामवासियो से लेने योग्य हैं उसको ग्राम का स्वामी लेवे ।

दशी कुलं तु युञ्जीत विंशी पंच कुलानि च ।

ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम् ॥ ११९ ॥

(११९) दस-गाव-का स्वामी एक + कुल की भूमि का

+ वारह बैलो से जिस जमीन मे हल चलाये जावें उसे कुल कहते हैं ।

अपने निर्वाह के धर्म लेवे वीस गांव का स्वामी पांच कुल की भूमि लेवे सौ गांव का स्वामी मध्य के एक गांव को लेवे तथा सहस्र गांव का स्वामी एक पुर को अपने निर्वाह के धर्म लेवे ।

तेषां ग्राम्याणि कायाणि पृथक्कर्षीणि चैव हि ।

राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पर्येदेतुद्रित ॥१२०॥

(१२) जो सचिव सब मन्त्रियों में प्रधान बुद्धिमान् तथा राजधानी में राजा के समीप निवास करने वाला है वह प्राप्तम्य त्याग कर गांव नगर तथा पुर के स्वामी के कार्यों का निरीक्षण करे ग्राम्य कार्यों को भी देखता रहे और उनकी परीक्षा लेता रहे ।

नगरे नगरे चैक कुर्यात्सर्षार्थविन्नकम् ।

उच्चैः स्थान धोररूप नक्षत्राखामिव ध्रुवम् ॥१२१॥

(१२१) प्रत्येक नगर में एक मनुष्य जो सब धर्मों की चिन्तना (विचार) करने वाला हो नियत करे एक गृह प्रति ऊँचा तथा धोर (म्यानक) रूप का बनवावे वह घर ऐसा सुन्दर हो जैसा नक्षत्रों में चन्द्रमा ।

स ताननुपगिम्नामेत्सर्षानिव सप्त स्वयम् ।

तेषां ह्येव परिणयन्मन्यग्रः एषु सचिवरैः ॥ १२२ ॥

(१२२) यह प्रधान मन्त्री अपने नगरादि के स्वामियों का बिना प्रयोजन भी सदाय ग्राममय ग्राम-निरीक्षण करता रहे तथा अग्रे द्वारा सबके मन की बात जाने ।

राज्ञो हि रक्षाधिकृता परस्वादायिनः शूठाः ।

मृया मवति प्रापस्य तम्यो रक्षोदिमा प्रजा ॥१२३॥

(१२३) राजा के कर्मचारी प्रायः दमरे की सम्पत्ति तथा धन अपहरण कर लेते हैं और निठुर होते हैं । अतएव उनके हाथ से प्रजा की रक्षा करना राजा व मन्त्री का मुख्य धर्म है ।

ये कार्थिःकेभ्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतमः ।

तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवामनम् ॥ १२४ ॥

(१२४) मन में पाप रखने वाले जो कर्मचारी प्रजा में धन लेते हैं, राजा उनकी मारी सम्पत्ति छीन ले तथा उनको राज्य में निकाल देवे, क्योंकि रिश्वत लेने वाले कर्मचारी राजा की निर्बलता के कारण हैं ।

राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च ।

प्रत्यहं कल्पयेद्वृत्तिं स्थानं कर्मानुरूपतः ॥ १२५ ॥

(१२५) जो स्त्री व भृत्य राजा का कार्य करते हैं उनका वेतन उनके नित्य के कार्य के अनुसार नियत करे ।

पणो देयोऽवकृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य वेतनम् ।

पाण्णामिकस्नथाच्छादोधान्यद्रोणस्तुमासिकः ॥ १२६ ॥

(१२६) जो गृह को शुद्ध करने वाला तथा पानी का लाने वाला है उसको एक पण नित्य देवे, एक मास में एक द्रोण अन्न देवे, छठे मास में दो वस्त्र देवे और जो पुष्टप जत्तम कार्य करने वाला है उसको छ पण नित्य देवे तथा छ मास में चार वस्त्र देवे, प्रत्येक मास में छ द्रोण धान्य देवे । इसी प्रकार मध्यम दशा का कार्य करने वाले को तीन पण नित्य देवे, प्रति मास तीन द्रोण धान्य देवे, तथा छठे मास में तीन वस्त्र देवे ।

क्रयविक्रयमध्याने भक्त च सपरिव्ययम् ।

योगक्षेमं च सम्प्रत्य बखिज्जो दापयेत्कगन् ॥१२७॥

(१२७) इन सब बातों पर विचार कर व्यापारियों से कर लेवे अर्थात् किस मूल्य को माम लिया भोजनादि में क्या व्यय पड़ा कितनी दूर से सामा मास की रक्षा में क्या व्यय पड़ा तथा कितना साम प्राप्त होगा ।

यथा फलेन युज्येत राजा फर्ता च कर्मक्षाम् ।

तथावेत्य तुपो राष्ट्रं कल्पयेत्समत करान् ॥ १२८ ॥

(१२८) जिस विधि से कायकर्ता तथा राजा को साम हो उसी विधि को देखकर राजा अपने कर नियत करे जो प्रत्येक मनुष्य पर एक समान हो ।

यथाभ्यान्पमदन्त्याद्य धार्योक्तोवत्सपट्टपदाः ।

तथाभ्यान्पवो ग्रहीतव्यो राष्ट्राज्ञादिक- कर्म ॥१२९॥

(१२९) जैसे लोक बहुरा तथा भौरा, यह सब अपने साधुपदार्य को छोड़ा-छोड़ा करते हैं वैसे ही राजा अपने राज्य से दार्दिक कर छोड़ा-छोड़ा लेवे ।

पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययो ।

षान्यानामष्टमो भाग षष्ठो द्वादश एव वा ॥१३०॥

(१३०) पशु व सोमे के-साम का पचासवां भाग लेवे धान्य के साम का अष्टा अठवां व बारहवां भाग लेवे । भूमि की उर्वरा प्रावि पशा की बेस तथा ओतने-प्रावि के परिश्रम को विचार कर नियत करे ।

आटहीताद्य पद्भाग द्रुमांशमधुसर्पिणाम् ।

गन्धीपधिरसानां च पुष्पमृक्षफलस्य च ॥ १३१ ॥

(१३१) वृक्ष, मांस, मद्य, घी, सुगन्धित वस्तुयें, औषधिया, रस, फल, फूल, मूल का छटा भाग राजा ग्रहण करे ।

पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्य च ।

मृगमयानां च भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च ॥१३२॥

(१३२) पत्ता, शाक, तृण (घास), चमड़ा, बास का पात्र, मिट्टी-पात्र, पत्थर के लाभ का छठा अश राजा लेवे ।

त्रियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्कर्मम् ।

न च क्षुधास्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वमनम् ॥१३३॥

(१३३) राजा यदि मरणासन्न भी हो, तो भी ॐ वेदपाठी ब्राह्मण से कर न लेवे तथा राज्य मे इसकी सुव्यवस्था रखे कि कही भी वेदपाठी ब्राह्मण को खान-पान का कष्ट न होने पावे ।

यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा-

तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीदति ॥ १३४ ॥

(१३४) इस राजा के राज्य मे वेदपाठी क्षुधा से पीड़ित रहता है उसका राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ।

श्रुतवृत्ते विदित्वास्य वृत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत् ।

संरक्षेत्सर्वतश्चैनं पिता पुत्रमिवौरसम् ॥ १३५ ॥

(१३५) ब्राह्मण को विद्याभ्यास तथा आचरण को समझ कर उनकी ऐसी वृत्ति नियत करे जो उनके धर्म विरुद्ध न हो

ॐ वेदपाठी ब्राह्मण का उतना मान करे जितना शरीर मे नेत्रों को करता है । जैसे नेत्र बिना शरीर के सब काम विगड जाते हैं वैसे ही वेदपाठी बिना राज्य के सब कार्य विगड जाते हैं ।

घोर उतकी रक्षा सब भोर से इय प्रकार करे जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है ।

सरस्वयमाशो राधा यं कुन्ते धर्ममन्वहम् ।

तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविण्य राष्ट्रमेव च ॥ १३६ ॥

(१३६) राजा की रक्षा में ब्राह्मण नित्य जो धर्म करता है उसके प्रताप से राजा के धन तथा आयु की वृद्धि होती है ।

यत्किञ्चिदपि धर्मस्य दापयेत्करमधितम् ।

व्यवहारेण्यु लीमन्तं राज्ञा राष्ट्रं पृथग्जनम् ॥ १३७ ॥

(१३७) राज में छोटे मनुष्यों से भी थोड़ा साक-पात आदि धर्म के धन में कर रूप में लेवे ।

कारुकाच्छिष्यिनश्चैव शूद्राश्चात्मोपजीविनः ।

एकैक कारयत्कर्म मासि मामि महीपति ॥ १३८ ॥

(१३८) पाचक (कारुक रसोई बनाने वाले) हर प्रकार से शिष्यी (कारीगर) शूद्र तथा शारीरिक कष्ट द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले (पस्तेदार आदि) इन सब से प्रत्येक मास में एक दिन का कार्य करावे इनका यही कर है ।

नोच्छिष्यादात्मनो मूर्लं परेषां चातिवृष्यया ।

उच्छिष्यादात्मनोमूलमात्मानं शरिच पीडयन् ॥ १३९ ॥

(१३९) यदि अधिक प्रीति बरा प्रजा से कर नहीं लेता तो राजा अपनी जड़ उखाड़ता है तथा लोभ बल अधिक कर ले तो भी अपनी जड़ उखाड़ता है । अतएव इन दोनों कार्यों को त्याग दे । यदि करेगा तो वह अपने को और प्रजा को दुःखी करता है ।

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः ।

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति संमतः ॥ १४० ॥

(१४०) राजा काय को देखकर उसके अनुसार मृदु वा तीक्ष्ण होवे (अर्थात् उत्तम कार्य में मृदु तथा अधम कार्य को देख तीक्ष्ण होवे) ऐसा राजा सबको प्रिय है ।

अमात्यमुख्यं भर्मज्ञं प्राज्ञं दान्तं कुलोद्गतम् ।

स्थापयेदापने तस्मिन्निवन्नः कार्येक्षणं नृणाम् ॥ १४१ ॥

(१४१) राजा यदि न्याय करने में कष्ट पावे तो अपने स्थान पर ऐसे ब्राह्मण को नियत करे जो प्रधान मन्त्री, धर्मात्मा जितेन्द्रिय तथा कुलवान् हो ।

एवं सर्वं विधातेदमितिकर्तव्यमात्मनः ।

युक्तश्चैवाऽप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १४२ ॥

(१४२) इसी प्रकार अपने योग्य कार्यों को निश्चित करे तथा प्रमाद आदि दोषों को परित्याग कर दत्तचित्त हो परिश्रम के साथ प्रजा को रक्षा करे ।

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रादिध्यन्ते दस्युभिः प्रजा ।

संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ १४३ ॥

(१४३) जिस राजा और राज-कर्मचारियों को देखते हुए राज्य में चोरो द्वारा लुटी हुई प्रजा आदि-त्र.हि पुकारती है, यह राजा जीवित ही मृतक के समान है ।

क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् ।

निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ १४४ ॥

(१४४) प्रजा का पालन करना क्षत्रियों का परम धर्म है, जो राजा शास्त्रानुसार कार्य करता है उसको धर्मात्मा कहते हैं ।

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौच समाहितः ।

हुताग्निप्रक्षिणाश्चर्य्यं प्रविशेत्स शुभां समाम् ॥१४५॥

(१४५) पहर रात्रि क्षेप रहे उठ कर सौचादिसे निवृत्ति हो स्नान कर एकाम्र चित्त हो अग्निहोत्र तथा ब्राह्मण का पूजन करने पश्चात् राज्य-समा में प्रवृष्टि हो ।

सत्र स्थितः प्रजा सर्वा प्रतिनिन्ध विसर्जयेत् ।

विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥१४६॥

(१४६) समा में बैठ कर प्रजा को देखमास कर तथा समयोचित वार्ताभाष कर विधा करे, तत्पश्चात् राज्य प्रबन्ध के विषय में सचिव से मन्त्रणा करे ।

गिरिपृष्ठ समाच्छ्रम प्रासादं वा रहोगतः ।

अरभ्ये नि शलाक वा मन्त्रयेदविमावितः ॥ १४७ ॥

(१४७) पहाड़ प्रासाद वा जङ्गल इत्यादि एकान्त स्थान पर बैठकर मन्त्रणा में बिध्न हासने जाने मनुष्या को पृथक् करके मन्त्रणा करे ।

यस्य मन्त्र न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः ।

स कृत्स्नां पृथ्वीं मुक्ते कोशहीनोऽपि पाधिष ॥१४८॥

(१४८) मन्त्रियों के प्रतिरिक्त अन्य लोग निवृत्ता करने पर भी जिस राजा की मन्त्रणा को नहीं जान सकते हैं वह राजा निर्धन होने पर भी पृथ्वी पर राज्य कर सकता है ।

जङ्गमूकान्धवधिरास्तैर्यग्योनान्वयादिगान् ।

स्त्रीम्लच्छ्रम्याभितम्पन्ना मन्त्रक्षलऽपसारयेत् ॥१४९॥

(१४९) बिलिप्त- (बाधमा) घू गा, नेत्रहीन (अन्धा)

वधिर (वहिरा), पक्षी, वृद्ध (अर्थात् ८० वर्ष से अधिक आयु का), म्लेच्छ स्त्री, रोगी, अगहीन, इन सबको मन्त्रणा के समय अपने समीप न रखे ।

भिन्दन्त्यवमता मन्त्रं तैर्यग्योनास्तथैव च ।

स्त्रियश्चैव विशेषेण तस्मात्तत्रादृतो भवेत् ॥ १५० ॥

(१५०) यह सब पूर्वजन्म के पाप से ऐसे हुए हैं, अतएव समय पाकर भेद को प्रकट कर देते हैं । पक्षी, वृद्ध तथा स्त्री, इनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती जिससे यह भी भेद को प्रकट कर देते हैं । अतः यह लोग राज्य-प्रबन्ध की मन्त्रणा के समय समीप न रहने पावे ।

मध्यंदिनेऽर्धरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्लमः ।

चिन्तयेद्धर्मकामार्थांसार्धं तैरेक एव वा ॥ १५१ ॥

(१५१) दोपहर दिन अथवा आधी रात्रि के समय निश्चिन्त तथा शान्ति से मन्त्रियो के साथ या स्वयं (प्रकेला) ही कर्म और अर्थ का विचार करे ।

परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम् ।

कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ १५२ ॥

(१५२) धन की प्राप्ति के लिए ऐसे उपाय सोचे कि जिसमें धर्म, अर्थ, काम जिनका परस्पर विरोध है—का सम्पादन हो । अपने कार्य की सिद्धि के लिए कन्या को दान-वनीति-शास्त्रानुसार विद्याध्ययनार्थ कुमारी की रक्षा, इन बातों का भी विचार करे ।

दूतसंप्रेषणं चैव कार्यशेषं तथैव च ।

अन्तः पुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥ १५३ ॥

(१५३) दूत भेजना, शेष कार्य, नगर के भीतर का

वृत्तान्त व व्यवहार राजाओं वा वृत्तान्त जाने वाले की हृद
येन्द्रा जानना इन सब बातों पर भी विचार करे ।

दुस्त्वं चाष्टविध कर्म पञ्चमग च तत्त्वतः ।

अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डस्य च ॥ १५४ ॥

(१५४) ❀ १—दुस्त्वं कर्म तथा सिद्धान्त से २—पञ्च
वर्ग को भी विचारे, दूसरा राजाओं और अपने मन्त्रियों की प्रीति
व शत्रुता को जान कर उसका उपाय करे ।

मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोरथ चेष्टिताम् ।

उदासीनप्रचारं च शत्रोरथैव प्रयत्नतः ॥ १५५ ॥

(१५५) शत्रु शत्रु से विजय प्राप्त करने का इच्छुक
(१) मध्यम तथा (२) उदासीन इन चारों की हार्दिक इच्छा
का ज्ञान प्राप्त करे और विचारे ।

❀ घाठ कर्म यह हैं—(१) प्रजा से कर लेना (२) कर्मचारियों को
उचित समय पर बैठन देना (३) धर्म व सत्कार के करने योग्य
कर्मों का करना (४) त्याग योग्य कर्मों का त्यागना तथा प्रत्येक
कार्य के लिए मन्त्रियों को धासा देना (५) व्यवहार देखना (६)
जो व्यवहार विरुद्ध करे उससे शास्त्रानुसार धर्मदण्ड लेना (७)
जिन लोगों से अपने दान आश्रम धर्म को परित्याग कर दिया है
उनको फिर दान आश्रम धर्म को ठीक व उचित रीति पर
कराने के लिए प्रायश्चित्त कराना (८) यदि प्रायश्चित्त द्वारा
पतित क्षुद्र न किये जायें तो एक दिन सब मनुष्य दान आश्रम
धर्म से पतित होकर घनाचारी हो जायेंगे अतएव राजा को
पतितोंद्वारा पर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

२—पञ्च वर्ग यह हैं—१ जो पुरुष दूसरों की हार्दिक बातों का
ज्ञाता स्पष्ट बतला कपटी है यदि ऐसा पुरुष नीतिकार्य भावे तो
उसकी योग्यतानुसार धन बस्त्रादि लेकर एकान्त में उससे कहे

एताः प्रकृतयो मूलं मण्डलस्य समागतः ।

अष्टौचान्याःसमाख्याताद्वादशैव तु ताः स्मृताः ॥१५६॥

(१५६) राजमण्डल की यह चार मूल प्रकृति हैं, आठ शाखा प्रकृति हैं, यह सब मिला कर बारह होती है ।

अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थदण्डाख्याः पञ्च चापराः ।

प्रत्येके कथिता ह्येताः संचेपेण द्विसप्ततिः ॥ १५७ ॥

(१५७) चार मूल प्रकृति तथा आठ शाखा प्रकृति इनमे प्रत्येक की जाच दिव्य प्रकृति है (यह सब मिल कर बहतर प्रकृति है), इनके नाम यह हैं—(१) अमात्य (मन्त्री), (२) राष्ट्र (राज्य), (३) दुर्ग (कोट), (४) अर्थ (धन), (५) दण्ड ।

कि जिसको कार्यभ्रष्ट देखो तुरन्त मुझसे कहो । २-सन्यासाश्रम से जो भ्रष्ट हो गये हैं उनका दूषण ससार मे प्रसिद्ध है. उनका आदर व मान करके एकान्त में उपरोक्त बात कहे तथा जीविकाय अधिक धान्य उत्पन्न करने वाली भूमि उनको देवे वह भ्रष्ट सन्यासी राज-काज करने वाले अन्य सन्यासियों को भोजन-वस्त्र देवे । ३-जो पुरुष कृषि के अतिरिक्त दूसरी जीविका नहीं रखता उनको आदर-मान दे, उपरोक्त बात कहे तथा कृषि के लिए भूमि देवे । जिस वैश्य की जीविका नहीं है उससे उपरोक्त बात कहकर धन तथा दान देकर अपने अधीन करे तथा उससे व्यापार करावे ।

५-मूँड मुँडाये व जटाधारी जीविका-विहीन पुरुष को गुप्तरूप से जीविका देकर उपरोक्त बात कहे तथा वह कपटी बहुत से मुण्डित और कपटी चेलो महित तपस्या करे, मास दो मास सबके सम्मुख मुट्टी भर करके आदि खावे । और रात को सबकी अनभिज्ञता मे सब तरह का भोजन करे, उसके शिष्य उसकी सिद्धि को प्रसिद्ध करें कि गुरुजी भूत, भविष्यत, वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं अतएव अपने तात्पर्य को कहेंगे ।

अनन्तरमरिं विद्यादरिसेविनमेव च ।

अरेरनन्त मिश्रमुदासीन तयोः परम् ॥ १५८ ॥

(१५८) अपने राज्य के सम्मुख का राजा शत्रु और उसका सेवक भी शत्रु है उस शत्रु राजा से परे के देश का राजा मित्र है तथा मित्र राजा के राज्य से परे के देश का राजा उदासीन है ।

तान्सर्बानमिसदन्यात्सामादिभिरुपक्रमैः ।

अपस्तैश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन च ॥ १५९ ॥

(१५९) इन सब राजाओं को साम आदि चारों उपार्यों में से जैसा अवसर हो एक-एक या चारों के द्वारा तथा अपनी सेना व पौरुष द्वारा अपनी अधीनता में करना चाहिये ।

सन्धि च विग्रहं चैव यानमासममेष च ।

द्वैधीमार्षं सभर्यं च पञ्चगुण्यारिघन्तयेत्सदा ॥ १६० ॥

(१६०) १-सन्धि २-विग्रह ३-शत्रु पर चढ़ाई, ४-विश्राम ५-भेद तथा ६-यत्नवान् राजा का आश्रय ग्रहण करना इन छः बातों पर सर्वत्र विचार करना चाहिये ।

यह पाँचों यथाक्रम कापटिक अस्वित गृहपति वैश्वि तथा तापस कहलाते हैं अतएव इन साधनों से अपना कार्य सिद्ध करे ।

१-जो राजा शत्रु तथा शत्रु पर विजय प्राप्त करने के इच्छुक राजाओं के मध्य में राज करता हो उस मध्यम कहते हैं और इन दोनों राजाओं में सन्धि व विग्रह करा देने की सामर्थ्य रखता हो ।

२-उदासीन वह है जो शत्रु शत्रु जय का इच्छुक तथा मध्यम-इन तीनों राजाओं में सन्धि व विग्रह करा देने की सामर्थ्य रखता हो ।

आसनं चैव यानं च सन्धिं विग्रहमेव च ।

कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १६१ ॥

(१६१) इन छहो कार्यों के अतिरिक्त कार्यों को देखकर समयानुसार कार्य करे ।

सन्धिं तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च ।

उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६२ ॥

(१६२) सन्धि, विग्रह, चढाई, विश्राम, भेद, शरण लेना यह छ वाते दो-दो प्रकार की हैं ।

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च ।

तदात्वायतिसंयुक्तः संधिर्ज्ञेयो द्विलक्षणः ॥ १६३ ॥

(१६३) उसी समय व भविष्य मे फल-प्राप्ति के अर्थ एक राजा के साथ दूसरे राजा पर चढाई करना यह समान-यान नाम सन्धि कहाती है और यदि परस्पर यह प्रतिज्ञा करके कि तुम वहा जावोगे तो हम भी जावेंगे सन्धि करे तो वह आकाश-यान नाम सन्धि है ।

स्वयंकृतरच कार्यार्थमकाले काल एव वा ।

मित्रस्य, चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ १६४ ॥

(१६४) समय पर व असमय पर अपनी इच्छा से विगाड करना यह प्रथम विग्रह हुआ, तथा मित्र का अपमान देख अपमानकर्ता से विग्रह करना यह द्वितीय विग्रह हुआ ।

३—आठ शाखा प्रकृति यह है—१-शत्रु के राज्य के मित्र, २-शत्रु का मित्र, ३-मित्र का मित्र, ४-शत्रु के मित्र का मित्र, ५-पाणिण प्राह, ६-क्रन्द पाणिणप्राह, ७-असार, ८-क्रन्द असार ।

एकाकिनरचात्रयिक कार्ये प्राप्ते यदृच्छया ।

सहितस्य च मित्रं वा द्विविधं घानमुच्यते ॥ १६५ ॥

(१६५) ऋणावश्यक कार्य प्राप्ति के समय स्वेच्छा से सत्र पर बढ़ाई करना यह प्रथम बढ़ाई हुई तथा मित्र के सहाताय बढ़ाई करना यह दूसरी बढ़ाई हुई ।

वीक्ष्यस्य चैव क्रमशो देवात्पूर्वकृतेन वा ।

मित्रस्य घानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥ १६६ ॥

(१६६) पूर्व जन्म के पाप से ब इस जन्म के पाप से हाथी घोड़ा घनादि मष्ट हो जाने के समय दूसरे राजा पर बढ़ाई न करे चाहे घन हाथी घोड़ा आदि सामग्री अपने पास उपस्थित हो तथा जाने में मित्र की रक्षा नहीं हो सकती हो तो उसके हेतु न जाना चाहिये । यह दो प्रकार का विभ्राम है ।

बलस्य स्वामिनरचैव स्थिति कार्यासिद्धये ।

द्विविधं कीर्त्यते द्वैर्धं पादगुणवगुणनेदिभिः ॥ १६७ ॥

(१६७) अपनी कार्य-सिद्धि के लिए हाथी घोडा आदि ब सेनापति को शत्रु के किये हुए उपद्रव मिटाने के निमित्त एक स्वान पर स्थित रहना यह पहला भेद हुआ तथा दुर्ग में प्रधान कर्मचारियों और सब सेना सहित स्थित रहना यह दूसरा भेद हुआ ।

अर्घसपादनार्थं च पीळ्यमानस्य शत्रुभिः ।

साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधं सभयः स्मृतः ॥ १६८ ॥

ऋतसंज्ञा से आनयक से यह तात्पर्य है कि जब दूसरा राजा प्रजा को कष्ट दे तथा उनको स्पष्ट करना चाहे तब अपनी पूजा के धर्म आदि की रक्षा करे ।

(१६८) शत्रु से दुःखी न हो व शत्रु से दुःख न होने पावे, इन दोनों लाभो के अर्थ बलवान राजा की शरण लेना, यह दो प्रकार की शरण है ।

यदा गच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः ।

तदा त्वे चान्पिकां पीडां तदा सन्धि ॥ १६९ ॥

(१६९) सब यदि सन्धि करने मे ही अपनी निश्चित वृद्धि समझें तो थोडे ही घन-जन आदि की हानि सहकर सन्धि करे ।

यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीभृशम् ।

अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् ॥ १७० ॥

(१७०) जब अपनी प्रकृति को बलवती देखे और अपने को अति प्रतापी तथा ऐश्वर्यशाली जाने तब विग्रह करे ।

यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम् ।

परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ १७१ ॥

(१७१) जब अपनी सेना को पुष्ट व साहसी तथा पराक्रमी देखे और शत्रु की सेना इससे विपरीत दशा मे होवे तब शत्रु पर चढाई करे ।

यदा तु स्यात्परिद्वीणो वाहनेन बलेन च ।

तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सात्वयन्नरीन् ॥ १७२ ॥

(१७२) जब सवारी व सेना अपने पास न हो तो शत्रु को साम उपाय से अपनी अधीनता मे कर अपने स्थान पर रहे ।

मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् ।

तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १७३ ॥

(१७३) अब शत्रु को सब प्रकार बलवान जाने तब

अपनी सेना को भी भागो में विमाजित करे अर्थात् कुछ सेना लेकर आप दुग में रहे व कुछ सेना को राण-दोत्र में मुठार्थ भेजे, इस प्रकार अपना कार्य सिद्ध करे ।

यदा परपत्नानां तु गमनीयत्वमो भवेत् ।

तदा तु सभयत्विद्यं घातिकां मलिनं नृपम् ॥ १७४ ॥

(१७४) जब जाने कि शत्रु से पराङ्ग मुक्त होवे तब शीघ्रता में बलवाम् घमात्मा राजा की शरण ग्रहण करे ।

निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योऽरिबलस्य च ।

उपमवत सं नित्यं सर्वयत्नैर्गुरुं यथा ॥ १७५ ॥

(१७५) जिस राजा को शत्रु की प्रकृति तथा सेना को घभीन कर बल में रखने की सामर्थ्य हो उसकी सेवा सबैव गुण को भाति करे ।

यदि तत्रापि सपरदेद्दोषं सभयकारितम् ।

सुमुद्रमेव तत्रापि निर्विशाङ्कं समाचरेत् ॥ १७६ ॥

(१७६) जब शरण लेने में भी कुछ हानि समझे तब शत्रु को परे हटा कर मुक्त करे ।

सर्वोपायैस्त्वा कुर्यान्नीतिश्च पृथिवीपतिः ।

यथास्याम्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥ १७७ ॥

(१७७) लोगों की सम्मति के ज्ञाता राजा को चाहिये कि इस भाँति प्रबन्ध करे जिससे मित्र शत्रु व सामान्य मनुष्य राजा से बलवाम् न हो जायें ।

आपतिं सर्वकार्याणां तदात्यं च विचारयत् ।

अपीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ १७८ ॥

(१७८) जिन सब कार्यों का दोष, गुण भूत, भविष्यत्, वर्तमान काल से सम्बन्ध रखने वाला हो उन सबको उत्तम रीति से विचारे ।

आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः ।

अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥ १७९ ॥

(१७९) भविष्य के गुण-दोषो को जानता है, उपस्थित कार्य को शीघ्र निश्चित कर पूर्ण करता है, बीती हुई बात के अवशिष्ट भाग को जानता है, ऐसा विचार करने वाला राजा शत्रुओं से कभी द्र ख व पीडा नहीं पाता ।

यथैनं नाभिसंदध्यमित्रोदासीनशत्रव ।

तथा मर्व संविदध्यादेव सामामिको नयः ॥ १८० ॥

(१८०) सारी रीतिसे मुख्य नात्यर्थ यह है कि शत्रु मित्र तथा उदासीन यह सब पीडा व हानि न पहुँचा सके ऐसा उपाय करे ।

यदा तु यानमातिष्ठेदरिगष्टं प्रति प्रभुः ।

तदानेन विधानेन यायादग्निपुरं शनैः ॥ १८१ ॥

(१८१) जब शत्रु-राज्य के ऊपर जाने की इच्छा हो तब आगामी श्लोक में वर्णित उपाय के अनुसार धीरे-धीरे शत्रु के नगर जावे ।

मार्गशीर्षे शुभे मामि यायाद्यात्रां महीपतिः ।

फाल्गुनं वाऽथ चैत्रं वा मासौ प्रति यथाबलम् ॥ १८२ ॥

(१८२) राजा शुभ मास मार्गशीर्ष (अग्रहन) में शत्रु पर चढाई करे अथवा फाल्गुन वा चैत्र में अपनी सेना के बलानुसार चढाई करे ।

अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येद् भ्रुवं जयम् ।

तदा यायाद्विगृह्यैव व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ १८३ ॥

(१८३) दूसरे समय में भी जब विजय-प्राप्ति का पूर्ण विषय हो तब चढाई करे तथा जब शत्रु के ऊपर बुझ हो तब भी चढाई करे ।

कृत्वा विधानं मृत्ते तु यात्रिकं च यथाविधि ।

उपगृह्णास्पदं चैव चारान्तसम्पन्निधाय च ॥ १८४ ॥

(१८४) अपने देश की रक्षा का प्रबन्ध करके यथाविधि चढाई के समाधिक कार्यों को करे (अर्थात् सवारी अथवा सस्त्र कवच आदि सामग्री को ठीक करके साथ लेकर शत्रु के देश में जाके जिससे अपना स्थिति हो उसको लेकर शत्रु के सेवकों को अपने बल में कर शत्रु के केश का वृत्तान्त ज्ञात करने के अभिप्राय से चार प्रकार के चरों (दूतों) को भेजे ।

संस्थाप्य विविधं मार्गं पञ्चविधं च यत्तं स्वकम् ।

सांप्रगधिककम्पेन यायादरिपुरं शनै ॥ १८५ ॥

(१८५) ऋ तीन प्रकार के जो मार्ग हैं (अर्थात् आगस्त्य धनुष अथवा) इनका संशोधन करके (अर्थात् वृक्षादि काट कर तथा ऊँची नीची भूमि सम करके) छ प्रकार के जो बल हैं (अर्थात् हाथी घोडा रथ पैदल सेना शिल्पी) उनको भोजन व औषधि तथा शिल्पी आदि से सुसज्जित कर उत्तम रीति से दीर्घ ही युद्ध में शत्रु के नगर में जावे ।

ॐ उपरोक्त रीति से ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में प्राचीन समय में युद्ध-विद्या में इतनी उत्पत्ति थी कि प्रत्येक अवसरके लिए पृथक २ व्यूह रचना होती थी । जो भारतवासी आजकल निर्वास हो गये हैं वे वैदिक धर्म-काल में युद्ध विद्याविद्यारथ तथा शक्ति सम्पन्न थे । यद्यपि वर्तमान समय में अथ पणित हो गये हैं परन्तु वेद धर्म के प्रचार से फिर भी जगद्गुरु बन सकते हैं ।

शत्रुमेविनि मित्रे च गूढं युक्ततरो भवेत् ।

गणप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १८६ ॥

(१८६) श्रपना मित्र जो गुप्त रीति ने शत्रु की सेवा करता है वा अपने सेवक आदि जो अपने यहा से निकल कर द्वितीय वार आकर कार्य सम्पादन करते ही उन दोनों से सचेष्ट (सावधान) रहना चाहिये, क्योंकि वे बड़े कठिन शत्रु होते हैं ।

दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा ।

वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ १८७ ॥

(१८७) दण्ड, शकट, वराह कमर, सूची व गरुड, व्यूह बना कर सेना का संचालन करे (अर्थात् जब चारो ओर से भय हो तब दण्ड व्यूह बनावे, जब पीछे से भय हो तब शकट व्यूह बना कर चले, जब एक व दोनो पक्ष मे भय है तब वराह तथा गरुड व्यूह बना कर सेना चलावे, जब सम्मुख व पृष्ठ भाग मे भय हो तब मगर व्यूह बनावे, जब सम्मुख भय हो तब सूची व्यूह बना कर सेना संचालित करे) ।

यतश्च भयमाशङ्कते ततो विस्तारयेद् बलम् ।

पद्मैर्न चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् ॥ १८८ ॥

(१८८) जिस ओर से भय हो उसी ओर सेना को बढ़ावे, नगर से निकल कर पद्म व्यूह रच राजा सदैव गुप्त रहे ।

सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु विवेशयेत् ।

यतश्च भयमाशङ्कैत्प्राचीं तां कल्पयेद्दिशम् ॥ १८९ ॥

(१८९) सेनापति तथा बलाध्यक्ष को चारो ओर घ्यान

रक्षणा न हिये श्रीर जिस श्रीर से भय की घाघका हो उसकी पूर्व निशा जानो ।

गुल्मार्थं च स्थापयेदाम्नांकृतमज्ञानमतत ।

स्थान युद्धे च कुशलानमीरूनविकारिणः ॥ १६० ॥

(१६) जो गुल्म (सेना का भाग) सेनापति सहित धूर्तवीर व रणधीर मनुष्या से मयुक्त हो विग्राम करने क्षावनी श्मने भागने व युद्ध करन के लिए भेरी शस्त्र आदि विकारियों के साथ को समझता हो श्रीर विग्राम व युद्ध में सचेष्ट तथा भय व राज्य द्रोह क्षूय हो ऐसे सेना भाग को सब विघाघों में दूर-दूर पर क्षम को रोकने श्रीर उसकी हृदिक् दृष्ट्या का ज्ञान प्राप्त करने के हेतु भाज्ञा देवे ।

सद्वतान्योघयेत्परान्क्वाम विस्तारदेवमृन् ।

सून्या वषट्केण चैवैतान्ब्यूहन व्युह्न योजयत् ॥ १६१ ॥

(१६१) सेना बोधी होवे तो सम्मुख युद्ध करे तथा अधिक हो तो इच्छानुसार सेना विभाजित करके युद्ध करे ।

(१) सूची व्यूह व (२) वषट व्यूह रच कर युद्ध करे ।

स्यन्दनाथै समे युवृष्यदनूपेतौद्विपैस्तथा ।

वृषगुह्मावृते चापैरसिचमयिष्ठैः स्वल ॥ १६२ ॥

(१६२) सम भूमि में रथ व घोड़ों द्वारा युद्ध करने जल पुरित भूमि में नाव व हाथी द्वारा युद्ध के भयभी वासी प्रथिवी पर अनुप धारण द्वारा तथा सप्तोभित भूमि में डाल तलवार द्वारा युद्ध करे ।

(१ व २) यह एक प्रकार की ऐनिक कवायव है श्रीर पक्ति वाघने की विधि है ।

कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालाञ्छूरसेनजान् ।

दीर्घान्त्वल्घूँश्चैव नरानग्रीनीवेषु योजयेत् ॥ १६३ ॥

(१६३) ❀ कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शूरसेन—इन देशों में जो मनुष्य छोटे व बड़े उत्पन्न हुए हों उनको सम्मुख करके युद्ध करे, क्योंकि यह लोग साहसी होते हैं ।

प्रहर्षयेद्बलं व्यूहं तांश्च सम्यक्परीक्षयेत् ।

चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्योधययतामपि ॥ १६४ ॥

(१६४) व्यूह रच कर सेना को प्रसन्न करे तथा उस सैन्य-दल की भली भाँति परीक्षा लेवे, शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए सेना की दशा ज्ञात करे कि सेना शत्रु से मिल तो नहीं गई है ।

उपरुव्यारिमासीत् राष्ट्रं चास्योपपीडयेत् ।

दूपयेच्चास्य सततं यवसान्नोदक्रेन्धनम् ॥ १६५ ॥

(१६५) शत्रु दुर्ग में रहे वा बाहर रहे तथा युद्ध भी न करता हो, परन्तु उसे घेरे रहे और उसके + राज्य को पीडा पहुँचावे, घास, लकड़ी व जल, ईंधन को नष्ट करे ।

भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा ।

समवस्कन्दयेच्चैनं रात्रौ वित्राजयेत्तथा ॥ १६६ ॥

(१६६) ताल, दुर्गप्राकार, परिखा (ख ई), इन सब

❀ यह श्लोक बहुत समय पश्चात् सम्मिलित किया गया है क्योंकि कुरुक्षेत्र में कौरवों के पीछे बना है तथा मनुजी उस समय से पहले हुए हैं ।

+ यह उपदेश लालची राजाओं के हित से सम्मिलित किया गया है, वरन् राजा की लडाईं में प्रजा को दुःख देना बहुत बड़ा पाप है ।

को नष्ट भ्रष्ट कर दे तथा निमंत्र्य शत्रु को भयभीत करे और बरछी लेकर रात्रि को डहका नाम जात्रे के शब्द से प्रति बुझ दे ।

उपजप्यानुपजपेद्व्युष्यतैश्च च तत्कृतम् ।

युक्ते च देवे युष्यत जयप्रप्सुनपेतमीः ॥ १६७ ॥

(१६७) जो लोग (सन्धिष आदि) राजा के क्रुद्ध में राज्य प्राप्ति क इच्छुक हैं उनको तोड़-फोड़ से मिटा कर अपने बग में करे तथा उनको निज अनुभव के द्वारा जाने कि क्या में हुए वा नहीं । जय वा इच्छुक राजा नि शक हो जब सब ग्रह-यज्ञा प्रच्छी हो तब मुद्ध करे ।

साम्ना दानन भेदेन समस्त्वैरथवा पृथक् ।

विजतु प्रयतेतारीष मुद्धेन कदाचन ॥ १६८ ॥

(१६८) साम दान भेद इनमें से पृथक् २ व तीनों द्वारा राजा को जीतने वा प्रयास करे मुद्ध कभी न करे ।

अनित्या विजयो यस्माद्दृश्यत युष्यमानयो ।

पराजयपरम मग्राम तस्माद्युद्ध विवर्जयत् ॥ १६९ ॥

(१६९) क्योंकि युद्ध में जय भी होती है और पराजय भी घटणक तथा साध्य युद्ध को टालना चाहिये ।

प्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानाममम्भष ।

तथा युष्यत मपन्ना विजयत गिष्यता ॥ २०० ॥

(२००) जब साम दान भेद में काम न सके तब लड़ी विधि में युद्ध करे कि जिसमें विजय प्रथममय प्राप्त हो ।

त्रित्या मपूष्यतुद्धवन्माद्गणोश्चैव धार्मिकान् ।

प्रदद्यापगिहागोश्च ग्यापदमयानि च ॥ २०१ ॥

(२०१) विजय प्राप्त करने के पश्चात् देवताओं, धर्मात्मा ब्राह्मणों का पूजन करे, सोना आदि विजय द्वारा प्राप्त वस्तुओं को देवताओं व ऋषियों के लिए सकल्प करके उन देशवासियों का क्षमारूप देवे और सब मनुष्यों को निर्भय कर दे ।

सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितम् ।

स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं कुर्याच्च समयक्रियाम् ॥ २०२ ॥

(२०२) सब की सम्मति पाकर उस राजा के वश में जो हो उसको उसी के स्थान पर राजा बनावे तथा उस राजा व उसके मन्त्रियों को वह उपदेश कर दे कि तुम ऐसा करना, ऐसा न करना ।

प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्वथोदितान ।

रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ २०३ ॥

(२०३) उनका जो आचार शास्त्रानुसार धर्मानुकूल है उसको प्रदान करे तथा प्रधान पुरुषों सहित रत्नों से राजा का पूजन करे ।

आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम् ।

अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ २०४ ॥

(२०४) यद्यपि प्रिय वस्तुओं का लेना कष्ट देने वाला है, तथा देना इच्छित सुख का देने वाला है यह बात ससार-व्यापी है, तथापि विशेष समय पर देना व लेना अच्छा होता है, अतः उस समय + दान ही करना चाहिये ।

+ क्षत्रिय लोग प्रत्येक हर्ष कार्य में दान करें और धर्म का ध्यान रखें तो देश में धर्म बराबर चल सकता है ।

सर्वकर्मोद्दमायद्य विधानं दैवमानुषे ।

तयोदैवमदिन्त्य तु मानुष विद्यत प्रिया ॥ २०५ ॥

(२०५) १—दैवकर्म व २—मानुषकर्म इन दोनों कर्मों के अर्थात् करन योग्य जो पदार्थ हैं उनमें दैवकर्म तो अचिन्त्य है परन्तु मानुष कर्म में विचार है अर्थात् इस जन्म में जो कार्य करे उसे पूर्ण तथा समझ कर करे ।

सह वापि अज्ञेयुक्त मन्वि कृत्वा प्रयत्नत ।

मित्र हिरण्य भूमि वा सपश्यत्रिविध फलम् ॥ २०६ ॥

(२०६) इस विधि से युद्ध करे तथा यदि वह राजा संधि करे तो यात्रा का फल अर्थात् सोना भूमि मित्र आदि की प्राप्ति देखकर उसका साथ मिलाप करे ।

पाप्सिग्राह च सप्रोष्य तथावन्द्र च मण्डसे ।

मित्रादवाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाप्नुयात् ॥ २०७ ॥

(२०७) राज-मण्डल में (३) पाप्सिग्राह तथा (४) केन्द्र इन दोनों राजाओं की सम्पत्ति से यात्रा करे । इन दोनों की सम्पत्ति बिना यात्रा करने से भय की आशंका है कि वे दोनों

(१) पूर्व [पिछले] जन्म में जो पाप व पुण्य किये हैं वह दैवकर्म कहते हैं ।

(२) इस शोक में जो पाप-पुण्य किये हैं वह मनुष्य कर्म कहते हैं ।

(३) पाप्सिग्राह वह राजा है जो पीछे रहता है ।

(४) केन्द्र वह राजा है जो उस पाप्सिग्राह की सम्पत्ति के अनुसार कार्य करता हो जो कि अपने निर्वेद्य (इशारे) के बिना काम करता है ।

उपद्रव करेगे, अतः ससम्मति लेकर यात्रा करने से मित्र व शत्रु से यात्रा का फल मिलता है ।

हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते ।

यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम् ॥ २०८ ॥

(२०८) वर्तमान समय में अल्प सामर्थ्य वाला मित्र तथा भविष्य में उन्नत व स्थिर चित्त मित्र को पाकर जैसी उन्नति पाता है वैसी उन्नति सोना, भूमि के पाने से नहीं पाता ।

धर्मज्ञं च कृतज्ञं चतुष्टप्रकृति मेव च ।

अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघु मित्रं प्रशस्यते ॥ २०९ ॥

(२०९) धर्मज्ञात्ता, कृतज्ञ, दूरदर्शी, उत्तम प्रकृति वाला अनुरक्त मित्र बहुत ही प्रशसनीय है, चाहे छोटा ही क्यों न हो ।

प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दत्तं दातारमेव च ।

कृतज्ञं च धृतिमन्तं च कष्टमाहुररि बुधाः ॥ २१० ॥

(२१०) जो शत्रु पण्डित, कुलवान्, शूरवीर, दत्त (चतुर), दाता, उपकारज्ञाता तथा धीर है वह अति कठिन है अर्थात् वह वश में नहीं आ सकता, यह पण्डितों ने कहा है ।

आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्यं करुणवेदिता ।

स्थूललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ २११ ॥

(२११) जो राजा उदासीन, साधु, बहुज्ञात, शौर्यशाली कृपालु तथा प्रत्येक समय अति दाता होवे, उसकी शरणा में शत्रु से युद्ध करे ।

क्षेत्र्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि ।

परित्यजेन्नृपो भूमिमात्मार्यमविचारयन् ॥ २१२ ॥

(२१२) जो भूमि निर्दोष उपजाऊ तथा पशुओं की वृद्धि करने वाली है यदि उसको बिना परित्राग किये आत्मा की रक्षा न हो सकती हो तो उस भूमि को बिना सोच विचार किये निज आत्मा के रक्षार्थ परित्राग कर दे ।

आपदर्थे धन रक्षेद्दुदागन्त्वेद्दनैरपि ।

आत्मानं सततं रक्षेद्दुदागैरपि धनैरपि ॥ २१३ ॥

(२१३) + विपत्ति समय के निमित्त धन सचय करे, धन द्वारा स्त्री की रक्षा करे तथा स्त्री व धन द्वारा आत्मा की रक्षा करे ।

सह सर्वा समुत्पन्ना प्रसमीच्यापदो मुशम् ।

संयुक्तांश्च वियुक्तांश्च सर्वोपायान्त्वृजेद्वयुधम् ॥ २१४ ॥

(२१४) क्रोध का धन सून्य होना प्रकृति का क्रोध तथा मित्र से क्षम्यता एक ही समय पर तीनों कार्य हो तो मोह त्याग साम आदि जो उपाय हैं उनमें से एक-एक को वा सब को करे ।

उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्च कृत्स्नश ।

एतस्त्रय समाभिस्य प्रयतेतार्थसिद्धय ॥ २१५ ॥

(२१५) १-उपाय २-उपाय बताने वाला ३-उपाय के द्वारा प्राप्त वस्तु इन तीनों की प्राप्ता करके कार्य सिद्ध्यर्थ उपाय करे ।

+ इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि श्री व धन आदि प्रत्येक वस्तु आत्मा के निमित्त है । अतएव आत्मा की रक्षा सबसे प्रथम आवश्यक है ।

एवं सर्वमिदं राजा मह संमंत्र्य मन्त्रिभिः ।

व्यायस्याप्लुत्य मध्यान्हे भोक्तमन्त.पुरंविशेत् ॥२१६॥

(२१६) इस प्रकार इन वातो को सचिवो सहित विचारे तत्पश्चात् व्यायाम करे तथा दोपहर समय स्नान करके भोजनार्थ राज-मन्दिर मे प्रवेश करे ।

तत्रात्मभूतैः कालज्ञैरहार्यैः परिचारकैः ।

सुपरीक्षितसन्नाद्यमद्यान्मन्त्रैर्विषापहैः ॥ २१७ ॥

(२१७) अपने समान कालज्ञाता, घनादि पाकर भेद न खोलने वाला ऐसा जो दूत है तथा विष हरण करने वाला जो मन्त्र है इन सबके द्वारा सुपरीक्षित अन्न को भोजन करे ।

विषघ्नैरददैश्चास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत् ।

विषघ्नानि च रत्नानि नियतो धारयेन्सदा ॥२१८॥

(२१८) विष तथा रोग हरण करने वाली औषधियो को प्रत्येक वस्तु मे मिलाना चाहिये । विषहारी रत्नों को सदैव धारण करना उचित है । विष मिश्रित अन्न को देखने से चकोर (नाम) पक्षी का नेत्र लाल हो जाता है । अतएव उसको खाद्य पदार्थ दिखला कर परीक्षा लेनी चाहिये ।

परीक्षिताः स्त्रियश्चैनं व्यजनोदकधूपनैः ।

वेषाभरणसंशुद्धाः स्पृशेयुः सुसमाहिताः ॥ २१९ ॥

(३१९) जो स्त्री सुन्दर आभूषणादि से अलंकृत, शुद्ध हृदय तथा परीक्षित हो, वह पखा, पानी, धूप तथा स्पर्श इन कार्यों को करे ।

एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानशय्यासनाशने ।

स्नाने प्रसाधने चैव सर्वालंकारकेषु च ॥ २२० ॥

(२२०) इस विधि से सवारी क्षय्या गद्दी (घासन) स्नाम खौर (हजामत) आदि प्रत्येक कार्य बुद्धिमानी से करे ।

सुक्तवान्निहरेन्मैष स्त्रीभिरन्तःपुरे सह ।

विहृत्य तु यथाफलं पुनः कार्याणि चिन्तयेत् ॥२२१॥

(२२१) भोजन करने के पश्चात् अन्त-पुर में स्त्रियों के साथ बिहार करे, तत्पश्चात् समय पाकर फिर राज्य सम्बन्धी कार्यों की चिन्तना करे ।

अलकृतस्त्र संपस्थेदायुधीर्यं पुनर्जनम् ।

वाहनानि च सर्वाणि शस्त्रायामरणानि च ॥२२२॥

(२२२) तत्पश्चात् अस्त्र-शस्त्र तथा राजा योग्य वस्त्रादि से अलकृत हो मस्म (पहलवान) सवारी मन्त्रणागृह, रत्नगृह, वस्त्रगृह का स्वयं निरीक्षण करे ।

सर्वां चोपास्य शृणुयादन्तर्वेश्मनि शस्त्रमृत् ।

रहस्यास्त्रायिकां चैव प्रशिषीनां च श्रेष्ठितम् ॥२२३॥

(२२३) सायकाम को सन्ध्योपासन करके अस्त्रों से अलकृत हो मित्र तथा रहस्य (गुप्त) की बातें करने वालों के योग्य कामों को सुने व विचारे ।

गत्वा कक्षान्तरं स्वल्पत्समलुम्बाप्य तं जनम् ।

प्रविशेद्भोजनार्थं च स्त्रीवृत्तोऽन्तःपुरं पुन ॥ २२४ ॥

(२२४) दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ के पुरुषों के करने योग्य कार्य का निर्वहण कर पुन भोजन करने के हेतु अन्त-पुर (राज-प्रासाद) में प्रवेश करे ।

तत्र भुक्त्वा पुनः किञ्चित्कर्णार्धोपै प्रहर्षितः ।

संविशेत्तु यथाकालमुत्तिष्ठेच्च गतक्लमः ॥ २२५ ॥


(२२५) पश्चात् अल्प भोजन कर सिंह गर्जन से। प्रसन्न होकर विश्रामगृह मे शयन करे तथा श्रम को दूर कर उचित-समय पर निद्रा से उठे ।

एतद्विधानमात्तिष्ठेदरोगः पृथिवीपतिः ।


अस्वस्थः सर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत् ॥ २२६ ॥

(२२६) जो राजा निरोग हो वह इस विधि से कार्य करे । यदि रोग ग्रसित होवे तो इन सब कार्यों के करने की आज्ञा अपने मन्त्रियो को देवे ।

मनु जी के शास्त्र, भृगु जी की सहिता का सातवा अध्याय समाप्त हुआ ।



❀ अष्टमोऽध्यायः ❀



व्यवहारान्दिदृत्तुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः ।

मन्त्रज्ञैर्मन्त्रिभिश्चैव विनीतः प्रविशेत्सभाम् ॥ १ ॥

(१) राजा, बुद्धिमान् मन्त्री व विद्वान् ब्राह्मणों को साथ लेकर सामान्य वस्त्राभूषण धारण करके न्यायालय मे प्रवेश करे ।

तत्रासीनः स्थितो वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम् ।

विनीतवेषाभरणः पश्वेत्कार्याणि कार्याणाम् ॥ २ ॥

(२) सभा मे बैठ कर व खड़े होकर, दाहिना हाथ उठाकर सामान्य वस्त्र व आभूषण धारण कर राज-कर्मचारियो के कार्य का निरीक्षण करे ।

प्रत्यह दशरष्टंश्च शास्त्ररष्टंश्च इत्तुभि ।

अष्टादशसु मार्गेषु निवृत्तानि पृथक्पृथक् ॥ ३ ॥

(३) देवारीति व साम्प्रदाय के अनुसार साक्षियों की साक्षी प्रादि मित्र मित्र विधि से पृथक्-पृथक् परीक्षा कर अठारह प्रकार के अभियोगों का निणय करे ।

सपामाद्यमृश दान निष्पोऽस्वामिषिद्धय ।

संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ ४ ॥

(४) अठारह प्रकार के अभियोग यह हैं—(१) सेन-सेन (२) समानत (३) उस वस्तु को देवना नितका कोई स्वामी न हो (४) साम्प्र (५) श्रृण सेकर इनकार करना ।

वेपनस्यैव चादान सविदश्च व्यतिक्रम ।

क्रयविक्रयाऽश्रायो विवाद स्वामिपाक्षयोः ॥ ५ ॥

(५) (६) बेतन तथा परियम का फस न देना (७) प्रण मग (८) क्रय-विक्रय में बाव विवाद होना (९) स्वामी व सेवक का बाव विवाद ।

सीमाविवादघर्मश्च पारुष्ये द्रवडवाचिके ।

स्तेय च साहस चैव क्षीसप्रहयमेव च ॥ ६ ॥

(६) (१) भूमि सीमा-विवाद (११) द्रुपण देना (१२) मारपीट (१३) गुप्त चोरी (१४) साहस करके धन दि का अपहरण करना (१५) बस पूर्वक स्त्री हरण करना ।

क्षीपुन्यमौ विमागश्च धूतमाह्वय एव च ।

पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्वित्तापिह ॥ ७ ॥

(७) (१६) स्त्री-पुरुष का घर्म (१७) धुषा (१८)

पशु-पक्षियों का लडना । इस पुस्तक में यह अठारह विवाद मुख्य माने गये हैं ।

एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम् ।

धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यं विनिर्णयम् ॥ ८ ॥

(८) + राजा सदैव चित्त में धर्म का ध्यान रखकर न्यायालय के कार्यकर्त्ताओं तथा राजक-कर्मचारियों के कार्य का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करे जिससे वह लोग आलस्य तथा घनाप-हरण द्वारा अन्याय कर राजा के न्याय को दूषित न करे ।

यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः कार्यदर्शनम् ।

तदा नियुञ्ज्याद्विद्वांसं ब्राह्मणं कार्यदर्शने ॥ ९ ॥

(९) जब राजा स्वयं उनका निरीक्षण न करे तब विद्वान् ब्राह्मण को उनके निरीक्षण की आज्ञा देवे ।

सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्सभ्यैरेव त्रिभिर्वृतः ।

समामेव प्रविश्याग्रयामासीनः स्थित एव वा ॥ १० ॥

(११) वह ब्राह्मण न्यायालय में बैठकर व खड़ा होकर तीन परामर्शदाताओं के साथ राज्य-कार्य का निरीक्षण करे ।

+ मनु के मतानुसार नारदस्मृति है कि राजा के सैनिक, सभासद, धर्मशास्त्र, सरक्षक, लेखक, सोना, अग्नि, जल, न्यायालय के कार्यकर्त्ता हैं, इस विषय में बृहस्पति व व्यास का कथन और देवहार, वाष्णो, धर्मसूत्र, बृहद, पाराशर स्मृति, मिताक्षरा, शुक्र नीति, मत्स्य पुराण देखने योग्य हैं कि किस-किस कार्य पर कौन कौन कुल के मनुष्यों को नियत करना चाहिये ।

यस्मिन्देशानिपीदन्ति विप्रा वेदावच्छ्रयः ।

राश्वरषाधिकृतो विद्वान्माह्वस्तु समा विदुः ॥११॥

(११) जिस देश में एक ब्राह्मण व पण्डित वेदमाता तीन ब्राह्मणों के साथ विवाद निर्णय करने के हेतु राजागानुसार बैठता है, उस समा को ब्रह्माजी की समा जानना चाहिये ।

धर्मो विदुस्त्वधर्मेश समा यत्रापतिष्ठते ।

शुभ्यं चास्य न कुन्तन्ति विद्वान्स्वत्र समासदः ॥१२॥

(१२) अधर्म से विषा हुआ (अधर्मात् अधर्मं मिथित) धर्म जिस समा में रहता है तथा उस समा के समासद अधर्म को रोक नहीं सकते हों तो वे समासद अधर्म से ब्रिय गये हैं ।

समां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम् ।

अनुबन्धिन्नु बन्वापि नरो भवति किञ्चिपी ॥ १३ ॥

(१३) समा में जाना न चाहिये यदि आवे तो सत्य तथा उचित बात कहनी चाहिये । यदि आमकार सत्य न बोले वरन् उसके विपरीत कहे तो पापी होता है क्योंकि आत्मा के हनन करने का पाप उसे होता है ।

यत्रधर्मोऽधर्मेश सत्यं यत्राऽनुतेन च ।

हन्पते प्रेषमाद्यानां हतास्तत्र समासदः ॥ १४ ॥

(१४) जहाँ सत्य पर अधसत्य तथा धर्म पर अधधर्म प्रिययी हो सके और देखने वाले इसका विरोध न कर सकते हों मन्नों उस समा के समासद स्थामी संहित मारे गये हैं ।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मोऽहतोऽवधीत् ॥१५॥

(१५) धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है तथा धर्म के नाश से हमारा नाश होता है । अतएव अपने धर्म को कभी नाश न करना चाहिये ।

त्रयी द्वि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् ।

वृषलं तं त्रिदुर्द्विवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥ १६ ॥

(१६) भगवान् का जो धर्म है उसको वृष (बँल) कहते हैं, अत जो उसका नाश करता है उसे वृषल कते हैं । अतएव धर्म का लोप (विनाश) न करना चाहिये ।

एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ।

शरीरेण समं नाशं दुर्वमन्यद्वि गच्छति ॥ १७ ॥

(१७) धर्म ही एक मित्र है जो मृत्यु के पश्चात् साथ जाता है । अन्य सब लोग शरीर के नाश के साथ ही सब सम्बन्ध परित्याग कर देते हैं (यद्यपि अधर्म भी मृत्यु के उपरान्त साथ जाता है परन्तु वह मित्र नहीं शत्रु है, हानि ही पहुँचाना उसका काम है) ।

पादोऽधर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति ।

पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥ १८ ॥

(१८) अधर्म के चार भाग होते हैं । प्रथम के भाग को अधर्मी, द्वितीय भाग को साक्षी, तृतीय भाग को प्रबन्ध न कर सकने वाले सभासद, तथा चतुर्थ भाग को स्वयं राजा पाता है ।

राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः ।

एनी मच्छति कर्तारं निन्दाहोँ यत्र निन्द्यते ॥ १९ ॥

(१९) जहा निन्दनीय मनुष्य निन्दा पाते हैं वहा राजा,

पाप से मुक्त होता है तथा समासय लोग भी पापमुक्त रहते हैं ।
बल प्रथमी को ही पाप लगता है ।

जातिमात्रोपजीवी वा काम स्याद्ब्राह्मणश्रुष* ।

धर्मप्रवक्ता नृपतेर्न तु शूद्र* कथञ्चन ॥ २० ॥

(२०) ❀ जो जाति का ब्राह्मण हो परन्तु ब्राह्मण के धर्म न करता हो तथा मूर्ख हो तो भी वह राजा को धर्म उपदेश कर सकता है और शूद्र कसा ही पण्डित हो परन्तु उपदेश नहीं कर सकता ।

यस्यु शूद्रस्तु ह्यरुते राज्ञो धर्मविवेचनम् ।

तस्य सीदति शूद्राष्ट पञ्चै गौरिष परमत्* ॥ २१ ॥

(२१) जिस राजा के धर्म का विचार शूद्र करता है उस राजा का राज्य उसके देखते ही देखते नाश हो जाता है । जैसे गऊ दसवस में फँस कर मर जाती है ।

यद्राष्ट शूद्रभूयिष्ठ नास्तिकाश्रान्तमद्विप्रम् ।

निवश्यत्याशु तत्क्रत्स्न दुर्मिषम्याधिपीडितम् ॥ २२ ॥

(२२) जिस राज्य में शूद्र न नास्तिक भ्रष्टिक हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य नहीं हैं वह साग राज्य दुर्मिष (धकाम) ब्रह्म्याधि से पीडित हो शीघ्र नाश हो जाता है ।

धर्माननमधिष्ठाय सर्पाताङ्ग* समाहित ।

प्रणम्य सौकपाक्षम्य कार्यदर्शनमाचरेत् ॥ २३ ॥

❀ २ वा श्लोक सम्मिलित किया हुआ है क्योंकि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है वरन् एक वर्ण है और वर्ण धर्म से बदलते हैं यह मनुजी का सिद्धान्त है ।

(२३) धर्मासन पर बैठकर वस्त्रो से शरीर ठीक एकाग्र चित्त हो लोकपालो को प्रणाम करके कार्य देखना आरम्भ करे ।

अर्थानर्थाद्युभौ वृद्ध्वा धर्माधर्मौ च केवलौ ।

वर्णक्रमेण सर्वाणि परयेत्कार्याणि कार्थिणाम् ॥२४॥

(२४) अर्थ व अनर्थ का प्रमाण लेकर केवल अधर्म का ध्यान करके वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के क्रमानुसार सब कार्य-प्रकार्य को देखे ।

बाह्यैर्विभावयेल्लिङ्गैर्भावमन्तर्गतं नृणाम् ।

स्वरवर्णैर्ङ्गिताकारैश्चक्षुषा चेष्टितेन च ॥ २५ ॥

(२५) स्वर, वर्ण, रूप, इङ्गित, आकार, नेत्र, चेष्टा आदि बाहरी चिन्हो को देखकर मनुष्यो के हृदय की बात को समझे ।

आकारैरिङ्गतैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च ।

नेत्र वक्त्रविकारैश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ २६ ॥

(२६) आकार, इङ्गित (इशारा), गति चेष्टा, नेत्र, रूप तथा वाणी—इनके द्वारा मनुष्यो के हृदय का भाव जाना जाता है ।

बालदायादिकं रिक्त्यं तावद्राजानुपालयेत् ।

यावत्सस्यात्समावृत्तो यावच्चातीतशैशवः ॥ २७ ॥

(२७) यदि अनाथ बालक के धन को उनके चचा आदि लेते हो तो राजा उस धन को उस समय तक अपने पास रखे जब तक कि उस बालक का समावर्तन कर्म न हो तथा उसका शैशव (लडकपन) अतीत (व्यतीत) न हो ।

ममायभित्तियो ब्रूयाभिधिं नृत्येन मानवः ।

तस्पाददीत पद्मार्गं राजा द्वादशमघ वा ॥ ३५ ॥

(३५) जो वस्तु पृथ्वी में गड़ी है उसको राजा के समीप से जाके यदि कोई भ्रम्य पुरुष कह कि यह वस्तु मेरी है तथा उसके रूप व सत्यादि को यथा ठम्य (ठीक-ठीक) सप्रमाण बतला दे तो वह वस्तु वहीं पावे और उस वस्तु का छटा व नारहवा भाग राजा खवे । राजा उसके स्वामी के वित्त मुत्तार भाग निर्धारित करे ।

अनृत तु वदद्दशमघ स्ववित्तस्व्यांशमष्टमम् ।

तस्यैव वा विधानस्य सख्यायान्पीयसोऽकलाम् ॥ ३६ ॥

(३६) यदि भ्रम्य बोले तो अपनी वस्तु का आठवां भाग दण्ड स्वरूप व भ्रम्या उस धन की सख्या क भ्रम्य भाग के तुल्य निज धन दण्ड स्वरूप दवे तथा उपरोक्त धन का निर्धारित भाग उचित समझना चाहिये ।

विदांस्तु ब्राह्मणो घृष्ट्वा पूर्वोपनिहितं निधिम् ।

अरोपतोऽप्याददीत सर्वस्याधिपतिर्दिं सः ॥ ३७ ॥

(३७) यदि ब्राह्मण पण्डित उस गड़ी हुई वस्तु को पा जाय तो वह उस धन को लेके क्योंकि वह सबका स्वामी है । मनुजी विद्वान् ब्राह्मण को सारे सत्तार का उपदेशक होने से सबका स्वामी समझते हैं ।

य तु पश्येभिधिं राजा पुण्यां निहितं धितौ ।

तस्माद् द्विज्येभ्यो दत्तार्थमर्धं क्षीरो प्रवेशयेत् ॥ ३८ ॥

(३८) यदि राजा स्वयं उस गड़ी हुई वस्तु को पावे तो

आधा भाग × ब्राह्मणों को देवे, शेष आधा भाग अपने कोष में रखे ।

निधीनां तु पुगणानां धत्तूनामेव च क्षितौ ।

अर्धभाग्यक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिर्हि सः ॥ ३६ ॥

(३६) गढे हुए धन के आधे भाग का लेने वाला राजा है, क्योंकि वह रक्षक है तथा सबका स्वामी है ।

दातव्यं सर्ववर्णोभ्यो राज्ञा चौरैर्हृतं धनम् ।

राजा तदुपयुञ्जानश्चौरस्याप्नोति किन्विपम् ॥ ४० ॥

(४०) राजा चोर की चुराई वस्तु को लेकर सब वर्णों को देवे (अर्थात् जो उसका स्वामी है उसे देवे) । यदि राजा स्वयं उस वस्तु को लेले तो जो पाप चोर को होता है वह राजा को होवे ।

जातिजांनपदान्धर्मन्श्रेणीधर्मांश्च धर्मवित् ।

समीक्ष्य कुलधर्मांश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥ ४१ ॥

(४१) जातिधर्म, वंशधर्म, सम्प्रदाय आदि धर्म व कुलधर्म, इन सब धर्मों की ओर दृष्टिपात कर अपना धर्म निर्धारित करे ।

स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः ।

प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥ ४२ ॥

(४२) अपने धर्म-कर्म करने वाले मनुष्य यदि दूर भी रहते हो तो भी लोक (ससार) को प्रिय (प्यारे) होते हैं ।

× यहा ब्राह्मण से तात्पर्य वेदज्ञाता कहा है किसी जाति विशेष से नही ।

वशाऽपुत्रासु चैनं स्याद्रक्षणं निष्कृतासु च ।

पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥ २८ ॥

(२८) बाकू, निर्वंशी व कुरा से बहिष्कृत (निकामी हुई) पतिव्रता विधवा व रोगिणी—इन सब की सम्पत्ति आदि की रक्षा राजा करे जिससे उसे कोई अपहरण न कर सके ।

जीवन्तीनां तु तासां य तद्वरेषु स्ववान्भवा ।

ताच्छिष्याञ्जीरदशङ्गेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ २९ ॥

(२९) उपरोक्त सबों की जीवित दशा में उनके धन आदि का यदि उनके सम्बन्धी अपहरण कर सेवें तो धर्मिन् राजा उस धनादि के हारण करके बासे को धोर की माई दण्ड देवे ।

प्रशष्टस्वामिकं रिष्य राजा श्यब्दं निषापरैत् ।

अर्थाक् श्यब्दाद्वरेत्स्वामी परेश नृपतिर्दरेत् ॥ ३० ॥

(३०) जिस धन का कोई स्वामी नहीं है उस धन की राजा तीन वर्ष पर्यन्त (१) रक्षा करे । यदि इस समय के प्रसंगत उनका स्वामी आ जावे तो उसकी धन सम्पत्ति उसे सोप है । तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर उस स्वामी रहित धनादि का (२) स्वामी राजा है ।

१—लोग यह समझते हैं कि कोर्ट आफ बार्डर्स की रीति अंगरेजों ने प्रचलित की है परन्तु मनुजी ने इसे प्रथम ही लिख दिया है । २—जो लोग स्वामी-हीन धन को राजा के लेने से राज को अपसन्न कहते हैं वे भ्रम पर हैं । मनुजी के मत से राजा सारी प्रजा का स्वामी है ।

ममेदमिति यो ब्रूयात्सोऽनुयोऽयो यथाविधिः ।

संवाद्य रूपसंख्यादीन्स्वामी तद्द्रव्यमर्हति ॥ ३१ ॥

(३१) जो मनुष्य राजा के सम्मुख जाकर यह कहे कि 'यह वस्तु मेरी है' तो राजा उससे उस वस्तु का रूप तथा संख्या आदि पूछे । यदि वह सप्रमाण सत्य बतला दे तो वह वस्तु उस मनुष्य को दे दे ।

अवेद्यानो नष्टस्य देशं कालं च तत्त्वतः ।

वर्णं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमर्हति ॥ ३२ ॥

(३२) जब उपरोक्त वस्तु की संख्या, रूप, वर्ण, देश व काल सत्य सप्रमाण न बतलावे तो उस वस्तु के समान दण्ड पावे क्योंकि वह अपने असत्य दावे को प्रमाणित न कर सका ।

आददीताथ षड्भागं प्रणष्टाधिगतान्नृपः ।

दशमं द्वादशं वापि सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ३३ ॥

(३३) उस वस्तु के छठे, दसवे व बारहवे भाग की रक्षा के व्यवहार्य राजा ले ले । सज्जन पुरुषों के धर्म का लक्ष्य कर राजा उस धनादि के स्वामी की अवस्थानुसार उस धनादि का भाग नियत करे ।

प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद्युक्तैरधिष्ठितम् ।

यांस्तत्र चौरान्गृह्णीयात्तान्राजेभेन घातयेत् ॥ ३४ ॥

(३४) पड़ी हुई वस्तु पावे तो उसकी रक्षा सज्जन पुरुषों द्वारा कराके उसे रख तथा राजा उसके चुराने'वालों को हाथी से मरवा दे ।

ममायमितियो ब्रूयान्निधिं स्रत्यन मानव ।

तस्याददीत पशुमाग राजा द्वांशमथ वा ॥ ३५ ॥

(३५) जो वस्तु पृथ्वी में गड़ी है उसको राजा ने समीप से जाके यदि कोई अन्य पुरुष कहें कि यह वस्तु मेरी है तथा उसके रूप व सख्याद को यथा तथ्य (ठीक-ठीक) सप्रमाण बतसा दे तो वह वस्तु वही पावे और उन वस्तु का छठा व बारहवा भाग राजा लेवे । राजा उसके स्वामी के विस्त मुत्तार भाग निर्धारित करे ।

अनृत तु बद्धयुद्धयः स्ववित्तस्यांशमष्टमम् ।

तस्यैव वा विधानस्य सन्ध्यायान्पीयसीकृत्याम् ॥ ३६ ॥

(३६) यदि असत्य बोले तो अपनी वस्तु का आठवा भाग दण्ड स्वरूप व प्रपचा उस जन की सख्या के अल्प भाग के तुल्य निज धन दण्ड स्वरूप दवे तथा उपरोक्त धन का निर्धारित भाग उचित समझना चाहिये ।

विद्वांस्तु ब्राह्मणो वृष्ट्वा पूर्वोपनिहित निधिम् ।

अरोपतोऽप्याददीत सर्वस्याधिपतिर्हि सः ॥ ३७ ॥

(३७) यदि ब्राह्मण पण्डित उस गड़ी हुई वस्तु को पा जाय तो वह उस धन को लेवे क्योंकि वह सबका स्वामी है । मनुजी विद्वान् ब्राह्मण को सारे ससार का उपवेशक होने से सबका स्वामी समझते हैं ।

यं तु पश्येन्निधिं राजा पुगण्ड निहितं चिती ।

तस्माद् द्विजेभ्यो दण्डार्थमर्घ्यं कोशे प्रवेशयेत् ॥ ३८ ॥

(३८) यदि राजा स्वयं उस गड़ी हुई वस्तु को पावे तो

आधा भाग, × ब्राह्मणों को देवे, शेष आधा भाग अपने कोष में रखे ।

निधीनां तु पुगणानां धातूनामेव च क्षितौ ।

अर्धभागक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिर्हि सः ॥ ३६ ॥

(३६) गढे हुए धन के आधे भाग का लेने वाला राजा है, क्योंकि वह रक्षक है तथा सबका स्वामी है ।

दातव्यं सर्ववर्णोभ्यो राज्ञा चौरैर्हृतं धनम् ।

राजा तदुपयुञ्जानश्चौरस्याप्नोति किन्विपम् ॥ ४० ॥

(४०) राजा चोर की चुराई वस्तु को लेकर सब वर्णों को देवे (अर्थात् जो उसका स्वामी है उसे देवे) । यदि राजा स्वयं उस वस्तु को लेले तो जो पाप चोर को होता है वह राजा को होवे ।

जातिज्ञानपदान्धर्मान्श्रेणीधर्मांश्च धर्मवित् ।

समीक्ष्य कुलधर्मांश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥ ४१ ॥

(४१) जातिधर्म, वंशधर्म, सम्प्रदाय आदि धर्म व कुलधर्म, इन सब धर्मों की ओर दृष्टिपात कर अपना धर्म निर्धारित करे ।

स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः ।

प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥ ४२ ॥

(४२) अपने धर्म-कर्म करने वाले मनुष्य यदि दूर भी रहते हो तो भी लोक (ससार) को प्रिय (प्यारे) होते हैं ।

× यहा ब्राह्मण से तात्पर्य वेदज्ञाता कहा है किसी जाति विशेष से नहीं ।

नात्पादयेत्स्वयं कार्यं राजा नाप्यस्य पूरुषः ।

न घ प्रापितमयनं प्रमदर्थं क्लृप्तवतः ॥ ४३ ॥

(४३) राजा व राज-कर्मचारी स्वयं कार्य को उत्पन्न न करें तथा बानी व प्रतिवाणी के द्वारा निश्चित कार्य को घन के लोभ से रखा न करें (घर्षान् विवाह का निष्पत्ति प्राप्त तथा स्यात्पुत्रं करे) ।

यथा नपत्यमृत्पतिमृगस्य मृगपू पदम् ।

नयसंधानुमाननं धर्मस्य नृपति पदम् ॥ ४४ ॥

(४४) त्रिग प्रकार बटेविया (गिरारी) धातु गाये हुए मृग व शरीर में गिरे हुए रत्न विष्णुवा द्वारा उत्पत्ति स्थान का अनुगमनाम वा लेता है उगी प्रकार राजा अनुमान से धर्म पद का प्राप्ति करे ।

मस्यमथ च मपरयदात्मानमथ गादिगाः ।

देर्गं रूपं बालं च व्यवहारविधौ स्थितं ॥ ४५ ॥

(४५) राजा विधि व्यवहार पर स्थिति होकर मस्य स्वयं धारणा गाधी दस वास वगैरे तथा वा दमे ।

मद्भिगपति यस्यादाविर्हरणं द्विजातिभिः ।

मनुःशुनजानीतामरिन्दु प्ररुपयन् ॥ ४६ ॥

(४६) धर्मिणा त्रिग में त्रिग धर्म का नामक विधा है उगन्त वगैरे जति व अनुगार धर्म का । । वगैरे करे ।

अपमनाथमिदमपमनाथमनेन धान्ति ।

दातव्यमिदमपमनाथमपमनाथमिदम् ॥ ४७ ॥

(४७) धर्मिणा त्रिग में राजा व मनुगैरे द्विजे

हुए ऋण के विषय में निवेदन किया तथा साक्षी व लेखादि प्रमाणों द्वारा उस ऋण को प्रमाणित कर दिया हो तो राजा उसके धन को ऋणी से दिला दे।

यैर्यैरुपायैरर्थं स्वंप्राप्नुयादुत्तमर्णिकः ।

तैस्तैरुपायैः संगृह्य दापयेदधमर्णिकम् ॥ ४८ ॥

(४८) जिस-जिस उपाय से ऋणदाता अपने धन को प्राप्त कर सके, उस-उस उपाय से ऋणी को पकड़ कर राजा धन को दिला दे।

धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च ।

प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन वलेन च ॥ ४९ ॥

(४९) १—धर्म, २—व्यवहार [अर्थात् साक्षी-लेखादि], ३—छल, ४—आचरणा [अर्थात् ब्रत-उपवास] तथा ५—बल—इन पांच उपायों में से किसी भी उपाय द्वारा अपने दिये हुए धन को प्राप्त करे।

यः स्वयं साधयेदर्थमुत्तमर्णोऽधमर्णिकात् ।

न स राज्ञाभियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम् ॥ ५० ॥

(५०) जो ऋणदाता अपने धन को ऋणी से अपने उपाय द्वारा स्वयं प्राप्त करता है, राजा उसका विरोध न करे कि हमारे सम्मुख अपने ऋण के विषय में निवेदन क्यों नहीं किया, स्वयं अपने उपाय द्वारा क्यों प्राप्त करता है ?

अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम् ।

दापयेद्वनिकस्यार्थं दण्डलेषं च शक्तितः ॥ ५१ ॥

(५१) वादों के निवेदित अभियोगों से यदि प्रतिवादी इनकार करे तथा वादी साक्षी व लेखादि साधनों द्वारा

अपने अभियोग को सत्य प्रमाणित कर दे तो राजा ऋणदाता के धन को ऋणी से विभादे और इस असत्यभापी ऋणों के उसकी शक्ति के अनुसार दण्ड भी दवे ।

अपह्ववेऽधमर्गस्य देहीत्युक्तस्य मसदि ।

अभियोक्ता विरोद्देश्य एतर्था वान्यदुद्दिरोत् ॥ ५२ ॥

(५२) जो न्यायालय ऋणी से ऋण-परिक्षोभ के घर्ष कहे और ऋणी उस ऋण का सेना न सकारे उस समय ऋण दाता साक्षी व सेन आदि प्रमाण साधनों को न्यायालय में उपस्थित करे । ।

अदेश्यं यत्च दिशति निर्दिश्यापद्भुते च यः ।

यश्चाधरोत्तरानर्था विगीतान्वावबुष्पते ॥ ५३ ॥

(५३) जिस नगर में प्रतिवादी ने कमी भी वास मही किया है परन्तु बाकी उस नगर को कहकर तत्पश्चात् कहे कि मैंने उस नगर का नाम नहीं लिया है तो वह वादी सर्वथा प्राच्यन्त असत्य भाषण करता है ।

अपदिश्यापदेश्य च पुनर्यस्त्वपभाषति ।

सम्यक्प्रशिहित चार्थं पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ ५४ ॥

(५४) जो ऐसा कहकर कि इसने मेरे हाथ से इतना सोना लिया है, तत्पश्चात् यह कहे कि मेरे पुत्र के हाथ से लिया है तथा न्यायाधीश के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है और उसे प्रमाणित नहीं करता है ।

असंभाष्ये साक्षिभिरच देशे संभाषते मिथः ।

निरुष्यमानं प्रश्नं च नेष्येत्परचापि निष्पतत् ॥ ५५ ॥

(५५) जो एकाक्ष में साक्षियों से सम्मति करता है

और न्यायाधीश के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, तथा एक बात पर स्थित नहीं रहता है ।

ब्रूहीत्युत्तरश्च न ब्रूयादुक्तं च न विभावयेत् ।

न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थोत्स हीयते ॥ ५६ ॥

(५६) न्यायाधीश के आज्ञा देने पर बोलता-नहीं है, अप निवेदित अभियोग को साक्षी व लेख आदि द्वारा प्रमाणित नहीं करता है, जो आदि व अन्त की बात को नहीं जानता है, वह सब अपने तात्पर्य की हानि करते हैं ।

साक्षिणः सन्ति मेत्युवत्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः ।

धर्मस्थः कारणैरैतैर्हीनं तमपि निर्दिशेत् ॥ ५७ ॥

(५७) हमारे साक्षी हैं, ऐसा कहने पर भी जो साक्षियों को उपस्थित नहीं करता है, इन कारणों से न्यायाधीश उसको पराजित समझे ।

अभियोक्ता न चेद्ब्रूयाद्धयो दण्डश्च धर्मतः ।

न चेत्त्रिपक्षात्प्रब्रूयाद्धर्मं प्रति पराजितः ॥ ५८ ॥

(५८) जो वादी न्यायाधीश के सम्मुख तो कहता है परन्तु प्रतिवादी के सम्मुख मूक रहता है, वह व्यवहार का झूठा प्रमाणित होकर प्राणदण्ड अथवा अर्थदण्ड के योग्य है ।

यो यावान्निहनुवीतार्थं मिथ्या यावति वा वदेत् ।

तौ नृपेणह्यधर्मज्ञो दाप्यौ तद्द्विगुणं दमम् ॥ ५९ ॥

(५९) जो वादी वा प्रतिवादी जितने धन को मिथ्या बतलावे उतने धन का दुगुना दोनों से राजा दण्डस्वरूप लेवे तथा यह दोनों अधर्मज्ञाता हैं ।

पृष्टोऽपव्ययमानस्तु कृतावस्यो धनैपिष्ठा ।

अ्यवरै साक्षिमर्माभ्या नृपत्राण्यभिवौ ॥ ६० ॥

(६०) जब प्रतिवादी श्यायामय में आकर कहे कि हमने इस श्राणवाता से धन नहीं लिया है तब वादी श्यामाषोष के सम्मुख उपस्थित किये हुए साक्षियों के प्रतिरिक्त अन्य तीन साक्षियों द्वारा अपने श्राण देने को प्रमाणित कर ।

यादृशो धनिभिः कार्य्यं व्यवहारेषु साक्षिणः ।

साक्ष्यान्सप्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतच तैः ॥ ६१ ॥

(६१) जो मनुष्य धन व्यवहार सम्बन्धी धर्मयोगों में साक्षी स्वरूप नियत व उपस्थित होने चाहिये तथा साक्षी लोग जैसी शरय साक्षी देवें उन सबको कहते हैं—

गृहिणः पुत्रिणो मौलाः अविद्वुशद्रयोनयः ।

अथ्युक्ता साक्यमर्हन्ति न य सचिदनापदि ॥ ६२ ॥

(६२) गृहस्थ सन्तान वाले व कुलीन क्षत्रिय वैश्य वा द्रूज जो वादी के पक्षों में रहने वाले हो वे साक्षी होने चाहिये । अज्ञानक प्राया हुमा तथा विपत्ति से सताया हुआ साक्षी ठीक नहीं ।

धाम्ना मर्षोपययोषु कार्य्यः कार्येषु साक्षिणः ।

सर्व धर्मविदोऽस्तुम्वा विपरीतास्तु पर्वयेत् ॥ ६३ ॥

(६३) जो मनुष्य सब बरणों के कार्य में शरयभाषी सब धर्मों के ज्ञाता और निरर्लोभी है वही साक्षी देने योग्य है तथा जो उपरोक्त गुण न रखते हो उनको साक्षी न करना चाहिये ।

नोर्थसम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न वैरिणः ।

न दृष्टदोषाः कर्तव्या न व्याध्यार्ता न दूषिताः ॥६४॥

(६४) जिस विषय का वाद-विवाद होता है उससे सम्बन्ध रखने वाला, मित्र, सहायक, शत्रु और जिसका दोष सब स्थानों पर दृष्टिगत हुआ हो, व्याधि-पीडित तथा दुष्ट प्रकृति वाला ।

न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारुकुशीलवौ ।

न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न संगेम्योविनिर्गतः ॥६५॥

(६५) राजा, कारुक (रसोई बनाने वाला), नष्ट आदि वेदपाठी तथा ब्रह्मचारी आदि जो सग से विलग्न किया गया है ।

नाध्यधीनो न वेक्तव्यो न दस्युर्न विकर्मकृत् ।

न वृद्धो न शिशुर्नैको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः ॥६६॥

(६६) सेवक, नीचकर्मी, चोर, विरुद्ध कर्म करने वाला, अस्सी वर्ष से अधिक आयु वाला, सोलह वर्ष से न्यून आयु वाला, एकाकी, चाण्डाल आदि तथा अज्ञहीन ।

नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो न क्षुत्तृषोपपीडितः ।

न श्रमार्तो न कामार्तो न क्रुद्धो नापि तस्करः ॥६७॥

(६७) दुखी, भगादि से मदमत्त, उन्मत्त वा भूतादि से पीडित, क्षुधा-प्यास से आर्त, श्रमी, काम-पीडित, क्रोधी तथा तस्कर (चोर) इन सबको साक्षी न करना चाहिये ।

स्त्रीणां साक्षर्यं स्त्रियः कुर्यु द्विजानां सदृशा द्विजाः ।

शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ ६८ ॥

(६८) स्त्रियों की साक्षिणी, स्त्रिया, द्विजो (श्रमार्तव

प्राह्वण क्षत्रिय, बन्धु) के साक्षी द्विज शूद्रों के शूद्र तथा
चाण्डालों के साक्षी चाण्डाल हा ।

अनुमावी तु या करिचत्कुर्यात्माक्ष्य विवादिनाम् ।

अन्तर्वेश्मन्परशये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥ ६६ ॥

(६६) अन्न पुरुषो को बाकी-प्रतिवादी के अभियोग की
वास्तविकता से अनुमत्त प्राप्त हो वह स ही हों वर की चोगी
वन की सूट तथा प्राणहत्या के अभियोग में उपरोक्त गुण वाले
साक्षियों की आवश्यकता नहीं है । अन्व—

क्षियाप्यसंयवे कार्यं बालेन स्वबिरेष वा ।

शिष्येस्य वा पुना मापि दासेन भृतकनवा ॥ ७० ॥

(७०) उन तीनों अभियोगों में अस्मिन्नित गुणों वाले
साक्षी न होने पर स्त्री पुत्र सम्बन्धी बृद्ध शिष्य बन्धु, सेवक
भृत्य (मजदूर) यह सब भी साक्षी होव ।

बालपुत्रातुराणां च माक्ष्येषु यदती मृषा ।

स्त्रीयादस्थिरां बाधमुस्मिक्तमनमां तथा ॥ ७१ ॥

(७१) * साक्ष्य में बालक बृद्ध प्रातुर (कुली) उमत्त
प्रादि के कथन को मिया जानना चाहिये ।

साहसेषु च सर्वेषु स्तेपमग्रहणेषु च ।

वाग्दध्योरथ पारुष्ये न परीक्षेत् साक्षिणा ॥ ७२ ॥

* साक्षी का सम्बन्ध स्मरण शक्ति तथा वृद्धि से है अतः
एक बृद्ध रोगी उमत्त (पागल) पुरुषों की बुद्धि तथा स्मरण
शक्ति ठीक न होने के कारण उनकी गवाही विश्वास योग्य नहीं ।
वाग्दध्योरथ पारुष्ये न परीक्षेत् साक्षिणा ॥ ७२ ॥
साक्षी का साक्ष्य अल्प बुद्धि तथा व्यायानय में भयभीत हो जाने
के कारण प्रमादित नहीं ।

(७२) साहस से कार्य करना, चोरी, स्त्री का बलात् अपहरण, कुवाक्य कहना (कटु भाषण वा वाग्दण्ड), लाठी आदि से मारना, इन अभियोगों में साक्षियों की गवाही विश्वास योग्य नहीं ।

बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षीद्वैधे नराधिपः ।

समेषु तु गुणोत्कृष्टान्गुणिद्वैधे द्विजोत्तमान् ॥ ७३ ॥

(७३) जहाँ साक्षियों की साक्ष्य दो प्रकार की हो वह एक प्रकार की एक गवाही के बहुत साक्षियों की गवाही ग्रहण योग्य है । यदि सख्या में समान है और दो प्रकार की गवाहियाँ हैं तो वहाँ योग्य तथा उत्कृष्ट गुण वाले साक्षियों का साक्ष्य माननीय है तथा समान गुण वाले साक्षियों में ब्राह्मण का साक्ष्य प्रमाणिक है ।

समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिद्ध्यति ।

तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ७४ ॥

(७४) अपने नेत्रों द्वारा देखा तथा कानों द्वारा सुने हुए में साक्ष्य देना उचित है तथा उसमें सत्य बोलने से धर्म व अर्थ की हानि नहीं होती ।

साक्षी दृष्टश्रु तादन्यद्विब्रुवन्नार्थ संसदि ।

अवाङ्मनस्कमभ्येति प्रेत्य स्वर्गच्च हीयते ॥ ७५ ॥

(७५) जो मनुष्य सज्जनो की सभा में देखे व सुने के विपरीत साक्ष्य देता है- वह आधा शिर किये हुए नरक में जाता है, उसे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता ।

यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत शृणुयाद्विपि किञ्चन ।

दृष्टस्तत्रापि तद्ब्रूयाद्यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ ७६ ॥

(७६) तुम इसमें साक्षी हो—ऐसा नहीं कहो है तथा अपने अभियोग की वास्तविक बेसा को देखा वा सुना है यदि वह न्यायामय में बुसाया जावे तो उसने बेसा देखा वा सुना है बीसा ही कहे ।

एकोऽशुन्धस्तु सार्धं स्याद्बह्व्यं शुच्याऽपि न स्त्रिय ।

स्त्रीषु द्वैरऽस्त्रिरत्वं च दापश्चान्येऽपि वैश्याः ॥७७॥

(७७) निसौमी एक पुख्य भी साक्षी हो सकता है । परन्तु बहुत सी भोगिणी + स्त्रियां साक्षी नहीं हो सकतीं क्योंकि स्त्रियों की बुद्धि एक दशा में स्थिर नहीं रहती तथा जो मनुष्य दोषयुक्त है वह भी साक्षी होने योग्य नहीं है ।

स्वभावेनैव यद्व्ययुस्तद्व प्राण व्यावहारिकम् ।

अतो यदन्यद्विभ्रं पुर्षमार्थं तदपार्थक्यम् ॥ ७८ ॥

(७८) अपने स्वभाव से जो बात कहे उसे व्यवहार में प्रहण करना चाहिये (अर्थात् उस बात को मान्य समझ कर उसे बढ़ करना चाहिये) तथा जो बात सिखलाने से कहे वह व्यर्थ है वह मानने योग्य नहीं है ।

समान्तसाक्षिणा प्राप्ता नर्षिप्रत्यर्षिसभिर्षी ।

प्राह्विवाकोऽनुपुञ्जीत विधिना तेन सान्त्वयन् ॥७९॥

(७९) राजा को अभियोग का निर्णयकर्ता ब्राह्मण

+ क्योंकि स्त्रियों में भय लज्जा आदि स्वभाविक गुण हैं अतः वे गवाही देने में भी इन गुणों से प्रभाव नहीं रह सकतीं जिससे साक्षी की वास्तविकता में सन्देह है । अतएव स्त्रियों की गवाही प्रविश्वास योग्य निर्धारित व निश्चित नहीं है ।

सभा में वादी वा प्रतिवादी की उपस्थिति में आगे लिखित विधि से साम उपाय द्वारा साक्षी को आज्ञा दे ।

यद्ब्रूयोरनयोर्वेत्यं कार्येऽस्मिश्चेष्टितं मिथः ।

तद्ब्रूत सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ८० ॥

(८०) वादी तथा प्रतिवादी के उपस्थित अभियोग के सम्बन्ध में अपने नेत्रों देखी हुई अवस्था व वृत्तान्त को जो कुछ तुम जानते हो सब सत्य-सत्य कहो, इस अभियोग में तुम्हारी गवाही है ।

सत्यं साक्ष्येव्रुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुण्ड्रान् ।

इह चानुत्तमां कीर्त्तिं वागेपा ब्रह्मपूजिता ॥ ८१ ॥

(८१) साक्ष्य में सत्य भाषण करने से ऊँचा लोक (ब्रह्मलोक आदि) प्राप्त करता है और इस लोक में बड़ा यज्ञ पाता है तथा उसकी वाणी ब्रह्माजी द्वारा पूजित होती है अर्थात् ब्रह्माजी उसकी प्रशंसा करते हैं ।

साक्ष्येऽनृतं वदन्पाशैर्वध्यवे वारुणैर्भृशम् ।

विवशःशतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं वदेद्वतम् ॥ ८२ ॥

(८२) गवाही में असत्य भाषण करने से विवश होकर १०० जन्म पर्यन्त वरुण देवता के समीप निठुरता से बाँधा जाता है । अतएव सत्य साक्ष्य देना उचित है ।

सत्येन पूयते याक्षी धर्मः सत्येन वर्धते ।

तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्षेण साक्षिभिः ॥ ८३ ॥

(८३) सत्य भाषण करने से साक्षी शुद्ध (पवित्र) होता है, उसके धर्म की वृद्धि होती है । अतएव सब वर्गों के साक्षियों को सत्य ही भाषण करना चाहिये ।

आत्मैव आत्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।

माधमस्या स्यमात्मानं न्यां साक्षियमुत्तमम् ॥८४॥

(८४) अ तर्पणा अ भाव अतान के हेतु अपना आत्मा ही साक्षी है और आत्मा की गति अपना ज्ञान, उसति तथा अर्थ प्राप्ति भी आत्मा द्वारा ही हो सकती है । अतः अपनी आत्मा को साक्षी न करना चाहिये ।

मन्यन्त वै पापकृतो न करिष्यत्परयतीति न ।

सांस्तु देवा अपरयन्ति स्वर्ग्यैवान्तरपूरुषः ॥ ८५ ॥

(८५) पापी लोग अपने हृदय में यह विचारते हैं कि हमारे पाप को कोई नहीं देखता परन्तु वह उतना भ्रम है । क्योंकि उनके पाप देवता अर्थात् योगी लोग तथा परमात्मा जो सर्वान्तर्यामी अ कर्म-फलदाता है देखते हैं ।

द्यौर्मृगिगपा हृदय चन्द्रार्काग्नियमानिक्षा ।

रात्रि सभ्य च वमरश्च पृच्छा सर्वदेहिनाम् ॥८६॥

(८६) आकाश पृथिवी जल, जीवात्मा सूर्य चन्द्र अग्नि वायु रात्रि दो सन्ध्या तथा कर्म-फलदाता ममराज अर्थात् परमात्मा सारे कर्मों को देखता है ।

देवमाक्षससाक्षिभ्य स सां पृच्छरतं विजान् ।

उच्छ्रमुस्वान्प्राश्नुस्वान्या पूर्वाह्णे वै शुचि शुचीन् ॥८७॥

(८७) ग्यायापीण प्राप्त-काल में स्नान सन्ध्योपासन आदि से शुद्ध होकर आये हुए द्विज (ब्राह्मण सत्रिय वैश्य) साक्षियों को पूर्ण वा उत्तर विद्या की ओर मुक्त करके लड़ा कर, उनसे प्रश्न करे ।

ब्रूहीति ब्राह्मणं पृच्छेत्सत्यं ब्रूहीति पार्थिवम् ।

गोवीजकाञ्चनैवैश्वं शूद्रं सर्वेस्तु पातकैः ॥ ८८ ॥

(८८) ब्राह्मण से कहे बतलाओ, क्षत्रिय से कहे सत्य बतलाओ, वैश्य से गऊ, वीज व सोने की सौगन्ध देकर तथा शूद्र से यह कह कर कि असत्य भाषण करने से सब पातो के अपराधी होंगे, राजा साक्ष्य के विषय मे प्रश्न करे ।

ब्रह्मधनो ये स्मृता लोका ये चस्त्रीबालघातिनः ।

मित्रद्रुहः कुतधनश्च ते ते स्युर्ब्रुवतो मृषा ॥ ८९ ॥

(८९) ब्राह्मण, स्त्री तथा बालक के घातक, मित्रद्रोही, कुतधन—इन सब को जो लोक मिलता है वही लोक असत्य भाषण से तुमको मिलेगा ।

जन्मप्रभृति यत्किञ्चित्पुण्यं भद्रं त्वया कृतम् ।

तत्ते सर्वं शुनो गच्छेद्यदि त्रयास्त्वमन्यथा ॥ ९० ॥

(९०) यदि तुम असत्य बोलोगे तो तुम्हारे जन्म भर के किये हुए पुण्य कर्म कुत्तो को प्राप्त हो जावेगे ।

एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं दत्तं ऽण मन्यसे ।

नित्यं स्थितस्ते हृद्येषु पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥ ९१ ॥

(९१) अपने को तुम एकाकी मानते हो सो ऐसा न समझो, क्योंकि सदैव ही तुम्हारे हृदय मे पाप-पुण्य का देखने वाला परमात्मा स्थित है ।

यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः ।

तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्गमः ॥ ९२ ॥

(९२) यमराज यथात् आत्मा के पाप-पुण्य का देखने

व ला परमात्मा सुम्न रे हृदय में स्थित है । उससे विचार करके अर्थात् उसकी आज्ञा को मङ्गल करके गङ्गा व कुस्त्रोत्र को म जाया अर्थात् प प करके गङ्गा व कुस्त्रोत्र नाम से सुम वष मही सकते ।

नग्नां मुण्डां कपासन भिक्षार्थां क्षुत्पिपासित ।

अथ शत्रुकुल गन्धर्वा साक्ष्यमनृत वदेत् ॥ ६३ ॥

(६३) जो साक्षी असत्य बोले वह मग्न मूढ मुढ़ाये क्षधा व प्यास से पीड़ित व अन्धा होकर भिक्षार्थ कपास ग्रहण कर दात्र व सुम से आवे ।

अवाक्शशास्तमस्यन्धे किञ्चिपी नरकं व्रजत् ।

य प्ररन वितर्धं न्र्यात्पृष्ट सन्धर्मनिश्चय ॥ ६४ ॥

(६४) जो पुरण धर्म क निश्चय करने से किये गये प्ररन के अन्तर से अनृत म पण करता है वह पापी अयोधिर हो बहुष ही अघरे नरक म जाता है ।

अथो मम्प्यानिवाग्नाति स नर कयटकै सह ।

या भापत र्धवकल्पमप्र यच्च समां गत ॥ ६५ ॥

(६५) जो मनुष्य न्यायालय से जाकर के प्रतीमन म अ व भाषण क सा है वह उसी प्रकार दारुण विपत्ति पाता है जैसे अग्ना मनुष्य बाटा वाली मछली लाकर असेह पा पाता है ।

यस्य विवाहो व्रत व यथा नाभिगहने ।

मम्म अ या अयांस लाक न्य पुरुष विद् ॥ ६६ ॥

(६६) जो मनुष्य यामन समय अपनी आत्मा का इनन ना करता तथा उगरी आत्मा म स न व भ्रम

उत्पन्न नहीं होता—क्योंकि सन्देह व भ्रम सर्वत्र असत्य भाषण के समय उत्पन्न होता है, विद्वान् लोग उससे बढकर किसी को नहीं जानते ।

यावतो बान्धवान्यस्मिन्हन्ति साच्येऽनृतं वदन् ।

तावतः संख्यया तस्मिञ्छुणु सौम्यानुपूर्वशः ॥६७॥

(६७) भृगुजी कहने हैं कि हे ऋषि लोगो ! अनृत साक्ष्य देने से जितने बान्धवो को हनन करता है, हम तुम से उनकी सख्या को वर्णन करते हैं ।

पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ।

श्वमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ ६८ ॥

(६८) यदि पशु के अभियोग में असत्य बोले तो पाच पुस्त, गऊ के अभियोग में असत्य बोले तो दश पुस्त, घोडे के अभियोग में असत्य बोले तो सौ पुस्त, मनुष्य के अभियोग में असत्य बोले तो सहस्र पुस्त को कलकित कर देता है ।

हन्ति जातानजातांश्च हिरण्येऽर्थेऽनृतं वदन् ।

सर्वं भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यऽनृतं वदीः ॥६९॥

(६९) सोने के अभियोग में असत्य भाषण करने से जात-अजात अर्थात् उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले बान्धवो का छेद हनन करना है । भूमि के अभियोग में असत्य साक्ष्य देने से सबको नाश करता है, अतः भूमि के विषय में गवाही देने में कभी असत्य न बोले ।

मनुजी का तत्पर्य हनन करने से उनकी कीर्ति तथा मान नाश करना है ।

अप्सु भूमिषदित्याहु स्त्रीषु भाग च मैथुन ।

अब्जेषु चैव रत्नेषु सर्वेष्वश्वदेषु च ॥ १०० ॥

(१) अबल स्त्री भोग मैथुन मोती रत्न प्रादि के अभियोग में भी भूमि समान मानना ।

एतान्दोषानवेक्ष्य त्व सर्षानिनृतमापये ।

यथाश्रुत यथादृष्ट सर्वमवाञ्जसा वद ॥ १०१ ॥

(११) + असत्य भाषण में अपनी हानि का ज्ञान लाभ कर जैसा अपने को अनुभव तथा ज्ञान हो व जैसा दस्ता या सुना हो यथाश्रुत यथादृष्ट विना मिसाये सत्य २ बोधना चाहिये ।

गोरक्षकान्वास्त्रिजिह्वास्तथा करुकुशीलवान् ।

प्रप्यान्बाधुपिकारचैव विप्रान्शत्रुवदाचरेत् ॥ १०२ ॥

(१२) गोरक्षा द्वारा निर्बाह करने वाला ब्रह्म कर्म करने वाला अन्य कारुक (पाबक रखोई बनाने वाला) मामक दास-कर्म करने वाला तथा व्यवहार का ध्याज देने वाला जो ब्राह्मण है उसको शूद्र के समान मानना चाहिये ।

+ मनुष्यी के मतानुसार अत्यन्त भाषण तथा असत्य साक्ष्य देना सब से बड़ा पाप और इसके कर्ता अपने कुल की कीर्ति तथा मान को समूह मात्र कर देते हैं । क्योंकि वर्तमान समय में झूठी गवाही देने वाले अधिक हो गये हैं अतः भोग झूठी गवाही को पाप नहीं समझते परन्तु इस प्रथम ही के कारण दस का सारा सुख व मान नष्ट हो गया ।

नोट—दशोक १ १ १ ४ व १ १ परधात् के सम्मिलित किये हुए हैं । अथवा अमशास्त्र किसी भी अवस्था में असत्य बोधने की आज्ञा नहीं देता ।

तद्वदन्धमतोऽथेषु जानन्नप्यन्यथा नरः ।

न स्वर्गाच्च्यवते लोकाद्द्वीं वाचं वदन्ति ताम् ॥१०३॥

(१०३) देख व सुनकर भी दया के कारण असत्य भाषण करने वाला स्वर्ग से पतित नहीं होता, उसकी वाणी मन आदि देवता की वाणी के सम्मान समझते हैं ।

शूद्रवितृक्षत्रिविप्राणां यत्रीर्तोक्तौ भवेद्वधः ।

तत्र वक्तव्यमनुतं तद्धि मत्याद्विशिष्यते ॥ १०४ ॥

(१०४) जहाँ सत्य भाषण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का हनन होता हो वहा असत्य भाषण सत्य से उत्तम है ।

वाग्दैवत्यैश्च चरुभिर्यजेरंस्ते सरस्वतीम् ।

अनृतस्यैनसस्तस्य जुवाणा निष्कृतिपराम् ॥ १०५ ॥

(१०५) असत्य भाषण कर घर में आकर सरस्वती देवी का यज्ञ करे तब असत्य भाषण के पाप से मुक्त होता है ।

कृष्माण्डैर्वापि जुहुयाद् घृतमग्नौ यथाविधि ।

उदिन्यचा वा वारुण्यात्र्य चेनाब्दैवतेन वा ॥१०६॥

(१०६) अथवा कृष्माण्ड मन्त्र जो यजुर्वेद में लिखा है उसको पढकर व 'उत्तमम्' 'आपोहिष्ठा', इन दोनों मन्त्रों में से किसी एक मन्त्र को पढकर घी से यथाविधि हवन करे ।

त्रिपक्षादेव वन्साच्यमृणादिषु नरोऽगदः ।

तदृणं प्राप्नुयात्सर्वं दशवन्धं च सर्वतः ॥ १०७ ॥

(१०७) ऋणादि के अभियोग में यदि आरोग्य साक्षी तीन पक्ष अर्थात् डेढ मास के भीतर कुछ न कहे तो जिस अभियोग में वह साक्षी है, उस अभियोग के घन का दसवा भाग दण्ड स्वरूप देवे ।

यस्य दृश्यते सप्ताहादुक्तशप्यस्य मादिण ।

रोगाऽग्निर्जातिमरणं मृत्युं दाप्यो दम च स ॥१०८॥

(१०८) न्यायालय से कोई साक्षी अपनी गवाही देकर प्राये घोर सात दिवसों के भीतर रोग अग्निदाह प्राति सबन्धी को मृत्यु—इनमें से कोई एक दु-ख साक्षी को हो तो वह साक्षी उस ऋण को तथा उसके वशमांस को दण्ड स्वरूप देवे ।

अमादिऋषु स्वर्धेषु मियो विवदमानयो ।

अभिन्दस्तस्वताः सत्यं शपथेनापि लम्पयेत् ॥१०९॥

(१०९) जिस अभियोग में कोई साक्षी नहीं तथा बिचार द्वारा न्यायाधीश उसकी वास्तविकता को नहीं, पा सकता हो तब निम्नांकित सौगन्ध द्वारा यथाथ सत्य वृत्तान्त को पूछे ।

महर्षिमिश्रं देवैश्च कार्यार्थं शपथा कृता ।

वशिष्टश्चापि शपथं शपे पैञ्चने नृपे ॥ ११० ॥

(११०) ऋषिगणों व देवताओं से कार्यार्थं शपथ (सौगन्ध) साई है, विश्वामित्र के ऋग्वेद में वशिष्ठ ऋषि में यजुर्वेद के बेटे पित्रवम नाम राजा के सम्मुख सौगन्ध साई थी ।

न वृथा शपथं कुर्यात्स्वल्पेऽप्यर्धे नरो धुष ।

वृथा हि शपथं कुर्वन्नस्य चेह न नश्यति ॥ १११ ॥

(१११) साधारण प्रवस्था में स्वल्प अर्ध हेतु वृथा सौगन्ध न कामी चाहिये तथा जो मनुष्य वृथा शपथ साता है व थोड़ा-थोड़ी बातों में सौगन्ध साता है वह नष्ट हो जाता है और उसका विश्वास नहीं रहता ।

अमिनीषु विवाहेषु गवां भक्ष्ये तथे चने ।

ब्राह्मणान्युपपथौ च शपथे नास्ति पातकम् ॥११३॥

(११२) कन्या के विवाह मे यदि घर-पक्षी विश्वास न करे गऊ का भक्ष देने के समय. व ब्राह्मणके रक्षार्थ, अग्निहोत्रार्थ ई धन की आवश्यकता दिखलाने मे शपथ खाना पातक है तथा असंगत नहीं है ।

सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधैः ।

गोबीजकाञ्चनैर्वैश्यं शूद्रं सर्वैस्तु पातकैः ॥ ११३ ॥

(११३) ब्राह्मण को सत्य की, क्षत्रिय को वाहन तथा शस्त्रो की, वैश्य को गऊ, बीज तथा सोना (सुवर्ण) की तथा शूद्र को सारे पातको की शपथ दिलावे ।

अग्निं वाहारयेदेनमप्सु चैनं निमज्जयेत् ।

पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पर्शयेत्पृथक् ॥ ११४ ॥

(११४) सौगन्ध इसी विधि से खिलावे कि या तो अग्नि ग्रहण कराके वा जल मे खडा करके अथवा पुत्र के शिर पर हाथ रखवा कर ।

यमिद्धो न दहत्यग्निरापो नो मज्जयन्ति च ।

न चार्तिं मृच्छति क्षिप्रं न ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥ ११५ ॥

(११५) जिसे आग न जलावे, जल न डुबावे, वा पुत्र व स्त्री का शीघ्र दुख न पावे, उसको सौगन्ध मे शुद्ध जानना चाहिये ।

वत्सस्य ह्यग्निशस्तस्य पुग आत्रा यवीयसा ।

नाग्निर्ददाह रोमापि सत्येन जगतःस्पृशः ॥ ११६ ॥

(११६) पूर्व समय मे वत्स ऋषि के अनुज ने उनको दोष लगाया था तिस पर वत्स ऋषि ने अपनी शुद्धता दिखलाने के हेतु अग्नि को उठाया, परन्तु सार ससार के पाप-पुण्य की परीक्षक अग्नि ने ऋषि का एक रोम भी न भस्म किया ।

यस्मिन्वस्मिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कर्तुं भवेत् ।

सप्तत्कार्यं निवर्तेत कर्तुं नाप्यकृतं भवेत् ॥ ११७ ॥

(११७) जो-जो काम साक्षियों के असत्य भाषण के कारण असत्य निर्णय हो गये हैं तत्पश्चात् उनका असत्य भाषण प्रमाणित हो गया है तो उस निर्णय किये हुए काम को असत्य (वृथा) समझना चाहिये ।

सोभान्मोहाद्भया मैत्रात्कामात्क्रोधात्तथैव च ।

अज्ञानाद्बालकमावाञ्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥ ११८ ॥

(११८) सोम मोह भय मभी काम क्रोध, अज्ञानता बालकपन यह कारण हैं कि जिनसे भोग असत्य साक्षी देते हैं । यह ऐसे साक्षियों का विश्वास न करे ।

एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनूत वदेत् ।

तस्य दण्डविशेषास्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ ११९ ॥

(११९) इनके प्रतिरिक्त अन्य स्थानों में असत्य साक्षी देवे तो उसके हेतु विशेष दण्ड को क्रमानुसार कहेये ।

सोभान्सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहात्पूर्वतु साहसम् ।

मयावृद्धी मध्यमी दण्डौ मैत्रात्पुत्र चतुर्गुणम् ॥ १२० ॥

(१२०) यदि सोम वषा अनूत बोले तो १ पण दण्ड से देवे मोहवश असत्य बोले तो चूर्वानुसार साहस दण्ड देवे मय से मूठ बोसने पर दो मध्यम साहस और मित्रता से मूठ बोसने पर प्रथम का चौगुना दण्ड दे ।

कामाद्दशगुणं पूर्वं क्रोधात्तु त्रिगुणं परम् ।

अज्ञानादद्वे शते पूर्णं वासिस्थ्याच्छतमेव तु ॥ १२१ ॥

(१२१) यदि साक्षी काम वश असत्य बोले तो दशगुना पूर्व + साहस दण्ड देवे, यदि क्रोधवश अनृत साक्षी देवे तो तीन उत्तम साहस के अनुसार दण्ड देवे, यदि अज्ञानता वश मिथ्या बोले तो दो सौ (२) पण दण्ड देवे, तथा यदि बालकपन के कारण मिथ्या भाषण करे तो सौ पण दण्ड स्वरूप देवे ।

एतानाहुः कौटसाच्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीषिभिः ।

धर्मस्यात्र्यभिचारार्थमधर्मनियमाय च ॥ १२२ ॥

(१२२) अधर्म के नाश (वन्द) होने तथा धर्म के प्रचलित होने के हेतु पण्डितों ने यह दण्ड साक्षियों के मिथ्या भाषण में कहा है ।

कौटसाच्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन्वर्णान्धार्मिको नृपः ।

प्रवासयेद्दण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥ १२३ ॥

(१२३) क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह तीनों वर्ण साक्षी होकर असत्य बोलें तो धर्मिन् राजा उपरोक्त दण्ड देकर राज्य-सीमा से देश निकाला देवे, परन्तु ब्राह्मण को उपरोक्त अपराध में केवल राज-मण्डल से देश निकाला देवे, उसका घन-सम्पत्ति हरण न करे ।

दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ।

त्रिषु वर्गेषु यानि स्युरक्षतो ब्रह्मणो ब्रजेत् ॥ १२४ ॥

(१२४) क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन तीनों वर्णों के दण्ड के दश स्थान ॐ स्वयम्भू अर्थात् साकल्पिक सृष्टि के उत्पन्न ऋषि

+ १ व २ साहस व पण आदि किस लिए हैं जिनका वर्णन मनुजी ने अपने शर्मशास्त्र में भी कर दिया है ।

ॐ स्वयम्भू के अर्थ यह हैं कि जो बिना माता-पिता के

के बेटे मनुजी ने कहे । ब्राह्मण तो क्षारीरिक दण्ड बिना दिये
वेष से निकाम दें ।

उपस्थमुदर जिह्वा इस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।

चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥ १२५ ॥

(१२५) उपस्थ (मूत्रस्थान) उदर (पेट) जिह्वा
बोनी हाथ दोनों पाँव काम दोनों घाँसें नाक धन शरीर
मह वस दण्ड स्माम हैं ।

अनुबन्धं परिभ्राय देशकालौ च तत्त्वतः ।

सारापराधी चासोक्य दण्ड दयद्वयेषु पातयेत् ॥ १२६ ॥

(१२६) इच्छा से क्रमशः अपराध करना बेश (स्माम)
काल (समय) अपराध अपराधी का शरीर धन सम्पत्ति
सामर्थ्य बड़ा छोटा अपराध इन सब को देखकर दण्डनीय पुरुषों
को दण्ड देना चाहिये ।

अधर्मदण्डनं लोके यशाप्नोति कीर्तिनाशनम् ।

अस्वर्ग्यं च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ १२७ ॥

(१२७) धर्म बिहट जो दण्ड है वह यश तथा कीर्ति को
मष्ट करता है तथा परलोक में स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होता अतः
धर्म बिहट दण्ड न देवे ।

अदण्डयान्दण्डयन्नाज्ञा दण्डधारिष्वेषाप्यदण्डयन् ।

अयशो महदाप्नोति नरक चैव गच्छति ॥ १२८ ॥

उत्पन्न हुआ हो । क्योंकि प्राणि सृष्टि में अष्टपि सोम परमात्मा के
संबन्ध से उत्पन्न होते हैं अतएव यह स्वयम्भू कहलाते हैं वेदों के
ज्ञान को बही लोग प्रचार करते हैं तथा धर्मशास्त्र भी बही लोग
स्विर व नियत करते हैं ।

(१२८) जो अदण्डनीय है उसे दण्ड देने से तथा जो दण्डनीय है उसे दण्ड न देने से राजा इस जन्म में अपयश पाता है तथा दुःख भी भोगता है ।

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्विग्दण्डं तदनन्तरम् ।

तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥ १२९ ॥

(१२९) प्रथम बार वाग्दण्ड दे अर्थात् तुमने अच्छा कार्य नहीं किया अब फिर ऐसा न करना । द्वितीय बार भिडक दे तथा धिक्कार देकर उस कार्य से हटावे, यदि तृतीय बार वैसे हो करे तो अर्थ-दण्ड दे । इस पर भी न माने तो कारागार तथा वध (शरीराङ्ग छिन्न करना) का दण्ड देवे ।

वधेनापि यदा त्वेतान्निग्रहीतुं न शक्नुयात् ।

तदैषु सर्वमप्येतत्प्रयुञ्जीत चतुष्टयम् ॥ १३० ॥

(१३०) यदि शरीराङ्ग छिन्न करने से भी न माने तो उसे चारों प्रकार दण्ड एक ही साथ देना चाहिये ।

लोकसंव्यवहारार्थं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि ।

ताम्ररूप्यसुवर्णानां ताः प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १३१ ॥

(१३१) ससार के पारस्परिक व्यवहार के हेतु तांबा, चांदी, सोने के सिक्के जिस तोल से बनाये जाते हैं, अब हम उनके नाम वर्णन करते हैं-

जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः ।

प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रवक्षते ॥ १३२ ॥

(१३२) सूर्य की किरणों जो भरोखे के छिद्र द्वारा भीतर आती हैं, जो सूक्ष्म रज, कण दृष्टिगोचर होते हैं, वे नेत्रों द्वारा देखी जाने वाली वस्तुओं में प्रथम है, उसका नाम त्रसरेणु है ।

असरेणवोऽष्टौ विज्ञेया लिखैक्य परिमाणात् ।

ता राजसर्पपास्तिस्रस्ते प्रयो गौरसर्पण ॥ १३३ ॥

(१३३) आठ असरेणु का एक सिका । तीन सिका की एक राई । तीन राई की एक गौर सर्पण सरसों) होती है ।

सर्पणां पत्र यवो मध्यस्त्रियर्ब त्वेककृष्णलम् ।

पञ्चाकृष्णलको मापस्ते सुवर्णास्तु षोडश ॥ १३४ ॥

(१३४) छ सरसों का एक मध्य वसा का जो तीन जो का एक कृष्णल (रत्ती) पाच रत्ती का एक मापा तथा सोनह मापों का एक सुवर्ण होता है ।

पलं सुवर्णैश्चत्वारं पलानि धरण दश ।

द्वे कृष्णले समभूते विज्ञेयो रौप्यमापक ॥ १३५ ॥

(१३५) चार सुवर्ण का एक पल दश पल का एक धरण होता है । अथ रुपया के तोम की सजा को कहते हैं । कि दो रत्ती का एक मापा होता है ।

ते षोडश स्याद्वरणं पुराणैश्चैव राजत ।

कार्पाषणस्तु विज्ञेयस्ताम्रिक, कार्षिकः पण ॥ १३६ ॥

(१३६) सोनह मापा का एक धरण होता है तथा धरण को पुराण भी कहते हैं । सोनह मापा तामा को ताम्रिक तथा कार्षिकपण कहते हैं ।

धरणानि दश श्रेय शतमानस्तु राजतः ।

चतुः सौवर्णिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणात् ॥ १३७ ॥

(१३७) दस धरण का एक शतमान होता है तथा चार सुवर्ण का एक निष्क होता है ।

पाणानां द्वे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः ।

मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेव चोत्तमः ॥ १३८ ॥

(१३८) ढाई सौ पण का प्रथम साहस, पाँच सौ पण का मध्यम साहस तथा सहस्र पण का उत्तम साहस होता है ।

ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चरुं शतमर्हति ।

अपहृते तद्द्विगुणं तन्मनोरनुशासनम् ॥ १३९ ॥

(१३९) न्यायालय में जाकर ऋणी यदि कहे कि हमें ऋण-दाता का ऋण परिशोध करना है तो प्रति सैकड़ा पाँच पण दण्ड व्याज) देवे । यदि कहे कि हम ऋणी नहीं हैं और साक्षी व लेख आदि प्रमाणों द्वारा वादी अपने अभियोग को सत्य प्रमाणित कर दे तो ऋणी प्रति सैकड़ा दश पण दण्ड देवे, यह मनुजी की आज्ञा है ।

वशिष्टविहितां वृद्धिं सृजेद्वित्तविवधिनीम् ।

अशीतिभागं गृह्णीयान्मात्रमाद्वाधुं पिकः शते ॥ १४० ॥

(१४०) वशिष्ट जी का कहा हुआ वृद्धि (व्याज) जो रुपया बढ़ाने वाला है उतना व्याज ले, प्रति सैकड़ा अस्सी व अश अर्थात् सौ रुपया पर सवा रुपया मासिक वृद्धि (माहवारी व्याज) नियत करे ।

द्विकं शत वा गृह्णीयात्सतां धर्ममनुस्मरन् ।

द्विकं शतं हि गृह्णीनो न भवत्यर्धकिन्विषी ॥ १४१ ॥

+ श्लोक १४० में वशिष्ट स्मृति के व्याज का वर्णन होने से यह प्रमाणित होता है कि यह स्मृति मनुस्मृति नहीं, वरन् भृगुजी ने बनाई है ।

(१४१) घबवा सञ्जनो के धर्म को धियार प्रति सेकडा दो पण मासिक ब्याज सम से द्रव्य प गो नही हस्ता ।

द्विक त्रिक चतुष्क ष पञ्चक ष शत समम् ।

मासस्य वृद्धि गृह्णीयाद्वर्णानामनुपूर्वश ॥ १४२ ॥

(१४२) ब्राह्मण से दो प्रति सेकडा क्षत्रिय म तीन प्रति सेकडा बश्य से चार प्रति सेकडा तथा गूत्र स पाच न्यया प्रति सेकडा ब्याज सेवे ।

न त्वेषाधी सोपकारे फौमीदीं वृद्धिमाप्नुयात् ।

न चाधे कालसरुपाभिमर्गोऽस्ति न विक्रय ॥१४३॥

(१४३) जब रेहन की रीति को कहते हैं कि जो-जो बस्तु साम देने वाली हैं जैसे भूमि गऊ प्रादि यदि गिरबी (रेहन) रखी जावे तो उसमे ब्याज न सेवे । जब सरोध (रेहन) दिये हुए अधिक कास हो जावे और रेहन रखकर जितना रुपया लिया गया था उससे कुछ रुपया अधिक स्वामी न पावे तो उस बस्तु को वे दवे भ्रमबा बेच डाले । ऐसा न करे कि जब तक मूमधन न पाये तब तक उससे साम प्राप्त करता रहे ।

न मोक्षव्यो बलादाभिर्मुञ्जानो वृद्धिमुत्सृजत् ।

मूमधन तोषयेन्धैनमाभिस्तेनोऽन्यथा भवेत् ॥१४४॥

(१४४) बलात् उस रोधित (रेहन) बस्तु को कार्य में न लावे यदि ऐसा करे तो ब्याज छोड़ दे भ्रमबा बस्तु के स्वामी को उसकी मूम्य बेकर प्रसन्न करे. यदि ऐसा न करे तो रोधित (रेहन) बस्तु का चोर होता है ।

× मनुजी की ब्याज की कडा करने से यह सिद्ध होता है कि लोग ऋण पात्र बनें ।

आधिश्चोपनिधिश्चोभौ न कालात्प्रयमर्हतः ।

अवहार्यौ भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थितौ ॥ १४५ ॥

(१४५) आधि वस्तु (रेहन की हुई वस्तु) तथा प्राप्ति वश कोई वस्तु किसी को मागे देना, इन दोनो प्रकार की वस्तु को उसका स्वामी जब मागे तुरन्त ही देना चाहिये । यह न वहे कि इतने दिन मे देंगे और बहुत काल तक रहने से यह दोनो वस्तुये दीर्घकाली नही हो जाती है वरन् वास्नविक स्वामी का स्वामित्व स्थित रहता है । जिसके पास रखी है वह स्वामी नही हो जाता है ।

सम्प्रोत्था भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन ।

धेनुरुद्रो बहन्नश्वो यश्च दश्व्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥

(१४६) गऊ, ऊँट, घोडा, बैल, इन सब को स्वामी की आज्ञा से जो कोई वरते, तो जिसकी वह वस्तुयें है, उसका स्वामित्व नष्ट नही होता है ।

यत्किञ्चिद्दश वर्षाणि रात्रिभ्रौ प्रेच्यते धनी ।

भुज्यमानं परैष्ठूष्णीं न स तल्लब्धुमर्हति ॥ १४७ ॥

(१४७) उस वस्तु का स्वामी देखता है परन्तु बचता नही है । उस वस्तु को जो कोई दश वर्ष पर्यन्त बर्त ले तो उसका स्वामी उस वस्तु को नही पा सकता है । इसी प्रकार वर्तमान काल मे जबर्दस्ती (कब्जा मुखालिफानह) की अवधि है ।

अजडश्चेदपौगण्डो विषये चास्य भुज्यते ।

भग्नं तद्द्रव्यवहारेण भोक्ता तद्द्रव्यमर्हति ॥ १४८ ॥

(१४८) क्योकि बरतने बला कहता है कि वह उन्मत्त

तथा वासक नही है इसके देखते हुए हमने इसकी वस्तु को वर्ता है तब वह कुछ उत्तर नही दे सकता अतः व्यवहार से वह (मग्न स्वारज) होता है तथा भोक्ता (वर्तने वाला) उस वस्तु को पाता है ।

आधि सीमा मासघर्न निष्पोपनिधि स्त्रिय ।

राजस्व श्रीध्रियस्व च न भोगेन प्रखस्याते ॥१४६॥

(१४६) आधि [रहम ग्नी हुई वस्तु] सीमा भूमि गृह आदि वास सम्पत्ति व जाती धन जो गणना करके रखा गया हो वा सन्दूक में बन्द करके सीपा गया हो स्त्री राजा व वेदपाठी का धन इन पर दस वय पर्यन्त भी यदि बिना आज्ञा निज कार्य में व्यय करे तो भी इनके वा तबिक^१ स्वामी का स्वामित्व नष्ट नहीं होता ।

य स्वामिनानऽनुघातमार्यिं भुङ्क्तेऽविषधयः ।

तेनार्घ्यवृद्धिर्भोक्तव्या तस्य भोगम्य निष्कृति ॥१४७॥

(१४७) बिना स्वामी की आज्ञा के जो लोग आधि वस्तु को निजकार्य में व्यय करे तो उसे अपने धन का व्याज छोड़ देना चाहिये । बिना आज्ञा स्वेच्छा से भोक्ता का यही दण्ड है ।

कुम्भीन्वृद्धिद्व गुण्यं नास्मति मरुदाहता ।

धान्य मद स्रव बाह्य नातिनामति श्वताम् ॥१४८॥

(१४८) मूसधन के तुल्य ही व्याज एक ही बार लेने में निमित्त है । घास्य वृक्ष फल ऊन रेशम आदि इन सभी का व्याज मूसधन व पाब गुण से अधिक नहीं ।

कृतानुमागन्धिस्र व्यतिरिक्ता न मिदुष्पति ।

कुम्भीदपयमाहुस्त पञ्चक शतमर्दति ॥ १४९ ॥

(१५२) शास्त्रोल्लिखित व्याज से अधिक व्याज नहीं होता और जिस वर्ण से जो व्याज लेना कहा है उसके अस्त-व्यस्त (उलट-पुलट) करने से अनुचित विधि कहलाती है तथा यदि ❀ हथ उधार देकर फिर मागे और उसने न दिया तो उस दिन से पाँच प्रति सैंकडा व्याज लेना चाहिये ।

नातिसांवत्सरीं वृद्धिं न चादृष्टं पुनर्हरेत् ।

चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका च या ॥१५३॥

(१५३) एक, दो वा तीन मास के पश्चात् हिसाब करके एक ही बार हिसाब देना इस रीति से वर्ष के अन्त तक ऋण-दाता व्याज लेता रहे तथा वर्षान्त पश्चात् उसका न लेवे, शास्त्र विरुद्ध व्याज न लेवे, यदि न लेवे तो अघर्म होता है । चक्रवृद्धि, कालवृद्धि, कारिताकायिका इन व्याजों को भी न लेवे, क्योंकि यह शास्त्र में उल्लिखित नहीं है ।

ऋणं दातुमशक्तो यः कर्तुमिच्छे पुनः क्रियाम् ।

स दत्त्वा निर्जितां वृद्धिं करणं परिवर्त्तयेत् ॥ १५४ ॥

(१५४) जब ऋणी को ऋण परिशोध की सामर्थ्य न हो तो केवल मूलधन का व्याज देकर मूलधन के लिए पुन नया लेख (तमस्मुक) लिख देना चाहिये ।

❀ हथउधार [दस्तगरदा] लेकर ऋण-परिशोधन करने वाले के लिए पाँच रुपया प्रति सैंकडा व्याज इसलिये रखा गया है कि उसने प्रतिज्ञा पालन नहीं की । प्रतिज्ञा भग करना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विजों का धर्म नहीं है वरन् ऐसे कार्य करने वाले (अर्थात् प्रतिज्ञा भगकर्ता) शूद्र कहलाते हैं तथा शूद्र से पाँच रुपया प्रति सैंकडा व्याज लेना मनुजी ने प्रथम ही कहा है ।

अदर्शयित्वा तत्रैव हिरण्य परिचर्तयत् ।

यावती सभवेद्वृद्धिस्तावती ऋतुमर्हति ॥ १५५ ॥

(१५५) यदि ध्याज भी देने की सामर्थ्य न हो तो मूसबन ध्याज सहित एकत्र कर एक नया लेख (तमस्तुक) लिख देना चाहिये ।

षष्ठवृद्धिं समास्तुो देशःफलव्यवस्थित ।

अतिक्रामन्देसकालौ ऽ तत्फलमवाप्नुयात् ॥ १५६ ॥

(१५६) + जो मनुष्य सारथि का काम करता है और अपनी प्रतिज्ञा पालन नहीं करता है तो वह उसका सारा फल नहीं पा सकता जैसे यहाँ से यमारस तक बोझ पहुँचाने का इतना धन सब वा एक मास बोझ में जाने का इतना धन मैनेये ऐसा कहकर कार्यारम्भ करे और मध्य ही में कार्य त्याग दे तो वह अपने परिश्रम फल के सारे धन को नहीं पा सकेगा ।

समुद्रयानकृशनादेशकालाद्यदर्शिनः ।

स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं सा तत्राधिगम प्रति ॥ १५७ ॥

(१५७) समुद्र के पथ में कृशना तथा कालाद्यदर्शिनः इन चारों के वेचन पालन जो वृद्धि ध्याज) निर्धारित करें उस स्थान पर वही ध्याज देना ।

यां यस्य प्रतिभूस्तिष्ठदूर्दानायेह मानवः ।

अदर्शयन्म त तस्य प्रसङ्गस्वधनादेशम् ॥ १५८ ॥

+ श्लोक १५६ में ऐसे मनुष्यों के हेतु जो प्रतिज्ञानुसार कार्य पूरा न कर उनका सारा परिश्रम फल के न देने की आज्ञा इस हेतु से है जिसमें कोई मनुष्य जान-बूझ कर प्रतिज्ञा भंग करके परिश्रम फल प्राप्ति न करे जिससे उससे ससार में अविश्वास और अप्रथम प्रचारित हो सकता है ।

(१५८) जो मनुष्य जिस मनुष्य की उपस्थिति का प्रतिभू हो और उसे उचित समय पर उपस्थिति नहीं करता, वह अपनी सम्पत्ति से उसका ऋण परिशोध करे ।

प्रतिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौगिकं च यत् ।

ढंडशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमर्हति ॥ १५९ ॥

(१५९) यदि पिता ने प्रतिभाव (जमानत) दिया हो वा ऋण लेकर पाखण्डी को दान दिया हो, वा चूत (जुआ) खेला हो वा मद्य पीने में व्यय किया हो, वा अर्थदण्ड का धन दिया हो तो इस प्रकारके ऋणका परिशोध करने को उसका पुत्र वाध्य नहीं है ।

दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः ।

दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत् ॥ १६० ॥

(१६०) दर्शन प्रातिभावी (मालजामिन) की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र उस ऋण को देवे जिस ऋण को परिशोधार्थ उसका पिता प्रतिभुवि है तथा दर्शन प्रातिभुवि मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र उसको उपस्थित करने के हेतु वाध्य नहीं है ।

अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृतावृणम् ।

पश्चात्प्रतिभुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेयुना ॥ १६१ ॥

(१६१) दर्शन प्रतिभू तथा विश्वास + प्रतिभू यह दोनो प्रकार के प्रतिभू ऋण के तुल्य धन को लेकर प्रतिभू हुए हो, तत्पश्चात् मृत्यु हो गई हो तो ऋणदाता अपने धन को प्राप्त करने की इच्छा से किससे धन प्राप्त करे प्रतिभू की तो मृत्यु हो

+ अर्थात् जिसने ऐसा कहा कि हमारे विश्वास से इसे ऋण दे दो यह तुमसे कपट न करेगा, भले का पुत्र है, अच्छा गाव का स्वामी है तथा उपजाऊ भूमि इसके पास है ।

गई तथा उसके पुत्र से सेने की आज्ञा नहो । यह तर्क करके उत्तर को कहते हैं ।

निर्गादिष्टघनरक्षेषु प्रतिभूः स्यादलघन ।

स्वघनादेश तद्वदयाभिरादिष्ट इति स्थितिः ॥ १६२ ॥

(१६२) कि उस घन से जो सम्पत्ति लेकर पिता प्रतिभू हुआ हो उसकी सम्पत्ति से प्रतिभू का पुत्र ऋण परिशोध करे ।

मघोन्मघार्ताभ्यधीनैर्धसिन स्थविरेण च ।

असघद्वकृतरक्षैश्च व्यावहारो न सिद्ध्यति ॥ १६३ ॥

(१६३) मग गांजा आदि के मघ से उन्मत्त व्याधि पीड़ित क्लेशित बालक वृद्ध सम्बन्धी सभों से गया हुआ व्योहार सत्य नहीं होता बरन् व्योहार का बही लेख सत्य है जो इसकी सामान्यस्था में बिना किसी प्रकार के बलात् के लिखा जावे क्योंकि कुछ ठीक होने की वषा में कोई किसी प्रकार से बाध्य नहीं बरन् बहु पशु समान है ।

सत्यो न भाषा भवति यद्यपि स्यात्प्रतिष्ठिता ।

षड्विचैर्भाष्यते धर्माभियताद्व्यावहारिकात् ॥ १६४ ॥

(१६४) × यदि लेख में ऐसी प्रतिज्ञायें मिली गई हों जो शास्त्र तथा देश के विरुद्ध हो तो उन प्रतिज्ञाओं के पालन कराने का प्रयत्न न करना चाहिये ।

× श्लोक १६४ में मनुजी ने बतलाया है कि यदि धर्मशास्त्र तथा देश व्यवहार (रिवाज) के विरुद्ध तथा बिधि लेख लिखा जावे तथा दोमो पक्ष उसमें सहमत भी हो तो भी राजा को उसके अनुसार कार्य न करना चाहिये क्योंकि इससे नीति तथा देश व्यवहार में प्रक्षर पड़ता है ।

योगाधमनविव्रीतं योगदानप्रतिग्रहम् ।

यत्र वाप्युपधिं पश्येत्तत्सर्वं विनिवर्तयेत् ॥ १६५ ॥

(१६५) छल करके जो रहन, बेचना व व्यवहार है वह सब अनुचित है और जिस कार्य में छल अनुभव होवे वह सब व्यर्थ समझना चाहिये ।

ग्रहीता यदि नष्टः स्यात्कुटुम्भार्थे कृतो व्ययः ।

दातव्यं वान्धवैस्तत्स्यात्प्रविभक्तैरपि स्वतः ॥१६६॥

(१६६) ऋणी की ऋण लेकर सन्तान के पालन-पोषण करने में व्यय करने पश्चात् मृत्यु हो गई तो उस ऋण को उसके भ्राता पुत्र आदि सम्बन्धियों को परिशोध करना चाहिये, क्योंकि वह धन उचित कार्य हेतु लिया गया है ।

कुटुम्भार्थेऽध्यधीनोऽपि व्यवहारं समाचरेत् ।

स्वदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायान्न विचालयेत् ॥१६७॥

(१६७) स्वदेश व विदेश में कुटुम्भार्थं गुमास्ता ने जो व्यवहार किया हो तो उस व्यवहार को स्वामी न तोड़े वरन् उसको अङ्गीकार करे ।

बलाद्दत्तं बलाद्भुक्तं बलाद्यच्चापि लेखितम् ।

सर्वान्वलकृतानाथानकृतान्मनुगब्रवीत् ॥ १६८ ॥

(१६८) बात् देना, बलात् (बल पूर्वक) भोग करना, बलात् लेख लिखना आदि ऐसी बातों से जितने कार्य किये गये हैं वह सब सिद्धि नहीं होते ।

त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम् ।

चत्वारस्तूपचीयन्त विप्र आढ्योवणिह्नृपः ॥ १६९ ॥

(१६१) १-प्रतिभू २-ऋसाक्षी ३-कुस यह तीनों केवल दूसरों के धर्म बनेस भोगत हैं । १-ब्राह्मण २-साहूकार ३-प्यवहारी तथा ४-राजा यह चारों धर्म्य से साम प्राप्त करते हैं । अर्थात् पूर्व तीनों को इस कार्य से कोई लाभ नहीं और इन चारों को लाभ है । अतः पहले तीन कार्यों में सम्मिलित न होना चाहिये तथा दूसरे चारों कार्यों में प्रयत्न करना चाहिये ।

अनादेय नादनीत परिचीयोऽपि पार्थिव ।

न आदेय समृद्धौऽपि सुखममप्यर्थं सुत्सुखत ॥१७०॥

(१७) राजा अथपि निर्धन हो तो भी जो वस्तु अग्राह्य लेने के प्रयोग्य है उसे ग्रहण न करे, तथा यदि बहुत धनी भी हो तो भी ग्राह्य (लेने योग्य) वस्तु सुख भी है तो उसे अक्षय्य ग्रहण करे ।

अनादयस्य आदानादादेयस्य च वर्जनात् ।

दौर्बल्यं स्याप्यत राज्ञः स प्रत्येद च नश्यति ॥१७१॥

(१७१) ग्राह्य वस्तु को त्याग करने से तथा अग्राह्य वस्तु को ग्रहण करने से राजा की निर्बलता प्रकट होती है तथा वह राजा इस लोक में व परलोक में गान्ध को प्राप्त होता है ।

स्वादानाद्दर्णससर्गाच्चबलानां न रक्षयात् ।

बलं सञ्जायते राज्ञः स प्रत्येद च वर्धते ॥ १७२ ॥

(१७२) ग्राह्य वस्तु को ग्रहण करने अग्राह्य के त्यागन सबर्णों का शास्त्रानुसार परस्पर विवाह कराने निर्बल प्रजा की रक्षा करने से राजा बलवान होता है और वह राज्य इस लोक तथा परलोक में बढ़ता है ।

ऋ मद्यपि वर्तमान काम में साक्षी बने से लोग लाभ प्राप्त करते हैं, परन्तु यह अनुचित लाभ है ।

तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये ।

चर्तेत याम्यया वृच्या जितक्रोधी जितेन्द्रियः ॥१७३॥

(१७३) अतएव प्रिय व अप्रिय अभिलाषाओं के ध्यान को परित्याग करके अक्रोधी तथा जितेन्द्रिय होकर रहे ।

यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्कुर्यान्नराधिपः ।

अचिरातं दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥

(१७४) जो राजा मोह व प्रीतिवश अधर्म कार्य को करता है उस दुरात्मा राजा को उसके शत्रु अपने वश में कर लेते हैं । राजा के लिए पक्षपात तथा मोह व मूर्खता घृणित कार्य हैं ।

कामक्रोधौ तु संयम्य योऽर्थान्धर्मेण पश्यति ।

प्रजास्तमनुवर्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥

(१७५) जो राजा अक्रोधी, अकामी तथा जितेन्द्रिय होकर प्रजा के न्याय में रत रहता है, उसी प्रजा सदैव उसकी आज्ञा पालन करती है तथा उसके वियोग की इच्छा नहीं करती जैसे समुद्र का वियोग नदी नहीं चाहती ।

यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपः ।

स राज्ञा तच्चतुर्भागं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥१७६॥

(१७६) यदि ऋणादाता ऋणी से अपने धन को निज वल से प्राप्त करने का साधन करे और ऋणी उस वलात् का निवेदन राजा से करे तो राजा ऋणी से उस ऋण का चतुर्थांश (चौथा भाग) दण्ड स्वरूप लेवे ।

कर्मणोपि समं कुर्याद्धनिकायाधमणिकः ।

समोऽवकृष्टजातिस्तु दद्याद्धोयांस्तु तच्छनैः ॥ १७७ ॥

(१७७) यदि ऋणी ऋणदाता का स्वजाति व नीच जाति हो तथा ऋण परिशोध करने की सामर्थ्य न रखता हो तो ऋणदाता के कार्य को करके ऋण परिशोध करे । यदि ऋणी ऋणदाता से उच्च जाति का है तो वह ऋणदाता का कार्य न करे बरन् धीरे-धीरे देवे ।

अनन विधिना राजा मिथो विचदतां नृश्याम् ।

साक्षिप्रत्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत् ॥१७८॥

(१७८) इस विधि से जो विवाह परस्पर प्रीति करने वाले मनुष्यों की साक्षियों द्वारा प्रमाणित है राजा उसमें बिस्व कार्यों को समाम्य कर सत्य तत्त्व बसात्पर्य को ज्ञान करसे ।

कुस्तब्धे वृषसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि ।

महापद्मे घनिन्यर्थे निक्षेप निक्षिपेद्वपुषः ॥ १७९ ॥

(१७९) कुलीन सदाचारी धर्मज्ञाता सत्यवादी सत्ताम वाले धनी के समीप पाठी रखना चाहिये तथा विपरीत गुणों वाले को पाठी न सधे ।

यो यथा निक्षिपेद्वस्ते यमर्थं यस्य मानवः ।

स तथैव ब्रह्मीतभ्यो यथा दायस्तथा ब्रह्म ॥ १८० ॥

(१८०) जो मनुष्य जिस विधि से ऋणी को धन देवे उसी विधि से धनता धन प्राप्त करे । क्योंकि जैसे देना जैसे ही ग्रहण करना चाहिये ।

यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेप्तुर्न प्रयच्छति ।

स याच्यः प्राङ्मुखिवाकेन तन्निक्षेप्तुरसन्निधी ॥१८१॥

(१८१) यदि जिस पुरुष को थाती (निक्षेप, अमानत) सौंपी है वह मागने पर न देवे, तो राजा थाती रखने वाले से थाती के स्वामी के परोक्ष में प्रश्नोत्तर द्वारा सत्य तत्त्व परिज्ञात कर ले ।

साक्ष्यभावे प्रणिधिभिर्वयोरूपसमन्वितैः ।

अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः ॥ १८२ ॥

(१८२) साक्षी के अभाव में यदि थाती रखने वाला स्वामी व घनी राजा से धर्मयुक्त बात न कहे तो दूसरे उसके समीप थाती सौंपवादे ।

स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम् ।

न तत्र विद्यते किञ्चिदत्परैरभियुज्यते ॥ १८३ ॥

(१८३) तत्पश्चात् वह दूसरा मनुष्य अपनी थाती को उससे मांगे, यदि वह देदे तो उसे सत्यवादी जानना तथा इससे जो अन्य पुरुष (प्रथम थाती सौंपने वाला) अपनी थाती मागता था उसे मिथ्याभाषी जानना ।

तेषां न दद्याद्यदितु तद्धिरण्यं यथाविधि ।

उभौ निगृह्य दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥ १८४ ॥

(१८४) यदि वह घनी व मनुष्य दूसरी वार रखी हुई थाती को भी न देवे, जिस थाती का पूर्ण ज्ञान राजा को प्रथम से है तो राजा उससे दोनों थातियों के धन को उससे प्राप्त करे, धर्मानुकूल यह कार्य है ।

निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे ।

नृश्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ ॥ १८५ ॥

(१८५) जो वस्तु जानी हुई थाती रखी जावे वा बिना

जाती रखी जावे इस दोनों प्रकार की बातियों को इनके स्वामी के प्रतिरिक्त उनके पुत्र आदि सम्बन्धियों को न देवे ।

स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्य प्रत्यनन्तरे ।

न स राज्ञा नियोक्तस्यो न निघ्ने पुरश्च वन्दुमि ॥ १८६ ॥

(१८६) याती सौंपने के बोड़े कास परचात् उसकी मृत्यु हो गई तो वह धनी वा मनुष्य जिसके समीप उसकी याती रखी है स्वयं ही उस याती को उस पुरुष को सौंप दे जिसने उसके वन को धर्मत प्राप्त किया है । मृतक पुरुष का पुत्र तथा राजा उससे धन्य वस्तु न, ममि धर्मति यह न कहे कि मुन्हारे पास धन्य वस्तु और याती स्वरूप है उसे भी दो ।

अन्वसेनैव चान्विद्धेचमर्थं प्रीतिपूर्वकम् ।

विचार्य सस्य वा वृत्त साम्नैव परिसाधयेत् ॥ १८७ ॥

(१८७) साम उगाय जो सल से पूजकहे, के द्वारा प्रीति पूर्वक जिसको याती सौंपी गई थी उसको प्राचरण की पीर जात कर अपना धर्म विचारे ।

निधिपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्परिसाधन ।

संशुद्धे नाप्नुयात्किञ्चिद्यदि तस्मान्न संहरेत् ॥ १८८ ॥

(१८८) याती की विधि वर्णम की तथा धृष्टय वस्तु (बन्ध) को जैसी से तैसी ही देवे । मोहर को छोड़ कर उसमें से कुछ न लेवे तो किञ्चित्मात्र दोष नहीं ।

धीरेहृतं जसेनोदमग्निना दग्धमेव वा ।

ने दद्याद्यदि तस्मात्स न सहरति किञ्चन ॥ १८९ ॥

(१८९) याती जोरी गई हो वा जस द्वारा नष्ट हो गई

हो वा अग्नि द्वारा भस्म हो गई हो, तो जिसके समीप थाती रखी गई है वह न देवे, यदि उसमे से स्वय कुछ न लिया हो ।

निक्षेपस्यापहर्तारमनिक्षेप्तारमेव च ।

सर्वैरुपायैर्गन्विच्छेच्छ्रपथैश्चैव वैदिकैः ॥ १६० ॥

(१६०) थाती को अपहरण (खयानत) करने वाला वा थाती सौंपने का मिथ्या वादी इनकी (१) वेद विधि द्वारा परीक्षा लेकर सत्यासत्य को निर्णय करे ।

यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षप्य याचते ।

तावुभौ चोरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम् ॥ १६१ ॥

(१६१) जो मनुष्य थाती को नहीं देता है वा जो बिना थाती सौंपे मागता है, दोनो चोर के समान दण्डनीय हैं अथवा थाती के तुल्य घन दण्ड स्वरूप लेना चाहिये ।

निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समं दापयेद्दमम् ।

तथोपनिधिहर्तारमविशेषेण पार्थिव ॥ १६२ ॥

(१६२) गुप्त (अज्ञात, गोपनीय) तथा मुद्राकित (मोहर किये हुए) इन दोनो प्रकार की थातियो को जो नहीं देता है, उसको उन दोनो प्रकार की थाती के घन के तुल्य ही अर्थ दण्ड स्वरूप लेवे ।

उपधाभिश्चयः कश्चित्परिद्रव्यं हरेन्नरः ।

ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधैर्वधैः ॥ १६३ ॥

(१६३) जो पुरुष छल द्वारा किसी घन को अपहरण करता है- सब मनुष्यो के सम्मुख उसको, उसके सब सहायको सहित शारीरिक व आर्थिक दण्ड देकर मारे ।

निधेपो यः कृतो यन यावांश्च कुलसभिधौ ।

तावानेव स विद्ध्येयाविभ्रुवन्दरुहमर्हति ॥ १६४ ॥

(१६४) कुल की उपस्थिति में जितनी चाटी रखी है उस संख्या के विपरीत कहे तो चाटी के तुल्य मन वरु स्वल्प है । क्योंकि कृपा भाषण और चाटी को पना जाने के अपराधों का अपराधी है ।

मिथो दाय कृते येन गृहीतो मिथ एव वा ।

मिथएव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहं ॥ १६५ ॥

(१६५) साक्षी बिना जिसने चाटी रखी है वह उस बनी से बिना साक्षी के ही चाटी प्राप्त करेगा । क्योंकि बैसा देना तैसा ग्रहण (प्राप्त) करना ।

निश्चितस्य धनस्यैव प्रीत्योपनिहितस्य च ।

राजा विनिर्णयं कुर्याद्विद्यबन्त्यासघारिणम् ॥ १६६ ॥

(१६६) जो वस्तु बिना कर घषवा गिनवा कर किसी के पास चरोहर रखी जाये व जो वस्तु मुद्राक्षित (गोपनीय) कर चाटी रूप सौपी गई व जो वस्तु प्रीति पूर्वक सौपी गई है । राजा इस तीनों प्रकार की चरोहरों का इस प्रकार निर्णय करे कि चरोहरकारी को पीड़ा न पहुँचे ।

बिह्नीषीते परस्य प्य योऽस्वामी स्वाम्यसमतः ।

न त नयेत सास्यतु स्तेनस्तैनमानिनम् ॥ १६७ ॥

(१६७) यदि कोई चरोहर चरी हुई वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा बिना बेचता है तो बेचने वाले को जोर समझना चाहिये तथा उसे साक्षी न ठमझे ।

अवहार्यो भवेच्चैव मान्त्रयः पटुशतं दमम् ।

निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चौरकिञ्चिपम् ॥१६८॥

(१६८) यदि बेचने वाला उस स्वामी के कुल का हो तो

उस सौ पण दण्ड देने योग्य है । तथा यदि वश का न हो तो चोर के समान दण्डनीय है ।

अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा ।

अकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥१६९॥

(१६९) स्वामी की आज्ञा बिना जो वस्तु बेची, मोल

ली व दी-ली जाती है । वह व्यवहार विधि में अनुचित व अमान्य है अर्थात् वह वस्तु बेची हुई, मोल ली हुई, दी हुई वा ली हुई न समझना चाहिये ।

संभोगे दृश्यते यत्र न दृश्येतागमः क्वचित् ।

आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥२००॥

(२००) जिस वस्तु में उपयोग (व्यय) दीखता है किन्तु

आने का प्रमाण (लेख) कहीं नहीं देख पड़ता । तो उसमें आगम (आने का प्रमाण, लेख) ही प्रमाण है 'संभोग ही ऐसी शास्त्र मर्यादा है ।

विक्रयाद्योधनं किञ्चिद्गृहीयात्कुलसन्निधौ ।

क्रयेण स विशुद्धं हि न्यायतो लुभते धनम् ॥२०१॥

(२०१) ब्योहारी के समक्ष में हाट (पंठ) से किसी

वस्तु को मोल लिया और मोल लेना प्रमाणित हो तो न्यायानु-
कूल वह उस वस्तु का मोल लेने वाले धन का दाता है ।

अथ सूक्ष्मनार्थं प्रकृतशक्यशाश्रित ।

अदसब्धो मृष्यते राज्ञा नाटिको समते धनम् ॥२०२॥

(२०२) यदि बेचने वाले को उपस्थित न कर सके और सबके प्रत्यक्ष में वस्तु खरीदना सकारे तो राजा उसे दण्ड देवे और मोस ली हुई चीज को उसके स्वामी को जिसकी वस्तु खोरी गई है बिना दे तथा जिसने धन को वह वस्तु मोस ली गई उसना रुपया खरीदने वाले का गया ।

नान्यदन्वेन ससृष्टरूप विक्रयमर्हति ।

न चासारं न च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम् ॥२०३॥

(२०३) अन्य वस्तु में मिश्रित कर व छिटा नाम लेकर व निकट वस्तु न बेचे व कम न लोसे वा किसी गह्वित वस्तु पर रूप रग देकर न बेचे ।

अन्यां वेददर्यायिबान्या बोद्धुं कन्या प्रदीयते ।

उमे ते एक शुल्केन बहुदित्यप्रपीन्मनु ॥ २०४ ॥

(२०४) अन्य कन्या विक्रय कर अन्य कन्या देवे तो विवाह करने वाला एक ही शुल्क से दोनों कन्याओं का विवाह करे, यह मनुजी ने कहा है ।

नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न च या स्पष्टमैषुना ।

पूर्वं दीपानभिख्याप्य प्रदाता दसडमर्हति ॥ २०५ ॥

(२०५) जो कन्या व्याधि पीड़ित उगमत् कोष्ठिन तथा मेषुन योग्य न हो उसका विवाह उसने दीप प्रकृत क्रिये बिना कर देवे तो उस कन्या का धाम करने वाला दण्डनीय है ।

ऋत्विग्यद्विष्टतोयज्ञे स्वकर्मपरिहारयेत् ।

तस्य कर्मानुरूपेण देयोऽशः सह कर्तृभिः ॥ २०६ ॥

(२०६) यज्ञ में वर्ण लेकर जो ऋत्विज अपने को न करे, तो जितना कर्म किया है उतना अश ही कर्मकर्ता के साथ पावे ।

दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्म परिहापयन् ।

कृत्स्नमेव लभेतांशमन्येनैव च कारयेत् ॥ २०७ ॥

(२०७) पूर्व यज्ञ की दक्षिणा लेकर यदि रोग आदि के कारण उस कर्म को पूर्ण न कर सके तो उसको दूसरे के द्वारा करा देवे ।

यस्मिन्कर्मणि यास्तु स्युरुक्ता प्रत्यङ्गदक्षिणाः ।

स एव ता आददीत भजेरन्सर्व एव वा ॥ २०८ ॥

(२०८) व तो सारे यज्ञ करने वाले एकत्र हो, यज्ञ पूर्ण करने के पश्चात् दक्षिणा को परस्पर बांट ले व जिस कर्म की जो दक्षिणा निश्चित है वह कर्म करके वह दक्षिणा ले ले ।

रथं हरेत चाध्वयुर्ब्रह्माधाने च वाजिनम् ।

होता वापि हरेदश्वमुद्गाता चाप्यनः क्रयेः ॥ २०९ ॥

(२०९) अध्वयु रथ पावे, ब्रह्मा व होता घोडा पावे और उदगाता गाडी पावे ।

सर्वेषामधिना मुख्यास्तदर्धेनाधिनाऽपरे ।

तृतीयिनस्तृतीयांशाश्चतुर्यांशाश्च पादिनः ॥ २१० ॥

(२१०) जि यज्ञ की सौ गऊ दक्षिणा है उसके विभाग की विधि लिखते हैं—कि यज्ञ में सोलह ऋत्विग होते हैं. उनमें

चार ऋत्विग् मुख्य हैं प्रयात् होता उष्ण्युं ब्रह्मा, उद्गाता । यह चारो समय दक्षिणा का अर्घ्य भाग पाव और मित्रावरुण प्रस्तोता ब्रह्माक्षन्ती प्रस्तोता—यह चारो मुख्य ऋत्विगों का प्राणा भाग पावें । इक्ष्वामानय नयिशा अग्निबीधर प्रतिहर्वा— यह चारो मुख्य ऋत्विगी का तृतीयोश पावें । धावस्त अयन्ता पीता सव्यस्य—यह चारों मुख्य ऋत्विगो का चतुर्थोश पावें । इस स्थान पर सब को उपरोक्त विधि से दक्षिणा मिले अतः सब का प्राणा यद्यपि पचास है तो ४८ ही लेना, तब प्रथम कही हुई सख्या पूर्ण होगी ।

संभूय स्वामि कर्माणि कुर्वन्नितिह मानवै ।

अनन विप्रियोगेन कर्तव्यांशप्रकल्पना ॥ २११ ॥

(२११) प्रथम कर्म को एकत्र हो पूरा करने व से इस विधि से परस्पर विभाजित करे ।

धर्माध मन दर्ष स्यात्कर्मधिद्याधते धनम् ।

परधाध न तथा तत्स्याध द्यं तस्य तन्नुवेत् ॥ २१२ ॥

(२१२) किसी धाता ने किसी याचक को धर्मार्थ कुछ दान किया और वह उस धन को ग्रहण करके धर्म में कुछ नहीं मगाता है, तो उस धन को दानदाता उससे केर लेवे ।

यदि समाधयत्तु दर्पान्ताभेन वा पुन ।

राज्ञा दाप्य सुवर्ज स्यात्तस्य स्तैपस्य निष्कृतिः ॥ २१३ ॥

(२१३) यदि लोभ वशा यह न देवे व दाता देने की प्रतिज्ञा कर फिर न देवे और याचक बनात् धन ग्रहण कर धन में नहीं मगाता तो राजा इन दोनों से जोरी क दण्ड में एक सुधर्म सिक्का दण्ड स्वरूप लेकर दाता को देवे ।

दत्तस्वैपोदिता धर्म्या यथावदनपक्रिया ।

अत खर्घ्वं प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम् ॥२१४॥

(२१४) दी हुई वस्तु को लौटा लेने की विधि को कहा तत्पचान् वेतन न देने की विधि को कहते हैं ।

भृतो नातो न कुर्याद्यो दर्पात्कर्म यथोदितम् ।

स द्रण्ड्यःकृष्णालान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम् ॥२१५॥

(२१५) बलवान् तथा निरोगी (हृष्ट-पुष्ट) मनुष्य ने एक कार्य करना स्वीकार किया और अहङ्कार वश नहीं करता है तो राजा उससे आठ रत्ती सोना दण्ड लेवे और वेतन उसको न दे ।

आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः स न्यथाभाषितमादितः ।

स दीर्घस्यापि कालस्य तन्लभेतेव वेतनम् ॥ २१६ ॥

(२१६) कार्यकर्ता रोगग्रसित होने पर कार्य त्याग दे तथा निरोग होने पर पुनः कार्य करे, तो वह पिछले दिनों का भी वेतन पावे ।

यथोक्तमार्तः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत् ।

न तस्य वेतनं देयमन्पोनस्यापि कर्मणः ॥ २१७ ॥

(२१७) अस्वस्थ हो व स्वस्थ-हो, कार्यकर्ता जिस कार्य को स्वीकार करे और वह काय थोड़ा ही शेष रह गया है, उस शेष कार्य को न तो वह स्वयं ही पूर्ण करता है न अन्य के द्वारा पूर्ण कराता है, तो उसे शेष का कुछ न देना चाहिये ।

एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादान कर्मणः ।

अत खर्घ्वं प्रवक्ष्यामि धर्मं समयभेदिनाम् ॥ २१८ ॥

(२१८) वेतन म दे की विधि को कहा तस्यचात् प्रथम
किसी कार्य के करने में सहमत होकर उसे न करे तो उसका धर्म
कहते हैं ।

यां प्रामदंशसंधानो कृत्वा सत्येन सविदम् ।

विसर्गदेभरा स्तोभाष राष्ट्रादिप्रवाक्षयत् ॥ २१९ ॥

(२१९) जो मनुष्य किसी क्षम कार्य के करने के धर्म
गाय मगर व बेस सध द्वारा परामर्श करे तस्यचात् सोम बध
उस कार्य को न करे, ऐसे अधर्म पुरुष को राजा अपने राज्य से
निकास बाहर कर दे ।

निगृह्य दापयेष्वेन समयव्यमिचारिणम् ।

चतु सुवर्णान्यस्त्रिनष्कं रश्मत्मानं च राजतम् ॥ २२० ॥

(२२०) पूर्वोक्त मनुष्य को पकड़ कर चार सौ बण छः
निष्क तथा एक चांदी का द्यतमान दण्ड लेवे । इन सब क्री तीस
प्रथम ही कह चुके हैं ।

एतदयद्विविधिं कुर्माद्भार्मिकः पृथिवी पति ।

प्रामघातिममुहपु समयव्यमिचारिणाम् ॥ २२१ ॥

(२२१) धर्मात्मा राजा घाम जाति व समूह में प्रतिज्ञा
मङ्ग कर्त्ताओं को इन उपरोक्त विधि से दण्ड का विधान करे ।

क्रीत्वा त्रिभूयार्किकिचिपस्पेशनुशयो भवेत् ।

सोऽन्तर्दंशाहासदुद्रव्य दद्यात्पैवाददीत वा ॥ २२२ ॥

(२२२) × किसी द्रव्य के कसीदने व बेचने के पदचत्

× २२२ में दण्ड से विदित होता है कि व्योपार में फेर
कार का नियम परमावश्यक है और नियम द्वारा कपन नहीं हो
सकता । क्योंकि द्रव्य (वस्तु) की गिहृष्टता (खराब हालत)
में फेर देने का नियम है ।

उसके विषय में यह पश्चात्ताप हो कि यह व्यौपार ठीक ठीक नहीं हुआ तो दस दिन के बीच ही में लौटा देना उचित है और वह ग्रहण कर लेवे।

परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत् ।

आददानो ददाच्चैव राज्ञा दण्डयः शतानि पट् ॥२२३॥

(२२३) दस दिन के व्यतीत हो जाने पर फेर-फार नहीं होती और यदि करे तो छ सौ पण दण्ड देवे।

यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति ।

तस्य कुर्यान्नृपो दण्डं स्वयं पणवति पणान् ॥२२४॥

(२२४) जो मनुष्य दोषयुक्त कन्या का दोष न कह कर वर को कन्या-दान न देवे तो वह छयानवें पण दण्ड स्वरूप देवे।

अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयाद्द्वेषेण मानवः ।

स शतं प्राप्नुयाद्दण्डं तस्य दोषमदर्शयन् ॥२२५॥

(२२५) जो निर्दोषी कन्या को द्वेष से दोष लगावे और वह उस कन्या के उस लगाये हुए दोष को सिद्ध न कर पावे, तो वह पुरुष सौ पण दण्ड पाने योग्य है।

पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वैव प्रतिष्ठिताः ।

नोकन्यासु ब्वचिन्नृणां लुप्तधर्मक्रिया हिताः ॥२२६॥

(२२६) पाणिग्रहण सम्बन्धी वैदिक मन्त्रों का उपयोग निर्दोषी (विशुद्ध) कन्याओं के विषय में ही करना चाहिये। अकन्या (दोषयुक्त कन्या) के विषय में कही भी नहीं उपयोग किये गये। क्योंकि वैदिक संस्कारों में जो प्रतिज्ञा की जाती है वह श्रुतल-होती है और दोषयुक्त कन्याओं से प्रतिज्ञा निवाहना-असंभव है क्योंकि उसकी धर्मक्रिया लुप्त हो जाती है।

पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियते दारक्षय्यम् ।

तेषां निष्ठा तु विद्य या विद्यद्भिः सप्तमे पदे ॥ २२७ ॥

(२२७) यथाविधि पाणिग्रहण मन्त्रों द्वारा धर-बधू में जो प्रतिज्ञायें होती हैं वही विवाह का ठीक २ सक्षण है, सातवां भाँवर जो पढ़ता है उसी द्वारा विवाह की पूर्णता होती है । तब मन्तर कन्या उस मनुष्य की पत्नी हो जाती है इससे पूव नहीं ।

यस्मिन्पस्मिन्कृते कर्पे यस्मैहानुशयो भवेत् ।

तमनेन विधानेन धर्मे पथि निवेशयत् ॥ २२८ ॥

(२२८) जिस जिस कार्य के करने के पश्चात् जिसको उस कार्य में पश्चात्ताप हो उसको इस पूर्वोक्त विधान द्वारा धर्म मार्ग में नियुक्त करे ।

पशुषु स्वामिनां चैव पालनां च व्यतिक्रमे ।

विवादं सप्रवक्ष्यामि यथावद्भर्मतश्चतः ॥ २२९ ॥

(२२९) पशुधर्मों के विषय में पशु स्वामी और पशुपालकों अर्थात् ग्रहीरादि इनके विवाद को यथावत् धर्मानुक्रम कहेंगे ।

दिवा वक्तव्यता पाले रात्रौ स्वामिनि तद्वृद्धे ।

योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात् ॥ २३० ॥

(२३०) दिन में पशु चराने बालो के समीप यदि स्वामी द्वारा सोये हुए पशु की रक्षा न हो सके तो वह पशु चराने बालो अथवा भी होता है और रात्रि समय में स्वामी के घर में ग्रहीर को सोये हुए पशु की रक्षा न हो सके तो ग्रहीर अथवा भी होता है ।

गोपं धीरमृतो यस्तु स दुष्प्राश्नता धराम् ।

गोस्वाम्यनुमते मृत्यासा स्यात्प्राप्तेऽमृते मृतिः ॥ २३१ ॥

(२३१) जिस गोपाल (अहीर) का कुछ वेतन नि नहीं हुआ वह स्वामी की अनुमति से दस गऊ चरावे तो उन एक श्रेष्ठ गौ का दूध उसको वेतन मे लेना चाहिये ।

नष्टं विनष्टं कृमिभिः श्वहतं विपमे मृतम् ।

हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल एव तु ॥ २३२

(२३२) ❀ जो गऊ वा पशु खो जाये, कीड़ो से नष्ट जाये, कुत्ते मार डालें, ऊँची-नीची भूमि में पैर पडने से जाये, व पुरुषार्थ द्वारा सेवा न हो सकने से मर जाये, तो पालक (अहीर) ही उसका देने वाला है ।

विघुप्य तु हृतं चौरैर्न पालो दातुमर्हति ।

यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्यशंसति ॥ २३३

(२३२) यदि बलात्कार चोर पशु ले जावे तो उस को वह न देवे । यदि उसी समय पशु स्वामी को पशु-हरण सम्पूर्ण वृत्तान्त ज्यो का त्यो कह देवे ।

कर्णौ चर्म च बालांश्च बस्ति स्नायुं च रोचनाम्

पशुषु स्वामिनां दद्यान्मृतेष्वंमानि दर्शयेत् ॥ २३४

(२३४) पशु के स्वयं मर जाने पर पशुपालक सींग, आदि अश पशु-स्वामी को दिखा देवे तथा कान, चमडा, ब चर्बी, स्नायु (नसें) और गोरोचन स्वामी को लाकर देवे ।

❀ क्योंकि चरगाहे (अहीर) की गाय व पशु की रक्ष नियत किया जाता है, अत २३२ वे श्लोक मे उल्लिखित ह चरवाहे के आलस्य द्वारा होती है । उसका जिम्मेदार इसी कान बनाया गया है तथा जो हानि प्राकृतिक अवस्था मे हो उस जिम्मेदार पशु-स्वामी है ।

अजाविकं तु सरुद्धे शुकैः पाले त्वनापति ।

यां प्रसुह्य शुको हन्यात्पाले तत्किञ्चिप भवेत् ॥२३५॥

(२३५) भेड़ व बकरी को भेड़िया ने घेरा हो और चरवाहा उसे भेड़िये से न छुड़ावे वरन् भेड़िया बसात् उसे मार डाले तो उस पशु-बध का पाप चरवाहे को लागता है ।

सासां श्वेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो घने ।

याम्रत्प्लुत्य शुको हन्यान्न पालस्तत्र किञ्चिपी ॥२३६॥

(२३६) ❀ यदि चरवाहे की रक्षा में घन में चरता हुई भेड़ बकरी या गाय को घेर ने मार डाला हो तो चरवाहा उसके पाप का भागी नहीं हो ।

धनुश्चत परीक्षारो ग्रामस्य स्यात्समन्तत' ।

शम्यापातास्रया चाऽपि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥२३७॥

(२३७) गाय आदि पशुधर्मों के चरने के धर्म गांव के चारों ओर सी धनुष (चार सी हाथ) भूमि राजा त्याग दे (उसमें कृपि न करनी चाहिये) तथा हाथ से साठी फेंकने से जहाँ गिरे-उठनी भूमि की तिगुनी में अन्नादि न बोये और नगर के चारों ओर ग्राम की गोबर भूमि की तिगुनी भूमि छोड़ दे ।

सत्रापरिशुतं धान्यं विहित्युः पशवो यदि ।

न तत्र प्रक्षयवृद्धश्च नृपतिपशुरपिण्णाम् ॥ २३८ ॥

(२३८) यदि वहाँ छुटी हुई भूमि के समीप बाढ़ से न धिरे हुए अन्न को पशु गह कर दें तो राजा वहाँ के पशु रक्षक को दण्ड न देवे ।

❀ क्योंकि प्रथम से ही रक्षा करना चरवाहे की सामर्थ्य से परे है अतः चरवाहा उसका जिम्मेदार नहीं ।

वृत्तिं तत्र प्रकुर्वीत यामृष्टो न विलोकयेत् ।

‘ छिद्रं चारयेत्सर्वं श्वसूकरमुखानुगम् ॥ २३६ ॥

(२३६) उस क्षेत्र (खेत) के बचाने के अर्थ इतनी ऊंची बाड़ बनावे जिसको ऊँट देख न सके, सम्पूर्णा छिद्रो को बन्द करदे जिसमे कुत्ता व सूअर का मुँह उसमे न जा सके और वे अन्न को न खा सक ।

पथि चंत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः ।

स पालः शतदण्डार्हो विपलांश्चरयेत्पशून् ॥ २४० ॥

(२४०) मार्ग व ग्राम के समीपवर्ती बाड़ के घिरे हुए क्षेत्र के अन्न को यदि पशु उजाड़ें तो वह चरवाहा सौ पण दण्ड देवे तथा जिन पशुओं के साथ पशुपालक नहीं है उनको खेत का रक्षक स्वयं हटा दे ।

क्षेत्रेष्वत्पु तु पशुः सपादं पणमर्हति ।

सर्वत्र तु सदो देयः क्षत्रिकस्येति धारणा ॥ २४१ ॥

(२४१) यदि मार्ग, ग्राम आदि की समीपता से भिन्न अन्य स्थल के खेत को पशु खा जावें तो चरवाहा सौ पण दण्ड देवे और अपराधानुसार जितनी हानि हुई है उतनी पशुपालक व पशुस्वामी देवे, यह मर्यादा है ।

अनिर्दशाहां गां सूतां वृषान्देवपशुंस्तथा ।

सपालान्वा विपालान्वा न दण्डयान्मनुरब्रवीत् ॥ २४२ ॥

(२४२) चरवाहा साथ हो व न हो, ऐसी गऊ जिसे व्याये हुए दश दिन नहीं हुए है और वह दश दिन के भीतर खेत नष्ट कर दे अथवा साड़ खेत को चर ले तो अदण्डनीय है यह मनुजी ने कहा है ।

अथ त्रियम्यात्पये दण्डो मागावृदशगुणो भवेत् । २

तथाऽर्धदण्डो मृत्यानामघ्नानात्स त्रियस्य तु ॥२४॥

(२४३) बटाई के सेत क भक्ष का यदि किसान के पशुओं ने खा लिया है तो वह राज-भाग की हानि का दसगुणा दण्ड देवे और यदि किसान के नौकरों की अज्ञानता से उसकी बेटी पशु भावि द्वारा नष्ट हो जावे तो नौकर उस हानि का पच गुणा दण्ड देवे ।

एतद्विधानमासिष्टे द्दार्मिकः पृथिवीपतिः ।

स्वामिनां च पशूनां च पालनां च व्यतिक्रमे ॥२४४॥

(२४४) धर्मात्मा राजा स्वामी घरवाहा व पशु के विबाह में इस पूर्वोक्त विधान को करे ।

सीमां प्रति समुत्पन्ने विषादे ग्रामयाद्द्वयोः ।

ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकारेषु सेतुषु ॥ २४५ ॥

(२४५) सीमा विषयक दो ग्रामों के मगड़े में ज्येष्ठ (जेठ) मास में जब उनके चिन्हदि प्रकट हों तब राजा उसका निर्णय करे ।

सीमाचूचार्च कुर्वीत न्यग्रोभारवत्यकिंशुकान् ।

शाज्मसीन्सालताचार्च श्रीरिखस्वैव पादपान् ॥२४६॥

(२४६) बरगद पीपल ठाक सेमम साल ताम (ताड़) और दूध बासे वृक्षों को सीमा के चिन्ह पर लगाना चाहिये ।

गुह्मान्वेषु च विभिधाऽऽसीवःसीस्पलानि च ।

शरान्कुञ्जकगुह्मारश्च तथा सीमा न नश्यति ॥२४७॥

(२४७) गुल्म (भण्डी) बांस आदि की बाई प्रत्य

अधिक व न्यून कटीले वृक्ष, शमी, बेल, मिट्टी के ऊँचे टीले और सरकण्डे तथा कुबड़े गुल्म वाले वृक्षों में से किसी एक को लगाना चाहिये इससे सीमा नष्ट नहीं होती ।

तडागान्युदपानानि वाप्य प्रसवणानि च ।

सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २४८ ॥

(२४८) तालाब, कुआँ, बावड़ी, झरना, देवस्थान, इनमें से किसी को सीमा की भेड़ पर बनवाना चाहिये ।

उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिंगानि कारयेत् ।

सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम् ॥ २४९ ॥

(२४९) सीमा के ज्ञान में मनुष्यों में भ्रम देखकर और भी गुप्त सीमा चिन्ह सीमा पर स्थापित करना चाहिये ।

अश्मनोऽथीनि गोवालांस्तुषान्भस्मकपालिकाः ।

करीपमिष्टकांगारांश्छकरा बालुकास्तथा ॥ २५० ॥

(२५०) पत्थर, हड्डी, गऊ के बाल, भूसी, राख, कपडा, शुष्क गोबर, पक्की ईंटी के कच्चाड, पत्थर की छोटी कच्चाडिया, कोयला, रेत आदि ।

यानि चैवं प्रकाराणि कालाद्भूमिर्न भक्षयेत् ।

तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत् ॥ २५१ ॥

(२५१) * जिनको बहुत दिनों तक भूमि गला न सके, उन वस्तुओं को सीमा की सन्धियों में गुप्त रीति से रखवा देवे । यही गुप्त चिन्ह हैं ।

* दो प्रकार के सीमा-चिन्ह १-प्रकट, २-गुप्त इससे आवश्यक है कि जिससे अर्धमी और धर्मात्मा की पहिचान हो जावे क्योंकि प्रकट चिन्हों के विनष्ट होनेपर भी गुप्तचिन्ह सीमा को प्रकट कर सकते हैं ।

एतल्लिगैर्नयेत्सीमां राजा विवदमानयो ।

पूर्वमुच्यत्या च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २५२ ॥

(२५२) इस पूर्वोक्त चिन्हों और पूर्व समय के सेतु प्राप्ति तथा निरन्तर जल प्रवाह द्वारा राजा सीमा को ज्ञात करने का नियम करे ।

यदि सशय एव स्याच्छिञ्जानामपि दर्शने ।

साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमावादविनिर्णय ॥ २५३ ॥

(२५३) यदि चिन्हों के दीखने पर भी सशय हो तब साक्षियों (गवाही) के विश्वास पर ही सीमा विषयक विवाद का निर्णय करे ।

ग्रामोयकबुसानां च समच सीम्नि साक्षिण ।

प्रष्टव्य सीमच्छिञ्जानि तयोश्चैव विवादिनो ॥ २५४ ॥

(२५४) ग्राम निवासियों तथा बाड़ी व प्रतिवादी के सामने राजा की साक्षियों से सीमा के चिन्ह पूछने चाहिये ।

ते पृष्ठास्तु यथा ब्रूयुः समस्ता सीम्नि निश्चयम् ।

निवृष्णीपात्तथा सीमां सर्वास्तारचैव नामत ॥ २५५ ॥

(२५५) वे सब महाह एक मत होकर जैसा निश्चय करें राजा उसीके अनुसार सीमा को बाँधे तथा उन सब साक्षियों का नाम भी निर्णय लेख पर लिख ले ।

शिरोमिस्ते गृहीत्वाधीं स्रग्बिषो रक्षसासत् ।

सुकृतैः शापिताः स्वैस्वैर्नयेयुस्ते समञ्जसम् ॥ २५६ ॥

(२५६) वह सब सीमा सम्बन्धी साक्षी फूलमाला व सास बस्त्र धारण कर सिर पर मिट्टी का डेसा रख के तथा यह

कह कर कि यदि हम असत्य भाषण करे तो हमारा सब सुकृत निष्फल हो, ठीक-ठीक ज्यो का त्यो कहे ।

यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः ।

विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युर्द्विंशतंदमम् ॥ २५७ ॥

(२५७) सत्य साक्षी देने वाले वह लोग शास्त्रानुसार सत्य बोलने के कारण पवित्र हो जाते हैं और इसके विपरीत चलने वाले अर्थात् असत्यभाषी प्रत्येक जन दौसौ पण दण्ड देवे ।

साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः ।

सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजसन्निधौ ॥ २५८ ॥

(२५८) यदि साक्षी न मिले तो गाव के आस-पास के चार ग्रामो के जमीदार राजा के समीप बुद्धिमानों से तथा धर्म-नुकूल सीमा का निर्णय करे ।

सामन्तानामभावे तु मौलानां सीम्नि साक्षिणाम् ।

इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुषान्वनगोचरान् ॥ २५९ ॥

(२५९) यदि आस-पास के ग्राम निवासी व जमीदार न मिलें तो उसी गाव के निवासी जो अन्य ग्राम में वास करते हो उनसे पूछे, यदि ऐसे लोग भी अप्राप्त हो तो समीप के वन के वासी चरवाहो आति पुरुषो से पूछे ।

व्याघ्राञ्छाकृनिकान्गौपान्कैवर्तान्मलखानकान् ।

व्यालग्राहानुञ्छवृत्तीनामन्यांश्च वनचारिणः ॥ २६० ॥

(२६०) वे बनवासी यह हैं—व्याघ (शिकारी), शाकुनिक (चिडीमार), गोपालक (चरवाहा), मछली पकडने वाला, उच्छ्वृत्ति वाला तथा घन के अन्य वासियो से पूछ कर सीमा-विवाद का निर्णय करे क्योंकि यह सब अपने कार्यार्थ उस गाँव को जाते हुए उसकी सीमा को पहिचानते है ।

ते पृष्ठास्तु यथा म्रुयुः सीमोसंविषु लक्षणात् ।

तत्तथास्थापयेद्वाजा धर्मेषु ग्रामयोर्द्वयो ॥ २६१ ॥

(२६१) उपरोक्त मनुष्य पूर्वमे पर सीमा-सन्धि चिन्हों को जैसा वसतार्वे राजा धर्म पूर्वक दोनों गर्बियों की सीमा पर वैसा ही चिन्ह स्थापित करे ।

क्षेत्रकूपतडागानामारामस्य गृहस्य च ।

सामन्तप्रस्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णय ॥ २६२ ॥

(२६२) क्षेत्र कूप तालाब बाग घर—इन सब की सीमा का निर्णय समीपस्थ ग्राम-वासियों के कथनानुसार करना चाहिये ।

सामन्तार्षेन्मृषा म्रुयु सेती विषदतां नृणाम् ।

सर्वे पृषक्पृषग्दण्डयो राज्ञा मध्यममाहसम् ॥ २६३ ॥

(२६३) यदि विवादी मनुष्यों के सीमा-निर्णय में ग्राम निवासी न पडोसी सब मिथ्या बोल तो राजा प्रत्येक से पृषक् पृषक् मध्यम साहस दण्ड देवे और उन असत्य मापण करने वालों के कथन पर निश्चय (भरोसा) न करे ।

गृह तडागमाराम क्षेत्र वा मीपया हरन् ।

शतानि पञ्चदशस्य स्यादज्ञानाद्द्विगुणतो दमः ॥ २६४ ॥

(२६४) घर, तालाब बाग क्षेत्र इन सबको बलपूर्वक प्रपहरण करने वाले को पाच सौ पण दण्ड देवे और अज्ञान से हरण करने वाले को दो पण दण्ड देवे ।

सीमायामविपक्षार्था स्वय राजैष धर्मवित् ।

प्रदिरोद्भूमिमेतेषामुपकारादिति स्थिति ॥ २६५ ॥

(२६५) चिन्ह व साक्षी आदि सीमा का पर्याप्त प्रम
न मिलने पर धर्मात्मा राजा स्वय ही न्याय पूर्वक उस भूमि
उस मनुष्य को देवे जिसका उससे अधिक उपकार होता हो,
शास्त्र की मर्यादा है ।

एषोऽखिलेनाभिहितो धर्मः सीमाविनिर्णये ।

अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम् ॥ २६६

(२६६) यह सब सीमा-निर्णय विषयक धर्म कहे ग
अब इससे आगे कटुभाषण (गाली देना) व कटुभाषी (गा
देने वाला) के अपराध व दण्ड विधान को कहेंगे ।

शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमर्हति ।

वैश्योऽप्यर्धशतं द्वेषा शूद्रस्तु त्रधमर्हति ॥ २६७

(२६७) × अगर क्षत्रिय किसी ब्राह्मण को चोर
लपशब्द कहे तो सौ पाण दण्ड देवे । यदि वैश्य अपशब्द कहे
डेढ सौ वा दो सौ पाण दण्ड देवे । यदि शूद्र किसी ब्राह्मण
अपशब्द (गाली) कहे तो शारीरिक दण्ड पाने के योग्य है ।

पञ्चाशद्ब्राह्मणो दण्डत्रयः क्षत्रियस्याभिर्शासने ।

वैश्ये स्यादर्धपञ्चाशच्छूद्रे द्वादशको दमः ॥ २६८

(२६८) यदि ब्राह्मण किसी क्षत्रिय को अपशब्द कहे
पचास पाण दण्ड देवे, वैश्य को कहे तो पच्चीस पाण दण्ड
और यदि शूद्र को कहे तो बारह पाण दण्ड देवे ।

नोट-२६७वें व २६८वें श्लोक से मानहानि का निर्णय वि
किया है परन्तु मनुजी के मत में मान वरण से लिया गया है
गुण व कर्म के कारण होता है और वन सम्पत्ति आदिके का
मान का ध्यान रखना मनुजी के विचार के प्रतिक्ल है ।

समवर्णं द्विजातीनां द्वादशैव ध्यतिक्रमैः ।

षादेष्ववधनीयेषु तदेष द्विगुणं भवेत् ॥ २६६ ॥

(२६६) द्विजातियों में कोई अपने वर्णों में एक दूसरे पर मिथ्या दोषारोपण करे तो बाहर ही पण दण्ड देवे और यदि वर्णों से प्रथम को प्रथम (मासी) कहे तो बीस पण दण्ड देवे ।

एकप्रातिर्द्विजातीस्तु वाचा दारुस्यपापिपन् ।

शिक्षाया प्राप्नुयाच्छ्रद्धं अघन्य प्रभवो हि मः ॥२७०॥

(२७०) यदि सुद प्रवर्ति मूर्ख सेवक विज्ञान सैनिक (क्षत्रिय) व व्यापारी को प्रपण्य कहे तो उसकी जीम सेवक करमे योग्य है क्योंकि वह जिन लोगों की सेवा के हेतु नियत हुआ है उनकी सेवा के स्थान पर उनकी भ्रामहानि (अपमान) करता है ।

नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहणं कुर्वत ।

निषेप्योऽयोमया र्शकुर्न्वसभास्य दशागुण ॥२७१॥

(२७१) जो सुद 'अरे तू फलामे ब्राह्मण से नीच' ऐसा प्रपण्य ब्राह्मणों प्रादि द्विजातियों के नाम तथा जाति का संशय उच्चारण कर कहे, उसके मुँह में तप्त सोहे की दण्ड अंगुल की जीम ठोकनी चाहिये ।

धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राश्चामस्य कुर्वत ।

तप्तमासेष्येत्सैल यक्त्रे भोत्रे च पार्थिव ॥ २७२ ॥

(२७२) जो ब्राह्मण वगैरे ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश करे राजा उसके मुँह की रान में तप्त (गरम) तैल मगावे ।

श्रुतं देशं च जातिं च कर्म शारीरमेव च ।

वितथेन ब्रुवन्दर्पाद्दाप्यः स्याद्द्विशतं दमम् ॥२७३॥

(२७३) अब सवर्ण वालों के दण्डों को कहते हैं कि जो मनुष्य किसी से अहंकार वगैरह यह कहे कि तुम्हारा यह स्थान नहीं है, तुम इस देश में उत्पन्न नहीं हुए, तुम्हारी यह जाति नहीं है, तुम्हारे यज्ञोपवीत आदि कर्म नहीं हुए, राजा ऐसे दोसौ पण दण्ड देवे ।

कारणं वाप्यथवा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम् ।

तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्यो दंडं कार्पापणावरम् ॥ २७४ ॥

(२७४) जो काना व लगडा या इसी प्रकार कोई अन्य अज्ञहीन है उसको सत्य भाषण में भी अज्ञहीन न कहना चाहिये और यदि कहे तो एक कार्पापण तक दण्डनीय है ।

मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम् ।

आचारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्गुणैः ॥२७५॥

(२७५) माता, पिता, स्त्री, भाई, बेटा, गुरु, इन सबसे यदि ऐसा कहे कि तुम पातकी हो, तथा गुरु के लिए मार्ग न छोड़ने वाले हो, तो सौ पण दण्ड देवे ।

ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दंडः कार्यो विजानता ।

ब्राह्मणे साहसः पूर्वः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः ॥ २७६ ॥

(२७६) ब्राह्मण को क्षत्रिय या क्षत्रिय को ब्राह्मण अप-शब्द कहे तो ब्राह्मण को पूर्व साहस दण्ड देवे और क्षत्रिय को मध्यम साहस दण्ड देवे ।

विट्शूद्रयोरेवमेव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः ।

छेदवर्जं प्रणयनं दंडस्येति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥

(२७७) इसी प्रकार घँस्य वा शूद्र अपनी स्वजाति में अपघण्य व कठोर भावण करे तो जीम में श्रेय करने व अतिरिक्त श्रेय सब वण्ड प्रयोग करना यह शास्त्राज्ञा है ।

एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्यारुम्यस्य तन्वतः ।

अतः ऊर्ध्वं प्रब्रूयामि दण्डपारुम्यनिर्णयम् ॥२७८॥

(२७८) यह कठोर भावण व अपघण्य विषयक दण्ड विधि का यथार्थ तथा वगान किया । अब तत्पश्चात् मार-पीट विषयक दण्ड विधान को कहते हैं कि—

अन केनचिदङ्गेन हिंस्याञ्चेच्छ्रेष्ठमन्त्यजः ।

श्लेष्य्य तत्तद्देशस्य तन्मनोरनुशासनम् ॥ २७९ ॥

(२७९) अन्त्यज (चाण्डाल आदि) लोग जिस किसी अङ्ग द्वारा हिंसातिया को मारे उनका वह ही अङ्ग काट डालना चाहिये यही मनुजी की आज्ञा है ।

पाशिसुधम्य दण्डं वा पाशिक्षद्वदनमर्हति ।

पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छद्वदनमर्हति ॥ २८० ॥

(२८०) हाथ व साठी द्वारा मारे तो उसका हाथ कटवाना चाहिये यदि श्लोष वस पाँव द्वारा मारे तो पाँव कटवाना चाहिये ।

सहामनममिप्रप्सुरुक्कृष्टस्यापकृष्टञ्च ।

कृष्यां कृशाङ्गो निर्वास्यःसिकृष्यं वास्यावकृत्यैव ॥२८१॥

(२८१) नीच पुरुष अथ पुरुषों के साथ एक आसन पर बैठने की इच्छा करे तो उसकी कमर को चिन्हित कर घाम लेकर निकाल दे अथवा इस प्रकार उसके भूतङ्ग को कुछ कटवावे जिससे चिन्ह तो बन जावे परन्तु मरने न पावे ।

श्रवनिष्ठीवतो दर्पाद्द्वावोष्ठौ छेदयेन्नृपः ।

श्रवमूत्रयतो मेढ्रमवशर्धयतो गुदम् ॥ २८२ ॥

(२८२) अहंकार से नीच पुरुष श्रेष्ठो के ऊपर शूके तो उसके दोनो ओठ छेद डाले, मूत्र डाले तो लिंग (मूत्रेन्द्रिय) को काट डाले और ऊपर से अपना वायु (पद) निकाले तो गुदा छेद डाले ।

केशेषु गृह्णतो हस्तो छेदयेदऽविचारयन् ।

पादयोर्दाढिकायां च ग्रीवायां वृणेषु च ॥ २८३ ॥

(२८३) ब्राह्मण के बाल, पाँव, डाढी, ग्रीवा (गर्दन) अण्डकोष (फोतो) को पकडने वाले शूद्र के दोनो हाथो को कटवा दे । उसको कष्ट होने का विचार न करे ।

त्वग्भेदकः शतं दंध्यो लोहितस्य च दर्शकः ।

मांसभेत्ता तु पणिनङ्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः ॥ २८४ ॥

(२८४) त्वचा को छेदने वाला, रक्त निकालने वाला, इन दोनो को सौ पण दण्ड देवे तथा मांस पृथक् करने वाला छ निष्क दण्ड पावे, हड्डी तोडने वाले को देश-निकाला देवे । यह दण्ड एक सामान जानना चाहिये ।

वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगं यथा यथा ।

दथा तथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥ २८५ ॥

(२८५) सब वृक्षो व वनस्पतियो का जैसा-जैसा उपयोग करे वैसा-वैसा ही उनकी हानि पर दण्ड पावे । मार-पीट के विषय मे ऐसा ही दण्ड-विधान जानना यह शास्त्र मर्यादा है ।

मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहृते सति ।

यथा यथा महद्दुःखं दण्डं कुर्यात्तथा तथा ॥ २८६ ॥

(२८६) मनुष्यों तथा पशुओं को जैसा-जैसा दुःख दबे
वैसा-वैसा ही दण्ड पावे ।

अङ्गावपीडनार्थं च व्रथाशोषितयोस्तथा ।

समुत्थानव्ययं दाप्य सर्वदयदमवापि वा ॥ २८७ ॥

(२८७) हाथ पाँव आदि अङ्गों में खेद करने और रक्त
निकासने द्वारा पीडा पहुँचाने वाला मनुष्य उस दुष्टहृत्स मनुष्य
के स्वास्थ्य लाभ करने तक का सम्पूर्ण (अर्थात् भोजन आदि
का) व्यय देवे । यदि उस व्यय को न देवे तो वह अपराधी
पूर्ण दण्ड पावे ।

द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा ।

स तस्योत्पद्यत्तुष्टिं राज्ञे दद्य च तस्तमम् ॥ २८८ ॥

(२८८) कोई मनुष्य यदि किसी अन्य के वस्तु को धान
कर अथवा अज्ञानता में नष्ट करे तो उसे प्रसन्न व धानमिदित करे
और उस धन के तुल्य राजा को दण्ड स्वरूप देवे ।

शर्मचारिणिक्रमाद्युपु काष्ठलोष्ठमयसु च ।

मूल्यान्यश्चगुणा ददद्व पुष्पमृत्तफलेषु च ॥ २८९ ॥

(२८९) शर्मदा शर्मदे का वर्तन मिट्टी व काठ का
पात्र फूल फल-मूल इनको नष्ट करने वाला मूष्य से (उस वस्तु
से पञ्चगुणा) दण्ड स्वरूप देवे ।

यानस्य चैव यातुरथ यानस्वामिनस्य च ।

दशातिवर्तनान्याहु शेष ददद्व विधीयत ॥ २९० ॥

(२९०) सवारी सारथी सवारी के स्वामी को दस
स्वान पर दण्ड न दत्ता चाहिये अथ समय पर दण्ड देना
चाह्य है ।

छिन्ननास्ये भग्नयुगे तिर्धकप्रतिमुखागते ।

अक्षभंगे च पानस्य चक्रभंगे तथैव च ॥ २६१ ॥

(२६१) नाथ व जुआ के टूटने, ऊचे-नीचे मार्ग के कारण रथ आदि टेढा हो गया हो व सम्मुख कोई स्कावट आ गई, हो, घुरा टूट गया हो, पहिया टूट जाय ।

छेदने चैव यन्त्राणां योक्त्ररश्म्योस्तथैव च ।

आक्रन्दे चाप्युपैहीति न दण्डं मनुर्ब्रवीत् ॥२६२॥

(२६२) रथ के बन्धन टूट जावे, रास (जेबडा) टूट जाय, कोडा टूट जाय तथा सारथी बचो-हटो कह रहा हो, तो रथी, सारथी, रथ-स्वामी किसी को दण्ड न देना चाहिये ।

यत्रोपवर्तते युग्यं वैगुण्यात्प्राजकस्य तु ।

तत्र स्वामी भवेद्दण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम् ॥२६३॥

(२६३) जिस स्थान पर सारथी की मूर्खता से रथ इधर-उधर चले व उलट जावे, उसमे किसी की हानि होने पर रथ का स्वामी अशिक्षित सारथी नौकर रखने के कारण दो सौ पण दण्ड देवे ।

प्राजकश्चेद्भवेदाप्तः प्राजको दण्डमर्हति ।

युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सर्वेदण्ड्याः शतं शतम् ॥२६४

(२६४) जो सारथी रथ हाँकने मे कुशल हो और किसी की मृत्यु हो जावे तो सारथी दो सौ पण दण्ड देवे । यदि सारथी कुशल न हो तो अशिक्षित सारथी को नौकर रखने के अपराध मे रथ का स्वामी सारथी तथा रथी (रथ का सवार) यह सब सौ सौ पण दण्ड देवे ।

सषेत्तु पयि सरुद्ध पशुभिर्भा रयेन वा ।

प्रमापयस्त्र खमृतस्तत्र दण्डोऽविभारित ॥ २६५ ॥

(२६५) यदि वह सारथी सामने घायल रथ के आ जाने व पशुओं व भय से धिरे हुए मार्ग में रथ पीछे न हटा कर कोड़ा मार कर रथ को आगे बढ़ाने के प्रयत्न में किसी की प्राण हानि हो जावे तो वह बिना विचारें दण्डनीय है अर्थात् राजा उसको अवश्य दण्ड देवे ।

मनुष्यमारस्य चित्त चौरवत्किञ्चिप मवेत् ।

प्राक्समृत्सु मद्भस्वर्षं गोगजोत्सृह्यादिषु ॥ २६६ ॥

(२६६) मनुष्य को हुसम करने में स्वक चौर की भाँति कोड़ा हाथी ऊट आदि बड़े पशुओं के दण्ड करने में गण्य होता है और उत्तम साहस वण्ड पाने के योग्य है । गऊ, मध्यम साहस' वण्ड देवे ।

क्षुद्रकायां पशूनां तु हिंसायां द्विशतो दमः ।

पञ्चाशत्तु मधेवृद्धस्य शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ २६७ ॥

(२६७) और छोटे-छोटे पशुओं की हिंसा करने में दो सौ पण दण्ड देवे । उत्तम मृग तथा पक्षियों की हिंसा करने में पचास पण वण्ड देवे ।

गन्धमात्राधिकानां तु दंडं स्यात्पञ्चमापिकः ।

मापिकस्तु मधेवृद्धस्य रयस्यकरनिपाठते ॥ २६८ ॥

(२६८) गंधा बकरी भेड़ के भर जाने पर पाँच मासे चादी वण्ड है तथा कुत्ता व सूअर के भर जाने में एक मासा वण्ड हो ।

भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेप्यो भ्राता च सोदरः ।

प्राप्तापराधास्ताड्या म्यु रज्ज्वा वेणुदलेन वा ॥२६६॥

(२६६) स्त्री, पुत्र, दास, भृत्य, छोटा सहोदर, भाई (अनुज), शिष्य, इनसे अपराध होने पर रस्सी व बास की लकड़ी (छड़ी) से ताडन करे ।

पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमांगे कथञ्चन ।

अतोऽन्यथा तु प्रहरन्पाप्तः स्याच्चौरक्लिप्तपम् ॥३००॥

(३००) परन्तु सिर को छोड़कर पीठ की ओर मारे, इससे विपरीत प्रहार करने वाला चोर के पाप को पावे ।

एषोऽखिलेनाभिहितो दंड पारुष्यनिर्णये ।

स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधिदंडविनिर्णये ॥ ३०१ ॥

(३०१) यह सब पूर्णतया मार-पीट के अपराध के दण्ड निर्णय को कहा, अब चोर के दण्ड-निर्णय-विधि वर्णन करेंगे ।

परमं यत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रहे नृपः ।

स्तेनानां निग्रहादस्यशो राष्ट्रं च वर्धते ॥ ३०२ ॥

(३०२) चोरो के पकडने और उनको दण्ड देने का बडा प्रयत्न करे क्योकि चोरी आदि दुष्कर्मों के निग्रह (रोकने) से राजा का यश और राज्य बढाता है ।

अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः ।

सत्रं हि वर्धते तस्य सदैवाभयदक्षिणम् ॥ ३०३ ॥

(३०३) जो राजा उत्तम प्रबन्ध द्वारा प्रजा को अभय दान देता है, वह सदा पूज्य है क्योकि उसका (राज्य रूप) यज्ञ जिसकी दक्षिणा अभय दान ही बढता है ।

सर्वथा धर्मपह् मागो राष्ट्रो भवति रक्षतः ।

अथमादपि पट्टभागो मन्वत्यस्य क्षरक्षतः ॥ ३०४ ॥

(३०४) सब प्रकार प्रजा की रक्षा करने वाले राजा प्रजा के धर्म का छटा भाग पाता है और रक्षा न करने वाले राजा को प्रजा के अधर्म का छटा भाग मिलता है ।

यदधीते यद्यजत यद्वृदाति यदर्चति ।

तस्य पट्ट् भागमोग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात् ॥ ३०५ ॥

(३०५) प्रजा जो अध्ययन यज्ञ दान तथा धर्म धर्म करती है उसका पुष्प का छटा भाग सुरक्षक राजा को प्राप्त होता है ।

रक्षन्वर्मेण भूतानि राजा वर्ष्याश्च घातयन् ।

यज्जतेऽहरर्ष्यञ्चै सहस्रशतदक्षिणैः ॥ ३०६ ॥

(३०६) सब प्राणियों की धर्मानुष्ठान रक्षा करता हुआ और वर्षाभीय अपराधियों को उचित दण्ड देता हुआ राजा मासो सास मुद्रा दक्षिणा वाले यज्ञ को प्रति दिन करता है ।

योरक्षन्बलिमादय कर दृक्क च पार्ष्णिबः ।

प्रतिमाग च दडे च स सुधा नरकं व्रजत ॥ ३०७ ॥

(३०७) जो राजा प्रजा की रक्षा न करता हुआ प्रजा से धर्म का छटा भाग कर तथा सुल्क (शुद्धी) धारि और दण्ड के भाग को ग्रहण करता है वह राजा क्षीघ्र ही पुर्गति को प्राप्त हो नरक में जाता है ।

जो राजा का कर धारि सुप्रबन्ध व सुव्यवस्था के धर्म है । जो राजा न्याय तथा रक्षा न करते हुए कर धारि ग्रहण करता है वह राजा नहीं बल्कि वस्यु (शत्रु) है ।

अरक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम् ।

तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम् ॥ ३०८ ॥

(३०८) यदि राजा प्रजा की रक्षा न करता हुआ कर आदि को ग्रहण करता रहे तो वह राजा सब लोगों के सब पापों को पाता है अर्थात् अपयश, अपमानादि दुःख भोगता है ।

अनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं चिप्रलुम्पकम् ।

अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिम् ॥ ३०९ ॥

(३०९) शास्त्र-मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, नास्तिक, प्रजा की रक्षा न करने वाला, प्रजा को पीड़ित करने वाला प्रजा की रक्षा न करके कर आदि को ग्रहण करने वाला राजा अधोगति को प्राप्त होता है ।

अधार्मिकं त्रिभिर्न्यायैर्निगृह्णीयात्प्रयत्नतः ।

निगोधनेन वधेन विविधेन वधेन च ॥ ३१० ॥

(३१०) पापियों को कारागार में रखने, बेड़ी आदि डालकर बाधने तथा विविध प्रकार का शारीरिक व आर्थिक दण्ड देकर इन तीन उपायों से यत्नपूर्वक उनका निग्रह करे अर्थात् उक्त तीन उपायों द्वारा पापी पुरुषों का पाप छुड़ावे ।

निग्रहेणहि पापानां साधूनां संग्रहेण च ।

द्विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥ ३११ ॥

(३११) निश्चय करके पापियों (अपराधियों) को दण्ड देने तथा साधू-महात्माओं की रक्षा करने से राजा यज्ञ करनेवाले (अग्निहोत्री) ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यके समान पवित्र होता है ।

अन्तर्ष्यं प्रसूया नित्य चियतां कार्थिखां नृखाम् ।

— बालबुद्धातुराखां च दुर्वतां हितमात्मन ॥ ३१२ ॥

(३१२) अपना हित चाहने वाला राजा बाकी प्रति बाकी वालक बूढ़ धातुर (दुर्बी) पुरुषों के वचन को जो वे कष्ट समय आक्षेप करते हुए मना-बुरा कहें उसे सहन कर समा करे क्योंकि—

यः क्षिप्तो मर्पयत्यार्तेस्तेन स्वर्गे महीयते ।

यस्त्वैश्वर्याभि समत नरक तेन गच्छति ॥ ३१३ ॥

(३१३) दुर्बी पुरुषों (धातुरों) के कठोर आक्षेपों की सुमकर जो राजा सहन करता है वह स्वर्ग में जाता है और जो प्रसूता के मद में सहन नहीं करता है वह नरक में जाता है अर्थात् उस आचरण से दुर्गति पाता है ।

राज स्तेनेन अन्तर्ष्यो मुक्तकेरोन धावता ।

आचक्षायैन तस्तेपमेवकर्मास्मि शाधिमाम् ॥ ३१४ ॥

(३१४) ब्राह्मण का सोना छुपने वाला जुमे छिद्र (नगे मूढ) राजा के सम्मुख धीरे कर जावे और अपराध को स्वीकार करे ।

स्कन्धेनादाय मुसल सगुर्बं वापि स्वादिरम् ।

शक्ति चोभयतस्तीचरोमायर्सं दशमेव वा ॥ ३१५ ॥

(३१५) मुसल साठी व छर का डब्बा दोनो और तीक्ष्ण धार वाली बरखी व लोहे का डब्बा कन्धे पर रख कर इस प्रकार कहे कि 'मैं ऐसा कर्म करने वाला हूँ मुझको इससे दण्ड दीजिये' ।

शामनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते ।

अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्बिषम् ३१६॥

(३१६) राजा उसे दण्ड दे अथवा छोड़ दे तो वह पापी चोरी के पाप से छूट जाता है । और यदि राजा दयालुता के कारण उसे दण्ड न दे तो चोर के पाप को राजा पावे ।

अन्नादे भ्रूणहा मार्षि पन्थौ भार्यापचारिणी ।

गुरौ शिष्यश्च याज्यश्चस्तेनो राजनि किल्बिषम् ३१७॥

(३१७) भ्रूणहत्या (गर्भपात) करने वाला व्यभिचारिणी स्त्री, शिष्य यज्ञ करने वाला तथा चोर यह सब अपने पाप को यथाक्रम भोजन करने वाले, पति, गुरु, राजा इनमें घाते हैं अर्थात् इनको पाप लगता है ।

राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः ।

निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१८ ॥

(३१८) जिस प्रकार पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं, उसी प्रकार अपराधी व पापी राजा से दण्डित होने से पवित्र होकर स्वर्ग में जाते हैं ।

यस्तु रज्जुं घटं कृपाद्वरेद्भिधाच्च यः प्रपाम् ।

स दण्डं प्राप्नुयान्मार्षं तच्च तस्मिन्समाहरेत् ॥ ३१९ ॥

(३१९) कृप पर से रस्सी व घड़ा चुराने वाला, देव शाला व घर्मशाला (प्याऊ) को तोड़ने वाला एक माशे सोने के दण्ड को प्राप्त हो । और वही घड़ा व रस्सी को उसी कुआँ पर रख दे ।

धान्यं दशम्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः ।

शेषेष्यैकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥ ३२० ॥

(३२०) दद्या + कुम्भ से अधिक धन चुराने वाले को धारीरिक दण्ड देवे परन्तु चोर व स्वामी के मामादि वसा को देखकर दण्ड को देना चाहिये । यदि इस संख्या के न्यून धन की चोरी करे तो चोरी किये धन का ग्यारह गुना दण्ड स्वल्प देवे और चोरी जाने वाली वस्तु को उसका स्वामी पावे ।

तथा धरिमयेयानां शतादस्यधिकं वष ।

सुवर्षरजसादीनामुषमानां च वाससाम् ॥ ३२१ ॥

(३२१) सोना, चादी पट वस्त्र इन सबों की सौ गडे से ऊपर चुराने वाले को भी धारीरिक दण्ड देना चाहिये । वेष काल चोर व स्वामी की जाति मानादि को देख दण्डाज्ञा देना चाहिये । इसी प्रकार उरोक्त श्लोक में भी जानना ।

पञ्चाशतस्त्वस्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते ।

शोषे त्वेकादशगुर्षा मूल्यादृदयडे प्रकल्पदत् ॥ ३२२ ॥

(३२२) पचास गडे (पल) से अधिक और सौ गडे (पल) से न्यून चुराने में हाथ काटना चाहिये । और यदि पचास पल से न्यून चुराने तो वस्तु के मूल्य का ग्यारह गुना अधिक धन दण्ड देवे ।

पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः ।

सूक्ष्मानां चैव रत्नानां हरणे बधमर्हति ॥ ३२४ ॥

(३२४) कुलीन पुरुष वा विशेष कर बडे कुल की स्त्रियां तथा उन्नत उन्नत रत्नों में से किसी एक के चुराने व हरण कर गुप्त कर देने से बध करने योग्य होता है ।

+ १० गडे पसा के तोल को श्रेण बहते हैं और २० श्रेण वा एक कुम्भ होता है ।

महापशूनां हरणे शस्त्राणामौषधस्य च ।

कालमासाद्य कार्यं च दण्डं राजा प्रकल्पयेत् ॥३२४॥

(३२४) हाथी, घोडा, भैंस, गऊ आदि बड़े-बड़े पशु व शस्त्र और घृत आदि औषधिया इनमे से किसी एक को चुराने मे काल तथा कार्य को देखकर राजा तीनो दण्डो मे से उचित दण्ड को नियत करे ।

गोषु ब्राह्मणसंस्थासु ह्युरिकायाश्च भेदने ।

हैशूनां हरणे चैव सद्यः कार्योऽर्धपादिकः ॥ ३२५ ॥

(३२५) ब्राह्मण की गऊ अपहरण कर लेने, सवारी के हेतु वांछ गऊ को छुरी छेदने तथा इसी प्रकार बकरा, भेड आदि पशुओ के चुराने मे तुरन्त आधा पाव काटने का दण्ड देना चाहिये ।

सूत्रकार्पासक्रिणवानां गोमयस्य गुडस्य च ।

दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥३२६॥

(३२६) सूत कपास (रुई), महुआ, गोबर, गुड, दही, दूध, मट्ठा, जल, तृण (घास) आदि ।

वेणुवैदलभांडानां लवणानां तथैव च ।

मृन्मयानां च हरणे मृदो भस्मन एव च ॥ ३२७ ॥

(३२७) मोटे वास के टुकडे से बना हुआ जल पात्र, मिट्टी का पात्र, राख, लवण (नमक) ।

मत्स्याणां पक्षिणां चैव तैलस्य च घृतस्य च ।

मांसस्य मधुनश्चैव यच्चान्यत्पशुसंभवम् ॥ ३२८ ॥

(३२८) मछली, पक्षी, तेल, घी, मास, मधु, विविध

मृग-वर्म वारहसिगा के सींग आदि व अन्य पदार्थ को व्यवहार में आते हैं ।

अन्येषां वैवमादीनां मद्यानामोदनस्य च ।

पक्वाभानां च सर्वेषां तन्मूल्याद्द्विगुण्यो दमः ॥ ३२६ ॥

(३२६) इसी प्रकार अन्य पदार्थ हैं अर्थात् मद्य मोदक (लड्डू) दास भात आदि पक्वानो में से किसी एक वस्तु के चुराने में उस वस्तु के मूल्य का दुगुना दण्ड होना चाहिये ।

पुष्पेषु हरितेषु धान्ये गुण्मवस्त्रीनगेषु च ।

अन्येष्वपरिपूतेषु दंडस्यात्पञ्चकृष्यल ॥ ३३० ॥

(३३०) फूलों हुए घेत में स्थित हरित धान्य और गुल्म सता वृक्ष आदि के फल व एक मनुष्य के से आने योग्य धान्य इनमें से किसी एक वस्तु के चुराने में दण्ड काठ को देखकर पाँच कृष्यास अर्थात् एक माशा सोना चाँदी दण्ड देवे ।

परिपूतेषु धान्येषु घाकमूत्रफलेषु च ।

निरन्वये शतं दंड सान्वयेऽर्धशतदमः ॥ ३३१ ॥

(३३१) परिपक्व तथा शोधित धान्य घाक मूत्र व फल इनमें से किसी एक वस्तु के चुराने में यदि चोर स्वामी के बख्त का हो अर्थात् स्वदेशवासी आदि सम्बन्ध रखता हो तो पचास पण दण्ड और सम्बन्धी व वंश का न हो तो सौ पण दण्ड देवे ।

स्वास्वाहसं सन्वयवत्प्रसभ कर्म यत्कृतम् ।

निरन्वयं भवेस्तस्य हत्वापन्वयसत् चपत् ॥ ३३२ ॥

(३३२) स्वामी के सम्मुख वृद्धम्बिया के समान वस

पूर्वक वस्तु ले जावे तो वह साहस कहाता है और यदि स्वामी के पीठ पीछे सम्बन्धियों से भिन्न पुरुष ले जावे और चुरा कर मुकर जाये तो वह चोरी कहलाती है ।

यस्त्वेतान्युपक्लृप्तानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः ।

तमाद्य दंडयेद्राजा यश्चाग्निं चोरयेद्गृहात् ॥३३३॥

(३३३) जो मनुष्य दूसरे की वस्तु चुरावे, यज्ञशाला से वा अग्निहोत्र की अग्नि तथा गृह की अग्नि चुरावे तो वह प्रथम साहस दण्ड पावे और अग्नि के द्वितीय बार स्थित करने में जो कुछ व्यय हो वह अग्नि के स्वामी को देवे ।

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते ।

तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ ३३४ ॥

(३३४) जिस-जिस अङ्ग से दूसरे-दूसरे की वस्तु को चुरावे उस अङ्ग को कटवा लेना चाहिये जिससे फिर ऐसा काम न करे ।

पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ।

नादण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मेन तिष्ठति ॥३३५॥

(३३५) पिता, आचार्य, सुहृदय, माता, स्त्री, पुत्र और पुरोहित, इनमें से जो स्वधर्म में स्थित न हो वह दण्डनीय है अर्थात् यह भी दण्ड योग्य है । राजा के समीप अपराधी होने की दशा में सब मनुष्य दण्ड देने योग्य हैं ।

कार्पापणं भवेद्दण्डयो यत्रान्यः प्राकृतो जनः ।

तत्र राजा भवेद्दण्डयः सहस्रमिति धारणा ॥३३६॥

(३३६) जिस अपराध में राजा के अतिरिक्त साधारण

लोक कर्षण दण्ड के योग्य होते हैं उस अपराध में राजा सहस्र पण दण्ड पाने के योग्य है । ऐसी घास्य मर्यादा है ।

अष्टापथ तु शूद्रस्य स्तये भवति किञ्चिपम् ।

षोडशैव तु वैश्यस्य द्वार्षिणत्पत्रियस्य च ॥ ३३७ ॥

(३३७) जो शूद्र, वैश्य क्षत्रिय तथा ब्राह्मण वस्तुओं के मने या बुरे गुणों से धनभिन्न हैं उनको चोरी में वैसा दण्ड कहा है उसका षठगुना सोसह गुना बत्तीस गुना ।

ब्राह्मणस्य चतुःपटिः पूर्य वापि शर्तं भवेत् ।

द्विगुणा चतुःपटिस्तद्दोषगुणविद्धि सः ॥ ३३८ ॥

(३३८) चौसठ गुना सौ गुना एक सौ षट्ठाईस गुना दण्ड क्रमानुसार १-शूद्र २-वैश्य ३-क्षत्रिय ४-ब्राह्मण को देना चाहिये । जब वह वस्तुओं के दोष-गुण को जानत हो ।

धानस्पर्म्यं मूलफलं दार्ढन्यर्थं तथैव च ।

तर्षं च गोम्यो ग्रासार्थमस्तेर्यं मनुजमधीत् ॥ ३३९ ॥

(३३९) जो मूल आदि धरलक वसा में है उस मूल का मूल फल फूल यज्ञ समिधा (हवन के लिए मकड़ी) तथा गऊ के हेतु तृण आदि इन सब को सब वह अदण्डनीय है क्योंकि मनुजी के विचार से यह अघर्म नहीं है ।

याऽदत्तापानिनो हस्ताग्निप्सेत ब्राह्मणो धनम् ।

याअनाध्यापननापि यथा स्तनस्तथैव सः ॥ ३४० ॥

(३४०) जो ब्राह्मण चोर को पकड़ कर तथा उसके द्वारा यज्ञ कराने द्रव्य देने की इच्छा रखता है । वह ब्राह्मण भी चोर के समान है ।

द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिर्द्वाविज् द्वे च मूलके ।

आददानः परचेन्नान्न दण्डं दानुमर्हति ॥ ३४१ ॥

(३४१) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यह सब देश पर्यटन कर रहे हो और इनके पास भोजनार्थ कुछ न हो, यदि यह मार्ग के समीपी खेत के दो गन्ने, दो मूली ले लेवे तो अदण्डनीय है ।

असंदितानां मंदाता संदितानां च मोक्षकः ।

दापाश्वरथहर्ता च प्राप्तः स्याच्चौरकिन्विपम् ॥३४२॥

(३४२) दूमरे के छूटे हुए घोड़े को अहकार वग वाघने वाला व घुडसाल में बधे हुए घोड़े आदि को छोड़ने वाला और दास, घोडा, रथ इनको हरने वाला चोर के पाप को पाता है ।

अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम् ।

यशोऽस्मिन्प्राप्नुयान्लोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥३४३॥

(३४३) इस विधि से चोरो को दण्ड देने वाला राजा इस लोक में यश वा परलोक में उत्तम सिद्धि को पाता है ।

ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेभ्युर्यशश्चाक्षयमव्ययम् ।

नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ३४४ ॥

(३४४) इन्द्र की पदवी प्राप्त करने का इच्छुक तथा अक्षय यश प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाला राजा पक्षपात से भी बलात्कार करने वाले मनुष्य की सहानुभूति न करे ।

वाग्दुष्टात्तस्कराच्चैव दंडेनैव च हिंसतः ।

साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ३४५ ॥

(३४५) वाग्दुष्ट (अपशब्द कहने वाला) व चोर व डण्डे से मारने वाला, इन सभी से साहस (सन्सर्ग) करने वाला पापी है ।

साहसे वर्तमाने तु यो सर्पयति पार्थिव, ।

स विनाशं ब्रजत्याशु विद्वेष चाभिगच्छति ॥३४६॥

(३४६) जो राजा बलात्कार करने वाले मनुष्य के अपराध को सहन कर लेता है अर्थात् उसे दण्ड नहीं देता वह धीमे ही नाश व विद्वेष को पाता है ।

न मित्रकारखात्राञ्च विपुलाङ्गा वनागमात् ।

समुत्सृजेत्साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥ ३४७ ॥

(३४७) सब प्राणियों को भय देने वाले व बलात्कार करने वाले मनुष्यसे अधिक भन मित्तने के कारण कमी उसे क्षमा न करे अर्थात् वह अधिक भन देने तो भी उसे दण्ड देवे ।

शस्त्र द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मा यत्रोपरुष्यते ।

द्विजातीनां च वर्तानां विप्लवे क्लान्तकारिते ॥३४८॥

(३४८) बर्म नाश हो जाने की वधा में विप्लव काल में ब्राह्मण कात्रिय वैश्य तीनों वर्ण अस्त्र-शस्त्र धारण करें ।

आत्मनश्च परित्राणो दक्षिणानां च संगरे ।

स्त्रीभिर्प्राभ्युपपत्तौ व ज्ञधर्मेण न दुष्यति ॥ ३४९ ॥

(३४९) + आत्मा को परित्राणार्थ (कष्टसे बचने के हेतु) यज्ञ करने के हेतु सामग्री एकत्र करने तथा स्त्रियो व ब्राह्मणों को कष्ट-मुक्त के हेतु, किसी को मारने से पाप नहीं होता ।

+ इस ३४९ वें श्लोक में जो मारने की आज्ञा दी है उसका तात्पर्य यह है कि इन वधाओं में जिनके बिचार दूसरों की रक्षा करने के हाते हैं किसी की हानि पहुँचाने के नहीं तथा जो अपने-आप से सम्बन्ध नहीं रखते हैं अतः मनुजी ने इसको पाप नहीं माना ।

गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ ३५० ॥

(३५०) चाहे गुरु व बालक, वृद्ध ब्राह्मण व विद्वान् ही क्यो न होवे परन्तु आतताई होने की दशा मे बिना सोचे उसको अवश्य बध करे । कुछ विचार न करना चाहिये ।

नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ।

प्रकाशं वा प्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ ३५१ ॥

(३५१) आतताई के बध मे उसके मारने वाले को पाप नही होता, जो मनुष्य प्रकट व अप्रकट (गुप्त) दशा मे क्रोधोन्मत्त होकर मारता है उसको वैसा ही क्रोध का फल मिलता है ।

परदाराभिमर्शेषु प्रवृत्ताननृन्महीपतिः ।

उद्वेगजनकरैर्दण्डैश्चिन्नयित्वा प्रवासयेत् ॥ ३५२ ॥

(३५२) जो मनुष्य परस्त्री-रमण (दूसरे की स्त्री से मैथुन) करने वाले हैं, उत्साह (उद्वेग) दिलाने वाले हैं, दण्ड द्वारा उनके शरीर को छिन्न (चिन्हित) करके देश से निकाल दे ।

तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः ।

येनमूलहरोऽधर्मः - सर्वनाशाय कल्पते ॥ ३५३ ॥

(३५३) ससार मे स्त्रियो के व्यभिचार से वर्णसङ्कर उत्पन्न होते हैं और इस वर्णसङ्कर से मूल नाशक अधर्म उत्पन्न होता है जिससे सृष्टि का नाश होता है ।

❀ आतताई के अर्थ विश्वासघाती व कृतघनी के हैं अर्थात् अग्नि लगाने वाला, विप देने वाला, धन सम्पत्ति, धान्य, खेत, स्त्री का अपहरण करने वाला आदि आतताई कहलाते हैं ।

परस्य पत्न्या पुरुषं समापां योमयन्तः ।

पूर्वमाचारिता दापै प्राप्नुयात्पूर्वसाहसम् ॥ ३५४ ॥

(३५४) परस्त्री से एकान्त में जो मनुष्य बाँधे करता है और प्रथम ही से उसका दोष प्रकट है उस मनुष्य को पूर्व साहस दण्ड देना चाहिये ।

यस्त्वेनाधारित पूर्वमभिभाषेत क्रूरखात् ।

न दाप प्राप्नुयात्किञ्चिन्न हि तस्य व्यति क्रम ॥ ३५५ ॥

(३५५) जिस मनुष्य का दोष प्रथम कभी ज्ञात नहीं हुआ यदि वह किसी विशेष कारण वश परस्त्री से एकान्त में परामर्श करता है तो वह अपदण्डनीय है ।

पगस्त्रिय योऽभिवरेत्तीर्थेऽरण्ये बनेऽपि वा ।

नदीनां वापि समेदं स सप्रहयमाप्नुयात् ॥ ३५६ ॥

(३५६) जिस में जाने मार्ग तथा पास पूज्य युक्त तथा मनुष्यों से बिलग पर जो मार्ग के बाहर हो वन तथा नदी सगम इन स्थानों में परस्त्री से वार्तालाप व परामर्श करे तो सप्रहय का दण्ड पाने योग्य है ।

उपचारक्रिया कलि स्पर्शो भूषणधाममाम् ।

मह स्वप्नधामन चैव मय सप्रहय स्मृतम् ॥ ३५७ ॥

(५७) मामा पहनना सुगन्धित वस्तु इन स्थानों में स्पर्श तथा आभूषण भजन स्पर्श करना हास्य करना प्राप्तिगम प्राप्त करना एवं जग्या पर बैठना यह सब सप्रहय कहलाता है । इनका मनुष्य आदि श्रुतियां न कहा ।

स्त्रिय स्मृताऽऽय स्मृता वा मर्षदेक्षया ।

परम्परस्यानुमत मय सप्रहय स्मृतम् ॥ ३५८ ॥

(३५८) जिस पुरुष ने स्त्री की जघादि को स्पर्श किया (छुआ) ग्रहण किया (पकड़ा) और पुरुष ने उस पर क्रोध न किया तो मनु अदि ऋषियों के विचार से यह पारस्परिक प्रीति सग्रहण कहलाती है ।

अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमर्हति ।

चतुर्णामपि वर्णानां दारा रच्यतमाः सदा ॥ ३५९ ॥

(३५९) ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जाति वालों को सग्रहण के अपराधी होने पर प्राणदण्ड देना चाहिये, क्योंकि चारों वर्णों की स्त्री रक्षणीय है ।

भिक्षुका वन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा ।

संभाषणां सह स्त्रीभिः कुर्युर्प्रतिवारिताः ॥ ३६० ॥

(३६०) भिक्षुक, वन्दी (भाट), दीक्षित (जिसने यज्ञार्थ दीक्षा ली है), पाचक (रसोई बनाने वाला) यह सब भिक्षा आदि अपने कर्मों के हेतु स्त्रियों से सम्भाषण (वार्तालाप) करें तो इनको न बर्जना चाहिये ।

न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धिः समाचरेत् ।

निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्णं दण्डमर्हति ॥ ३६१ ॥

(३६१) एक बार वर्जित करने पर भी यदि वह मनुष्य उस स्त्री से सम्भाषण करे तो एक स्वर्ण (१६ माशा) सोना दण्ड देवे ।

नैषु चारुण दारेषु विधिर्नात्मोपजीविषु ।

सज्जयन्ति हि नारीर्निगूढाश्चारयन्ति च ॥ ३६२ ॥

(३६२) नट तथा चारुण (गाने-बजाने वाले) की स्त्री

तथा जो पुरुष स्त्री के दुराचरण द्वारा ही विवाह करते हैं उनकी स्त्रियो के हेतु उपरोक्त नीति का नियम नहीं है। क्योंकि वह लोग स्वयं ही अपनी स्त्रियो को गुप्त रीति से सब स्थानो पर भेजते हैं।

किञ्चिदेव तु दाप्य स्यात्समापो वामिराचरन् ।

प्रैप्यासु चैकमच्छासु रह प्रवज्जितासु च ॥ ३६३ ॥

(३६३) परन्तु तो भी वे परस्त्रियो हैं मत उन्हीके साथ वार्तालाप करने से वह पुरुष किञ्चित् दण्ड पावे। दासी तथा एक घर में जिस स्त्री को रोक रक्खा है वह सम्प्राप्ती की स्त्री इन्ही के साथ सम्भाषण करने वाला किञ्चित् दण्ड पावे।

योऽकामां दूषयेत्कन्यां स मघो बधमर्हति ।

सकामां दूषयन्तुभ्यो न वर्धं प्राप्नुयाचरः ॥ ३६४ ॥

(३६४) जो स्वजाति कन्या कामेच्छा नहीं करती और पुरुष उससे काम-क्रीडा करता है उसके मूत्रेन्द्रिय को तुरन्त ही छिन्न काट देना चाहिये। परन्तु छे बाह्यण को यह दण्ड नहीं देना चाहिये क्योंकि उसे शारीरिक दण्ड देना वजित है। जो मनुष्य कामच्छित स्वजाति कन्या से रति करे, उसे मूत्रेन्द्रिय छिन्न करने का दण्ड न देवे।

कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टे न किञ्चिदपि दापयेत् ।

जधन्य सेवमानां तु मयतां वासवेवृशुहे ॥ ३६५ ॥

(३६५) अपनी जाति में उच्च जाति की इच्छा करने वाली कन्या जोड़ा भी दण्ड नहीं पा सकती तथा अपनी जाति

☞ इसमें बाह्यण को जो दण्ड न देना सिद्धा है हमारे ब्यास में यह ठीक नहीं है न्याय सब के लिए एक सा होना चाहिये।

से नीच जाति की इच्छा करने वाली कन्या को घर में बाध कर रखना चाहिये ।

उत्तमां सेवमानस्नु जघन्यो बधमर्हति ।

शुल्कं दद्यात्सेवमानःसमामिच्छेत्पिता यदि ॥ ६६६ ॥

(३६६) उच्च जाति की कन्या इच्छा रखती हो वा न रखती हो, उससे केलि आदि करने वाला नीच पुरुष अन्य जाति होने के कारण से मूत्रेन्द्रिय छिन्न करने वा बध करने योग्य होता है तथा कामेच्छुक स्वजाति कन्या को कुछ देकर उससे केलि-क्रीडा आदि करने वाला अदण्डनीय है वा उस कन्या का पिता सहमत हो तो कुछ शल्क (मुआवजा) देकर विवाह करले ।

अभिषह्य तु यः कन्यां कुर्याद्दर्पेण मानवः ।

तस्याशु कर्त्ये अंगुल्यौ दण्डं चार्हति पट्शतम् ॥ ३६७ ॥

(३६०) जो मनुष्य बलान् व अहकार वश स्वजाति की कन्या के गुप्तस्थान (मूत्रस्थान) में जो केलि-क्रीडा के अयोग्य है, अंगुली से काम-क्रीडा (केलि) करता है, उसकी वह अंगुली काट लेनी चाहिये और छेँ सौ परा दण्ड लेना चाहिये ।

सक्रामां दूपयंस्तुल्यो नांगुलिच्छेद्रमाप्नुयात् ।

द्विशतं तु दमं दाप्यः प्रसंगविनिवृत्तये ॥ ६६८ ॥

(३६८) और यदि कामेच्छुक स्वजाति कन्या से उपरोक्त विधि से काम-क्रीडा करे, तो अंगुली काटने का दण्ड न देना चाहिये, किन्तु कुछ दण्ड देने के हेतु दो सौ परा दण्ड लेना चाहिये ।

कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्याद्द्विशतो दमः ।

शुल्कं च द्विगुणं दद्याच्छिफारश्चैवाप्नुयाद्दश ॥ ३६९ ॥

(३६१) जो कन्या अन्य कन्या के गुप्तस्थान (मूत्रस्थान) में अगुनी डाल कर काम-क्रीडा करे तो उसको दो सौ पण दण्ड दना चाहिये और अगुनी डालने वाली कन्या का पिता वृथा शुल्क (मुष्ठावजा) देवे । ऐसी सड़की को १० कोड़े सगावे ।

या तु कन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा सद्यो मोक्षयमर्हति ।
अगुस्योरथ वा छेदं स्वैखोद्धहन तथा ॥ ३७० ॥

(३७०) जो स्त्री छोटी कन्या के गुप्तस्थान में अगुनी डालकर काम-क्रीडा करे उसका मूत्र मुडाना व अगुनिया काटना व सर (गन्हा) पर चढा कर नगर में राज-पथ पर घुमाना चाहिये । परन्तु अपराध की अपस्था ज्ञात कर योग्य दण्ड निश्चय करना उचित है ।

मर्तारं व षडेधा तु स्त्री ज्ञातिगुणदर्पिता ।
तां श्वमि स्वादपद्राजा सस्थाने बहुसस्यते ॥३७१॥

(३७१) जाति व गुण के धर्म (ग्रहकार) से अपन पति को त्याग देने वाली स्त्री को राजा बहुत मनुष्यों की उपस्थिति में कुत्तो से भोजन करावे अर्थात् नुषवावे ।

पुमांस दाहयेत्पाप शयनं तप्त आयसे ।
अभ्यादध्युरथ कण्ठानि तत्र दक्षत पापकृत् ॥३७२॥

(३७२) उपरोक्त परस्त्री से (अर्थात् जाति व गुण के ग्रहकार से अपन पति को त्याग देने वाली स्त्री से) रति करने वाले मनुष्य को सोहे की तप्त (गरम) घम्या पर सुला कर चारों ओर लकड़ी रख कर अग्नि सगा वे जिससे वह पापी मरम हो जावे ।

सबत्सरामिश्रस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः ।
प्रात्यया सह सवासे चांडास्या तावदेव तु ॥३७३॥

(३७३) यदि कोई पुरुष ऐसे मनुष्य की जिसका यज्ञो-
पवीत सस्कार नियत समय पर नहीं हुआ है, वह चाण्डाल की
स्त्री से भोग करके एक बार छूट जावे तत्पश्चात् वह दूसरी बार
भोग करे तो उसे दुगुना दण्ड देना चाहिये ।

शूद्रो गुप्तसगुप्तं वा द्वैजातं वर्णमावमन् ।

अगुप्तमंगसर्वस्वैर्गुप्तं सर्वेण हीयते ॥ ३७४ ॥

(३७४) ❀ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की स्त्री पति आदि से
सुरक्षित हो वा न हो, उससे भोग करने वाले शूद्र की मूत्रेन्द्रिय
काट लेनी व मारी सम्पत्ति हरण कर (छीन) लेनी चाहिये व
प्राणदण्ड देना चाहिये, परन्तु अरक्षित स्त्री से भोग करने में मूत्रे-
न्द्रिय छिन्न करना व सारी सम्पत्ति हरण कर लेना यही दण्ड
देवे और सुरक्षित से भोग करने में उपरोक्त तीनों दण्ड देवे ।

वैश्यः सर्वस्यदण्डः स्यात्संबन्धुनिरोधतः ।

सहस्रं क्षत्रियो दंड्यो मौड्यं मूत्रेण चार्हति ॥ ३७५ ॥

(३७५) सुरक्षित ब्राह्मणी से भोग करने में वैश्यको एक
वर्ष पर्यन्त कारागार में रखना चाहिये तत्पश्चात् सारी सम्पत्ति
हरण कर लेनी चाहिये और उसी अपराध में क्षत्रिय को सहस्र
पण दण्ड देवे तथा गधे के मूत्र से सिर मुडवा देवे ।

ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैश्यपार्थिवौ ।

वैश्यं पञ्चशतं कुर्यात्क्षत्रियं तु सहस्रिणम् ॥ ३७६ ॥

(३७६) पति आदि से अरक्षित ब्राह्मणी से भोग करने
वाले क्षत्रिय व वैश्य को यथाक्रम पांचसौ व सहस्रपण दण्ड देवे ।

उमावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह ।

विलुप्तौ शूद्रवद्वयम्बौ दग्धव्यौ वा कलाग्निना ॥३७७॥

(३७७) पति प्रादि द्वारा सुरक्षित ब्राह्मणी से भोग करने वाले क्षत्रिय वैश्य दोनों शूद्र के समान दण्डनीय हैं। भर्तात् सब मङ्ग छिन्न करने चाहिये चाहे सास कुस से डक कर वैश्य को भीर सरहरी से डक कर क्षत्रिय को बसाना चाहिये । यह दण्ड पतिव्रता व सद्गुणी स्त्री से भोग करने में जानना चाहिये ।

सहस्र ब्राह्मणो दग्धो गुप्तं विप्रं व्यस्रात् वचन ।

शतानि पञ्चदशद्वयस्यादिच्छन्त्या सह सगतः ॥३७८॥

(३७८) पति प्रादि से सुरक्षित ब्राह्मणी से वनात्कार करने वाले ब्राह्मण को सहस्र पण दण्ड देना चाहिये और उस ब्राह्मणी की इच्छा से भग करने वाले ब्राह्मण को पाँच सौ पण दण्ड देना चाहिये ।

मौण्ड्य प्राशान्तिकी दग्धो ब्राह्मणस्य विधीयते ।

इतरेषां तु धर्मानां दग्धः प्राशान्तिको भवेत् ॥३७९॥

(३७९) मध के स्नान पर ब्राह्मण का मूँड़ मुड़ाना ही दण्ड है तथा भय बलों का भय करना चाहिये ।

न ज्ञातु ब्राह्मण इत्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम् ।

राष्ट्रादेनं बहिः शूर्यास्त्रिमग्रघनमक्षतम् ॥ ३८० ॥

(३८०) यदि ब्राह्मण (धर्मात् विद्वाम् पुरप) बहुत पापों का धराराही हो तो भी उसका भय न करे, बरन् शारीरिक दण्ड भी न देकर अपने राज्य से निकाल दे ।

न ब्राह्मणवधाद्भूयानऽधर्मो विद्यते भुवि ।

तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥३८१॥

(३८१) ससार मे विद्वान अर्थात् ब्राह्मण के वध से अधिक कोई पाप नहीं, क्योंकि इससे अध्ययन क्रम को हानि पहुँचती है । अतः राजा ब्राह्मण को वध करने का विचार मन मे भी न लावे ।

वैश्यश्चत्क्षत्रियां गुप्तां वैश्यां वा क्षत्रियो व्रजेत् ।

यां ब्राह्मणायामगुप्तायां तावुमौ दंडमर्हतः ॥ ३८२ ॥

(३८२) पति आदि से सुरक्षित वैश्य की स्त्री से क्षत्रिय भोग करे व वैसी ही क्षत्राणी से वैश्य भोग करे तो जो दण्ड अरक्षित ब्राह्मणी से भोग करने वाले को कहा है वही दण्ड देना ।

सहस्रं ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते व्रजन ।

शूद्रायां क्षत्रियविशोः सहस्रो वै भवेद्दमः ॥३८३॥

(३८३) पति आदि से सुरक्षित क्षत्रिय व वैश्य की स्त्री पे भोग करने वाले ब्राह्मण को हजार पण दण्ड देना चाहिये । तथा पति आदि से सुरक्षित शूद्र की स्त्री से भोग करने वाले क्षत्रिय व वैश्य को भी सहस्र पण दण्ड देना चाहिये ।

क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पञ्चशतं दमः ।

मूत्रेण मौड्यमिच्छेत् क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥३८४॥

(३८४) पति आदि से अरक्षित क्षत्राणी से भोग करने मे वैश्य को पाच सौ पण दण्ड देना चाहिये । और उससे भोग करने वाले क्षत्रिय को गधे के मूत्र द्वारा मूड मुडवा देने का भी दण्ड यथेष्ट है ।

अगुप्ते चत्रियायैस्य शूद्रां वा प्राणशो ब्रजन् ।

शतानि पञ्च दण्ड्यं स्यात्सहस्रं त्वनयजस्त्रियम् ॥३८३॥

(३८३) पति आदि से अरक्षित जत्रिय वैश्य वा शूद्र की स्त्री से भोग करने वाले ब्राह्मण को पाच पण दण्ड देना चाहिये तथा पाण्डासादि की स्त्री से भोग करने वाले ब्राह्मण को सहस्र पण दण्ड देना चाहिये ।

पस्य स्तेन पुरे नास्तिमान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ।

न साहसिकश्चक्री स राजा शुक्रलोकमाक् ॥३८६॥

(३८६) १—चोर २—अस्य की से भोग करने वाला ३—कोठे बचम मापी ४—बलात्कार करने वाला ५—दण्ड (साठी) से आघात करने वाला यह सब जिस राजा के राज्य में नहीं है वह राजा इन्द्रभोक को पाता है ।

एतेषां निग्रहो राज्ञा पञ्चानां विषये स्वके ।

साम्राज्यकृत्सजात्येषु लोके चैव यशस्कर ॥ ३८७ ॥

(३८७) अपने राज्य में इन पाँचों को दण्ड देने वाला राजा राजाघो में सब से अधिक साम्राज्य की पदवी प्राप्त करता है और इस सभार में यश पाता है ।

शुचिञ्च यस्त्यजघान्यो याज्य चर्त्विक्त्यजेद्यदि ।

शक कर्मव्यदुष्ट च तयोर्दण्डं शतं शतम् ॥३८८॥

(३८८) अपने कर्म में बल तथा पुण्ड्रों से पृथक् शुचिञ्च और यजमान इन दोनों में से एक को परित्याग करे तो परित्याग करने वाले को भी पण दण्ड देना चाहिये ।

न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमर्हति ।

त्यजन्नपतितानेतान् राजा दंडयः शतानि पट् ॥३८६॥

(३८६) माता, पिता व स्त्री और पुत्र जो अपने वर्ण से भ्रष्ट हो गये हो, उनमें से किसी एक को त्याग करे तो वह छ सौ पण दण्ड के योग्य होता है ।

आश्रमेषु द्विजातीनां कार्ये विवदतां मिथः ।

न विब्रयान् नृपौ धर्मं चिकीर्षन्हितमात्मनः ॥३९०॥

(३९०) गृहस्थादि आश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की परस्पर में शास्त्र के अर्थ व कार्य की बहस (अर्थात् शास्त्रार्थ) होती हो तो भला चाहने वाला राजा साहस करके ऐसा न बोले कि इस शास्त्र का यह अर्थ है ।

यथार्हमेतान् भर्ष्य ब्राह्मणैः सह पार्थिवः ।

सान्त्वेत प्रशमय्यादौ स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥ ३९१ ॥

(३९१) यथाविधि शास्त्रार्थ करने वालों की पूजा करके तथा ब्राह्मणों सहित उन्हें शांत कर के राजा अपने धर्म को वर्णान करे ।

प्रातिवेश्यानुश्रयौ च कन्याणो विंशतिद्विजे ।

अर्हन्निभोजयन्विप्रो दंडमर्हसि मापकम् ॥ ३९२ ॥

(३९२) यदि उत्तम कार्य में शान्ति के हेतु २० ब्राह्मण भोजन कराना हो और वैश्य अपने घर के सामने वा एक घर छोड़कर दूसरे घर में रहने वाले ब्राह्मण को भोजन न करावे तो एक माशा चादी दण्ड देवे ।

श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं भूतिकृत्येष्वभोजयन् ।

तदन्नं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चैव मापकम् ॥३९३॥

(३११) विवाहादि भ्रानन्दोत्सवों में अपने घर के सामने या एक घर छोड़कर अन्य घरवासी वेदपाठी ब्राह्मण को भोजन न करावे तो एक माथा सोना और भोजन का द्रुगुमा दण्ड स्वल्प देवे ।

अन्यो जड पीठसर्पी सप्तत्या स्पष्टिररच यः ।

भोत्रियेषूपकुर्वश्च न दाप्यो केनचित्करम् ॥ ३१४ ॥

(३१४) राजा को निम्नांकित (अधोमिक्षित) मनुष्यों से चाहे कोयलम शूद्र ही क्यों न हो कर म सेवा चाहिये । अथवा मगड़ा सत्तर वर्ष का बूढ़ा भ्रम व भोजन से बेवाध्ययनी पुरुषों की सेवा करने वाला ।

भोत्रिय व्याधितार्थे च बालबुद्धावकिञ्चनम् ।

महाकुलीनमार्यं च राजा संप्रयेत्सदा ॥ ३१५ ॥

(३१५) वेदज्ञाता व्याधि-पीडित बाल बुद्ध कर्मात् महाकुलीन और दानी—इत लोगों की राजा को सेवा पूजा करनी चाहिये ।

शास्मलीफलके रसक्ये नतिन्मान्नेजक धाने ।

न च वासांसि वासोमिनिहरेभ च वासयेत् ॥ ३१६ ॥

(३१६) सेमर के पिकमे पाटा पर धीरे से घाबी कपड़े धीमे धीरे एक का वस्त्र दूसरे को न वेबे तथा बहुत दिवसों तक अपने घर में न रखे ।

तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम् ।

अतोऽन्यथा वर्तमानो दाप्यो द्वादशक दमम् ॥ ३१७ ॥

(३१७) तन्तुकार (वस्त्र बुनने वाला) अपने परिश्रम (बुनवाई) के हेतु पसपल (गडे) के सूत सेवे तो ११ गडे के

तौल कर तन्त्र देवे, उससे न्यून देवे तो वारह पण दण्ड के राजा को देखकर सूत के स्वामी को प्रसन्न करे ।

शुल्कस्थानेषु कुशलाः सत्रपनुयविलक्षणः ।

कुयुर्र्धं यथायल्ये ततो विंश नृपो हरेत् ॥ ३६८ ॥

(३६८) राज्य-कर का ज्ञाता तथा प्रत्येक पदार्थ के वेचने में कुशल पुरुष जिस वस्तु को जो मूल्य निर्धारित करे उसमें जो लाभ हो उसका २०वां भाग राजा आय-कर (इनकमटैक्स) लेवे ।

राज्ञः प्रख्यात भाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च ।

तानि निर्हरतो लोभात्सर्वहरे हारन्नृपः ॥ ३६९ ॥

(३६९) राजा के योग्य जो वस्तु है वा जिस वस्तु को अन्य के हाथ वेचने को वर्जित किया है, उन वस्तुओं को लोभ वश दूसरे स्थान पर बेचे तो उसकी सारी सम्पत्ति राजा हरण कर लेवे ।

शुल्कस्थाने परिहरन्नकाले क्रयविक्रयो ।

मिथ्यावादी च संस्थाने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम् ॥४००॥

(४००) जिस स्थान पर राज-कर लिया जाता है उस स्थान को त्यागने वाला, असमय बेचने व खरीदने वाला घटि-तीला (कम तोलने वाला) राज-कर का अठगुना दंडस्वरूप देवे ।

आगमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिद्वयावुभौ ।

विचार्य सर्वपणयानां कारयेत्क्रयविक्रयौ ॥ ४०१ ॥

(४०१) प्रत्येक वस्तु के आय-व्यय तथा वृद्धि (वही)

❀ गवर्नमेंण्ट (सरकार) वत्तीसवा भाग इनकमटैक्स लेती है और मनुजी ने बीसवा भाग कहा है ।

लय (घटी) की वशा को देखकर बेबसा व मोस सेना चाहिये क्योंकि तनिक सी असमानता से हानि हो जाती है ।

पञ्चरात्रं पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते ।

कुर्वीत वैपां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं नृपः ॥ ४०२ ॥

(४२) वस्तुओं की वर प्रति सप्ताह व पाष विम में नियत होनी चाहिये और उसका अधिकार राजाके हाथ में होना चाहिये ।

तुल्यमानं श्रुतीमानं सर्वं च स्यात्सुलक्षितम् ।

पट्सु पत्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयत् ॥ ४०३ ॥

(४३) मासा तोला सेर पाषसेरी आदि व गस्स, प्रोण आदि के बाटों की मूनाधिकता (कमी-बेसी) की राजा देखे तत्पश्चात् छठे मास में इनकी परीक्षा करे और सब बाटादि पर राज-मुद्रा का निम्न अंकित कर दे ।

पणं यान् तरे दाप्य पौरुषौऽर्घपणं तरे ।

पार्दं पशुरथ योपिञ्च पाढार्घं रिक्तकः पुमान् ॥ ४०४ ॥

(४४) नाव द्वारा मदी पार करने का कर इस प्रकार सिधे कि समारो पर एक पण बौद्ध सहित मनुष्य पर आधा पण स्त्री तथा पशुओं व घोषाई पण और बौद्ध होने वाले कुत्ती से पण का आठवाँ भाग ।

भाण्डपूर्णानि यानानि तार्ये दाप्यानिसारत ।

रिक्तभाण्डानि यत्किञ्चिन्पुर्णानि रथापरिच्छदः ॥ ४०५ ॥

(४५) सामान से मदी हुई गाड़िया का कर सामान के अनुसार होना चाहिये अर्थात् यदि पाठी में बहुमूल्य व अधिक तीस का भारी सामान हो ता उससे अधिक कर लेना

चाहिये और जिस गाडी मे अल्प व अल्प मूल्य तोल का सामान हो उससे अल्प कर लेना चाहिये तथा रिक्त (खाली) गाडियो वा ऐसे मनुष्यो से जिनके पास सामान न हो, अल्प (थोडा) कर लेना चाहिये ।

दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत् ।

नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रं नास्ति लक्षणम् ॥ ४०६ ॥

(४०६) ❀ नदी मे नाव का कर नदी के बहाव व ऋतु कालादि के अनुसार निर्धारित (नियत) करना चाहिये और समुद्र मे पोयो (जहाजो मे) का चलना वायु के अधीन है अतः समुद्र द्वारा यात्रा व व्यापार करने वालोंसे एकवार उचित कर निर्धारित कर देना चाहिये । उसमे बहाव व ऋतुकात का विचार नही होता ।

गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्रजितो मुनिः ।

ब्राह्मणा लिंगिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥४०७॥

(४०७) दो मास से अधिक की गर्भिणी स्त्री, सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, इन सबसे नदी पार करने का कर न लेना चाहिये ।

यन्नावि किञ्चिद्दासानां विशीर्येतापराधतः ।

तद्दासैरेव दातव्यं समागम्य स्वर्तोऽशतः ॥ ४०८ ॥

(४०८) यदि मल्लाहो के आलस्य से कोई वस्तु नष्ट हो जावे तो उस पदार्थ का मूल्य सब मल्लाहो को मिलकर देना चाहिये, क्योकि प्रत्येक मल्लाह नाव के अन्तर्गत पदार्थों का धर्मत रक्षक है तथा उत्तरदाता है ।

❀ श्लोक ४०६ से स्पष्ट विदित होता है कि मनु के समय मे समुद्र मे पोत (जहाज) चलते थे और उससे आर्य राजा अपना कर भी लेते थे ।

एष नौयायिनामुक्तौ व्यवहारस्य निर्वायः ।

दाशापराधतस्तोये दैविक नास्ति निग्रहः ॥ ४०६ ॥

(४०६) दैवी विपत्ति (अर्थात् प्राची तूफान प्रादि) के जाने से ब बट्टानों मगर-मच्छ प्रादि से टकरा कर भाग भग (दूट) हो जाने से जो क्षति होती है उसके देनदार मस्लाह नहीं है, क्योंकि उनका कोई अपराध नहीं है ।

धाणिज्य कारयेद्देश्य कुसीद कृविमेष च ।

पशुनां रक्षण चैव दास्यं शूद्र द्विजन्मनाम् ॥ ४१० ॥

(४१) पशु का कर्म कृषि करना व्याज सेना पशु पालना है । इन सब कर्मों जो वैश्य से करावे । ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा शूद्रों से करावे ।

क्षत्रियं चैव वैश्यं च ब्राह्मणा वृषिकर्षितौ ।

विमृयादानुरांस्तेन स्वानि कर्माणि कारयन् ॥ ४११ ॥

(४११) यदि कोई क्षत्रिय व वैश्य जो ब्रह्म-विहीन व्याकुल हो तो ब्राह्मण को उचित है कि वसा से काम कराके उसका पालन करे ।

दास्य तु कारयंस्तीमाद्ब्राह्मण सस्कृतान्द्विजान् ।

अनिच्छत ग्रामवत्याद्ब्राह्म दसम्भशतानि पट् ॥ ४१२ ॥

(४१२) जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मन्त्रादि सत्कार के पदवात् काम करना नहीं चाहते उनसे कोई ब्राह्मण सोम वस अपने प्रभाव द्वारा कार्य करावे तो राजा जब ब्राह्मण पर छी पण वस करे ।

शूद्र तु कारयेद्दास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा ।

दास्यैव हि सृष्टाऽपि ब्राह्मणस्य स्वपशुना ॥ ४१३ ॥

(४१३) ॐ ब्रह्मा ने शूद्र को ब्राह्मणों के सेवार्थ बनाया है इस हेतु शूद्र चाहे मोल लिया हुआ हो चाहे वेतनभोगी हो वा वेतनभोगी न हो, उससे बराबर कार्य लेना चाहिये ।

न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते ।

निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदुपोहति ॥ ४१४ ॥

(४१४) यदि स्वामी दास-कर्म से दास की मुक्त नहीं कराता तो वह दास दासकर्म से मुक्त नहीं होता, क्योंकि दासकर्म शूद्र के स्वभाव से उत्पन्न है, इस सबध को कौन छुड़ा सकता है ।

ध्वजाहतो भक्तदासो गृह्णतः क्रीतदत्रिमौ ।

पैत्रिको दंडदासश्च सप्तैते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥

(४१६) युद्ध में जय किया हुआ, भोजन पर सेवकाई करने वाला, किसी अपराध के पलटे में सेवकाई करने वाला, गृह-दास से उत्पन्न, क्रीत (मोल लिया हुआ), दान में मिला हुआ, पैत्रिक दास और भक्त, यह सब दास हैं ।

भार्या पुत्रश्चदासश्चत्रय एवाधनाःस्मृताः ।

यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम् ॥४१६॥

(४१६) अपनी स्त्री के पुत्र व दास, यह सब जिस धन को एकत्र करें वह सब धन उनके स्वामी का है और वह स्वामी की जोवितावस्था में उसके अधिकारी नहीं है ।

विस्रब्ध ब्राह्मणः शूद्राद्द्रव्योपादानमाहरेत् ।

नहि तस्यास्ति किञ्चत्स्वं भर्तृहार्यधनो हि सः ॥४१७॥

ॐवेदमन्त्र तथा प्रकृति ने स्पष्ट बतला दिया है कि पाव केवल शरीर के ऊपरी भाग को उठाकर ले जाने के हेतु बनाये गये है और मुख सारे काम शरीर के अङ्गों से लेना ।

स्त्रिया प्ररक्षितावस्या मे रहने से दोनों कुस (अर्थात् पतिकुस व पिताकुस) को क्षोभित करती हैं ।

इमं हि सर्ववर्षानां परयन्तो घर्ममुच्यते ।

यवन्ते रक्षितु भार्यां सर्दारो दुर्बला अपि ॥ ६ ॥

(६) सब वर्षों के उत्तम घर्म को देखते हुए निर्बल पति भी स्त्री की रक्षा के घर्म परियम तथा प्रयत्न करें ।

स्वां प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च ।

स्व च घर्मं प्रयत्नन जायां रक्षन्ति रक्षति ॥ ७ ॥

(७) उचित रीति से स्त्री की रक्षा करने से अपने कुस, सन्तान आत्मा व घर्म की रक्षा होती है ।

पतिर्भार्यां सप्रविश्य गर्भो भृत्वद् जायते ।

जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुन ॥ ८ ॥

(८) पति का धीर्य अपनी स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट होकर सन्तान रूप से ससार में उत्पन्न होता है । स्त्री में विषेय घर्म नहीं है कि उससे दूसरी बार सन्तान उत्पन्न होती है ।

पादशं भजते हि स्त्री सुतं सुतं तथाविधम् ।

तस्मात्प्रजाविशुद्ध्यर्थं स्त्रियं रक्षोत्प्रयानतः ॥ ९ ॥

(९) स्त्री जैसे गुण वाले पुरुष से सम्बन्ध रखती है, उसी प्रकार की सन्तान उत्पन्न होती है । अतः उत्तम सन्तान उत्पन्न करने के हेतु स्त्री की रक्षा करनी चाहिये ।

न कश्चिद्यपि शक्त प्रमत्त परिरेषितुम् ।

एतैरुपाययागस्तु शक्यास्ता परिरेषितुम् ॥ १० ॥

(१०) कोई मनुष्य शक्तिवश वाचकर स्त्री को बलम नहीं

रख सकता, वरन् निम्नांकित विषयो स्त्री को अपने वश में रख सकता है ।

अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् ।

शौचे धर्मेऽन्नपक्त्यां च पारिणह्यस्य वेक्षणै ॥ ११ ॥

(११) एकत्रित घन को व्यय करने, गृहस्थी का सारा प्रबन्ध, खाने-पहनने, घर आदि के बनाने का अधिकार देने और शुद्ध व पवित्र रहने से स्त्री वश में रहती है ।

अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः ।

आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ १२ ॥

(१२) आज्ञा पूर्वक यथार्थ कार्य करने वाले सेवक पुरुषों से गृह में रोकी हुई स्त्रियाँ अरक्षित हैं, किन्तु जो अपनी रक्षा स्वयं करती है वे ही सुरक्षित हैं ।

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् ।

स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीणांदूपणानि पट् ॥ १३ ॥ १०

(१३) स्त्रियों के हेतु छ कर्म दूषित हैं—१-मद्यपान २-दुष्ट सग, ३-पति वियोग, ४-इधर-उधर घूमना, ५-असमय सोना, ६-दूसरे के घर में वास करना ।

नैपा रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः ।

सरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भ्रूञ्जते ॥ १४ ॥

(१४) स्त्रियाँ रूप व आयु का विचार नहीं करती वरन् पौरुष का विचार करती हैं—अर्थात् चाहे सुरूप हो चाहे कुरूप, जिसमें पौरुष है उससे ही भोग करती है ।

पौंश्चल्याच्चलचित्ताच्च नैस्नेह्याच्च स्वभावतः ।

रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृष्वेता विकुर्वते ॥ १५ ॥

(१५) पुद्वसी ऋषस चित्त वासी तथा स्नेह से भूय
(रहित) स्त्री अपने मष्ट स्वभाव से उसम रीति से सुगन्धितहोने
पर भी अपनी बृटिसता से पति के चित्तको शोभित कर देती है ।

एव स्वभाव श्रात्वासां प्रजापतिनिसर्गजम् ।

परम यत्नमाविष्टेत्पुरुषा रक्ष्य प्रति ॥ १६ ॥

(१६) स्त्रियो के इस स्वभाव को जान कर धर्मशास्त्र के
घनाने वाले प्रजापति ने उनकी रक्षा को पुरुषों का अक्षय्यकी
कार्य नियत किया ।

शय्यासनमलक्षर काम ब्रोधमनार्जवम् ।

द्रोहभाव कुचर्या च स्त्रीभ्यो मनुरक्ष्यपयत् ॥ १७ ॥

(१७) शयन की शय्या व बैठने का आसन शूङ्गार के हेतु
आभूषण आदि काम, क्रोध प्राकृतिक (स्वभाविक) कटुता पारस्पर
रिक्त द्रोहभाव कुराचार मनुषी ने स्त्रियोके गुण कल्पित किये हैं ।

नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मे व्यवस्थित ।

निरिन्द्रिया धमन्त्रारच स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः ॥ १८ ॥

(१८) स्त्रियो के संस्कार मन्त्रों के बिना होने चाहिये
क्योंकि स्त्रियो के लिए इन्द्रिय और मन्त्र का अधिकार नहीं है
तथा मिथ्या भाषण करना स्त्रियो का स्वभाविक गुण है ।

तथा च भुतयो बह्व्यो निगीता निगमेष्वपि ।

स्वाल्लक्षयपरीक्षाय सासां शृणुत निष्कृतीः ॥ १९ ॥

(१९) उपनिषद् की श्रुतियो और वेद मन्त्रों में बहुतस्वभ

॥ १८ वा श्लोक सम्मिलित किया हुआ है, क्योंकि
विवाहादि सब संस्कार मन्त्रों द्वारा होते हैं ।

पर स्त्रियो वे दुर्गुणो का वर्णन है, क्योंकि उसकी वास्तविकता (यथार्थ) को जानना दुष्कर (कठिन) है । केवल वेद मे प्रायश्चित्त देखना चाहिये ।

यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्यपतिव्रता ।

तन्मे रेतः पिता वृक्तामित्यस्येतन्निदर्शनम् ॥ २० ॥

(२०) अपनी माता का भ्रान्तरिक दुराचार देखकर कहना चाहिये कि मेरी माता ने पतिव्रत भङ्ग करके अन्य पुरुष से सहवास (भोग) किया है, दो माता के स्वरूप अन्य पुरुष को मेरा पिता पवित्र करे ।

ध्यायत्यनिष्ट यत्किञ्चित्पाणिग्राहस्य चेतसा ।

तस्दैप व्यभिचारस्य निहवः सम्यगुच्यते ॥ २१ ॥

(२१) ऋजो स्त्री मन मे अपने पति का अनिष्ट विचारती है, उस कुत्सित इच्छा का पवित्र करने वाला प्रथमोक्त मन्त्र है, मनु आदि ऋषियो ने कहा है—

यादृग्गुणेन भर्त्रा स्त्री संयुज्येत यथाविधि ।

तादृग्गुणा सा भवति समुद्रेणैव निम्नगा ॥ २२ ॥

(२२) जिस विधि से व जैसे पुरुष से स्त्री सम्भोग पाती है वैसी ही आप होती है जैसे समुद्र से नदी ।

अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा ।

शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम् ॥ २३ ॥

ॐ श्लोक १६ से २१ तक वाममार्गियो के काल के मिलाये हुए हैं क्योंकि वेद मे इस विषय का कही भी उल्लेख नहीं है ।

(२३) ❀ प्रथम जाति से उत्पन्न प्रथमासा माम की स्त्री से बलिष्ठ ऋषि ने सम्भोग किया तथा वह क्षारङ्गी और मन्वपाम से मुक्त होकर पूज्यता को प्राप्त हुई ।

एतारथान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसृतय ।

उत्कर्षं योपितं प्राप्ताः स्वै स्वैर्भर्तृगुणैः शुभैः ॥२४॥

(२४) इनके प्रतिरिक्त अर्थ सभी स्त्रियां प्रथम जाति से उत्पन्न होकर इस लोक में अपने पतियों की श्रेष्ठता से श्रेष्ठता को पहुँच गईं ।

एपोदिता लोक्याप्रा नित्य स्त्रीषु सयोः शुभा ।

प्रत्येह च सुस्वोदकान्मिन्द्राघर्माभिवाचत ॥ २५ ॥

(२५) स्त्री पुरुषों के प्राचीन सवाचार को कृता । अथ इस लोक में तथा परलोक में व भविष्यत् में सुखदाई जो प्रजा का धर्म है उसको कहते हैं ।

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः ।

स्त्रियं भ्रियश्च गेहपु न विगणोऽस्ति करचन ॥२६॥

(२६) घर की उत्पत्ति के अर्थ महाभागा व पूजा योग्य घर की तेजवती स्त्री तथा लक्ष्मी है । इन दोनों में विशेषता कुछ नहीं है दोनों एक समान हैं ।

उत्पादनमपत्यस्य आतस्य परिपालनम् ।

प्रत्यहं लोक्याप्रायाः प्रत्यहं स्त्रीनिपन्वनम् ॥ २७ ॥

(२७) पुत्र व पुत्री की उत्पत्ति उत्पन्नात् उनका भालन

❀ २१ वाँ श्लोक भी सध्यात्मक है क्योंकि बलिष्ठजी से पहले मनु हुए हैं ।

पालन तथा प्राचीन लौकिक (सासारिक) नियम इन सबो का प्रत्यक्ष प्रमाण स्त्रिया ही हैं ।

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ।

दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥ २८ ॥

(२८) सन्तानोत्पत्ति, धर्मकार्य, उत्तम सेवा तथा अपना व अपने वृद्धो का स्वर्ग यह सब स्त्रियो के आधीन हैं ।

पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयुता ।

सा भवृलोकानामोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥२९॥

(२९) जो स्त्री मन, वचन, कर्म के पापो से रहित होकर अपने भर्ता (पत) को छोड अन्य पुरुष से भोग नहीं करती है वह पतिलोक को पाती है और ससार मे उत्तम पुरुष (साधुजन) उसको साध्वी (सदाचारिणी) कहते हैं ।

व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम् ।

शृगालयोनि चाप्नोति पापरोगैश्च पीडयते ॥ ३० ॥

(३०) अन्य पुरुष से भोग करने से (व्यभिचार से) स्त्री ससार मे निन्दा के योग्य होती है और शृगाल (गीदड) की योनि पाती है तथा पाप रोगो से पीडित व क्लेशित होती है ।

पुत्रं प्रत्युदितं सद्भिः पूर्वजैश्च महर्षिभिः ।

विश्वजन्यमिमं पुण्यसुपन्यासं निबोधत ॥ ३१ ॥

(३१) साधु (उत्तम) पूर्वज महर्षियो मे पुत्र के विषय मे ससार के भले के हेतु जिस शुद्ध (पत्रि) धर्म को कहा है, उसको कहते हैं ।

भर्तुः पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वैधं तु भर्तरि ।

आहुरुत्पादकं केचिदपरे चोत्रिणं विदुः ॥ ३२ ॥

(३०) पिता का पुत्र है ऐसा सब जानसे है और पिता के विषय में दो प्रकार के गुण हैं । कोई कहता है कि वीर्यवत् का पुत्र है तथा कोई कहता है कि लक्ष्मी क्षेत्र) का पुत्र है ।

शोत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृत पुमान् ।

शोत्रधीअसमायोगात्मभय सर्वदेहिनाम् ॥ ३३ ॥

(३३) स्त्री क्षेत्र (लक्ष्मी) का पुत्र है और वीर्य पिताका रूप है लक्ष्मी तथा वीर्यके संयोग से सब शरीरध रियो की उत्पत्ति है ।

विशिष्ट कुत्रच्छिद्धीज स्त्रीयोनिस्त्वेष कुत्रचित् ।

उभय तु सम यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्पते ॥ ३४ ॥

(३४) कहीं वीर्य विशिष्ट (उत्तम है कहीं क्षेत्र (लक्ष्मी) विशिष्ट है जहाँ दोनों की समानता है वह सत्तान प्रति उत्तम है ।

बीजस्य चैव यो-पारश्च बीजमुत्कृष्टमुच्यते ।

सर्वभूतप्रसूतिर्हि धीत्रलक्ष्यलक्षिता ॥ ३५ ॥

(३५) बीज और क्षेत्र (लक्ष्मी) दोनों में से बीज उत्कृष्ट है । सब जीवों की उत्पत्ति वीर्य के लक्षण से जामी जाती है ।

यादृशं उप्यते बीजं चत्रे कालोपपादिते ।

सादग्रोहति तत्तस्मिन्बीजं स्वैर्यञ्जित गुणै ॥ ३६ ॥

(३६) बीज रोपने के समय जैसा बीज बेत में रोपा (बोया) जाता है वैसा ही अपने गुणों सहित उत्पन्न होता है ।

इय भूमिर्हि भूतानां शारवती योनिरुच्यते ।

नच यानिगुणान्कारिषद्बीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥ ३७ ॥

(३७) जितने पत्र मीतिक बीजधारी हैं उतकी उत्पत्ति का द्वार क्षेत्र (बेत लक्ष्मी) है, कोई वस्तु बीजे तथा उपजने के

गुण के रिक्त बीज की कुछ परिपुष्टता नहीं करती है, अतएव बीज ही मुख्य तथा श्रेष्ठ है ।

भूमावित्येककेदारै कालोप्तानि कृषीत्रलैः ।

नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ॥ ३८ ॥

(३८) खेत में किसान कृषि के समय गेहूँ आदि जैसा बीज बोता है वह अपने स्वभाव से भिन्न-भिन्न रूप का उपजता है पृथ्वी तो एक ही रूप की है, परन्तु बीज एक रूप का नहीं, अतएव बीज ही श्रेष्ठ है ।

त्रीहय शालयो मुद्गास्तिला मापास्तथा यवाः ।

यथा बीज प्ररोहन्ति लशुनानीक्ष्वस्तथा ॥ ३९ ॥

(३९) जैसे साठी, धान, मूग, तिल, माष (उडद), जी, गेहूँ, ईख, लहसुन आदि बीज बोने के उपरान्त विभिन्न रूप में उपजते हैं ।

अन्यदुप्तं जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते ।

उप्यते यद्वि यद्बीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥ ४० ॥

(४०) एक वस्तु को बोया और दूसरी वस्तु उत्पन्न हुई ऐसा नहीं होता, वरन् जो बोते हैं वही उगता है ।

तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना ।

आयुष्कामेन वसव्यं न जातु परयोपिति ॥ ४१ ॥

(४१) सहनशील, विनीत, बुद्धिमान, पूर्ण, ज्ञान-विज्ञान अर्थात् वेदशास्त्रों के ज्ञाता व दीर्घजीवी होने की अभिलाषा करने वाले जो पुरुष हैं वे परस्त्री में अपने बीज को न डालें ।

अत्र गाथा वायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः ।

यथा बीज न वसव्यं पुंसपरिग्रहे ॥ ४२ ॥

(४२) परस्त्री में बीज न डालना चाहिये इस अध्याय में पुराज्ञाता ऋषि का कहा हुआ अपन जो विधेय छन्द से सम्मिसित है वर्णन किया है वरन् इसको व्यवहार में भी लाये हैं ।

नश्यतीपुर्वथा विद्वन्त्वे विद्वमनुषिवृष्यत ।

तथा नश्यति वै क्षिप्रं बीज परपरिग्रहे ॥ ४३ ॥

(४३) किसी ने आकाश पर पक्षी को वायु मारा फिर दूसरे मनुष्य ने उसी पक्षी पर तीर मारा तो दूसरे पुरुष का तीर व्यर्थ गया क्योंकि घाबेट तो प्रथम चतुर्धारी को मिसता है । उसी तरह परस्त्री में बीज मिष्कस जाता है वहाँ जिसकी स्त्री है उसी को सम्मान नाम होता है ।

पृथोरपीमां पृथिवीं भार्यां पृथिविदो विदुः ।

स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शन्यवतो मृगम् ॥ ४४ ॥

(४४) ॐ पूव में राजा पृथु ने इस पृथ्वी को लिया फिर बहुत से राजाओं ने लिया तो भी यह पृथ्वी राजा पृथु ही की स्त्री है और उसने ऊँची-नीची भूमि को सम किया उसी का बेट है जिसने प्रथम तीर से मारा उसी का घाबेट है वह पूर्व कामजागामो ने कहा है ।

एतावानेन पुरुषो यज्ञायात्मा प्रश्नेति ह ।

विधा प्राहुस्त्वया चैतथा मता सा स्मृताङ्गना ॥४५॥

(४५) एक ही पुरुष नहीं होता वरन् अपना शरीर स्त्री व सम्मान यह सब सम्मिसित होने से पुरुष कहाता है । बाह्यणों ने कहा है कि जो पति है वही स्त्री है ।

ॐ ४४ वां श्लोक सम्मिसित किया हुआ है क्योंकि यह पुराण काम का इतिहास है ।

न निष्कर्याविसर्गाभ्यां भर्तुर्भार्या विमुच्यते ।

एवं घर्मं विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम् ॥ ४६ ॥

(४६) स्त्री वेचने व त्यागने से स्त्री के घर्म से पृथक् नहीं होती प्रथम ही श्री ब्रह्माजी ने यह घर्म की व्यवस्था की यह सब हम जानते हैं ऐसा मनुजी ने कहा है ।

सकृदंशो निपतित् सकृत्कन्या प्रदीयते ।

सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् ॥ ४७ ॥

(४७) अश विभाग, कन्यादान, अन्य दान सत्पुरुष एक बार ही करते हैं, यदि दूसरी बार करें तो उनके वचनो का विश्वास नहीं रहता, क्योंकि जिसकी प्रतिज्ञा भङ्ग हो जाती है वह झूटा है ।

यथा गोऽश्वोष्ट्रदासीषु महिष्यजाविकासु च ।

नोत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनास्वपि ॥ ४८ ॥

(४८) जिस प्रकार गऊ, घोडा, ऊट, दासी, भैस, बकरी, भेड, इनमे बच्चा उत्पन्न करने वाला बच्चे को नहीं पाता वैसे ही परस्त्री मे सन्तान उत्पन्न करने वाला सन्तान का स्वामी नहीं होता ।

येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः ।

ते वै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्वचित् ॥ ४९ ॥

(४९) जो दूसरे के खेत मे बीज बोते हैं वह उसके फल के स्वामी नहीं हो सकते, वैसे ही परस्त्री मे सन्तान उत्पन्न करने वाला सन्तान का स्वामी नहीं होता ।

यदन्यगोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम् ।

गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमार्पभम् ॥ ५० ॥

(४२) परस्त्री में बीज न डालना चाहिये इस अध्याय में पुराज्ञाता ऋषि का कथा हुआ बन्धन जो विशेष छन्द से सम्मिलित है वर्णन किया है वरन् इसको व्यवहार में भी लाये हैं ।

नरपतीपुर्वया विद्म स्वे विद्ममनुविदुष्यत* ।

तथा नश्यति वै विप्रं बीजं परपरिग्रहे ॥ ४३ ॥

(४३) किसी ने आकाश पर पक्षी को बारा मारा फिर दूसरे मनुष्य ने उसी पक्षी पर तीर मारा तो दूसरे पुरुष का तीर व्यर्थ गया क्योंकि आशेट तो प्रथम अनुपकारी को भिन्नता है । उसी तरह परस्त्री में बीज निष्कृत जाता है अर्थात् जिसकी स्त्री है उसी को सन्तान प्राप्त होता है ।

पृषोरपीमां पृषिषीं मार्पीं पूर्वविदो विदुः ।

स्वाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शस्यवतो मृगम् ॥ ४४ ॥

(४४) ऋ पूर्व में राजा पृषु ने इस पृष्वी को लिया फिर बहुत से राजाओं ने लिया तो भी यह पृष्वी राजा पृषु ही की स्त्री है और उसने ऊँची-मीची भूमि को सम किया उसी का बेटा है जिसने प्रथम तीर से मारा उसी का आशेट है यह पूर्व कामजाताओं ने कहा है ।

एतावानेन पुरुषो यज्ञायास्मा प्रजेति इ ।

विप्राः प्राहुस्तथा चैतयो मर्ता सा स्मृताङ्गना ॥ ४५ ॥

(४५) एक ही पुरुष नहीं होता वरन् अपना शरीर स्त्री न सम्भाम यह सब सम्मिलित होने से पुरुष कहाता है । ब्राह्मणों ने कहा है कि जो पति है वही स्त्री है ।

ॐ ४४ वां इसोक्त सम्मिलित किया हुआ है क्योंकि यह पुराण काल का इतिहास है ।

न निष्क्रयविसर्गाभ्यां भर्तुर्भार्या विमुच्यते ।

एवं धर्मं विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम् ॥ ४६ ॥

(४६) स्त्री वेचने व त्यागने से स्त्री के धर्म से पृथक् नहीं होती प्रथम ही श्री ब्रह्माजी ने यह धर्म की व्यवस्था की यह सब हम जानते हैं ऐसा मनुजी ने कहा है ।

सकृदंशो निपतित् सकृत्कन्या प्रदीयते ।

सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् ॥ ४७ ॥

(४७) अश विभाग, कन्यादान, अन्य दान सत्पुरुष एक बार ही करते हैं, यदि दूसरी बार करें तो उनके वचनो का विश्वास नहीं रहता, क्योंकि जिसकी प्रतिज्ञा भङ्ग हो जाती है वह भूटा है ।

यथा गोऽश्वोष्ट्रदासीषु महिष्यजाविकासु च ।

नोत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनास्वपि ॥ ४८ ॥

(४८) जिस प्रकार गऊ, घोडा, ऊट, दासी, भैस, बकरी, भेड, इनमे बच्चा उत्पन्न करने वाला बच्चे को नहीं पाता वैसे ही परस्त्री मे सन्तान उत्पन्न करने वाला सन्तान का स्वामी नहीं होता ।

येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः ।

ते वै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्वचित् ॥ ४९ ॥

(४९) जो दूसरे के खेत मे बीज बोते हैं वह उसके फल के स्वामी नहीं हो सकते, वैसे ही परस्त्री मे सन्तान उत्पन्न करने वाला सन्तान का स्वामी नहीं होता ।

यदन्यगोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम् ।

गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमार्पभम् ॥ ५० ॥

(१०) दूसरे की गऊ में घन्य का बीज बछड़ा उत्पन्न करे तो गऊ का स्वामी उस बछड़े को पाया है और बेल का बीज निष्कस जाता है ।

तस्मादाद्यं त्रिणा बीजं परदं प्रप्रदापिष्य ।

कुर्वन्ति च त्रिणामर्थं न बीजो क्षमते फलम् ॥ ५१ ॥

(११) इसी तरह दूसरो के खेत में बीज डलने वाला खेत के स्वामी का कार्य करता है और उसके फस को नहीं प्राप्त कर सकता ।

फलं त्वनभिमघाय च त्रिणां बीजिनां तथा ।

प्रत्यक्षं च त्रिणामर्थो बीजाहो निर्गरीयसी ॥ ५२ ॥

(१२) इस स्त्री में जो उत्पन्न हो वह हमारा और तुम्हारा दोनों का हो ऐसे विचार को हृदय में न रखकर जो उत्पन्न किया पुत्र क्षेत्र वाली का होता है बीज से क्षेत्र य स है ।

क्रियाम्पुष्पगमात्स्वेतक्षीजार्थं यत्प्रदीयते ।

तस्येह मागिनी दृष्टव्यी बीजो च त्रिक एव च ॥ ५३ ॥

(१३) इस स्त्री में जो उत्पन्न हो वह हमारा और तुम्हारा दोनों का हो ऐसा चित्त में ठान कर जो उत्पन्न किया उसके भागी बीज वाला और खेत वाला दोनों होते हैं ।

भोषवाताहृतं बीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहति ।

च त्रिकस्यैव त्व्बीजं नक्षता क्षमते फलम् ॥ ५४ ॥

(१४) बीज बलप्रवाह वायु से उड़कर जिसके खेत में पड़ा उसका फस खेत वाला ही पाता है बीज वाला नहीं पाता ।

एष घर्मो गवारस्य दास्युष्ट्राश्रविकस्य च ।

विहगमहिपीक्षां च विध्वयं प्रसवं प्रति ॥ ५५ ॥

(५५) गऊ, घोडा, ऊँट, बकरी, भेड, पक्षी, भैस तथा दासी इनकी उत्पत्ति मे इसी धर्म को जानना ।

एतद्वः सारफल्गुत्वं बीजयोन्योः प्रक्रीर्तितम् ।

अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥ ५६ ॥

(५६) भृगुजी कहते हैं कि आप लोगो से जीव व क्षेत्र (जेत) की श्रेष्ठता व अधमता को कहा । अब तदुपरान्त स्त्रियो का आपद् धर्म कहते हैं ।

आतुज्वेष्टस्य भार्या या गुरुपत्न्यनुजस्य सा ।

यवीयसस्तु या भार्या स्नुपा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥ ५७ ॥

(५७) बडे भ्राता की स्त्री छोटे भाई की गुरुपत्नी कहाती है और छोटे भाई की स्त्री बडे भाई की पतोहू कहलाती है ।

ज्येष्ठो यवीयसो भार्यायवीयान्वाग्रजस्त्रियम् ।

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावष्यनापदि ॥ ५८ ॥

(५८) आपत्काल न ही और पिता आदि की आज्ञा से भी यदि बडे भाई की स्त्री से छोटा भाई और छोटे भाई की स्त्री से बडा भाई भोग करे तो दोनो पतित होते हैं अर्थात् वर्णाश्रम की पदवी से गिर जाते हैं ।

देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया ।

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये ॥ ५९ ॥

(५९) यदि सन्तान न हो तो अपने कुल के वृद्धो की आज्ञा लेकर पति-कुल के सम्बन्धी वा देवर से पुत्र उत्पन्न करे ।

विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि ।

एकमुत्पादयेन्पुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ॥ ६० ॥

(६०) पिता की आज्ञा पाकर शरीर पर घी लगा कर

मूक होकर विधवा स्त्री में पुत्र उत्पन्न करे और एक पुत्र के प्रति रिक्त दूसरा कभी उत्पन्न न करे ।

द्वितीयमेके प्रव्रजन मन्यन्ते स्त्रीषु सद्भिदः ।

अनिर्घृष्टं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ६१ ॥

(६१) बहुत से आचार्य विधवा स्त्री में दूसरी सन्ताम को भी उचित जानते हैं और धर्म क अनुकूल समझते हैं क्योंकि एक सन्ताम कतिपय वशा में दूग्य सुम्य होती है परन्तु दूसरी सन्तान प्रादि के लिये भी कुल-दुष्टों की प्राप्ता की आवश्यकता है ।

विधवायो नियोगार्थे निर्घृष्टे तु यथाविधि ।

गुरुवन्ध स्तुपावरुन्ध धर्तेयातां परस्परम् ॥ ६२ ॥

(६२) जब गभस्विति हो चुके तब बड़ा भाई गुरु समान और छोटे भाई की स्त्री पत्तोह के समान इस तरह बोनो परस्पर रहे । परन्तु इस बात को उस समय जानना जब भाई की स्त्री में पिता प्रादि की प्राप्ता हुई हो ।

नियुक्ती यी विधिं द्वित्वा धर्तेयातां तु क्वमत् ।

ताषुमौ पतितौ स्यातां स्तुपागगुरुत्वन्पगौ ॥ ६३ ॥

(६३) कुल के दूठों की प्राप्ता से नियोग करने पर यदि कामाशास्त्रि से नियोग करे तो वह स्वभिचार म परिगणित है क्या कि निषाग पत्रस सन्तामोत्पत्ति क धर्म है विषयभोग के हेतु नहीं ऐसा मनुष्य गुरुपत्नी से स्वभिचार करने वासा बहाता है ।

नान्यस्मिन्न्यधवा नारी निपाक्कस्या द्विजातिमि ।

अपस्मिदि नियुञ्जाना धम इन्पु सनातनम् ॥ ६४ ॥

(६४) वात्स्यग शक्ति बहव देवर तथा सम्बन्धी को त्याग

कर अन्य से नियोग करने की आज्ञा न दें क्योंकि इससे वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न होती है और घर्म का नाश होता है ।

नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित् ।

न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५ ॥

(६५) विवाह के मन्त्र में नियोग का वर्णन नहीं और न विधवा स्त्री के साथ भोग उचित है और जिस प्रकार विधवा अपने वर्ण में स्थित है वैसे ही नियोग भी अपने वर्ण में होना चाहिये, दूसरे वर्ण से विवाह और नियोग अयोग्य तथा अनुचित है ।

अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः ।

मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ ६६ ॥

(६६) राजा वेन के राज्य में प्रत्येक वर्णसे विवाह और नियोग की घोषणा की गई, चूंकि यह पशु के तुल्य कार्य है— यद्यपि राजा वेन ने इसे उचित समझा परन्तु ब्राह्मणों ने इसको अनुचित बतलाया ।

स महीमखिलां भुञ्जन् राजर्षिप्रवरः पुरा ।

वर्णानां सङ्करं चक्रे कामोषहतचेतनः ॥ ६७ ॥

(६७) पूर्वकाल में राजर्षियों में श्रेष्ठ राजा वेन ने जिसकी बुद्धि कामाशक्ति के कारण विगड गई थी, सारी पृथिवी का स्वामी होकर वर्णों को संकर किया (मिलाया) ।

ततः प्रभृति यो मोहात्प्रमीत्पतिकां स्त्रियम् ।

नियोजयत्परत्यार्थं तं विगर्हन्ति साधवः ॥ ६८ ॥

(६८) उस समय से जो मोहवश सन्तान की इच्छासे विधवा से भोग करने की आज्ञा देता है साधु लोग उसकी बुराई करते हैं ।

यस्या भ्रियेत कन्याया घाता सत्ये कृते पति ।

तामनेन विधानेन निजो विन्देत् देवर ॥ ६६ ॥

(६६) विधवा स्त्री म पुत्रोत्पत्ति व अनुत्पत्ति का बखान किया अब उसकी दूसरी अवस्था बर्णन करते हैं कि जिसे कन्या को देने का बचन दे चुके हैं यदि वह पुरुष कन्या के विवाह के पूर्व मर जाये तो उसके समे भाई उसका विवाह नीचे सिखी विधि से करे ।

यथाविध्यविगम्यैनां शुक्लवस्त्रां शुचिव्रताम् ।

मियो भचेत्प्रसवारसकृत्प्रकृष्टाश्रुतो ॥ ७० ॥

(७०) पवित्रतासे व्रत करनेवाली श्वेत वस्त्रधारिणी कन्या का विवाह या स्त्रकी रीति अनुसार करके रजोदर्शन पश्चात् गर्भ स्थित होने वाली रातों में एक एक बार उस समय तक भोग करे जब तक गर्भ न स्थित हो जाय उससे जो सन्तान होगी वह उसकी होगी जिसको वह कन्या बाग्दान पर प्रथम दी गई थी ।

न दत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनर्दद्याद्विषयम् ।

दत्त्वा पुन प्रयच्छन्नि प्राप्नोति पुरुषानृतम् ॥ ७१ ॥

(७१) जिस कन्या को एक बार किसी को दे चुके हो तो उसको दूसरी बार किसी को न देना चाहिये जो पुत्र देता है वह बहुत बड़ा पापी अर्थात् झूठा हो जाता है फिर उसका बिदनास नहीं रहता जो कि दी हुई वस्तु पर अधिकार नहीं होता ।

त्रिविधं प्रतिशुद्धापि त्यजत्कन्यां विगर्हिताम् ।

ध्याचितां विप्रदृष्टां वा ह्यघना आपपादिताम् ॥ ७२ ॥

(७२) पुराण योग्य ध्यायिमुक्त, दुष्ट प्रकृति श्रीर लय वैषा (कपटी) स्त्री का विवाह करके भी परित्याग करना न हिये ।

यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्य.योपयादयेत् ।

तस्य तद्वितथं कुर्यात्कन्यादातुर्दुर्गात्मनः ॥ ७३ ॥

(७३) जब कन्या के दोष को गुप्त रख छल से उसका विवाह कर दे तो वह कन्यादान अनुचित है और जो दुरात्मा अर्थात् दुष्ट प्रकृति मनुष्य कन्यादान करता है वह भी निष्फल है ।

विधाय वृत्तिं भार्यायाः प्रवमेत्कार्यवान्नरः ।

अवृत्तिरूपिता द्वि स्त्री प्रदुष्येत्स्थितिमत्यपि ॥ ७४ ॥

(७४) जब परदेश को जाना हो तो अपनी स्त्री के भोजन वस्त्रका प्रवन्ध पहले करदे, तदनन्तर दूसरे देश को जावे क्योंकि क्षुधासे पीडित होकर निर्दोष स्त्री भी धर्मसे पतित हो सकती है ।

विधाय प्रोपिते वृत्तिं जीवेन्नियममास्थिदा ।

प्रोपिते त्वावथायेव जीवेच्छिल्पैरगहितैः ॥ ७५ ॥

(७५) भोजन-वस्त्र का प्रवन्ध करके विदेश जानेके अनन्तर उसकी स्त्री नियम से रह कर जीवन व्यतीत करे और पति के भोजन-वस्त्र का प्रवन्ध किये बिना विदेश चले जाने पर सूत कातने से वा अन्य योग्य शिल्पकार्यों द्वारा जीवन व्यतीत करे ।

प्रोपितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः ममाः ।

विद्यार्थं पट् यशोऽर्थं वा कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान् ॥ ७६ ॥

(७६) धर्मकार्य सम्पादनार्थं स्त्री परदेश गये हुए पति की आज्ञा आठ वर्ष पर्यन्त माने, विद्याध्ययन के अर्थ गये हुए पति

ॐ ७६ वें श्लोक में लिखा है कि आठ वर्ष पर्यन्त पति की प्रताक्षा करे तदनन्तर नियोग द्वारा सन्तान उत्पन्न करे, यदि स्त्री ब्रह्मचर्य से न रह सकती हो । व्यभिचार से सदैव दृष्टा करे ।

की प्राज्ञा छः वर्षे पर्यन्त माने और कामार्थ (व्यापारादि) व
मकार्थ परदेश गये हुए स्वामी की प्राज्ञा तीन वर्षे पर्यन्त माने ॥

सवत्सर प्रतीक्षत द्विपन्ती यापित पति ।

ऊर्ध्वं सवत्सरान्येनां दाय ह्यथा न सवसत् ॥ ७७ ॥

(७७) पुरुष एक वर्षे पर्यन्त लड़ाई मगड़ा व विवाद करने
वासी स्त्री की प्रतीक्षा करे उसके पक्षबाहू भी यदि विवाद व
विग्रह करती रहे तो धाम्भूपणादि वन जो दिया है उनको हरण
कर उससे भोग करना त्याग दे परन्तु भोजन-वस्त्र दिये जावे ।

अतिक्रामत्प्रमत्त या मत्त रोगार्थमव वा ।

सा श्रीन्मासान्परित्याज्या धिभूषणपरिच्छदा ॥ ७८ ॥

(७८) प्रमत्त (जुमारी) मत्त (नशेवाज) रोगी पति का
अनावर जो स्त्री करती है उसको तीन मास पर्यन्त वस्त्र और
धाम्भूपण न देना चाहिये ।

उन्मत्त पातितं क्लीषमशीञ्च पापरोगिखम् ।

न त्यागाऽस्ति द्विपन्त्याश्च न च दामाप्रवर्तनम् ॥ ७९ ॥

(७९) उन्मत्त (मूर्ख) पातित (मूर्ख) क्लीष (मनुष्य)
अशीञ्च (किसी पाप रोग के कारण पीर्यहीन) पापरोगी
ऐसे पति से विग्रह करने वाली स्त्री को त्याग करना परन्तु
उसका धन अपहरण न करना ।

मद्यपाऽमाधुशुचा च प्रतिकृत्वा च या भवेत् ।

व्याभिता धाविषत्तस्या द्विन्वार्यध्नी च सर्वदा ॥ ८० ॥

॥ तदनन्तर क्या करना चाहिये इसका उत्सेस मारदस्मृति
म मनुजी क मतानुसार प्राया है और इस स्थान पर भी ७७ व
इसोब से समुक्त कर पढ़ना चाहिये ।

(८०) मद्यपा (मद्य पीने वाली), साधुओं की सेवा न करने वाली, शत्रुता करने वाली, बहुत सी व्याधि वाली, घात करने वाली, नित्य धन अपव्यय व नाश करने वाली स्त्री होवे तो दूसरा विवाह करना चाहिये ।

वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा ।

एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ ८१ ॥

(८१) १—वन्ध्या (वाक् स्त्री), २—मृतप्रजा (जिसकी सन्तान न जीती हो), कन्याजननी (पुत्री ही उत्पन्न करने वाली) ऐसी स्त्री होने पर यथाक्रम आठवें, दशवें व ३—ग्यारहवें वर्ष दूसरा विवाह करना चाहिये और अप्रियवादिनी (कटुभाषिणी) स्त्री के ऊपर तो तुरन्त ही दूसरा विवाह करना चाहिये ।

या रोगिणी स्यात्तु हिता संपन्ना चैव शीलतः ।

सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित् ॥ ८२ ॥

(८२) जो स्त्री रोगिणी हो परन्तु हितचिंतिका व शीलवती हो तो उसकी आज्ञा से दूसरा विवाह करना चाहिये, परन्तु उसकी अपमानता (अनादर) कभी भी न करनी चाहिये ।

अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेद्रुषिता गृहात् ।

सा सद्यमन्निरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधौ ॥ ८३ ॥

(८३) जिस स्त्री पर पुरुष ने दूसरा विवाह किया वह स्त्री क्रोधित हो घर से निकल जाती है तो उसको रोक कर घर में रखना व कुटुम्ब के समक्ष त्याग करना चाहिये ।

प्रतिपिद्वापि चेद्या तु मद्यमभ्युदयेष्वपि ।

प्रेक्षासमाजंगच्छेद्वा सा दण्डया कृष्णलानिपट् ॥ ८४ ॥

(८४) क्षत्रि क्षत्रि की स्त्री पति प्रादि से रोकी प्र ने पर धीर विवाहादि उत्सव के कार्यों मे भी वक्षित दग्धु (मद्य प्रादि) पान करे अथवा जन साधारण के समाज (नृत्य प्रादि) मे पत्नी आने तो छ रस्ती सोना दण्ड देवे ।

यदि स्वाश्वापगश्चैव विदुरन्योपितो द्विजा ।

तामां वर्णाग्रमेष स्याज्ज्यैष्ठ्य पूजा च धर्मच ॥ ८५ ॥

(८५) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यह सब धपने वर्ण की धीर अन्य वर्ण की स्त्रिया से पाणिग्रहण करें तो इन स्त्रियों की पदवी व अयेष्टता व घर यह सब बातें वर्ण क्रमानुसार उचित व योग्य होती हैं ।

मर्तुं शरीरशुभ्र्यां धर्मकार्यं च नैस्त्विकम् ।

रथा चैव कुर्वात्स्वर्गेषां नास्वजाति कथञ्चन ॥ ८६ ॥

(८६) सब वर्ण मे प्रा माने वर्ण को स्त्री है बही पति की सेवा-शुभ्र्या तथा प्राचीम धर्म के कार्य कर, धर्म वर्ण की स्त्रिया ग करे ।

यस्तु तत्कारयन्माहास्तजात्या स्थितयान्यया ।

मथा प्राक्षस्यचाण्डालेन पूर्वैरष्टस्त्र्येव स ॥ ८७ ॥

(८७) जो पुरुष धपने वर्ण की स्त्री के धभाव मे इन दोसा कार्यों को मोहना धम्य जाति (वर्ण) की स्त्री से करता है तो असा प्राक्षस मे दूद से चाण्डाल उत्पन्न होता है वसा ही कह है यह ऋषिया ने कहा है ।

उत्कृष्टामाभिरुपाय वगाय महशाय च ।

अप्राप्तमपि तां तस्मै वन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ ८८ ॥

(८८) धपने कृम म धति उत्तम प्राचार्य रूपवाम(गुग्दर)

सवर्ण का पुत्र (लडका) मिले तब पुत्री छोटी भी हो अर्थात् विवाह योग्य न हुई हो, तो भी उसका विवाह शास्त्र के अनुसार कर देना चाहिये ।

काममागणात्तिष्ठैद्गृहे कन्यतु मृत्यपि ।

न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥ ८६ ॥

(८६) कन्या रजस्वला होने के उपरान्त भी मरण पर्यन्त घर में रहे, परन्तु उस कन्या को कभी गुणहीन पुरुष को न देवे ।

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यतु मती सती ।

ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम् ॥ ६० ॥

(६०) रजस्वला कन्या तीन वर्ष पर्यन्त उत्तम घर की प्रतीक्षा में रहे तत्पश्चात् अपने ही सदृश पति को प्राप्त हो ।

अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम् ।

नैनः किञ्चिदवाप्नोति न च यं साधिगच्छति ॥ ६१ ॥

(६१) पिता आदि विवाह न करते हो और कन्या स्वयं वर को ग्रहण करे तो उस कन्या व वर को दोष नहीं ।

अलंकारं नाददीत पित्र्यं कन्या स्वयं वरा ।

मातृकं भ्रातृदत्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत् ॥ ६२ ॥

(६२) स्वयं (अपनी ओर से) पति को वरने वाली कन्या माता, पिता, भ्राता आदि के दिये हुए आभूषणको न लेवे, यदि लेवे तो चोर कहाती है ।

पित्रे न दद्याच्छुल्कं तु कन्यामृतुमती हरत् ।

स हि स्वाम्यादतिक्रामेद्वतूनां प्रतिरोधनात् ॥ ६३ ॥

(६३) ऋतुमती (रजस्वला) कन्या से विवाह करने वाला पति कन्या के पिता को कुछ शुल्क (अर्थात् पलटा, बदला) व

देवे क्योकि ॐ सन्तान विरम्ब में उत्पन्न होने से पिताका प्रभुत्व नहीं रहता ।

त्रिंशद्वर्षोऽथैकन्यां वृषां द्वादशवर्षिकम् ।

अष्टवर्षोऽष्टवर्षा वा धर्मं सीदति सत्वरं ॥ ६४ ॥

(६४) तीस वर्ष की आयु के बर से बारह वर्ष की प्रिय कन्या का विवाह करे वा बीबीस वर्ष का पुत्र और आठ वर्ष की कन्या का विवाह करे यह उचित समय दिखाया है नियम नहीं है । इतने काम में वेदाध्ययन समाप्त कर सकता है तदुपरान्त गृहस्थाश्रम में आने में भय न करे ।

देषदत्तां पतिभार्यां विन्दते नेष्ट्यात्मनः ।

तां साध्वीं विमृश्याभित्य देशानां प्रियमाश्रन् ॥ ६५ ॥

(६५) पति देवताओं की भी हुई कन्या को पाता है अपनी इच्छा से नहीं इससे देवताओं का पूजन करता हुआ उस सदा चारणी स्त्री का निज पासन करे ।

प्रसनाथं स्त्रियं सृष्टाः सतानार्थं च मानवाः ।

तस्मात्साधारण्यो धर्मः श्रुतो पत्न्या सहोदितः ॥ ६६ ॥

(६६) धर्म कारण करने के हेतु स्त्री को और गर्भ स्थित करने के धर्म पुरुष को उत्पन्न किया अतएव वेद में पत्नी प्रकाश का साधारण धर्म है अर्थात् पत्नी के सहित ही पुरुष अग्निहोत्र आदि धर्म कार्य करे ।

कन्यायां दक्षशुक्लायां प्रियते यदि शुष्कदः ।

देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते ॥ ६७ ॥

ॐ अर्थात् यदि प्रथम ही से विवाह होता तो रजस्वला होने के उपरान्त गर्भस्थित हो जाता अतः देरमें विवाह होने के कारण गर्भ न रह सके इस कारण पिता का स्वत्व जाता रहा ।

(६७) कन्या का शुल्क देकर शुल्क देने वाला मरजावे तो उसके भाई के साथ उस कन्या का विवाह करे, यदि वह कन्या इसमें सहमत ही ।

आददीत न शूद्रोऽपि शुल्कं दुहितरं ददन् ।

शुल्कं हि गृहणन्कुरुते छन्नं दुहितृविक्रयम् ॥ ६८ ॥

(६८) शूद्र भी कन्या को देकर शुल्क (पलटा) न लेवे, उसके लेने से कन्या का गुप्त रूप से बेचने वाला कहाता है ।

एतत्तु न परे चक्रुर्नापरे जातु साधवः ।

यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ६९ ॥

(६९) एक को कहकर दूसरे को देना, ऐसा कभी छोटे-बड़े (उत्तम व नीच) ने नहीं किया ।

नानुशुश्रुम जात्वेतत्पूर्वेष्वपि हि जन्मसु ।

शुल्कसंज्ञेन मूढ्येन छन्नं दुहितृविक्रयम् ॥ १०० ॥

(१००) चीरी (गुप्तरूप) से धन लेकर कन्या विक्रय करना (बेचना) कही नहीं सुना क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है ।

अन्योन्यस्याव्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः ।

एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ १०१ ॥

(१०१) पति-पत्नि को परस्पर वियोग मृत्यु पर्यन्त न हो यह मनुष्यो में साक्षियो द्वारा विवाह करने का अर्थ और स्त्री पुरुष का धर्म है ।

तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ कृतक्रियौ ।

यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम् ॥ १०२ ॥

(१०२) पति-पत्नी का इस विधि से जीवन व्यतीत

करना चाहिये जिसमें परस्पर बियोग न हो यह विधि केवल प्रेम और न्याय की है ।

एष स्त्रीषु सयोरुक्तो धर्मो नो रतिसंहितः ।

आपद्यपत्यप्राप्तिश्च दायमाग निषोषत ॥ १०३ ॥

(१३) मनुजी ने स्त्री-पुरुषों का धर्म पारस्परिक प्रेम विधियों सहित वर्णन करके आपत्तिकाल में नियोग द्वारा सन्तान उत्पन्न करने की विधियों को जतला कर अज्ञ विभाग को भी इस रीति पर वर्णन किया है ।

ऊर्ध्वं पितृश्च मातृश्च समेत्य भ्रातरा समम् ।

मजेरन्यैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि स्त्रीवतो ॥ १०४ ॥

(१४) माता-पिता की मृत्यु के उपरान्त सब मिसकर पैतृक सम्पत्तिके समान भाग करें । माता पिता की जीवितावस्था में सब सबके पास रहें ।

ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पिभ्य धनमशेषतः ।

शोपास्तमपधीनेषुर्यथैव पितरं तथा ॥ १०५ ॥

(१५) सारे पैतृक धन को बड़ा पुत्र ही लेवे और छोटा और मम्बला भाई सब ज्येष्ठ भ्राता के प्राधीन रहे, जिस प्रकार पिता के प्राधीन रहते हैं ।

ज्येष्ठेन वातमात्रेण पुत्रो भवति मानवः ।

पितृक्षामनुस्मरथैव स तस्मात्सर्वमर्हति ॥ १०६ ॥

(१६) ज्येष्ठ उत्पन्न होने के कारण मनुष्य पुत्रवान् कदासाता है और पितृ-स्मरण से मुक्त हो जाता है इससे बड़ा पुत्र सब धर्म देने योग्य होता है ।

यस्मिन्नृणां सन्नयति येन वानन्त्यमश्नुते ।

स एव धर्मज्ञः पुत्र क्षामज्ञानितरान्विद् ॥ १०७ ॥

(१०७) जिसकी उत्पत्ति से पिता ऋणसे मुक्त हो जाता है और मुक्ति पाता है वही पुत्र धर्मत उत्पन्न हुआ है और सब कामाशक्ति से उत्पन्न हुए हैं, ऋषियो ने कहा है ।

पितेव पालयेत्पुत्राञ्ज्येष्ठो भ्रातृन्यवीयसः ।

पुत्रवचनापि वर्तेज्ज्येष्ठे भ्रातृणि धर्मतः ॥ १०८ ॥

(१०८) पिता की नाई बड़ा पुत्र सब भाइयो का पालन पोषणकरे और बड़े भाई के समीप सब छोटे भाई पुत्रकी नाई रहे ।

ज्येष्ठः कुलं वर्धयति त्रिनाशयति वा पुनः ।

ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सद्भिरगर्हितः ॥ १०९ ॥

(१०९) बड़ा पुत्र ही कुल-वृद्धि करता है और नाश भी करता है, ससार में बड़े आदर के योग्य है. साधु लोगो ने उसकी बुराई नहीं की है ।

यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः ।

अज्येष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात्स संपूज्यस्तु बन्धुवत् ॥ ११० ॥

(११०) जो ज्येष्ठता पाता है वह माता-पिता के तुल्य है और जो ज्येष्ठता नहीं पाता वह भाई की नाई आदरणीय है ।

एवं सह वसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकाभ्ययां ।

पृथग्विवर्धते धर्मस्तस्माद्धर्म्या पृथक्क्रिया । १११ ॥

(१११) इस विधि से सब एकत्र होकर रहे व धर्म करने की अभिलाषा से पृथक् २ रहे क्योंकि पृथक् २ रहने से धर्म में वृद्धि होती है, अतएव पृथक् रहना धर्म में सम्मिलित है ।

ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्भरम् ।

ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥ ११२ ॥

(११२) सारी सम्पत्ति में से उत्तम द्रव्य और बीसवा

भाग बड़े को इसका भाषा प्रयात् चासीसवां भाग सूक्तों को और इसका भाषा नाम छोटे को शप को समान भागों में कर देना चाहिये ।

ज्येष्ठरत्नैव कनिष्ठरथ सरैर्ता यथादितम् ।

येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाम्यां तेषां स्यान्मध्यमे धनम् ॥ ११३ ॥

(११३) बड़े और छोटे को बँसा कहा है बँसा ही देना परन्तु मन्त्रों को धन भी मध्य प्रकृत्या का देना चाहिये ।

सर्वेषां धनजातानामाददीताग्रपमग्रजम् ।

यश्च साविशय किञ्चिद्दशतरुषाप्नुयाद्वरम् ॥ ११४ ॥

(११४) सारी सम्पत्ति में जो धन य छ है और समान वधाओं में जो धन उत्तम है गऊ आदि पशुओं में प्रति वध में एक पशु इन दोनों वस्तुओं को बड़ा भाई लेवे । परन्तु इस प्रकार का विभाग इस समय जानना चाहिये जब बड़ा भाई गुणवान् हो और अन्य भाई गुणहीन हो ।

उद्धारो न दशस्वस्ति सम्पत्तानां स्वकर्मसु ।

यत्किञ्चिद्देव देयं तु ज्यायसे मानवर्षनम् ॥ ११५ ॥

(११५) जब भाई अपने कर्म में सन्नत हो तो जो विभाग ऊपर कह आये है वह करना परन्तु ज्येष्ठ का भावर स्थित रहने के धर्म कुछेक छोटी वस्तु अधिक देना ।

एवं स द्रष्टृद्वारे समानशान्त्रकल्पयेत् ।

उद्धारऽनुवृष्टे त्वेषामियं स्यात्दशकल्पना ॥ ११६ ॥

(११६) इस भाँति बड़े पुत्र को उद्धार नाम माघ देकर शेष सम्पत्ति व धन के समान भाग करना और उक्त भाग न देवे तो प्राणामी जो भाग स्थित व नियत करने वह करे ।

एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्धं ततोऽनुजः ।

अंशमंश यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ११७ ॥

(११७) बडा भ्राता दो भाग लेवे, मझला डेढ भाग लेवे, सबसे छोटा एक भाग लेवे, यह धर्म की व्यवस्था हैं ।

स्वेभ्गोऽशेम्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युर्भ्रातरः पृथक् ।

स्वात्स्वादंशाच्चतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥ ११८ ॥

(११८) सब भाई पृथक्-पृथक् अपने भाग का चतुर्थांश भगिनी को देवें, न देवें तो पतित होते है ।

अजाविकं सैकशफं न जातु विषमं भहेत् ।

आजाविकं तु विषमं ज्येष्ठस्यैव विधीयते ॥ ११९ ॥

(११९) बकरी, भेड व खुर वाले (अर्थात् घोडा आदि) यह सब विषम हो (अर्थात् चार भाई पाच घोडे हो) तो विषम का भाग न करना चाहिये, जो शेष है वह बडा लेवे ।

यवीयाञ्ज्येष्ठभार्यायां पुत्रमुत्पादयेद्यदि ।

समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ १२० ॥

(१२०) छोटा भाई भ्रातृजाया भाभी मे पुत्र उत्पन्न करे तो उस पुत्र के साथ चचा लोग समान भाग विभक्त करे, उसको बडे भ्राता के समान भाग न देने यह धर्म व्यवस्था है ।

उपमर्जने प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते ।

पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धर्मेण तं भजेत् ॥ १२१ ॥

(१२१) श्रेष्ठ को अघम करना धर्म-विरुद्ध है, उत्पत्ति मे पिता प्रधान (श्रेष्ठ) है अत धर्मत पिताकी सेवा-शुश्रूषा करे ।

पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठातां च पूर्वजः ।

कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत् ॥ १२२ ॥

(१२२) एक के दो स्त्रिया हों तथा सद्यु स्त्री में प्रथम पुत्र उत्पन्न हो और ज्येष्ठ पत्नी के पीछे जन्मे तो भव इस स्थान पर विभाग किस प्रकार करना चाहिये ऐसी सहायात्मक व्यवस्था में ग्याम विभाग को अधिक्य म वनोक कहेमे ।

एक वृषममुद्गार संहरत स पूर्वज ।

ततोऽपरे ज्येष्ठवृषोस्त्वद्वाना स्वमातृवृत् ॥ १२३ ॥

(१२३) एवम् विवाह से जो पुत्र पीछे उत्पन्न हुआ है, वह एक अच्छे वन उद्गार सेवे और शेष भाई उस उत्तम वंस से छोटा वंस उद्गार सेवे । माता के विवाह क्रम से पुत्र की ज्येष्ठता जानना चाहिये ।

ज्येष्ठस्तु आतो ज्येष्ठार्या मरेत वृषमपादशा ।

तत स्वमातत शेषा ममेरभिति धारणा ॥ १२४ ॥

(१२४) ज्येष्ठ स्त्री में प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ हो तो १५ गऊ और एक बैल सेवे तदन्तर सद्यु पत्नी में जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं वह अपनी माता के विवाह क्रम से ज्येष्ठता को पाकर सम्भक्त शेष गऊओं का भाग सेवें ।

सद्युस्त्रीषु आतानां पुत्राणामधिक्येपत ।

न मातृतो ज्येष्ठयमस्ति सन्मता ज्येष्ठयमुप्यते ॥ १२५ ॥

(१२५) अपने सद्यु वर्ग की स्त्री से जितने पुत्र उत्पन्न हुए हैं उनमें माता के विवाह की गणना से ज्येष्ठता नहीं है बरन् उत्पत्ति की गणना ज्येष्ठता है ।

सन्मन्नीष्टेन जाह्वान सुप्रदाययास्वपि स्मृतम् ।

यमयोरचैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्पृता ॥ १२६ ॥

(१२६) ऐसा नहीं कि केवल सद्यु विभाग ही में उत्पत्ति से

ज्येष्ठता हो, चरन् विष्टोम यज्ञ मे इन्द्र को बुलाने के अर्थ स्व-
ब्राह्मण्य नाम मन्त्र प्रथमोत्पन्न पुत्र के नाम से कहा जाता है कि
अमुक बालक का पिता यज्ञ करता है, ऐसा ऋषियो ने कहा ।
और जो दो यमज पुत्र एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, इस स्थान
पर यद्यपि वीर्य से स्थापित गर्भस्थ बालक प्रथम उत्पन्न होगा
तो भी जो प्रथम जन्मेगा वही ज्येष्ठ कहलावेगा ।

अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत-पत्रिकाम् ।

यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम् ॥ १२७ ॥

(१२७) कन्यादान के समय जामाता दामाद) से ऐसा
परामर्श करे कि हमारे घर मे पुत्र नहीं है उस पुत्रिका से जो
प्रथम जन्मेगा वह हमारा श्राद्ध कर्म करने वाला हो, इस प्रकार
पुत्री के पुत्र को स्थानापन्न समझे ।

अनेन तु विधानेन पुरा चक्रोऽथ पुत्रिकाः ।

विवृद्ध्यर्थं स्वयंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥१२८॥

(१२८) पूर्व समय मे सन्तानोत्पत्तिके हेतु दक्ष प्रजापति
ने इसी प्रकार कन्या को पुत्र कर स्थानापन्न माना है ।

ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश ।

सोमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम् ॥१२९॥

(१२९) प्रसन्नता व आदर सहित दक्ष प्रजापति ने इस
कन्या धर्म को व तेरह कन्या कश्यप ऋषि को और चन्द्रमा को
सत्ताईस कन्या दी ।

यथैवात्मा तथा पुत्रः दुत्रेण दुहिता समा ।

तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत् ॥१३०॥

(११०) अपनी आत्मा के समान पुत्र हैं और पुत्र समान कन्या है अतएव आत्मा समान कन्या उपस्थित होने पर किस प्रकार भ्रम पुरुष धन को लेवे ।

मातुस्तु यौतुक यत्स्यात्कुमारीभाग एव स ।

दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम् ॥ १११ ॥

(१११) माता की मृत्यु के उपरान्त उसका यौतुक नाम धन जिसका धामे बरान करने उसकी कुमारी कन्या पाती है और जिसके पुत्र न हो उसका सब धन माती से अर्थात् पुत्री का पुत्र पाता है ।

दौहित्रो अखिलं रिक्त्वमपुत्रस्य पितुर्हरेत् ।

स एव दद्याद्द्वौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च ॥ ११२ ॥

(११२) जो मनुष्य पुत्र-हीन हो उसका सारा धन माती (दौहित्र) पावे और वह दो पिण्ड देवे एक पिता को और दूसरा अपने मामा को ।

पौत्रदौहित्रयोर्लोके न विरोपोऽस्ति धमतः ।

तयोर्हि मातापितरौ समृती तस्य देहतः ॥ ११३ ॥

(११३) सभार में पौत्र और दौहित्र अर्थात् पोता और माती में कोई बिशेष अन्तर नहीं है दोनों एव समान हैं क्योंकि एक के पिता की और एक के माता की उत्पत्ति एक ही से है ।

पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते ।

ममस्वन्न विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥ ११४ ॥

(११४) पुत्रहीन पुरुष के पुत्रिका करने पश्चात् अर्थात् पुत्री को पुत्र का स्थानापन्न मान लेने में अमन्तर यदि पुत्र उत्पन्न हुआ हो तो उस स्वाम पर उस पुत्री के साथ पुत्र का समान

भाग होता है, क्योंकि स्त्रियो को ज्येष्ठता नहीं है इससे ज्येष्ठाश न पावेगी ।

अनुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन ।

धनं तस्पुत्रिकाभर्ता हरेतैवाऽविचारयन् ॥ १३५ ॥

(१३५) यदि पुत्रिका से पुत्र उत्पन्न न हुआ और पुत्रिका मर जावे तो उसके मरने के पश्चात् उसका पति उसके धन को लेवे इसमें कुछ विचार न करे ।

अकृता वाकृता वापि या विन्देत्सदृशांत्सुताम् ।

पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम् ॥ १३६ ॥

(१३६) पुत्री को पुत्रिका करके माना हो वा न माना हो परन्तु वह पुत्री अपने सदृश वर्ण के पति से पुत्र उत्पन्न करती है तो वह पुत्र निस्सतान नाना के धन-सम्पत्ति को लेवे और नाना का पिण्ड देवे, उसके कारण नाना पुत्रवान कहलाता है ।

पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते ।

अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रह्मनस्याप्नोति विष्टपम् ॥ १३७ ॥

(१३७) पुत्र के द्वारा इन्द्रलोक आदि को जीतता है और पोते के द्वारा अनन्त फल को पाता है और प्रपौत्र (परपोता) के द्वारा सूर्यलोक को पाता है ।

पुत्राम्नो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः ।

तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ १३८ ॥

(१३८) मुत्राम नरक का है, उसके अर्थ रक्षा करने वाले के हैं क्योंकि पुत्र पिता की नरक से रक्षा करता है इस कारण से पुत्र कहाता है । इस बात को श्री ब्रह्माजी ने कहा है ।

पौत्रद्वौ द्वित्रयोर्लोकैः विशेषो नोपपद्यते ।

दौ द्वित्रोपि ऋषुत्रैः सतारयति पौत्रवत् ॥ १३६ ॥

(१३६) ससार मे पोता और माती दोनों एक समान हैं ।
माती भी न मा को परसोक में पोते की माई मुक्ति दिखता है ।

मानुः प्रयत्नः पिण्ड निर्वागेऽपुत्रिकासुतः ।

द्वितीयं तु पितृस्तस्यास्तृतीय उत्पितुः पितुः ॥ १४० ॥

(१४०) पुत्रिका का यह पुत्र पहिला पिण्ड माता को देवे
दूसरा पिण्ड नाना को और तीसरा पिण्ड बाप को देवे ।

उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रौ यस्य तु दत्रिमः ।

स हरेतेषु तद्विक्रयं संप्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः ॥ १४१ ॥

(१४१) दूसरे गोत्र से भी पुत्र आया हो और सर्वगुण
सम्पन्न हो तो जिसका वह वत्तक हुआ है उसकी सारी सम्पत्ति
पन को पाता है ।

गोत्ररिक्तये अनपितुर्न हरेद्दत्रिमः स्वपितुः ।

गोत्ररिक्तयानुगः पिण्डो व्यपैति ददत स्वधा ॥ १४२ ॥

(१४२) उत्पत्तिकर्ता के गोत्र और पन सम्पत्तिको दत्तक
पुत्र नहीं पाता वरन् जिसका दत्तक पुत्र हुआ है उसके गोत्र
तथा पन सम्पत्ति को पाता है और उसी को पिण्ड देता है, जिससे
उत्पन्न हुआ है उसको पिण्ड नहीं देता ।

अनियुक्तासुतस्यैव पुत्रिरयाम्परात् देवरात् ।

उमा ता नार्हतो मार्गं जारजातककर्मजी ॥ १४३ ॥

(१४३) विषया स्त्री ने विता आदि की आजा के बिना
देवर आदि से जो पुत्र उत्पन्न किया और किसी स्त्री ने पुत्र की
अनुपस्थिति में सपुत्र आदि की आजा से देवर आदि से पुत्र

उत्पन्न किया, यह दोनो प्रकार के लडके भाग नही पाते क्योकि पहला पुत्र दूसरे पति से उत्पन्न हुआ है ।

नियुक्तायामपि पुमान्नार्या जांतोऽविधानतः ।

नैवार्हः पैतृकं रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः ॥ १४४ ॥

(१४४) ससुर आदि की आज्ञानुसार स्त्री अनुचित रीति से पुत्र उत्पन्न करे, तो वह पुत्र पिता के धन को नही पाता, क्योकि वह + पतित से उत्पन्न हुआ है ।

हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः ।

क्षेत्रिकस्य तु तद्बीजं धर्मतः प्रसवश्च सः ॥ १४५ ॥

(१४५) जो पुत्र नियोग द्वारा उत्पन्न हुआ हो वह सत्य पुत्र से अर्थात् विवाह द्वारा उत्पन्न सन्तान के समान भागो का भागी है क्योकि वह वास्तविक स्वामी अर्थात् क्षेत्र वाले का बीज है और धर्मत उत्पन्न हुआ है ।

धनं ये विभृयाद्भ्रातृमृतस्य त्रियमेव च ।

सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्यदद्यात्तस्यैव तद्धनम् ॥ १४६ ॥

(१४६) मृत भाई की स्त्री से नियोग करके पुत्र उत्पन्न करे और भ्राता का-सारा धन उस पुत्र को देवे ।

या नियुक्ताऽन्यतः पुत्रं देवराद्वाऽपवाप्नुयात् ।

तं कामजमऽरिक्थीयं वृयोत्पन्नं प्रचक्षते ॥ १४७ ॥

(१४७) स्त्री ससुर आदि की आज्ञानुसार देवर वा सपिण्ड

+ पतित उसको कहते हैं कि जो अपने व्यभिचार के कारण वर्ण की पदवी से गिर गया है ।

॥ १४७ ॥ वें श्लोक मे जो काम मे उत्पन्न होने वाले पुत्र को पैतृक धन का न मिलना लिखा है वहा काम से उत्पन्न होने से

प्रजात् सम्बन्धी से पुत्र उत्पन्न करे । कामासक्ति से उत्पन्न पुत्र पैतृक धन का उत्तराधिकारी नहीं । यह ऋषि लोग कहते हैं ।

एतिद्विषातं विज्ञेयं विभागस्मैक्योन्निषु ।

वह्नीषु चैकत्रातानां नानास्त्रीषु निषोषत ॥ १४८ ॥

(१४८) यदि कोई पुरुष अपने सदृश वर्ण की कई स्त्रियों से विवाह करे तो प्रथम विभाग की विधि उपरोक्त कथानुसार ही जाने । यदि भिन्न-भिन्न वर्णों को स्त्रियों से संतान उत्पन्न हो तो पैतृक धन का विभाग निम्नलिखित रीति पर करे ।

प्राज्ञायास्यानुपूर्व्येण चतस्रस्तु यदि स्त्रियः ।

तासां पुत्रेषु आतेषु विभागेऽयं स्मृतो विधिः ॥१४९॥

(१४९) क्रमानुसारता चारों वर्णों की स्त्रियों जब प्राज्ञाण के घर ही और उन स्त्रियों से जो पुत्र उत्पन्न हों उनके प्रथम विभाग को भागे कहेंगे ।

कीनाशो गोशूयो यानमसृक्षारश्च वैरम च ।

विप्रस्यीद्वारिक देयमेकांशश्च प्रधानत ॥ १५० ॥

(१५०) प्रत्येक द्रव्य तथा थोड़ा साइ रथ आदि सवारी उत्तम प्राभूषण व वस्त्र में जो सर्वोत्तम हों उनमें से एक-एक वस्तु प्राज्ञाणी के पुत्र को बेकर शेष को निम्नलिखित विधि से विभक्त करे ।

अ्यशं दापादरेडिप्रो द्वाषशौ चश्रियासुत ।

वैश्याश्च सार्धमेवांशमरां शूद्रासुतो हरेत् ॥१५१॥

यह तात्पर्य है कि विषय भोग की इच्छा से भोग किया जावे और सदानोत्पन्न करने का विचार ध्यानमें न लाकर केवल इन्द्रिय तृप्ति के प्राप्ति करने की रीतिया कार्यरूप में परिणत की जायें ।

(१५१) ब्रह्माजी के पुत्रको तीन भाग, क्षत्राणी के पुत्र को दो भाग, वैश्य के पुत्र को डेढ भाग और शूद्र के पुत्र को एक भाग मिलना चाहिये अर्थात् ६-४-३-२ की निसवत होनी चाहिये ।

सर्वं वा रिक्थजातं तद्दशधा परिकल्प्य च ।

धर्म्यं विभागं कुर्वीत विधिनानेन धर्मवित् ॥१५२॥

(१५२) अथवा जो विधि आगे कहेंगे उसके अनुसार धर्म ज्ञाता पुरुष सारी सम्पत्ति को दस भागो मे विभाजित करके धर्मानुसार अश विभाग करें ।

चतुरोऽशान्हरेद्विप्रस्त्रीनंशान्क्षत्रियासुतः ।

वैश्यपुत्रो हरेद्वयंशंमंशं शूद्र सुतो हरेत् ॥ १५३ ॥

(१५३) ब्रह्माजी का पुत्र चार भाग, क्षत्रिय का पुत्र तीन भाग, वैश्य का पुत्र दो भाग और शूद्रा का एक भाग लेवे ।

यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत् ।

नाधिकं दशमाद्दद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः ॥ १५४ ॥

(१५४) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों की स्त्रियो मे ब्राह्मणी से पुत्र उत्पन्न हुआ हो परन्तु धर्मत शूद्रा के पुत्र को दश मास से अधिक न देवे ।

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक् ।

यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत् ॥१५५॥

(१५५) ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य इन तीनों वर्णों के धन को शूद्रा का पुत्र नहीं ले सकता । उसका पिता जो कुछ देवे वही उसका धन है ।

समवर्णासु ये जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनः ।

उद्धारं ज्यायसे दत्त्वा भजेरन्नितरे समम् ॥ १५६ ॥

(१५६) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पुत्र जो समबर्णों की स्त्री से उत्पन्न हुए हों वह बड़े को उदार नाम का स्वत्व देकर क्षेप को समान भागों में विभक्त कर ले ।

शूद्रस्य तु सर्वशेषं नान्यो भार्या विधीयते ।

तस्यां जाताः समांशाः सूर्यदि पुत्रशतं भवेत् ॥ १५७ ॥

(१५७) शूद्र के लिये केवल अपने बर्णों की स्त्री ही प्रम्य बर्णों की मही है । इसीलिए यद्यपि सौ पुत्र हों तो भी बराबर भाग पाते हैं ।

पुत्रान्द्वादश यानाह नृषां स्वाय भुवो मनुः ।

तेषां षड्वन्धुदायादाः षड्दायादधान्ववाः ॥ १५८ ॥

(१५८) ब्रह्माजी के पुत्र मनुजी ने मनुष्यों के जो बारह प्रकार के पुत्र कहे हैं उनमें से प्रथम के छ. बन्धु और दामाद कहलाते हैं, और प्रम्य के छ. इसके प्रतिफल हैं यद्यपि न, बन्धु हैं और न पैतृक धन मागी हैं ।

औरसाः क्षेत्रग्रथैव - दत्ताः कृत्रिम एष वाः ।

गूडोत्पन्नाऽश्विद्वरच दायाना बाधभारुष पट् ॥ १५९ ॥

(१५९) वह बारह यह हैं—औरस जोषक दत्तक कृत्रिम गूडोत्पन्न आपाबद्ध यह छ. बाधभारुष वा दायाना कहलाते हैं ।

कनीनरच सहोदरच क्रीतः पौनर्मवस्तवा ।

स्वयंदत्तरच शीद्वरच षड्दायादधान्ववाः ॥ १६० ॥

(१६०) कनीन सहोद क्रीत पौन भव स्वयम् दत्त शूद्र यह छ. ददायाव बन्धु कहलाते हैं जिनको पैतृक धन का स्वाभिरुच प्राप्त नहीं ।

यादृशं फलमाप्नोति कुप्लवैः संतरज्जलम् ।

तादृशं फलमाप्नोति कुपुत्रैः मंतरंस्तमः ॥ १६१ ॥

(१६१) निकृष्ट नाव पर चढ कर नदी के पार होने वाला जैसे कुफल को प्राप्त होता है वैसा ही कुफल कुपुत्र से वृद्धावस्था में दोषो से बचने के समय प्राप्त होता है ।

यद्येकरिक्थनौ स्यातामौरसक्षेत्रज्ञौ सुतौ ।

यस्य यत्पैतृकं रिक्थं स तद्गृह्णीत नेतरः ॥ १६२ ॥

(१६२) जिस पुरुषका वीर्य रोग आदि के कारण क्षीण हो गया है, उसकी स्त्री से निस्सन्तान देवर ने पिता आदि की आज्ञा से पुत्र उत्पन्न किया तत्पश्चात् औषधोपचारादि से वीर्यकी होकर उस पुरुष ने अपनी स्त्री से पुत्र उत्पन्न किया, तब उसके धन के उत्तराधिकारी क्षेत्रज्ञ और औरस नाम के दो पुत्र हुए । उस पर मनुजी कहते हैं कि जिसके वीर्य से जो उत्पन्न हुआ हो वह उसके धन को पावे अर्थात् क्षेत्र को उम दशा में अपने माता-पिता का भाग मिले और जिसकी स्त्री में नियोग द्वारा उत्पन्न हुआ है उसको भाग न मिले ।

एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः ।

शेषाणामानृशंस्वार्थं प्रदद्यात्तु प्रजीवनम् ॥ १६३ ॥

(१६३) एक ही ओर से नाम पुत्र अपने पिता की सारी सम्पत्ति का स्वामी है, वह अन्य आताओ को दया से भोजन व वस्त्र देवे ।

पष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पैतृकाद्धनात् ।

औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा ॥ १६४ ॥

(१६४) पिता आदिकी आज्ञासे सन्तान उत्पन्न करनेवाला

पूजवान हो तो क्षेत्रज व धीरस दोनों पुत्र अपने पिता के धन के ६ भाग वा २ भाग करें, एक भाग को क्षेत्रज सेवे शेष धन को धीरस सेवे। यदि क्षेत्रज गुणवान हो तो धन के ५ भाग करना चाहिये और यदि गुणहीन हो तो ६ भाग करना चाहिये।

धीरसचेभ्रजौ पुत्रौ पितृरिष्यस्य मागिनौ ।

दद्यापरे तु क्रमशो गात्ररिष्यांशमागिनः ॥ १६५ ॥

(१६५) क्षेत्रज तथा धीरस यह दोनों पिता से धन को ले सकते हैं शेष जो वर पुत्र हैं वह गोत्र तथा धन दोनों को यथाक्रम सेने वाले हैं।

स्वचोत्र सस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्भि यम् ।

समीरस विज्ञानीयात्पुत्र प्रथमकल्पितम् ॥ १६६ ॥

(१६६) जो पुत्र अपने पिता को विवाहित स्त्री से उत्पन्न हो वह धीरस नाम पुत्र कहा जाता है और सब पुत्रों से यह है।

यस्तस्मिन् प्रमीतस्य ह्यीवस्य व्याधितस्य वा ।

स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्र चोत्रजः स्मृत ॥ १६७ ॥

(१६७) जो सन्तान ह्यीव (नपुंसक) व्याधि रोगी धीर मृतक की स्त्री से वास्तव की प्राज्ञानुसार नियोग द्वारा उत्पन्न की जाती है वह क्षेत्रज सन्तान उस स्त्री कुल की कहा जाती है।

माता पिता वा दद्यातां यमद्वि पुत्रमापदि ।

सहस्रां प्रीतमपुक्त स ह्येयो दत्रिम स्मृत ॥ १६८ ॥

(१६८) जब माता-पिता आपत्ति काल में अपने सहस्र वरु की स्त्री से उत्पन्न लड़के को अपने सन्तान की प्रीति वर देते तो वह वरक पुत्र कहा जाता है।

सदृशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम् ।

पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स विज्ञेयश्च कृत्रिमः ॥१६६॥

(१६६) जो अपने वर्ण वाला और गुण दोषों के जानने में विद्वान् तथा बेटे के गुणों के अनुसार कृत्रिम नाम वाला पुत्र समझना चाहिये ।

उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः ।

स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥१७०॥

(१७०) घर में उत्पन्न हुआ परन्तु यह नहीं ज्ञात है कि किसके वीर्य से उत्पन्न हुआ, तो जिसकी स्त्री से जन्मा है उसका गूढोत्पन्न नाम कहाता है ।

माताभितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा ।

यं पुत्रं परिगृह्णीयादपविद्धः स उच्यते ॥ १७१ ॥

(१७१) माता-पिता दोनों ने अथवा एक ने जिस पुत्र का परित्याग कर दिया, उस पुत्र को दूसरे ने अपना पुत्र बनाया तो वह पुत्र लेने वाले का अपविद्ध नाम पुत्र कहाता है ।

पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः ।

तं कानीनं ददेन्नाम्ना बोद्धुः कन्यासमुद्भवम् ॥१७२॥

(१७२) ❀ विना विवाह हुए कन्या ने पिता ही के घर पर पुत्र उत्पन्न किया तब उस कन्या से पाणिग्रहण करने वाले पुरुष का कानीन नाम पुत्र कहाता है ।

❀१७२ वे श्लोक में जिस कानीन पुत्र का वर्णन है वह पैतृक धर्म का उत्तराधिकारी नहीं है, वह १६० वें श्लोक में बतला चुके हैं क्योंकि यह अनुचित पुत्र है और वर्म विरुद्ध समझना चाहिये ।

या गर्भिणी सस्क्रियत ज्ञाताज्ञातापि वा सती ।

सोढुं स गर्भो भवति सहोद इति चोच्यते ॥ १७३ ॥

(१७३) × यदि कोई कन्या गर्भवती हो जावे चाहे

सोम नामतः हो व न जानते हो तत्पश्चत् उसका विवाह हो जावे और विवाहोपरान्त उस गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो तो वह पुत्र पाणि ग्रहण करने व से का सहोद नाम पुत्र कहलाता है ।

क्रीडीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापिप्रौर्यमन्तिक्रात् ।

स क्रीतकः सुतस्तस्य सद्योऽसद्योऽपि वा ॥ १७४ ॥

(१७४) जब माता-पिता किसी सड़के को पुत्र बनाने की

इच्छा से बन देकर मोस सेवें चाहे उस सड़के का पिता उसका समबर्ण समगुणी हो वा न हो तो वह सड़का मोस सेने वाले का क्रीत नाम (अर्थात् मोस तिया हुआ) पुत्र कहलाता है ।

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा स्वयेच्छया ।

उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्मव उच्यते ॥ १७५ ॥

(१७५) जो स्त्री पति से परित्यक्त की गई हो वह

अथवा विधवा अपनी इच्छा से दूसरे की पत्नी होकर उस मनुष्य पुनोत्पन्न करे वह पुत्र उत्पन्न करने वाले का पौनर्मव नाम पुत्र कहलाता है ।

सा चेदसतयोनि स्यात्सूतप्रत्यागतापि वा ।

पौनर्मवेन भ्राता सा पुनः संस्कारमईति ॥ १७६ ॥

× १७३ व इसीक से जो सहोद नाम पुत्र कहा है वह भी १६ वें इसीक के अनुसार अनुचित सूत्र है और पंतुक धन का उत्तराधिकारी नहीं है ।

(१७६) ❀ अक्षत योनि स्त्री अर्थात् जिस स्त्री का विवाह तो हो गया है परन्तु उसमें भोग नहीं हुआ है, दूसरे पति की शरण में जावे तो वह पुनः विवाह करने योग्य होती है अथवा कुमार पति को परित्याग कर दूसरे पति की शरण लेकर यदि भोग से बची रही हो और फिर कुमार पति की शरण में आवे तो उसके साथ फिर विवाह करना चाहिये ।

मातापित्रिहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात् ।

आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ॥१७७॥

(१७७) माता-पिता ने अकारण जिस पुत्रको परित्याग कर दिया हो अथवा जिसके माता-पिता मर गये हो वह पुत्र अपने आप को दे देवे तो वह उस पुरुष का स्वयं दत्त नाम पुत्र कहलाता है ।

यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम् ।

स पारयन्नेव श्वस्तस्मात्पारश्वः स्मृतः ॥ १७८ ॥

(१७८) ब्राह्मण काम वश वा प्रेमवश होकर विवाह की हुई शूद्रा स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह जीवित ही मृतक समान है इस से वह पुत्र ब्राह्मण का शूद्र अथवा परासव नाम पुत्र कहाता है ।

दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत् ।

सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥१७९॥

(१७९) दासी अथवा दासी की दासी में शूद्र से जो पुत्र

❀ १७. वें श्लोक में मनुजी ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि पाणिग्रहण होते ही विना भोग किये पति मर जावे तो उस स्त्री का दूसरी बार विवाह करना उचित है और यह स्त्री अक्षत योनि कहलाती है ।

हुया है, यह पिता के आदेश से भाग पा सकता है, यह धर्मनिष्ठ है।

शोत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथादितान् ।

पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियास्रोपान्मनीषिणः ॥ १८० ॥

(१८०) जो ग्यारह प्रकार के पुत्र शोक्य आदि हैं उनका पण्डितों से कुछ व वरुं नाश न होनेके कारण पुत्र मान लिया है।

य एतोऽभिहिता पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजा ।

यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८१ ॥

(१८१) अगम के बीर्य से जो पुत्र उत्पन्न हुए कहे हैं वह सब प्रौरस नाम पुत्र के अभाव में हैं अथवा जो अशुके बीर्य से उत्पन्न हुआ है उसी का पुत्र कहलाता है दूसरे का नहीं।

आतृषामेकजातामामकरचेत्पुत्रवान्मवेत् ।

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रियो मनुरमबीत् ॥ १८२ ॥

(१८२) एक पिता से उत्पन्न चार वा पाँच भ्राताओं में एक भ्राता भी पुत्रवान् हो तो उसके होने से सब भ्राता पुत्रवान् कहलाते हैं यह मनुजी ने कहा है।

सर्वा सामेक पत्नीनामका चेत्पुत्रिणी भवेत् ।

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनु ॥ १८३ ॥

(१८३) यदि एक पुरुषके चार वा पाँच स्त्रियाँ हो और उनमें एक पुत्रवती हो तो शेष स्त्रियाँ भी पुत्रवती होती हैं। यह मनुजी की आज्ञा है।

भयम भयसोऽज्ञामे पापीयान्त्रिक्यमर्हति ।

वश्वरघत् महशाः सर्वे त्रिक्यस्य भागिनः ॥ १८४ ॥

(१८४) वारह प्रकार के पुत्रों में पूर्व पूर्व के अभाव में उत्तर उत्तर (दूसरे-दूसरे) के पुत्र धन को पाते हैं । यदि बहुत पुत्र एक सदृश हो तो धन भी एक सदृश पाते हैं ।

न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः ।

पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च ॥ १८५ ॥

(१८५) सगे भाई या पिता, चचा आदि धन नहीं पाते हैं, पिता के धन का अधिकारी पुत्र ही है । पुत्र अभाव में माता व भ्राता धन को पाते हैं ।

त्रयाणामुदकं कायं त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते ।

चतुर्थः संप्रदातैषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १८६ ॥

(१८६) पिता, पितामह (दादा) तथा प्रपितामह (परदादा) यह तीनों बृद्ध आदि अधिकारी हैं और चौथा देने वाला प्रपौत्र (परपोता) है पाचवा कोई नहीं । इससे स्पष्ट प्रकट है कि मनुजी की नीति के अनुसार तो वही पितृ जीवित रह सकते हैं ।

अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत् ।

अत ऊर्ध्वं संकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा ॥ १८७ ॥

(१८७) सपिण्ड अर्थात् सात पीढ़ी में जो मृतक का समीपी हो वह धन को पाता है, यदि सपिण्ड न हो तो सकुल्य सन्तान धन को पाती है, यदि वह भी न हो तो आचार्य धन को पाता है, यदि आचार्य भी न हो तो शिष्य को पाता है ।

सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थमागिनः ।

त्रैविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥ १८८ ॥

(१८८) यह सब न हो तो वेदपाठी जितेन्द्रिय पुत्रवान् ब्राह्मण लोग धन पाते हैं, इस रीतिसे धर्म का नाश नहीं होता ।

अर्ह्यं ब्राह्मणद्वयं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः ॥

इतरेषां तु वर्ष्मिणां सर्वाभाव इरेन्नृपः ॥ १८८ ॥

(१८८) निःसन्तान ब्राह्मण के घन को राजा कभी न सेवे और भय वर्णों के घन पर उपरोक्त उत्तराधिकारियों के अभाव में राजा का स्वत्व है ।

सस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत् ।

तत्र यद्विक्रयजातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत् ॥ १८९ ॥

(१८९) निःसन्तान की मृत्यु के उपरान्त उसकी स्त्री सुसर आदि की आज्ञानुसार अपने सगोत्री मनुष्य से पुत्रोत्पन्न करे तो उस पुत्र को वाक्य बन दे देवे ।

द्वौ तु यौ विधदेयार्तां शार्म्यां जातौ स्त्रिया घने ।

तयोर्पथस्य पित्र्यं स्यात्तस्मिन् गृह्णीत नेतर ॥ १९१ ॥

(१९१) एक स्त्री के दो पुत्रों से दो पुत्र उत्पन्न हों और माता के घन के हित विबाध करते हों तो जिसके पिता ने जो घन उस स्त्री को दिया हो वह घन वही पावे ।

जनन्यां सस्थितार्यां तु समं सर्वे सहोदराः ।

मज्जेरन्मातृकं रिक्थं मंगिन्यश्च सनाभयः ॥ १९२ ॥

(१९२) माता की मृत्यु के उपरान्त सब सहोदर (सभे) माई और कुमारी भविति समान भाग करके माता का घन विभक्त कर सेवे ।

यास्वार्तां स्पृष्टुं हितरस्तासामपि यथाहृतः ।

मातामह्या घनार्त्तिकवित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम् ॥ १९३ ॥

(१९३) माता के घन को पृथी पावे और पृथी के पुत्र को भी कुछ घन नीति के कारण देना चाहिये ।

अध्यग्नप्रध्यावाहनिकं दत्तं च प्रतिरुर्मणि ।

भ्रातृमातृपितृप्राप्तं पड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥१६४॥

(१६४) पाणिग्रहण के समय अग्नि के समक्ष पिता आदि से जो धन आदि दिया हो, आर विदा के समय जो धन आदि दिया जाता है, व प्रसन्नता पूर्वक जो पति देता, भ्राता ने जो दिया हो, पिता ने जो दिया हो, माता ने जो दिया, यह छ प्रकार के धन ऋषियो ने स्त्री-धन वर्णन किये हैं ।

अन्वाधेयं च यद्दत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत् ।

पत्यौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत् ॥१६५॥

(१६५) जो धन प्रसन्नता पूर्वक पति ने दिया हो, जो धन उसके कुल से मिला हो, पति के जीवित अवस्था में स्त्री मर जावे तो उस धन का अधिकारी पुत्र होता है ।

ब्राह्म दैवार्पगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्वसु ।

अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ १६६ ॥

(१६६) १-ब्राह्मण, २-दैव, ३-आर्ष, ४-गान्धर्व, ५-प्राजापत्य, इन पांच प्रकार के विवाहों में जो धन स्त्री को मिला हो तो उस स्त्री के नि सन्त न मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसका पति पाता है ।

यत्त्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु ।

अप्रजायामतीतायां मातापित्रोरस्तदिष्यते ॥ १६७ ॥

(१६७) ऋषसुर, पिशाच और राक्षस इन तीन प्रकारके विवाह में जो धन स्त्री को मिला हो तो उस स्त्री के नि संतान मृत्यु हो जाने के बाद उसके माता-पिता उस धन को पाते हैं पति नहीं पाता ।

स्त्रियां तु यद्भवेद्विष्य पित्रा दत्त कन्यञ्चन ।

ब्राह्मणो तद्दरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत् ॥ १६८ ॥

(१६८) ब्राह्मण के घर में चारो वर्णों की विवाहित स्त्रियाँ हों उनमें ब्राह्मणी कन्या रहती हो और अन्य वर्णों की स्त्रियाँ नि संतान निषदा हो और उनको किसी प्रकार पिता से धन दिया हो तो उस धनको उन स्त्रियों की मृत्युके उपरान्त ब्राह्मणी की कन्या पावे यदि कन्या न हो तो कन्या का पुत्र पावे ।

न निर्हारि स्त्रियः कुपुः कुटुम्बाद्बहुमध्यगात् ।

स्मरन्नादपि च विचाद्भि स्वस्य मर्तुरनाश्रया ॥ १६९ ॥

(१६९) माई आदि कुटुम्बियों का जो साधारण धन है उसको स्त्री आदि आभूषण बनवाने को न लेवे और पति की आज्ञा के बिना पति के दिये हुए धन को भी न लेवे । इससे यह सिद्ध हुआ कि यह स्त्रियों के धन नहीं हैं ।

पत्यां खीयति यः स्त्रीभिरसङ्कारो धृतो भवेत् ।

न तं मञ्जरन्दायादा मञ्जमानां पतन्ति ते ॥ २०० ॥

(२००) जो धर्मकार पति की जीवितावरणा में स्त्री ने धारण (पहिरा) किया हो यदि उत्तराधिकारी लोग उसको विभक्त करें तो वह सब धन के बिच्छु बनते हैं क्योंकि यह स्त्री-धन है ।

ॐ १६७-व दमोचसे स्पष्ट प्रगट होता है कि यह तीन प्रकार के विवाह अनुचित हैं क्योंकि इसमें स्त्री को पति का अर्थात् नहीं माना गया है परन्तु पति की उपस्थितिमें धर्मशास्त्रक न होता ।

अनंशौ क्लीवपतितो जात्यन्धवधिरौ तथा ।

उन्मत्तजडमूकारच ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ २०१ ॥

(२०१) क्लीव (नपु सक), पतित, जन्म अन्धा, बहिरा, व्याधि आदि से उत्पन्न हुआ, उन्मत्त जड, मूक (गूंगा) वा किसी अङ्ग वा इन्द्रिय हीन, जो ऐसे पुरुष हैं वह भाग नहीं पाते ।

सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा ।

ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यददद्भवत् ॥ २०२ ॥

(२०२) २०१ वें श्लोक में वर्णित पुरुषों में से प्रत्येक को भाग लेने वाला भोजन व वस्त्र जीवन पर्यन्त देवे, यदि न देवे तो सर्वथा पापी होता है ।

यद्यर्थिता तु दारैः स्यात्क्लीवादीनां कथञ्चन ।

तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमर्हति ॥ २०३ ॥

(२०३) क्लीव आदि को विवाह करने की इच्छा हो तो विवाह करके योग्यतानुसार उस स्त्री में पुत्रोत्पन्न कराके उस पुत्र को भाग देवे ।

यत्किञ्चित्पतरि प्रते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति

भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालितः ॥ २०४ ॥

(२०४) पिता की मृत्यु के उपरान्त बड़े भाई ने धन विभक्त होने से पूर्व कुछ धन एकत्र किया तो उसमें से सब से छोटा विद्याभ्यासी भाई पावे ।

अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्चेद्भनं भवेत् ।

तमस्त्रत विभागः स्यादपित्र्य इति धारणा ॥ २०५ ॥

(२०५) सब मूर्ख भाइयों ने परिश्रम से धन संचित किया

हो तो उसमें समान भाग करना चाहिये । यह जन पैतृक धन नहीं है यह सास्त्र का निश्चय है ।

विद्याधन तु यद्यस्य सत्तस्यैव धनं भवेत् ।

मैत्र्यमौद्गाहिक चैत्र मधुपर्किकमेव च ॥ २०६ ॥

(२६) जो धन विद्या मित्रता और विवाह आदि से प्राप्त हो वह जिसको मिले उसका है उसमें किसी भाई का भाग लेने वाले का भाग नहीं होता । जो सपित्त करे वही उसका स्वामी है ।

भ्रातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा ।

सनिर्भक्ष्यः स्वस्त्रदंशास्तिचिदम्बोपसीदनम् ॥ २०७ ॥

(२०७) सब भ्राताओं में जो भ्राता अपने कार्य में सबसे अधिक बहुर और पैतृक धन का धंधा लेने की इच्छा नहीं करता है उसको अपने माम से कुछ धन देकर धंधा से अनाधिकारी कर देना चाहिये क्योंकि उसके पूर्व पीछे से विवाद करेंगे कि हमारे पिता ने अपना धन नहीं लिया है हमको उसका भाग दो ।

अनुपध्नन्पितृभ्य भ्रमेण यदुपाकृतम् ।

स्वयमीहितस्तम्भ तस्मात्प्रमा दातुमर्हति ॥ २०८ ॥

(२०८) पैतृक धन व्यय न कर केवल अपने ही परिधम से जो धन सपित्त करे उसका यदि अपनी इच्छा न हो तो अपने भ्राताओं को न देवे धर्मान् इस धन में से भ्राताओं को भाग न देवे ।

पैतृक तु पिता द्रव्यमनवाप्त यदाप्नुयात् ।

न तत्पूर्वमवस्मार्धमकण्ठ स्वयमर्हितम् ॥ २०९ ॥

(२०९) पिता ने धन को किसी ने हरण कर लिया और

पिता ने पुन प्राप्त न कर पाया हो और पुत्र उस धन को अपने परिश्रम से प्राप्त न कर लेवे तो उसका भाग अपने पुत्रो को न देवे और इच्छा हो तो देवे क्योंकि वह धन अपने प्रयत्न और परिश्रम से प्राप्त हुआ है, पिता का पैतृक धन नहीं है ।

विभक्ता सह जीवन्तो विभजेरन्पुनर्यदि ।

समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यैष्ठ्यं तत्र न विद्यते ॥२१०॥

(२१०) एक बार धन विभक्त हो गया फिर स्वेच्छा पूर्वक एकत्र सम्मिलित होकर रहे और धन विभाजित करें तो बड़े भाई का वह भाग न देवे, सो उसकी ज्येष्ठता के कारण से प्रथम अश विभाग में दिया जाता है ।

येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः ।

भ्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न लुप्यते ॥२११॥

(२११) भ्राताओ में बड़ा वा छोटा भ्राता सन्यासी आदि हो जाने के कारण अश विभाग के समय अपना अश (हिस्सा) न ले अथवा मृत्युत हो गया हो तो उसका भाग लोप न करना चाहिये वरन् उसका भाग भी पृथक करना उचित है ।

सौदर्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम् ।

भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥२१२॥

(२१२) सब भ्राता व भगिनी जो उत्तराधिकारी हैं, उस सहोदर भाई के अश को बराबर बांट लें ।

२०६ वें श्लोक से स्पष्ट प्रकट होता है कि मनुजी की आज्ञा है कि पैतृक धन में तो सन्तान का स्वत्व है और स्वयं उपाजित धन में पिता की इच्छा है, वह जिसे चाहे दे सकता है, सन्तान का कोई स्वत्व नहीं ।

यो ज्येष्ठो विनिक्षुर्वीत स्रोमाव्भ्रातृन्यवीयसः ।

सोऽज्येष्ठः स्यादमागरश्च नियन्तव्यश्च राजमि ॥२१३॥

(२१३) जो बड़ा भ्राता सोमबस छोटे भ्राता को उसका भाग नहीं देता वह ज्येष्ठ भ्राता नहीं कहला सकता और राजा का धर्म है कि उसे बख्क देवे ।

सर्व एव विकर्मस्था नार्हन्ति भ्रातरो धनम् ।

न चादत्त्वा क्वनिष्ठभ्यो ज्येष्ठ कुर्वीत यौतुकम् ॥२१४॥

(२१४) यदि सब भ्राता मिरर्वक कार्यों में संलग्न रहें तो पैतृक धन के उत्तराधिकारी नहीं । बड़ा भाई छोटे भाई का भाग दिये बिना केवल अपने अधिकार में न करे ।

भ्रातृभ्यामपिमक्तानां यद्युत्पानं भवेत्सह ।

न पुत्रमार्गं विषम विठा यथात्कथञ्चन ॥ २१५ ॥

(२१५) सब भ्राता मिलकर धन संचित करें तो पिता को उचित है कि अस बिसाजित करते समय सबको समान भाग देवे न्यूनधिक न दे ।

ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु पित्र्यमव इरेद्धनम् ।

ससृष्टास्तेषु वा ये स्युर्विमज्जत स तै सह ॥ २१६ ॥

(२१६) पिता ने पुत्रों से पृथक होकर फिर पुत्र उत्पन्न किया हो तो वह पुत्र बस पिता ही का धन पाता है और उनके साथ प्रथम पृथक भाई सम्मिलित होकर रहे हों तो उसके साथ धन बिसाजित होने क परचात् जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह भी मागसेवे ।

अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात् ।

मातपपि च वृषायां पितुर्माता इरेद्धनम् ॥ २१७ ॥

यदि पुत्र नि सन्तान हो तो उसका धन उसकी माता लेवे । माता के अभाव में वह धन उसकी दादी (पिता की मा) को मिलेगा ।

ऋणे धने च सर्वस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि ।

पश्चाद्दृश्येत यत्किञ्चित्तत्सर्वं समतां नयेत् ॥२१८॥

(२१८) ऋण धन के देने के पश्चात् जो कुछ धन या ऋण शेष रहे उसके समान भाग करें ।

वस्त्रं पत्रमलंकारं कृतान्नमुदकं स्त्रियः ।

योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्ये प्रचक्षते ॥ २१९ ॥

(२१९) वस्त्र, सवारी, अलंकार, आभूषण, शीशाके पात्र आदि, कृतान्न (बना हुआ खाद्य अन्न), हानी का कुआ, घर के पुरोहित आदि सम्बन्धी पशुओं के आने-जाने का मार्ग, इनको विभाजित न करना चाहिये ।

अयमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः ।

क्रमशः क्षेत्रजादीनां च तद्धर्मं निबोधत ॥ २२० ॥

(२२०) भृगुजी कहते हैं कि हे ऋषि लोगो ! क्षेत्र आदि पुत्रों के धन विभाग को आप लोगो से कहा । अब उसके अनंतर द्यूत के विषय में वर्णन करते हैं ।

द्यूत समाह्वयं चैव राजा राष्ट्रान्निवारयेत् ।

राज्यान्तकरणावेतौ द्वौ दोषौ पृथिवीक्षिताम् ॥२२१॥

(२२१) द्यूत और (१) समाह्वय नाम द्यूत क्रीडा वाले (जुआरियो) को राजा अपने राज्य में न होने दे क्योंकि यह दोनों राज्य को नष्ट-भ्रष्ट करते हैं ।

प्रकाशमेतत्तास्कर्यं यद्देवनसमाह्वयौ ।

तयोर्नित्यं प्रतीघाते नृपतिर्यत्नवान्धवेत् ॥ २२२ ॥

(२२२) दोनों प्रकार के छूत गुप्त व प्रकट बोरी है और इसके कारण राजा कर्त्तव्य होता है और हानि पहुँचती है राजा का धर्म है कि दोनों प्रकार के पुष्कारियों का सत्यानाश करे ।

अप्राथिमिर्यात्क्रियते तच्छ्लोके षुसमुच्यते ।

प्राथिमि क्रियते यस्तु स विज्ञेय समाह्वय ॥२२३॥

(२२३) पासा कौड़ी प्रादि षड वस्तु से दांव लगा कर बाजी लगाना छूत कहलाता है और जीबभारी वस्तुओं जैसे घोडा बकरा भेड़ प्रादि से दांव लगा कर बाजी कर समाह्वय कहलाता है ।

षु समाह्वय चैव य कुर्यात्स्फुरयेत् वा ।

तान्सर्वान्वातपत्राश्चा शुद्धारथ द्विजलिगिन ॥२२४॥

(२२४) ❀ इन दोनों को जी करे और करावे उसकी और जो सूत्र ब्राह्मण, क्षत्रियों के विम्हों को चारण करने वाला है, उसका राजा सत्यानाश कर दे ।

किंतवान्कुर्यात्सुबान्कुर्यात्स्वामानवान् ।

विकर्मस्यान्धीदिकोश्च विप्रनिर्वासयत्पुरात् ॥२२५॥

(२२५) पुष्पारी नर्त्तक गायक संसार से सम्भुता करने वाला पासण्डी कर गृहित काम करने वाला मद्य बनाने वाला इन सबको राजा शीघ्र ही राज्य से बाहर निकाल दे ।

२२३ में श्लोक को देखो इसका अर्थ सिद्धा है ।

❀ २२४ में श्लोक में सूत्र अथत् भनपड जो विद्वानो का शेष चारण करके जन साधारण को छलवा देते हैं वह भी पुष्पारियों ही के तुल्य मनुजी बतलाते हैं ।

एने राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्नतरुः ।

विकर्म क्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥२२६॥

(२२६) यह सब गुप्त चोर हैं, खोटे कार्यों से उत्तम प्रजा को कष्ट व हानि पहुँचाते हैं ।

द्यूतमेतत्पुरा कल्पे दृष्टं वैरकरं महत ।

तस्माद्युतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान् ॥२२७॥

(२२७) बड़ी शत्रुता करने वाला जुआरी ही है, यह पूर्व काल में अनुभव किया गया है । इससे बुद्धिमान पुरुष हँसी से भी इसका व्यवहार न करें ।

प्रच्छन्नं वा पक्काशं वा तन्निषेवेत यो नरः ।

तस्य दण्डविकल्पः स्याद्यथेष्टं नृपतेस्तथा ॥२२८॥

(२२८) गुप्त वा प्रकट रीति से जुआरी पुरुषो को राजा जिस प्रकार का दण्ड देने की इच्छा करे वही दण्ड देवे ।

क्षत्रविट्शूद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्नुवन् ।

आनृण्यं कर्माणां गच्छेद्विप्रो दद्याच्छनैः शनैः ॥२२९॥

(२२९) क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह सब अर्थदण्ड के घनके देने की सामर्थ्य न रखते हो तो कार्य करके अर्थ दण्ड से ऋण की नाई मुक्ति पावे और ब्राह्मण धीरे-धीरे देवे, कार्य न करे ।

स्त्री बालोन्मत्तवृद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम् ।

शिफाविदलरज्ज्वाद्यैर्विदव्यन्तृपतिर्दमम् ॥ २३० ॥

(२३०) स्त्री, बालक, वृद्ध, उन्मत्त, दरिद्री, रोगी, इनको बास आदि की छड़ी से ताडना करना और रस्सी से बाधना, इन दण्डों की सजा देवे ।

ये निपुक्तास्तु कार्येषु इत्यु' कार्यार्थि कार्यिणाम् ।

१ घनोष्मज्ञा पच्यमानास्ताभिस्वान्कारयेन्नृपः ॥२३१॥

२ (२३१) यदि कोई पुरुष कार्य के सम्पादन करने को नौकर रखा गया हो और वह उस कार्य को जान-बूझ कर नष्ट कर दे तो राजा उसका सब घन ले ले ।

कूटशासनकर्तृश्च प्रकृतीनां च दूपकान् ।

स्त्रीभालप्राह्वसन्नारथ इत्यावृद्धिसेविनस्तथा ॥२३२॥

(२३२) राजाज्ञा उत्सर्जन करने वाले राज कर् को हाथि व दोप देने वाले स्त्री व स्वामी व ब्राह्मण को ताड़ना (मारने) करने वाले धाम् सेवा करने वाले जो पुरुष है राजा इन सबों को नष्ट कर दे ।

ठीरिगि चानुशिष्ट च तत्र छदन यद्भवेत् ।

कृत सद्भर्मातो विद्याभ सवृभूयो निवर्तयेत् ॥ २३३ ॥

(२३३) जिस स्वाग पर किसी विवाद में न्याय पूर्वक जो अन्तिम निर्णय न्यायाधीश ने कर दिया है उसको मान्य समझे और फिर उसको दूसरे प्रकार न करे ।

अमात्या प्राह्व विवाहो वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा ।

वत्स्वर्यं नृपतिं कुर्यात्तामहस्य च द्यदयेत् ॥२३४॥

(२३४) परन्तु अमात्य (मन्त्री) व न्यायाधीश जिस विवाद को न्याय प्रतिबन्ध निर्णय करे उसको राजा स्वयम् देने और यदि राजा के निरीक्षण में उनका अन्तिम निर्णय नीति विरुद्ध लगे तो राजा उनसे सहस्र पण दण्ड लेवे ।

महदा च सुरापरश्च स्तेयी च गुरुतस्वगं ।

एते सर्वे पृथग्धेया महापातकिनो नरा ॥ २३५ ॥

(२३५) ❀ ब्राह्मण को मारने वाला, मद्य पीने वाला, ब्राह्मण का सोना चुराने वाला, गुरुपत्नी वा माता से भोग करने वाला, यह चारो महापातकी कहलाते हैं ।

चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तमकुर्वताम् ।

शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत् ॥ २३६ ॥

(२३६) यह चारो प्रायश्चित्त न करें तो धन संयुक्त शारीरिक दण्ड निम्नलिखित विधान से देनी चाहिये ।

गुरुतले भगः कार्यः सुगपाने सुराध्वजः ।

स्तेप्रे च श्वपदं कार्यं ब्रह्महत्याशिरा पुमान् ॥ २३७ ॥

(२३७) १-गुरुपत्नी से रमण करने वाला, २-मद्य पीने वाला, ३-ब्राह्मण का सोना चुराने वाला, ४-ब्रह्महत्या करने वाला, इन चांगे के मस्तक पर यथाक्रम निम्नांकित चिन्ह श्रकित करना चाहिये अर्थात् १-भग के आकार का चिन्ह, २-मद्य व मद्यपात्र (गिलास) के आकार का चिन्ह, ३-कुत्ते के पाव के आकार का चिन्ह, ४-सिरहीन पुरुष आकृति का चिन्ह करवा दें ।

असंभोज्या ह्यसंयाज्या असंपाठ्याऽविवाहिनः ।

चरेयुः पृथिवी दीनां सर्वधर्मवहिष्कृताः ॥ २३८ ॥

(२३८) उक्त चिन्हाकित पुरुषो के भोजन, यज्ञ, पाठ, विवाह-हादि कर्म न करना चाहिये, यह सब सारे धर्मों से पृथक् होकर दरिद्री (दीन) व चिन्तित व भयावह होकर पृथ्वी पर विचरें ।

❀ २३५ श्लोक मे चाराव पीना महापातक मे परिगणित किया है और क्षेपक श्लोको मे मनुष्यो- का भक्ष्य बतलाया है । इससे स्पष्ट प्रकट है कि जिस श्लोक मे मद्य व मास व व्यभिचार को दूषित नही बतलाया है । यह श्लोक मिलाया हुआ है ।

ज्ञातिसम्बन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्या कुतलक्षणा ।

निर्दया निर्नमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम् ॥ २३६ ॥

(२३६) सजाती सम्बन्धी भ्राता भ्रात्रि सब परित्याग कर दें उन पर दया न करें धीर नमस्कार करें यह मनुजी महाराज की आज्ञा है कि यह सोम जाति विरादरी से सर्वदा घसम कर दिये जावें ।

प्रायश्चित्त तु कुर्वास्याः सर्ववर्णा यथोदितम् ।

नांश्या राज्ञा ललाटे स्युर्दाप्यास्तूतमसाहसम् ॥ २४० ॥

(२४०) जो चारों वर्णों के महापापी प्रायश्चित्त करना स्वीकार करे तो राजा उनके मस्तक पर बिन्दु अंकित न करे वरन् उससे सहस्र पण दण्ड स्वल्प से ।

आगन्तु ब्राह्मणस्यैव क्षयों मध्यमसाहसः ।

विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ २४१ ॥

(२४१) भपराधी ब्राह्मण से मध्यम साहस दण्ड सेवे भयवा भपराधी ब्राह्मण को साथ पदावी न भन सहित उसे अपने राज-सीमा से बाहर निकास दे ।

इतो कुतपन्तस्तु पापान्नेतान्यऽक्षमतः ।

सर्वस्वहारमर्हन्ति क्षमतस्तु प्रवासनम् ॥ २४२ ॥

(२४२) क्षमिय भ्रात्रि सीमों वर्णों अनिच्छा से इन पापों को करे तो उसकी तारी सम्पत्ति न भन को दण्ड स्वल्प हरण करे धीर यदि इच्छा के किया हो तो मूष मित्र के क्षम करने वा प्राण दण्ड का विधान करना चाहिये ।

नादरीत नृपः साधुर्महापस्तफिनो धनम् ।

आददानस्तु तन्सौमापेन दोषेण लिप्यते ॥ २४३ ॥

(२४२) जो राजा साधु होवे वह महापापियो के घनको लोभ वश अपने लिये न लेवे ।

अप्सु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत् ।

श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत् ॥ २४४ ॥

(२४४) दण्ड को घन का (अर्थात् दण्ड का द्रव्य व पदार्थ को) प नी मे डालकर वरुण देवता के आधीन करे अथवा उस ब्राह्मण को दे दे जो वेद शास्त्र का ज्ञाता हो और तदनुसार कर्म करने वाला हो ।

ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्ड परो हि सः ।

ईशः सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ २४५ ॥

(२४५) क्योंकि महापापी को दण्ड देने से जो घन प्राप्त है उस घन का स्वामी वरुण देवता है और वेद में पारङ्गत ब्राह्मण सारे जगत् का स्वामी है ।

यत्र वर्जयते राजा पापकृद्भ्यो घनागमम् ।

तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः ॥ २४६ ॥

(२४६) जिस देशका राजा पापियो के पाप द्वारा सचितधन को नहीं लेता उस देश के मनुष्यो की आयु अत्यधिक होजाती है ।

निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां पृथक् ।

बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥ २४७ ॥

(२४७) जिस प्रकार वैश्य लोग जो अन्न बोते हैं वह पृथक् उपजता है, उसी प्रकार उस राजा के राज्य में बालक भी नहीं मरते और न कोई अङ्गहीन बालक उत्पन्न होता है ।

ब्राह्मणान्वाधमानं तु कामादऽवरवर्णजम् ।

हन्याच्चित्रैवधोपायैरूद्भोजनकरैर्चृपः ॥ २४८ ॥

(२४८) जो क्षत्रिय व वैश्य व सूत्र व क्षाण को जान बूझ कर हत्या करे उसकी विविध प्रकार के कष्ट जिनमें उद्विग्नता व शोक संयुक्त हो राजा उसके द्वारा प्राणदण्ड देवे ।

यावानऽवध्यस्य वधे तावान्प्रथम्य मोक्षणे ।

अधर्मो नृपतर्हटा धर्मस्तु विनियच्छत ॥ २४९ ॥

(२४९) जो प्राणदण्ड के योग्य है उसके वधमें जितना पाप होता है उतना ही पाप प्राणदण्ड के योग्य पुरुष को छोड़ देने से होता है ।

उदितोऽय विस्तरशो मिथा विवदमानयो ।

अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः ॥ २५० ॥

(२५०) अथ मृगुजी कहते हैं कि हे ऋषि सागों ! अठारह प्रकार के विवादा से पारस्परिक व्यवहार करने वालों के विवाद के दण्ड व निर्णय विध न को वर्णित किया ।

एव धर्म्याधि क्षम्याधि सम्यक्कुर्वन्महीपति ।

देशशान्तसम्भोस्त्रिपुत्र सत्वारथ परिपालयेत् ॥ २५१ ॥

(२५१) राजा इस विधि से धर्मयुक्त सब कर्मों को मसी भाँति करता हुआ उन देशों को बिलस कराने की धमिसाया करे जो जीते नहीं गये हैं और फिर जीते हुए प्रदेशों की रक्षा करने की धमिसाया करे ।

सम्यह निष्टशस्तु कृतदुर्गरथ शाखर ।

कस्तकौदरयो निरयमातिष्ठयन्नमु मम् ॥ २५२ ॥

(२५२) देश में साम्प्रामुमार दुर्ग आदि बनाकर और उसमें निवास करके दण्डो पीडित कराने वाले मनुष्या का नाश करे ।

गङ्गादार्यघृणानां कण्टकानां च शोधनात् ।

नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ २५३ ॥

(२५३) राजा प्रजा के पालन में सलग्न व तत्पर होकर अच्छे लोगों की रक्षा करे और काटे निकालने से स्वर्ग को प्राप्त करता है ।

अशासंस्तस्करान्यस्तु बालिं गृह्णाति पार्थिवः ।

तस्य प्रदुभ्यते राष्ट्रं स्वर्गाच्च परिहीयते ॥ २५४ ॥

(२५४) जो राजा चोर आदिकों को दण्ड न देकर देश का रक्षा नहीं करता और अपना राज-कर व अश वरावर ग्रहण करता है तो वह राजा अपनी प्रजा के शाप से धर्म से पतित होकर अवश्य नाश हो जाता है ।

निर्भयं तु भवेद्यस्य राष्ट्रं बाहुबलाश्रितम् ।

तस्य तद्वधते नित्यं सिन्धुमान इव द्रुमः ॥ २५५ ॥

(२५५) जिस राजा का बाहुबल पाकर प्रजा अभय रहती है उसका राजा नित्य उन्नति पाता है जैसे सीचा हुआ वृक्ष ।

द्विविधांस्तस्करान्विघात्परद्रव्याऽपहारकान् ।

प्रकाशांश्चऽप्रकाशांश्चचारचक्षुर्महीपतिः ॥ २५६ ॥

(२५६) राजा गुप्त व प्रकट चोरी का उत्तम प्रबन्ध करे और भिन्न-भिन्न रीतियों द्वारा परीक्षा लेता रहे ।

प्रकाशवञ्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः ।

प्रच्छन्नवञ्चकास्त्वंते ये स्तेनाऽऽविकादयः ॥ २५७ ॥

(२५७) भिन्न-भिन्न प्रकार के द्रव्यों को मिश्रित कर बेचने वाले स्पष्ट चोर हैं तथा जनशून्य स्थान में और मनुष्यों के सो जाने की दशा में अन्य के धन को चुराने वाले गुप्त चोर हैं ।

उत्कल्यश्चरधौपधिक्यं वचनं स्त्रियवासा ।

भक्त्यादेशुचारश्च मद्राश्च पश्चिकैः सह ॥ २५८ ॥

(२५८) भावश्यकता वासे मनुष्यों से घन अपहरण कर घुणित पापकर्म में लगाने वासा धं मय दण्ड घन अपहरण करने वासा सोने आदि में समिधण द्वारा वन उपाजित करने वाला घृत सेवने वासा स्त्री व घन व पुत्र आदि का मगस दिससा घन हरण करने वासा कुकर्मी होने पर भी अपने घुम कर्मों को प्रकट कर घन हरण करने वासा हस्त (हाथ) रेखा का मला बुरा बतसाने वासा ।

अमर्यपकारिणश्चैव महामात्रारिषकित्सक्यं ।

शिन्योपचारयुक्चारव निपुणा पश्ययापित ॥२५९॥

(२५९) हाथी के शिषण द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला बंधक करने वाला दोनों उस अवस्था में जब कि अपने कार्य को मत्सी भांति सम्पादित न करे और घन सेवे विचकारी द्वारा कासयापन करने वाला विना कहे विच सिपवाने की उत्सुकता दिसाकर दूसरे का वन अपहरण करने वासा और पर स्त्री यह सब दूसरे को अपने वस में कर सेने में बतुर हैं ।

एवमादीन्निजानीयात्प्रकाशांक्लोककण्टकान् ।

निगूढचारिणश्चरधान्याननार्यानार्यसिद्धिनाः । २६० ॥

(२६०) इन सबको और उनके समान दूसरों को प्रकट में लोके के काटे जानना चाहिये और गुप्त साधकर्ता (निगूढवादी) अस्य हैं जो कि मने मनुष्य नहीं हैं परन्तु मने मनुष्यों के रूप में रहते हैं ।

तान्निवित्वा सुधरितैर्गुहैस्त्वकर्मकारिभिः ।

चारैश्चानेकसस्त्रैः प्रोत्सापयशमानयेत् ॥ २६१ ॥

(२६०) इन सबको कापटिक आदि गुप्तचरो द्वारा (जो कि विविध स्थानोपर स्थित हैं और जिन का वर्णन सातवें अध्याय में हुआ है । और उन मनुष्यों द्वारा जो गुप्त रीति से नाश कर्ता है, जान कर उनको कष्ट दंकर अपने आधीन करे ।

तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्वे कर्मणि तन्वतः ।

कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः ॥ २६२ ॥

(२६२) राजा प्रत्येक अपराधी के अपराध के दोष को पृथक्-पृथक् बतला कर उचित रीति से अपराध का दण्ड अपराधी को ऐसा देवे जिसमें किंचित् अन्याय न हो ।

नहि दण्डादृते शक्यः कर्तुं पापविनिग्रहः ।

स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितौ ॥ २६३ ॥

(२६३) चोर व अपराधी जो विनीत व प्रार्थी का रूप धारण किये सक्षर में विचरते हैं, उनके अपराध का प्रतिरोध दण्ड बिना दिये असाध्य है, इससे दण्ड अवश्य देना चाहिये ।

सभाप्रपापूपशालावेशमद्यान्नविक्रयः ।

चतुष्पथारचैत्यवृक्षाः समाजाः प्रेक्षणीनि च ॥ २६४ ॥

(२६४) चोरो के मूकत्रित होने के स्थान, कुवा, मिठाई बनने का स्थान, मद्य तथा अन्न विक्रय की दूकान, चौक, वेश्या का घर, वृक्षो की जड़, उत्सव मेला आदि ।

जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च ।

शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥

(२६५) प्राचीन उद्यान (वाग) व अरण्य (जङ्गल), शिल्पियों के पुराने घर, जन-शून्य घर, आम आदि का वन, तथा नवीन उपवन ।

षष्विधान्नुपो देशान्गुणै स्पादरज्जुमै ।

तस्करप्रतिपघार्थं चारैश्चाप्यनुचारयत् ॥ २६६ ॥

(२६६) ऐसे स्वामों पर सेना द्वारा राजा और घोर को पकड़े क्योंकि घोर यदि ऐसे स्वामों पर ब्याघ्र पदाथों तथा विषय भोग की क्षुब्ध-साधनों की लोभ में प्रायः रहा करते हैं ।

तन्महापैरनुगतैर्नानाकर्मप्रसदिभिः ।

विद्यादुस्मादर्यं चैव निपुणैः पूर्वतस्करैः ॥ २६७ ॥

(२६७) चोरों के रूप रस व विबाह से प्राप्त कर (अनुभवित) उनके प्राचीन मित्र तथा उनके धन से परित्राण पाने योग्य जो गुप्तचर के रूप में हैं उनके द्वारा चोरों का भेद ज्ञात कर चोरों को विनष्ट करना चाहिये ।

मन्वमान्योपदेशैश्च ब्राह्मणानां च दर्शनैः ।

ह्यीर्यकर्मापदेशैश्च कुर्षुस्तेषां समागम् ॥ २६८ ॥

(२६८) जो गुप्तचर नियोजित (स्मित्) किये हैं वह चोरी को प्रभावित (नीचे लिखी) रीतियों द्वारा एकत्रित करके बन्ध लेने । १-प्रायः हमारे घर में भोज है २-इस देश में एक ऐसा पाहाग है कि जिसके दर्शन मात्र से सब इच्छायें पूर्ण होती हैं और वह सर्व ज्ञाता है ३-एक ऐसा पुरुष है जो हजारों से मुक्त करेगा उसको देखिये ।

ये तत्र नोपसर्पेयुर्मक्षिप्रसिद्धिताश्च ये ।

तान्प्रमथ नृपो इत्यासामिभ्रजातिवान्च बान् ॥ २६९ ॥

(२६९) जो चोर पकड़े जाने के भय से जाने-पाने के स्वामों पर आये व चोरी व उक्त बंधवारी गुप्तचरों के समीप न आये तो राजा उनकी उसी प्रकार से पहिचान कर बन्धाने उनकी

बुलाकर उनके जाति सम्बन्धी व बान्धवों सहित नष्ट कर दे, यह न विचारे कि उनको दुःख होगा ।

न होढेन विना चौरं घातयेद्दार्मिको नृवः ।

सहोढं सोपकरणं घातयेद्विचारयन् ॥ २७० ॥

(२७०) विना चोरीकी वस्तु मिले राजा उन्हें दंड न दे, किन्तु यदि माल और सब्बल समेत यदि पकड़े जावें तो अवश्य दंड देवे ।

ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चौराणां भक्तदायकाः ।

भाण्डावकाशदारचैव सर्वास्तानपि घातयेत् - ॥२७१॥

(२७१) गाव भ जो कोई चोरो को भोजन, घर आदि सब प्रकार की सामग्री से सहायता करे, राजा इनको भी नाश करदे ।

राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्सामन्तारचैव चोदितान् ।

अभ्याघातेषु मध्यस्थाञ्छिष्याञ्चौरानिव द्रुतम् ॥२७२॥

(२७२) राज मे रक्षा करने वाले सामन्त और गाव के चारों ओर के निवासी, यह दोनों प्रकार के मनुष्य आदि चोरो को चोरी करने का आदेश करें, तो राजा उनको भी चोरो के समान ही दण्ड देवे ।

यश्चापि धर्मं समयत्प्रच्युतो धर्मजीवनः ।

दण्डेनैव तमप्योपेतस्वकाद्धर्माद्धि विच्युतम् ॥२७३॥

(२७३) जो ब्राह्मण अपने नित्य-नैमित्तिक कर्मों के स्थान पर दूसरो के हेतु जप-यज्ञादि कर्म करके जीवन निर्वाह करता हुआ अपने धर्म से प्रतिक्षण पृथक और च्युत रहता हो, राजा उस ब्राह्मण को भी दण्ड देवे ।

ग्रामघाते हिताभंगे पथि योपाभिदर्शने ।

शक्तिं नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदः ॥२७४॥

(२७४) जो मुख्य चोरों से गांव मष्ट भ्रष्ट होने व कुसु मङ्ग करने व पय मे चोरों के दिससाई देने पर सामय्यबाधु व बसवाली होने पर उनके पकड़ने के हेतु प्रयत्न न करनेवाला हा ।

राज्ञः कोपापहृत् रच प्रतिकूलेषु च स्वितान ।

पातयेद्विधिर्बैर्दशैररीषां चोपजापकान् ॥ २७५ ॥

(२७५) राजकोप को हरने वासा राजाजा के प्रतिकूल कार्य करमे वासा और राजा के शत्रु से मित्रता करमे वासा हा उनको धार्मिक व सारीरिक दोनों प्रकार के दण्ड देना चाहिये ।

संघि क्षित्वा तु ये चौर्यं रात्रौ कुर्वन्ति तस्मिन् ।

तेषां क्षित्वा नृपो इस्तौ तीव्रस्ये शुक्ले निषशभेत् ॥ २७६ ॥

(२७६) जो चोर सन्धिदिन (नकबजनी) कर रात्रि में चोरी करते हैं उनके दोनों हाथ काटने के पश्चात् तीक्ष्ण शूनी पर बैठाये ।

अ गुर्लीर्ग्रिचिमेदस्प छेदयेत्प्रथमे प्रदे ।

द्वितीय इस्तवगञ्जी तृतीये चचमईति ॥ २७७ ॥

(२७७) जो चोर प्रथम बार घिचि मेवे (मिरछ काटे) व प्रथम बार गृह मे छिद्र करे (नकब लगाये) उसका भगूठा तर्जनी व मुली काटना चाहिये और दूसरी बार यही दोनों अपराध करें तो हाथ-याग काटना चाहिये और तीसरी बार में वम करमा उचित है ।

अग्निदान्मक दारुषैव तथा शस्त्रावकाशदान् ।

सनिघातुं च मोपस्य हन्यात्सौगमिवेश्वरः ॥ २७८ ॥

(२७८) जो पुरुष चोर को अग्नि व भात व सस्त्र व शस्त्रावकाश देता है और जो चोरी की हुई वस्तुओं को रखने वासा है, उनको राजा चोर के समान हनन (नाश) करे ।

तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा ।

यद्वापि प्रतिसंस्क्रुर्यार्द्याप्यस्तत्तमसाहसम् ॥ २७६ ॥

(२७६) जब कोई पुरुष स्वच्छ व उत्तम तडाग (तालाब) को जिससे जन साधारण को स्नान करने व पशु आदि के पानी पिलाने का लाभ पहुँचता है, नाश करे वा बिगाड़े, तो राजा उसको वध करे और यदि वह तालाब को दूसरी बार वसा ही बनवा दे तो एक सहस्रपण दण्ड स्वरूप लेकर छोड़ दे ।

कोष्ठागारायुष्मागारदेवतागारभेदकान् ।

हस्तपश्वरथहंतृश्च हन्यादेवाऽविचारयन् ॥ २८० ॥

(२८०) राज कोष का गृह, शस्त्रागार (मेगजीन), मन्दिर को जो पुरुष छिन्न करे (तोड़े), राजा तुरन्त बिना सोचे उसे वध कर डाले ।

यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत् ।

आगमं वाप्यपां भिद्यात्सदाप्यः पूर्वसाहसम् ॥ २८१ ॥

(२८१) किसी पुरुष ने प्रजा के हितार्थ तालाब बनवाया और अन्य पुरुष उसका जल लेवे और जल आने के मार्ग में मेड़ लगा कर श्वरुद्ध (वन्द) कर दे, तो वह पुरुष प्रथम साहस दण्ड के योग्य है ।

समुत्सृजेद्राजमार्गे यस्त्वऽमेध्यमनापदि ।

स द्वौ कार्षापणौ दद्यादमेध्यं चांशु शोधयेत् ॥ २८२ ॥

(२८२) आपद समय के अतिरिक्त राज-मार्ग में यदि ग्रहित (अपवित्र) वस्तु डाले, तो दो कार्षापण ऋण देवे और जिस अपवित्र वस्तु को राज-मार्ग पर डाला है उसे शीघ्र ही वहाँ बाहर से ले जावे ।

आपद्गतोऽथवा वृद्धा गर्भिणी बाल एव वा ।

परिभाषणमर्हन्ति तच्च शोष्यमिति स्थिति ॥२८३॥

(२८३) यदि कोई आपद पीड़ित वृद्ध (बूढ़ा) गर्भिणी स्त्री व बालक उपरोक्त अपराध करे तो उससे बाणी मात्र से यह कहना चाहिये कि तुमने यह क्या किया वण्ड पाने योग्य नहीं है, परन्तु वे उस अपवित्र वस्तु को प्रवक्ष्य वहाँ से पृथक् कर ही दें ।

चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां इमः ।

अमानुषेषु प्रथमा मानुषेषु तु मध्यमा ॥ २८४ ॥

(२८४) जो पुरुष चिकित्सा में अज्ञान होने पर भी स्वार्थ साधन के हेतु से चिकित्सा करता है उससे पूर्व साहस प्रशस्ति सी परण वण्ड प्रवक्ष्य प्राप्तकरे और अनपठ मनुष्यों की चिकित्सा करे तो उससे पाँच सी परण वण्ड स्वरूप भेदे ।

संक्रमणव्ययणीनां प्रतिमानां मेदकः ।

प्रतिद्वयान्च सत्सर्ष पञ्चदशोच्छ्रतानि च ॥ २८५ ॥

(२८५) जो जल में उतरने के धर्म सङ्गी सगाई है व राज-ध्वजा व बाजार के वाट व गज आदि नाप के वस्तुओं के तोड़ने धामे को पाँच सी परण वण्ड करना चाहिये और वह वस्तु उसके व्यय से ठीक करानी चाहिये ।

अद्विपितानां द्रव्याणां रूपणे मेदने तथा ।

मशीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २८६ ॥

(२८६) रूपण रहित द्रव्यों (पदार्थों) को सरोप कहने और तोड़ने में और मशीन आदि के गड़ करने के हेतु सिद्ध करने से प्रथम साहस वण्ड भेदे ।

समर्हि विपमं यस्तु चरेद्वै मूल्यतोऽपि वा ।

समाप्नुयाद्दयं पूर्वं नरोः मध्यममेव वा ॥ २८७ ॥

(२८७) समान मूल्य देने वालो मे एक को उत्तम वस्तु दुसरे को गहित वस्तु व किसी को अधिक मूल्य वाली वस्तु व किसी को न्यून मूल्य वाली वस्तु देने वाला पाच सौ पण दण्ड के देवे । अपराध क अनुसार ही दण्ड देना चाहिये ।

वन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत् ।

दुःखिता यत्र दृशयेरन्विकृताः पापकारिणः ॥ २८८ ॥

(२८८) सारे बन्दोगृहो (कंद खानो) को राज-मार्ग पर बधवाना चाहिये कि उसको देखने से पाप कर्म करने वालो को दु ख हो अर्थात् क्षुधातुर,प्यासे, नख व सिर व दाढी केश (वाल) बढे हुए, कृश (दुबले) शरीर, हथकडी व वेडी पहिरे हुए बन्दियो (कैदियो) को देखकर सब प्राणी पापकर्मो से भयभीत होंगे और विचारेंगे कि जब हम अधर्म करेंगे तो हमारी भी यही दशा होगी ।

प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम् ।

द्वाराणां चैव भङ्क्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ २८९ ॥

(२८९) दुर्ग प्राकार (किले की दीवार) को छिन्न करने (तोडने) वाले को दुर्ग परिखा (खाई) के भरने वाले को व दुर्ग द्वार नष्ट करने वाले को शीघ्र ही अपने देश से निर्वासित कर दे (निकाल दे) ।

अभिचारेषु सर्वेषु कर्तव्यो द्विशतो दमः ।

मूलकर्मणि चानप्तेः कृत्यासु विविधासु च ॥२९४॥

(२९०) भिन्न-भिन्न प्रकार के घोका देने वाले कार्य

घर्षति मारण-मोहन उद्याटम जिससे घूर्त मोग दूसरों को हानि पहुँचाते हैं यदि उनके करने में थोड़ी हानि हुई हो तो सी पण बन्द करे और यदि उनके करने से किसी पुरुष की हत्या हो गई हो तो इस प्रकार की घूर्तता करने वाले को प्राण बन्द देना चाहिये ।

अनीजविक्रयी चैव बीजोत्कृष्ट तथैव च ।

मर्यादाभेदकरचैव विकृतं प्राप्नुपाद्यमम् ॥ २६१ ॥

(२६१) निष्कृष्ट बीज को बोका वे उत्तम वतलाकर बेचने वाला राज-नियम के प्रतिवृत्त कार्य करने वाला इन सबका हाथ बा कान काट देना चाहिये ।

सर्षकबटकपापिष्ट इमकारं तु पाचिवः ।

प्रबचतानमन्याये छेदयन्स्रवशः घुरैः ॥ २६२ ॥

(२६२) सब कुट्टों में बड़ा दुष्ट हेमकार (सुवर्णकार, सुनार) है वह जब अपराध करे तो अपराध के अनुसार बोड़े जोड़ा मज्जो को छुरी से छेदन करे ।

सीताद्रम्यापहरणं शस्त्रास्त्रामौषधस्य च ।

क्रान्तमासाद्य कार्यं च राजा दद्व प्रकल्पयेत् ॥ २६३ ॥

(२६३) सीता (हना) पशुहा धावि जो इवि सम्बन्धी मस्त्र हैं शस्त्र औषधि इन्हों के चुराने में देस कास व कर्म को देखकर राजा दण्ड विधान करे ।

स्वाम्यमास्यौ पुरं राट् क्षेशदयवी सुदृषया ।

सप्तप्रकृतयो ध्येताः सप्तार्गं राज्यमुप्यते ॥ २६४ ॥

(२६४) स्वाम्यने साठ मज्जहैं—१-राजा २ धमात्य (मन्त्री)

३-राजधानी, ४-राज्य, ५-कोष, ६-दण्ड, ७-राजा के सम्बन्धी वा सेना आदि । यह सात राज्य को प्रकृति वा मुख्य अङ्ग भी कहलाते हैं ।

सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यामां यथाक्रमम् ।

पूर्वं पूर्वं गुरुतरं जानीयाद्व्यमनं महत् ॥ २६५ ॥

(२६५) इन सातों यथाक्रम पूर्व-पूर्व को गुरुता (श्रेष्ठता) है और पूर्व को अन्त के होने में अधिक कष्ट होता है अर्थात् मन्त्री के अभाव में राजा को, राजधानी के अभाव में मन्त्री को, राष्ट्र के अभाव में राजधानी निवासियों को, कोष के अभाव में देश को, दण्ड के अभाव में कोष को तथा सम्बन्धी व सेना के अभाव में दण्ड को ।

सप्तांगस्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत् ।

अन्योन्यगुणवैशेष्यान्न किञ्चिदतिरिच्यते ॥ २६६ ॥

(२६६) इस लोक में परस्पर एकत्र सप्तांग राज्य में पारस्परिक विचित्र सहायता से त्रिदण्ड की नाई कोई अङ्ग निष्फल व अधिक नहीं है । यद्यपि प्रथम अङ्ग को अधिक कहा, तो भी इन सातों अङ्गों के बीच के अङ्ग के कार्य को दूसरा अङ्ग स्वयं नहीं कर सकता इससे अङ्ग को भी आवश्यकता होती है, इस कारण से अधिक अङ्ग होने का निषेध है । इसमें यती के त्रिदण्ड की उपमा दी है । जैसे तीनों दण्ड एकत्र कर ऊपर चार अंगुल गऊ के बाल से बाधने से परस्पर सम्बन्धित होजाते हैं और त्रिदण्ड धारण से शास्त्रार्थ में कोई दण्ड अधिक नहीं है वैसे ही उपरोक्त सप्ताङ्गी राज्य को जानना चाहिये ।

तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते ।

येन तत्साध्यते कार्यं तत्तस्मिञ्श्रेष्ठमुच्यते ॥ २६७ ॥

(२६७) जिस प्रज्ञ से जो उत्तम कार्य साधन हो वही उत्तम कार्य में श्रेष्ठ होता है ।

चारेशोऽसाहयोगेन क्रिययैव च कर्मणाम् ।

स्वशक्तिं परशक्तिं च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥२६८॥

(२६८) राजा चारण (ब्रूत वासुस) द्वारा उसके हृदय में असाहस शक्ति साहस व धैर्य से अपनी तथा शत्रु की शक्ति तथा विद्या को नित्य अनुमान कर रहा ।

पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च ।

भारमेत ततः कार्यं सधिस्त्य गुरुस्तथैवम् ॥ २६९ ॥

(२६९) कार्य-पत्र में पढ़ने वाले कष्ट देख व जाति की प्रकृति और छोटे-बड़े कार्य का विचार कर यथार्थ विधि से धारण करे ।

भारमेतैव कर्माणि भ्रान्तः भ्रान्त पुनः पुनः ।

कर्माद्यारममशा हि पुरुष भीर्निपेवसे ॥ ३०० ॥

(३००) यदि कार्य करते एक जावे तो विग्राम करने के पक्षपात फिर उस धारण किये हुए कार्य को करे, क्योंकि धन कार्य करने वालों की जेरी (वासी सेवक) हैं ।

कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं क्षत्रिरेव च ।

राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि-युगमुच्यते ॥३०१॥

(३०१) त्रिभुवन, द्वापर, त्रेता और सतयुग राजा के विचार के अनुसार वर्तते हैं । असा नियम व प्रबन्ध राजा प्रवर्तित करता है वंसा ही युग होता है ।

कलिं प्रसुप्तो भवति स आग्रद्द्वापरं युगम् ।

कर्मस्वभ्युपतस्त्रेता विचरस्तु कृत युगम् ॥ ३०२ ॥

(३०२) जब राजा मूर्खता व आलस्य-वश कार्य का प्रवन्ध करे तब कलियुग होता है, जब जान कर कार्य न करे तो द्वापर होता है, जब कार्य करता है तब त्रेता होता है और जब शास्त्रानुसार कार्य करता है तब सतयुग होता है । इससे राजा प्रत्येक क्षण कार्य करता है यह सिद्धान्त है चारों युगों का न होना सिद्धान्त नहीं है ।

इन्द्रस्य सूर्यस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च ।

चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च तेजोवृत्तं नृपश्चरेत् ॥३०३॥

(३०३) राजा इन्द्र, सूर्य, वायु, यमराज, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, पृथिवी, इनके गुणों को ग्रहण करे और दुष्ट-कर्मों को नाश करके प्रीति व तेज का अकुर उत्पन्न करे ।

वापिकाश्चतुरो मासान्यथेन्द्रोऽभिप्रवर्षति ।

तथाभिवर्षेत्स्व राष्ट्रं कामैरिन्द्रव्रतं चरन् ॥ ३०४ ॥

(३०४) जिस प्रकार चार मास वर्षा ऋतु (बरसात) में राजा इन्द्र जल वर्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा-इन्द्र का कार्य करता हुआ प्रजा की हार्दिक इच्छा पूर्ण करे ।

अष्टौ मांसान्यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः ।

तथा हरेत्करं राष्ट्रान्नित्यमर्कवृत्तं हि-तत् ॥ ३०५ ॥

(३०५) जिस भाति सूर्य अपनी किरणों द्वारा आठ मास पर्यन्त जल को भूमि से खींचते हैं, उसी प्रकार राजा सूर्य का कार्य करता हुआ राज्य को कर ग्रहण करे ।

प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः ।

तथा चारैः प्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्धि-मारुतम् ॥ ३०६ ॥

(३०६) जिस प्रकार वायु सारे प्राणियों में प्रवेष्ट करके

परिभ्रमण करती है उसी प्रकार राजा दामु का कार्य करता हुआ गुप्तचरों चारण आदि के द्वारा सारे राज्य में प्रविष्ट होकर परिभ्रमण करे ।

यथा यम प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते क्लान्त निपच्छति ।

तथा राज्ञा निपन्त्वप्याः प्रधास्तद्वियमव्रतम् ॥ ३०७ ॥

(३०७) जिस प्रकार यम राजा मित्र व शत्रु दोनो को मृत्यु काल उपस्थित होने पर मारता है उसी प्रकार राजा सारी प्रजा को अपराध के अनुसार यमराज का कार्य करता हुआ दण्ड देवे ।

वरुखेन यथा पाशैर्बद्ध एवामिदृश्यते ।

तथा पापान्निगृहीयावृम्रतमेतद्दि धारुणम् ॥ ३०८ ॥

(३०८) जिस प्रकार वरुण दृष्टों को बांधते हैं उसी प्रकार राजा वरुण का कार्य करता हुआ पापी अपराधियों के निग्रहार्थ बांधे ।

परिपूर्व यथा चन्द्र दृष्टा हृष्यन्ति मानवाः ।

तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चाद्रवतिको नृपः ॥ ३०९ ॥

(३०९) जिस प्रकार चन्द्रमा के दर्शन मात्र से मनुष्यों को हर्ष व आनन्द होता है उसी प्रकार सब जीव राजा के दर्शन से प्रसन्न रहे इस प्रकार राजा रहा करे ।

प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्य स्यात्पापकर्मसु ।

दुष्टसामन्तर्हिसरथ तदाग्नयं प्रतं स्मृतम् ॥ ३१० ॥

(३१०) पाप कर्मों में सर्वत्र प्रतापवान् और तेजवान् रहे अर्थात् अपराधियों को दण्ड देवे और अग्निव्रत अर्थात् सर्वत्र उपर की ओर जलने वाला और बुरी सम्मति देने वालों को दण्ड देता रहे ।

पृथ्व्या सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम् ।

तथा सर्वाणि भूतानि विभ्रतः पार्थिवं व्रतम् ॥३११॥

(३११) जिस प्रकार पृथिवी सब प्राणियों को अपने ऊपर सदैव एक ही अवस्था में स्थित रखती है उसी तरह राजा पृथ्वी का व्रत धारण करता हुआ सब प्राणियों को धारण करे ।

एतैरुपायैरन्यैश्च युक्तो नित्यमतन्द्रितः ।

स्तेनान्राजा निगृह्णीयात्स्वराष्ट्रे पर एव च ॥३१२॥

(३१२) इन उपायो तथा अन्य उपायो से सयुक्त रहकर सदैव आलस्य से दूर रहे और अपने तथा अन्य के राज्य से चोरो को नष्ट भ्रष्ट करे ।

परामप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत् ।

ते ह्येनं कुपिता हन्युः सद्यः सबलवाहनम् ॥ ३१३ ॥

(३१३) राजा दारुण आपद समय में भी ब्राह्मणों को कुपित न करे, क्योंकि उनके कोप करने से राज्य सेना सवारियों सहित नाश हो जाता है ।

यैः कृतः सर्वभक्ष्योऽग्निर्गपेयश्च महोदधिः ।

क्षयी चाप्यापितः सोमः को न नश्येत्प्रकोप्यतान् ॥३१४॥

(३१४) जिन ब्राह्मणों ने अग्नि को सर्वभक्षी और महासागर को खारी तथा चन्द्रमा को कुष्टी रोग वाला किया, उन ब्राह्मणों को कोपित कराके वीन का न नाश होगा ।

लोकानन्यान्तुजेयुर्ये लोकपालांश्च कोपिताः ।

देवान्कुर्युर्देवांश्चकः क्षिण्वंस्तान्समृध्नुयात् ॥३१५॥

ॐ प्रत्येक वस्तु खाने (जलाने) वाली ।

(३१५) ओ ब्राह्मण कोष तथा एक राजा को सिंहासना-
भ्युक्त कर दूसरे राजा को राज्य दे दे और विद्वानों को छात्रार्थ
में मूर्ख प्रमाणित कर दे उस ब्राह्मण को कष्ट देकर कौन पुरुष
धन व राज्य प्राप्त कर सकता है ।

याचुपाभित्य तिष्ठन्ति शोका देवाश्च सर्वदा ।

अथा चैव धनं येषां को हिस्पाद्यञ्जिबीविपु ॥३१६॥

(३१६) जिन ब्राह्मणों का धन बिखर ही है उन्हीं की धरणा
में शोक व देवता रहते हैं उन ब्राह्मणों का जीवन धाँसा रहने
वाला कौन पुरुष मार सकता है ।

अपिद्वारचैव विद्वारच ब्राह्मणो दैवतं महत् ।

प्रशीतरक्षाप्रशीतरचं यथाग्निदैवतत महत् ॥ ३१७ ॥

(३१७) ॐ ब्राह्मण चाहे विद्वान् व अविद्वान् हो अग्नि
के समान बड़ा देवता है ।

रमशानेष्वपि सैवस्त्री पापको नैव दुष्यति ।

ह्यमानरच यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते ॥ ३१८ ॥

(३१८) तेजस्वी अग्नि रमशान से भी दूषित नहीं होती
अर्थात् दोष की नहीं प्राप्त करती है फिर भी यज्ञ में हवि को
प्राप्त होती है कर्पान् प्रत्येक अन्नस्वा में बढ़ती ही है ।

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते मर्बकर्मसु ।

मवंषा ब्राह्मणा पूज्या परमं देवतं हि तम् ॥३१९॥

ॐ ३१७ वं स्मोर में अविद्वान् से तत्पर्यं सांसारिक ज्ञान
शून्य ब्राह्मण में है अथवा ब्रह्मविद्या का न ज्ञानमे वाला ब्राह्मण
कहलाता है ।

(३१९) यद्यपि ब्राह्मण साम्याग्निक कर्मों में बहुत दोष भी करता है तो भी ईश्वर-ज्ञानी होने से पूजने-योग्य देवता ॥

क्षत्रियस्यातिवृद्धस्य ब्राह्मणान्प्रति मर्वशः ।

ब्रह्मैव संनियन्तृस्यान्क्षत्रं हि ब्रह्मवर्भवम् ॥ ३२० ॥

(३२०) क्षत्रिये सब पदार्थों से वृद्ध हो परन्तु ब्राह्मण को अपने आधीन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ब्राह्मण से है, इस कारण ब्राह्मण क्षत्रियो को अपने आधीन कर सकते हैं ।

अद्भ्योऽग्नित्र ह्वतः क्षात्रमश्मनो लोहमुत्थितम् ।

तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥ ३२१ ॥

(३२१) जल से अग्नि, व ब्राह्मण से क्षत्रिय व पत्थर से लोहे का तेज बढ़ता है और वह अन्य पदार्थों को सब स्थान पर भस्म व आधीन करता व काटता है, परन्तु जब अपने सत्य तत्व से मिलता है तब शान्त हो जाता है ।

न ब्रह्म क्षत्रमृच्छनोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते ।

ब्रह्म क्षत्रं संपृक्तमिह चामुत्र वर्धते ॥ ३२२ ॥

(३२२) ब्रह्मण व क्षत्रिय एक दूसरे से पृथक् हो उन्नति नहीं कर सकते हैं और दोनों एकत्र होकर इस लोक में उन्नत होते हैं ।

दत्त्वा धनं तु विप्रेभ्यः सर्वदण्डसमुत्थितम् ।

पुत्रे राज्यं समासृज्य कुर्वीत प्रायणं गणे ॥ ३२३ ॥

(३२३) दण्ड द्वारा प्राप्त सारे धनको ब्राह्मण को देकर और राज्य पुत्र को देकर युद्ध में शरीर त्याग करे ।

एव चरन्सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः ।

हितेषु चैव लोकस्य सर्वाभृत्यान्नियोजयेत् ॥ ३२४ ॥

(३२४) इस विधि से राजा नित्य राज-कर्मों को करता हुआ लोक के हितार्थ सब कर्मचारियों को नियत करे ।

एषोऽखिला कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः ।

इमं कर्मविधिं विद्यात्क्रमशो वैश्यशूद्रयोः ॥ ३२५ ॥

(३२५) सब प्राणों के क्रमानुसार वैश्य तथा शूद्रों के कर्मों को बहेमे । राजा के लिए नित्य के कर्म का उपदेश हो चुका ।

वैश्यस्तु कृतसंस्कार कृत्वा दारपरिग्रहम् ।

धार्तराजां नित्ययुक्तः स्यात्पशूनां चैव रक्षणे ॥ ३२६ ॥

(३२६) वैश्य संस्कार करता कर विवाह करके पशु रक्षा व कृषि प्रादि में सदा रत (संतान) रहे ।

प्रजापतिर्हि वैश्याय सुष्टा परिददे परान् ।

ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वा परिददे प्रजा ॥ ३२७ ॥

(३२७) परमात्मा ने पशु के पालने के सब बंधों को नियत किया और प्रजा के पालन व रक्षार्थ ब्राह्मण और क्षत्रिय को उत्पन्न किया ।

न च वैश्यस्य काम स्यात्त रक्षेय पशूनिति ।

वैश्ये चच्छति नान्येन रक्षितव्या कथञ्चन ॥ ३२८ ॥

(३२८) वैश्य यह इच्छा न करे कि पशु रक्षा न करेगी कृषि प्रादि करता हुआ भी पशुओं की प्रबन्ध रक्षा करे और जब तक वैश्य पशुओं की रक्षा करे तब तक अन्य कर्ण न करे ।

मस्थिमुक्त्वप्रवालानां शोहानां तान्तवस्य च ।

गन्धानां च रसानां विषादर्षपत्तायत्नम् ॥ ३२९ ॥

(३२९) मणि मुन्हा (मोठी) प्रबाम (मू पा) मोहा सूत व

सुगन्धित द्रव्य तथा रस, इन सबो का मूल्य देश-काल को समझ कर न्यूनाधिक नियत करे ।

बीजानामुप्तिविच्च स्यात्क्षेत्रदोषगुणस्य च ।

मानयोगं च जानीयात्तु लायोगांश्च सर्वशः ॥३३०॥

(३३०) खेत का दोष व गुण व बीज बोने की विद्या, प्रस्थ व बरुण आदि योगो का ज्ञाता तथा तोला माषा आदि तोल परिणाम सख्याओ का ज्ञाता वैद्य होवे ।

सारासारं च भाण्डानां च गुणागुणान् ।

लाभालाभं च पर्यानां पशूनां परिवर्धनम् ॥३३१॥

(३३१) बर्तनी का सारा सार, देशो का गुण-अवगुण, बेचने वाली वस्तु की लाभहानि, पशुओ की वृद्धि, इन सबको जाने ।

भृत्यानां च भृतिं विद्याद्भाषाश्च त्रिविधा नृणाम् ।

द्रव्याणां स्थानयोगाश्च क्रयविक्रयनेव च ॥३३२॥

(३३२) भृत्यो (नौकरो) का वेतन, बहु प्रकारके मनुष्यो की भाषा, धन आदि द्रव्यो के स्थान का योग (उपाय) और क्रय (खरीदना), विक्रय (बेचना), इन सबको जाने ।

धर्मेण च द्रव्यवृद्ध्यातिष्ठेद्यन्नमुत्तमम् ।

दद्याच्च सर्वभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥ ३३३ ॥

(३३३) द्रव्य की वृद्धि मे धर्मयुक्त उत्तम उपाय करे, सब जीवो के खाने-पीने का उत्तम रीति से प्रयत्न करे ।

विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम् ।

शुश्रुषैव तु शूद्रस्य धर्मो नैश्रेयसः परः ॥ ३३४ ॥

(३३४) वेदपाठी व सदाचारी गृहस्थ ब्राह्मणो की सेवा शूद्रो को मोक्ष प्राप्त कराने का सर्वोत्तम साधन है ।

शुचिरुत्कृष्टशुभं पुनः द्वागऽनहकृत ।

प्राद्यशायभयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते ॥ ३३५ ॥ १

(३३५) शुचिता वृद्धों व बिद्वाना की सेवा-शुश्रूषा प्रिय भाषण भ्रूहकार का परित्याग सर्वत्र ब्राह्मणों की शरणमें रहना यह सब कार्य शूद्रों को उत्तम जाति प्राप्त कराने वाले हैं । ।

११ एषोऽनापदि वर्षानामुक्तः कर्मविविं शुभः ।

आपद्यदि हि यस्तपां कर्मशुश्रूषि पोषण ॥ ३३६ ॥ १

(३३६) आपद समय न होने पर यह नियम-कार्यों बरों के हेतु कहा । अब आपद (विपत्ति) समय में इ होने उचित कर्मों को यथाक्रम कहते हैं ।

मनुषी के धर्मशास्त्र धीर' मृगुजी की संहिता का
सबमः प्रथमः समाप्तः हुआ ।

❀ दशमोऽध्यायः ❀

अग्नीयीरस्रया बर्षांस्वर्कर्मस्या द्विजातया ।

प्रत्यादूत्रस्रस्त्वेषां नतगदिति निश्चयः ॥ १ ॥

(१) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य—भीनों वर्ग अपने कर्मों में स्थित होकर वेद को ग्रामानुसार त्रिज धर्म को करते हुए वेद को पढ़े । ब्राह्मण दूसरों को वेदध्ययन करावे किन्तु क्षत्रिय व वैश्य न करावें । यदि यह जाना वेदध्ययन कराव तो प्रामदित्त करें ।

सर्वेषां ब्राह्मणो विद्याद्बुद्ध्युपायान्यथाविधि ।

प्रत्यादितरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत् ॥ २ ॥ ।

(२) ब्राह्मण सब लोगो को जीविका विधि को वेद के अनुसार जान और दूसरो को समझावे और स्वयम् भी वैसा ही आचरण करे ।

वैशेष्यात्प्रकृतिश्रैष्ट्यान्नियमस्य च धारणात् ।

संस्कारस्य विशेषञ्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ३ ॥

(३) श्रेष्ठ जाति और उत्तम स्थान से उत्पत्ति और नियम के धारण और उत्तम संस्कार, इन कारणो से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और सब वर्णों का गुरु तथा प्रभु है ।

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः ।

चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ ३ ॥ ।

(४) ब्राह्मण, क्षत्रि, वैश्य, यद् तीनो वर्ण ॐ द्विजेन्मा कहलाते हैं और चौथा वर्ण शूद्र एक जन्मा कहलाता है । अन्य पाँचवा वर्ण नही है ।

सर्ववर्णेषु तुन्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु ।

आनुलोम्येन संभूता जात्यां श्रियास्त एव ते ॥ ५ ॥ ।

(५) सब वर्णोंमे इन स्त्रियो से, जो सजातीय, विवाहित व पाणिग्रहण समय अक्षत योनि हो जो सन्तान उत्पन्न होती है वह समान वर्णों (अर्थात् माता-पिता के वर्ण वाली) कहलाती है ।

ॐ द्विज के अर्थ दो जन्म वाले हैं । पहला जन्म तो माता-पिता द्वारा होता है और दूसरा जन्म गुरु और विद्या के द्वारा होता है । जिसका दूसरा जन्म न हो वह शूद्र है ।

शुचिस्तृष्टशुभ पुमृ द्वागऽनहकृत ।

आप्यायभया नित्यमुत्कृष्टां आतिमन्नुने ॥ ३३५ ॥ १

(३३५) शुचिता दूधों व विद्वानों की सेवा-सुख-या प्रिय भाषण प्रहकार का परित्याग सदैव ब्राह्मणों की शरणमें रहना यह सब कार्य दूधों को उत्तम आति प्राप्त कराने वाले हैं ।

एपोऽनापदि वर्षानामुक्त कर्मविधि शुभ ।

आपद्यि हि यस्तपां क्रमशास्त्रभि बोधन ॥ ३३६ ॥ १

(३३६) आपद समय न होने पर यह नियम चारों वर्णों के हेतु कहा । प्रथम आपद (विपत्ति) समय में इन्होंने उचित कर्मों को यथाक्रम कहते हैं ।

मनुष्यी के धर्मशास्त्र धीर मृगुषी की संहिता का
नवम अध्याय समाप्त हुआ ।



❀ दशमोऽध्याय ❀



अनीयीरस्यो वर्षांस्वर्कपस्या द्विजातयः ।

प्रत्यावृत्तस्यस्वेपां नाराभिति निश्चय ॥ १ ॥

(१) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य—भीनों वर्णों अपने कर्मों में स्थित होकर वेद की धामामुसार निज धर्म को करते हुए वेद को पढ़ । ब्राह्मण दूसरों को बेशक्यपन करावे किन्तु क्षत्रिय व वैश्य न करावें । यदि यह दोना वेद ध्ययन बचाव तो प्रायश्चित्त करें ।

सर्वेषां ब्राह्मणो विद्याद्वृत्त्युपायान्यथाविधि ।

प्रव्रयादितरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत् ॥ २ ॥ ।

(२) ब्राह्मण सब लोगो की जीविका विधि को वेद के अनुसार जान और दूसरो को समझावे और स्वयम् भी वंसा ही आचरण करे ।

वैशेष्यात्प्रकृतिश्रेष्ठान्निग्रमस्य च धारणात् ।

संस्कारस्य विशेषाच्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ३ ॥

(३) श्रेष्ठ जाति और उत्तम स्थान से उत्पत्ति और नियम के धारण और उत्तम संस्कार, इन कारणो से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और सब वर्णों का गुरु तथा प्रभु है ।

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः ।

चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ ३ ॥ ।

(४) ब्राह्मण, क्षत्रि, वैश्य, यद् तीनो वर्णं द्विजन्मा कहलाते हैं और चौथा वर्ण शूद्र एक जन्मा कहलाता है । अन्य पाचवा वर्ण नहीं है ।

सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु ।

आनुलोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ५ ॥ ।

(५) सब वर्णोंमे इन स्त्रियो से, जो सजातीय, विवाहित व पाणिग्रहण समय अक्षत योनि हो जो सन्तान उत्पन्न होती है वह समान वर्णों (अर्थात् माता-पिता के वर्ण वाली) कहलाती है ।

❀ द्विज के अर्थ दो जन्म वाले हैं । पहला जन्म तो माता-पिता द्वारा होता है और दूसरा जन्म गुरु और विद्या के द्वारा होता है । जिसका दूसरा जन्म न हो वह शूद्र है ।

स्त्रीध्वनन्तरआतासु द्विचैकृत्पादितान्मुतान् ।

सदृशानव धानाहुर्मातृदापविर्गाहितान् ॥ ६ ॥

(६) ❀ द्विज और एक जाति का भस्तर वाली स्त्री से जो सन्तान उत्पन्न होवे वह आप सदृश कहलाती है परन्तु उसमें माता का दोष निर्गहित है ।

ध्वनन्तरासु भ्रातानां विधिरेषा मनासतः ।

द्वैकान्तरासु आतानां धर्म्यविद्यादिर्म विधिम् ॥ ७ ॥

(७) एक जाति के भस्तर में उत्पन्न सन्तान के प्राचीन विधि को कहा । जब दो एक जाति के भस्तर से उत्पन्न सन्तान की विधि को कहते हैं ।

ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यापामम्बापुो नाम आयते ।

निपाद शूद्रकन्यायां य पारशव उच्यते ॥ ८ ॥

(८) ब्राह्मण से निवृत्त वैश्या (वैश्य कन्या) से पम्बापुी नाम सन्तान उत्पन्न होती है और ब्राह्मण से विनाहित शूद्र कन्या में निपाद जाति वासा उत्पन्न होता है । निपाद को पारशव भी कहते हैं ।

पत्रियाश्शूद्रकन्यायां ऋसाचारविहारवान् ।

पत्रशूद्रवपुर्ननुरुषो नाम प्रजापते ॥ ९ ॥

❀ महाभास्वत षष्ठे अध्याय ४६ पंक्तिक ४ व अध्याय ७७ श्लोक ७ ८ १३ व १७ के अनुसार ब्राह्मण से ब्राह्मणी व क्षत्रिय से क्षत्रिय तथा ब्राह्मण व वैश्य से वैश्य क्षत्रिय से क्षत्रिय व वैश्यामी से क्षत्रिय वैश्य से वैश्या व शूद्रानी से वैश्य वर्ण की गणना होती है ।

(६) ❀ क्षत्रिय से विवाहित शूद्र कन्या मे क्रूराचारी विहारवान, क्षत्रिय शूद्राग वाला उग्र नाम जाति वाला होता है ।

विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयोर्द्वयोः ।

वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्पडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥ १० ॥

(१०) ब्राह्मण ने क्षत्राणी आदि तीन वर्णों की स्त्री मे और क्षत्रिय से वैश्य आदि दो वर्णों की स्त्री मे जो सन्तान उत्पन्न होती है वह पड् (छह) अपसद अर्थात् निकृष्ट कहलाती है ।

क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातिः ।

वैश्यान्मागधवैदेहौ राजविप्राङ्गनासुतौ ॥ ११ ॥

(११) आनुलोम को वर्णन करके प्रातिलोम को कहते हैं । क्षत्रिय के ब्राह्मण की कन्या मे सूत जाति वाला होता है और वैश्य से क्षत्रिया मे मागध और वैश्य से ब्राह्मणो कन्या मे वैदेह जाति वाला होता है ।

शूद्रादायोगवः क्षत्रा चण्डालश्चाऽधमो नृणाम् ।

वैश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकरः ॥ १२ ॥

❀ अमवष्ट, पारशव, उग्र आदि किसी विशेष जातिका विलग नाम नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की सन्तान चारो मे से किसी एक वर्ण की होती है । आवष्टो कतिपय राजाओ का नाम भी था महाभारत कर्ण पर्व छठा अध्याय क्षत्रियो मे एक जाति अम्बुष्ट है चित्रगुप्त के पुत्र का अमवष्टो उपनाम हुआ था और चित्रगुप्त वशी भविष्य पुराण के अनुसार वाच्यम पृष्ठ १६३२के क्षत्रिय वर्ण से चित्रगुप्त को पारासर स्मृति वा शेष पुराण मे चौदह यम मे एक यम स्थिर किया है और यम का वर्णन शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद मण्डल के मन्त्र ४-२-३२ मे क्षत्रिय लिखा है । ।

स्त्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितान्सुतान् ।

सदृशानव तानाहुर्माठिदापविर्गहितान् ॥ ६ ॥

(६) ❀ द्विज और एक जाति का धस्तर वाली स्त्री से जो सन्तान उत्पन्न हुवे वह आप सदृश कहलाती है परन्तु उक्त माता का दोष विगर्हित है ।

अनन्तरासु जातानां विधिरप सनातन ।

द्वयेकान्तरासु जातानां धर्म्यविधादिम विधिम् ॥ ७ ॥

(७) एक जाति के धस्तर में उत्पन्न सन्तान के प्राचीन विधि को कहा । अथ दो एक जाति के धस्तर से उत्पन्न सन्तान की विधि को कहते हैं ।

ब्राह्मण्यार्यकन्यायामम्बुषो नाम ज्ञायते ।

निपाद्य शूद्रकन्यायां य पारश्व उच्यते ॥ ८ ॥

(८) ब्राह्मण से निवृत्त कन्या (वैश्य कन्या) में अम्बुषी नाम सन्तान उत्पन्न होती है और ब्राह्मण से विवाहित शूद्र कन्या में निपाद्य जाति का सन्तान उत्पन्न होता है । निपाद्य को पारश्व भी कहते हैं ।

सत्रियाश्शूद्रकन्यायां ऋत्वाचारविहाग्धान् ।

सत्रशूद्रवपुजन्तुरुषो नाम प्रजापते ॥ ९ ॥

❀ महाभारत पर्व अध्याय ४६ श्लोक ४ व अध्याय ५७ श्लोक ७ व १३ व १७ के अनुसार ब्राह्मण से ब्राह्मणी व क्षत्रणी में ब्रह्मण तथा ब्राह्मण व वैश्य में वैश्य सत्रिय से क्षत्रणी व वैश्यानी में सत्रिय वैश्य व वैश्य व सूत्रामी में वैश्य वरुण की गणना होती है ।

(६) ❀ क्षत्रिय से विवाहित शूद्र कन्या मे क्रूराचारी विहारवान, क्षत्रिय शूद्राग वाला उग्र नाम जाति वाला होता है ।

विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयोर्द्वयोः ।

वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्पडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥ १० ॥

(१०) ब्राह्मण ने क्षत्राणी आदि तीन वर्ण की स्त्री मे और क्षत्रिय से वैश्य आदि दो वर्ण की स्त्री मे जो सन्तान उत्पन्न होती है वह षड् (छह) अपसद अर्थात् निकृष्ट कहलाती है ।

क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः ।

वैश्यान्मागधवैदेहौ राजविप्राङ्गनासुतौ ॥ ११ ॥

(११) आनुलोम को वर्णन करके प्रातिलोम को कहते हैं । क्षत्रिय के ब्राह्मण की कन्या मे सूत जाति वाला होता है और वैश्य से क्षत्रिया मे मागध और वैश्य से ब्राह्मणी कन्या मे वैदेह जाति वाला होता है ।

शूद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालश्चाऽधमो नृणाम् ।

वैश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकरः ॥ १२ ॥

❀ अमवष्ट, पारशव, उग्र आदि किसी विशेष जातिका विलग नाम नही है, क्योकि प्रत्येक प्रकार की सन्तान चारो मे से किसी एक वर्ण की होती है । आवष्टो कतिपय राजाओ का नाम भी था महाभारत कर्ण पर्व छठा अध्याय क्षत्रियो मे एक जाति अम्बुष्ट है चित्रगुप्त के पुत्र का अमवष्टो उपनाम हुआ था और चित्रगुप्त वशी भविष्य पुराण के अनुसार वाच्यम पृष्ठ १६३२के क्षत्रिय वर्ण से चित्रगुप्त को पारासर स्मृति वा शेष पुराण मे चौदह यम मे एक यम स्थिर किया है और यम का वर्णन शतपथ ब्राह्मण यजर्वेद मण्डल के मन्त्र ४-२-३२ मे क्षत्रिय लिखा है ।

(१२) दूध से १-बैल्य, २-अभिमा व ३-बाह्यणी कन्या में यथाक्रम १-घायो २-गम धौद ३-क्षता मनुष्यों में प्रथम बाण्डाल जाति वाले होते हैं ।

एकान्तरे त्वनुलोम्यादम्भपुत्री यथा स्मृतौ ।

वसुवैदेहकी सद्दत्त्वातिज्ञाम्योऽपि क्षामनि ॥ १३ ॥

(१३) जिस प्रकार एक जाति के अन्तर में धानुलोम में अम्भपुत्री और उग्र है उसी प्रकार प्रतिभोम में क्षता और वैदेहिक हैं ।

सुत्रा येऽनन्तरस्त्रीज्ञा क्रमशोऽका द्विजन्मनाम् ।

धाननन्तरनाम्नस्तु मातृदोषात्प्रवर्धते ॥ १४ ॥

(१४) द्विजन्मानों में एक जाति (वर्ण) अन्तर वाली स्त्री में यथाक्रम जो पुत्र उत्पन्न हुए कहे गये हैं वह सब माता के दोष से माता की जाति वाले कहलाते हैं ।

भ्राह्मणादुग्रकन्यायामाहता नाम ज्ञायते ।

आभीरतेऽम्भपुत्रकन्यायामायोगर्भ्यां तु धिग्दयाः ॥ १५ ॥

(१५) ब्राह्मण से १-उग्र २-अम्भपुत्री ३-घायो व गर्भ इन तीनों की कन्या में यथाक्रम १-घायुत २-आभीर व धिग्दया जाति वाले होते हैं ।

आयोगवत्स्य सता व अयदासश्चाधमो नृत्वाम् ।

प्रातिज्ञौम्येन जायन्ते शूद्रादपसदास्रवाः ॥ १६ ॥

(१६) घायो १-क्षता २-बाण्डाल ३-मह तीर्थों पुरुष काम समर्प अर्थात् तैबबान सही होते, दूध से नीच होते हैं ।

वैश्यान्नामधववैदेही क्षत्रियास्तुत एव तु ।

प्र प्रतीप्सेते जायन्ते परऽप्यपसदास्रवाः ॥ १७ ॥

(१७) १-मागध, २-वैदेह, ३-सूत, यह तीनों पुत्राभी काम में समर्थ नहीं होते ।

जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुक्कसः ।

शूद्राज्जातो निषाद्यां तु स वै कुक्कुटकःस्मृतः ॥१८॥

(१८) निषाद से शूद्रा कन्या में पुक्कस जाति वाले होते हैं, शूद्र से निषाद कन्या में कुक्कुट जाति वाले होते हैं ।

क्षत्रजतिस्तथोग्रायां स्वपाक इति कीर्त्यते ।

वैदेहकेन श्रम्बुष्ट्यामुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ १९ ॥

(१९) क्षता से उग्रा कन्या में स्वपाक जाति वाले होते हैं, वैदेहिकसे श्रम्बुष्टो जाति की कन्या में वेण जाति वाले होते हैं ।

द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्रतांस्तु यान् ।

तान्सावित्रीपश्चिप्रदान्ब्रात्यानिति विनिर्दिशेत् ॥२०॥

(२०) द्विजन्माश्रो से सवर्ण स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न हुए परन्तु उनका यज्ञोपवीत (जनेऊ) सस्कार नहीं; वह ब्रात्या कहलाते हैं ।

ब्रात्यात्तु जायते विप्रत्पापात्मा भूर्जकण्टकः ।

श्रावन्त्यवाटधानौ च पुष्यधः शैरव एव च ॥ २१ ॥

(२१) श्रावत्य ब्राह्मण से ब्राह्मणी में जो उत्पन्न हुआ है वह पापात्मा भूर्जकण्टक जाति वाला कहलाता है इसको वेष भेद से श्रावन्त्य, वाट, धान, पुष्यध; शैरव कहते हैं ।

इस प्रकार की सन्तान केवल दुराचारी व विषयी पुरुषों के होती है, जिनसे कुल कलंकित होता है और धर्म की भी हानि पहुँचती है । जो ऐसी सन्तान उत्पन्न करता है उसकी भी ससार उत्पन्न होती है । इस कारण यह वर्णसंकर सन्तान है ।

भक्तो मन्त्रश्च राजन्याद्ब्राह्म्याभिच्छिद्विरेष च ।

नटश्च करशस्त्रैश्च खसो द्रविड एव च ॥ २२ ॥

(२२) ब्राह्म्याभ्रिय से क्षत्राणी से भक्त आति वाले होते हैं उनका नाम भक्त मन्त्र निच्छिद्व नट करण शस्त्र द्रविड हैं ।

वैश्यास्तु ज्ञायते ब्राह्म्यात्सुघन्वाचार्य एव च ।

कारूपश्च विजन्मा च मैत्र सात्वत एव च ॥ २३ ॥

(२३) ब्राह्म्या वैश्य से वदमा कस्या में सुघन्वाचार्य आति वाले होते हैं उनको कारूप विजन्मा मैत्र सात्वत आति वाले कहते हैं ।

अ्यमिषारख्य वर्यानामवेद्यावेदनेन च ।

स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसकराः ॥ २४ ॥

(२४) अय्य आति पुत्र्य से अय्य आति की स्त्री में भोग विवाह के प्रयोग्य है, इससे विवाह करना निज कर्मों का त्याग इन सब बातों से वर्णसकर उत्पन्न होते हैं ।

सकीर्णानया ये तु प्रतिसोमाऽनुत्तामजा ।

अन्योन्यव्यतिपकारश्च ता प्रबक्ष्याम्परोपता ॥ २५ ॥

(२५) समुत्तम और प्रतिसोम करके पारस्परिक सर्बष से जो सकीर्ण (बणकर) योगि है उसको मैं कहूंगा ।

सूतो वैदहकरश्चैव चाशुडालश्च नराधमः ।

मागध चतुर्जातिश्च तथाऽयोग्य एव च ॥ २६ ॥

(२६) मूत वैदेहिक पाण्डाम मागध शता प्रायोग्य

एते षट् सदृशान्वर्णाञ्जनयन्ति स्वयोनिषु ।

मातृ जात्यां प्रसूयन्ते प्रवराषु च योनिषु ॥ २७ ॥

(२७) वह छ जब ममान वर्ण की स्त्री मे अपने समान वर्ण का पुत्र उत्पन्न करते है । यहा पिता और माता के एक वर्ण होने मे उस वर्ण की सन्तान की उत्पत्ति जाननी चाहिये ।

यथा त्रयाणां वर्णानां द्वयोरात्मास्य जायते ।

आनन्तर्यात्स्वयोन्यां तु तथा ब्राह्मण्वपि क्रमात् ॥ २८ ॥

(२८) जिस प्रकार ब्र ह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों वर्ण मे से दो मे से दो मे अपनी नाई उत्पन्न होता है, उसी तरह आनन्तर (खारिज) जाति मे भी क्रम से होता है ।

ते चापि बाह्यान्सुबह्वस्ततोऽप्यधिकदूपितान् ।

परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान् ॥ २९ ॥

(२९) आयोगव आदि छ सवर्ण स्त्री मे अनुलोम करके भी अति दुष्ट पुत्र उत्पन्न करते है, जैसे आयोगव क्षता की स्त्री मे अपने से नीच को उत्पन्न करता है और क्षता भी आयोगव की स्त्री मे अपने मे नीच को उत्पन्न करता है, इस प्रकार अन्य जाति के लोगो मे भी जानना चाहिये ।

यथैव शूद्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते ।

तथा ब्राह्मतरं ब्राह्मश्चातुर्वर्ण्ये प्रसूयते ॥ ३० ॥

(३०) जैसे शूद्र ब्राह्मणी मे चाण्डाल को उत्पन्न करता है वैसे ही चारो वर्ण की स्त्रियो मे अपने से भी नीच पुत्र को करता है ।

प्रतिकूलं वर्तमाना वासा वासतरापुनः ।

हीनाहीनान्प्रस्यन्ते वर्तान्यश्चदरीव तु ॥ ३१ ॥

(३१) सूत्र से उत्पन्न ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य की स्त्री में प्रायोक्षता चाण्डाल तीनों चारों वर्णों की स्त्रियाँ और अपनी सवर्ण स्त्री में आप से नीचातिनीच पन्द्रह पुत्र उत्पन्न करते हैं और अनुसोमज सं है । वैश्य व क्षत्रिय से उत्पन्न मागध वैदेहिक सूत यह तीनों चारों वर्णों की स्त्री व अपने सवर्ण स्त्री से आप से नीच पन्द्रह पुत्र उत्पन्न करते हैं । इस प्रकार तीस पुत्र हुए अथवा १—चाण्डाल २—क्षता ३—प्राया ४—गब ५—वैदेहिक ६—मागध ७—सूत । यह छ. पूर्व पूर्व २ से अन्त २ के उत्तम हैं । यही छत्र्या कृत सोम करके पुत्रोत्पन्न करे तो पन्द्रह पुत्र उत्पन्न होते हैं । जैसे चाण्डाल से पाँचों वर्णों की स्त्रियों में पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, प्रायोग्य से तीनों स्त्रियों में तीन पुत्र उत्पन्न हुए । वैदेहिक से दोनों वर्णों की स्त्रियों में दो पुत्र उत्पन्न हुए । मागध से एक वर्णों की स्त्री में एक पुत्र उत्पन्न हुआ । सूत से प्राये कोई नहीं है । इससे कोई प्रीति सोम उत्पन्न नहीं होता इस रीति से पन्द्रह पुत्र उत्पन्न हुए । इसीमें धृगुची ने पुन अर्थ का उस्तथन किया । उसका अर्थ यह है कि १—सूत २—मागध ३—प्रायो ४—गब ५—क्षता ६—चाण्डाल ।

नोट—इसोक्त २२ से २६ तक वर्णों में पहुँचा न केवल ब्रह्मचर्याश्रम के समाप्त होने तक रहती है उत्पत्त्यात् पूर हो जाती है क्योंकि हम सिद्धान्तों के अनुसार ध्याप्त पारस्य के परस्तु तदु परात् ऋषि होयते । (२) उत्पत्ति से वर्णों केवल ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति तक उतना ही गृहस्थाश्रम में गुस्तुत को व्यवस्थानुसार वर्ण होता है और जो महा सूत्र और ब्राह्मण मिले गये हैं वह सब गुण कर्म से जानने चाहिये ।

यह छ कर्म अन्तिम २ से पूर्व पूर्व के उत्तम है। यह छहो प्रतिलोम विधि से पुत्रोत्पन्न करे तो पन्द्रह पुत्र उत्पन्न हुए हैं, सूत से पाचो वर्ण की स्त्री मे पाच, मागध से चारो वर्ण की स्त्री मे चार, वंदेहिक से तीनो वर्ण की स्त्री मे तीन, आयोगवसे दोनो वर्णो की स्त्री से दो, क्षता से एक वर्ण की स्त्री मे एक, चाडाल से कोई नीच नही है, इससे अनुलोम नही होता, इस प्रकार पन्द्रह हुए। दोनो जोडने से तीस हुए।

प्रसाधनोपचारज्ञमदासं दासजीवनम् ।

सैरिन्ध्रं वागुरावृत्तिं सूते दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥

(३२) केशो को ठीक व शुद्ध (साफ) करने वाला, जूठा भोजन खाने के अतिरिक्त नहलाना-धुलाना आदि सेवा के कार्य का ज्ञाता, कपट आदि द्वारा अथवा हिरन आदि के वध द्वारा अपजीवी सौरिन्ध्र नाम पुत्र को आयोगव की स्त्री मे दस्यु नाम जाति वाला पुरुष (जिसका लक्षण ४५ वें श्लोक मे कहेगे) उत्पन्न करता ।

मैत्रेयकं तु वैदेहौ माधुकं संप्रसूयते ।

नृन्प्रशंसत्यभस्त्र यो घण्टाताडोऽरुणोदवे ॥ ३३ ॥

(३३) आयोगव की स्त्री मे वंदेहिक से, मैत्रेय नाम पुत्र प्रियभाषी उत्पन्न होता है जो प्रात काल को घटा बजा बजा कर राजा आदि की प्रशसा करता है ।

निपादो मार्गं सूते दामं नौकर्मजीविनम् ।

कैवर्तमिति यं प्रादुरार्यावर्तनिवासिनः ॥ ३४ ॥

३१ वें श्लोक मे यह दिखलाया है कि सस्कार-भ्रष्ट पुरुषो की सन्तान भी वैसी पतित (गिरती) होती है ।

प्रतिशुल्ल वर्तमाना बाह्या बाह्यतर
हीनाहीनान्प्रसूयन्ते बर्षान्पिषदशौ

(३१) सूत्र से उत्पन्न ब्राह्मण क्षत्रि

में आयोक्तता चाण्डाल क्षीनों चारों बर्षों

सबर्षों स्त्री में धाप से मीचातिनीच पन्ना

श्रीर धनुमोमय से हैं । वैश्य व १

वैदेहिक सूत्र यह क्षीनों चारों बर्षों की १

से धाप से मीच पन्नाह पुत्र उत्पन्न

पुत्र हुए धयवा १—चाण्डाल २—

५—वैदेहिक ६—भागध ७—सूत्र ।

के उत्तम हैं । यही धृष्ट्या कृत

पन्नाह पुत्र उत्पन्न होते हैं ।

क्षत्रि में पाच पुत्र उत्पन्न हुए, ४

पुत्र उत्पन्न हुए । वैदेहिक से

उत्पन्न हुए । भागध से

हृष्ठा । सूत्र से धापे

उत्पन्न नहीं होता इन

मृगुषी ने पुत्र ७

१—सूत्र २—म

तो

ब्रह्मच

१

परात क्षत्रि होगय । (२)

समाप्ति तक उत्तमा ही गृहस्वात्म

बर्ष होता है श्रीर जो गृहो सूत्र श्रीर ५

सत्र मुदा कर्म से धामने चाहिये ।

पुरुषो के लिए अधिक का कार्य करने वाला और उसी द्वारा जीविका निर्वाह करने वाला और पापी सदैव साधु लोगो द्वारा गहित कहलाने वाला होता है ।

निपादस्त्री तु चण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम् ।

श्मशानगोचरं सूते वाह्यानामपि गहितम् ॥ ३६ ॥

(३६) चाण्डाल से निषाद की स्त्री मे श्मशान भूमि का वासी सब से गहित कहलाने वाला अन्त्यावसापि नाम जाति वाला पुत्र उत्पन्न होता है ।

संकरे जातयस्त्वेताः पितृभ्रातृप्रदर्शिताः ।

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वरुर्मभिः ॥४०॥

(४०) ऋवर्णमकर जाति मे माता-पिता से इतनी जातियो का बखान किया, वह जाति प्रकट हो वा गुप्त हो परन्तु अपने २ कार्यों (कर्मों) द्वारा जाति जानने योग्य होती है ।

सजातिज्ञानत्तरजाः पट् सूता द्विजधर्मिणः ।

शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजा स्मृता ॥ ४१ ॥

(४१) ब्रह्मण क्षत्रिय, वैश्यो से अपनी-अपनी जाति की स्त्री मे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं और ब्राह्मण से क्षत्राणी व क्षत्रिय से वैश्या मे व वैश्या से शूद्रा मे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वह छहो द्विज के कर्म वाले होते हैं अर्थात् जनेऊ आदि सस्कारो के योग्य होते हैं । इसके अतिरिक्त जो प्रतिलोम मे उत्पन्न है वह सब शूद्र के धर्म वाले कहलाते हैं ।

तपोनीजप्रभावैर्गु ते गच्छन्ति युगेयुगे ।

उत्कर्षं चापकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥

ऋ क्योकि जन्म का हाल सत्य किसी को ज्ञ त नहीं हो सकता अत मजुजी ने कर्मों द्वारा वर्णों की पहिचान बतलाई है ।

(१४) निषाद से प्रायोगव की स्त्री में मरुत्ताही जीबिका नामा दास नाम व मार्गेव ज्ञम पुत्र उत्पन्न होता है जिसको प्रार्यावर्त निवासी कैवर्त कहते हैं ।

मृतवस्त्रमृत्सु नारीषु गर्हितान्नाशनासु च ।

मवन्त्यायोगवीष्यते जातिहीनाः पृषक् प्रयः ॥ ३५ ॥

(१५) सैरिन्धी मार्गेव व मेत्रेयी सोमो मीष जाति प्रायोगव की उस स्त्री में पिता की विभिन्नता से पृषक्-पृषक् पैदा होते हैं जो कि कफन उतार कर और वृष स्वभाव वाले हैं गृहित भोजन करने वाले हैं ।

काराबरो निषादासु चर्मकार प्रसूयतेते ।

वैदेहिकादधमेदो षड्विग्रिमप्रतिभयौ ॥ ३६ ॥

(३६) निषाद से वैदेहिक की स्त्री में चर्मकार जाति नामा पुत्र और निषाद की स्त्री में मन्ध्र जाति नामा पुत्र उत्पन्न होता है । यह दोनों गाव के बाहर वास करने वाले होते हैं ।

चण्डालात्पायशुसोपाकस्त्ववसारण्यवहारवान् ।

आहिंसकौ निषादेन वैदेह्यामेव जायते ॥ ३७ ॥

(३७) चाण्डाल से वैदेहिक की स्त्री में वास के व्यापार द्वारा जीवन निर्वाह करते नामा पाण्डु व सोपाक जाति नामा पुत्र उत्पन्न होता है और उसी स्त्री में निषाद से आहिंसक जाति नामा पुत्र होता है ।

चण्डालेन तु सोपाको मूर्खण्यसमवृत्तिमान् ।

पुक्कस्मां जायते पाप सदा सज्जनगर्हितः ॥ ३८ ॥

(३८) चाण्डाल से पुक्कस की स्त्री में सोपाक जाति नामा पुत्र उत्पन्न होता है जो कि राजाज्ञा के अनुसार वम योम्य

पुरुषों के लिए अधिक का कार्य करने वाला और उसी द्वारा जीविका निर्वाह करने वाला और पापी सदैव साधु लोगों द्वारा गहित कहलाने वाला होता है ।

निषादस्त्री तु चण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम् ।

श्मशानगोचरं सृते बाह्यानामपि गहितम् ॥ ३६ ॥

(३६) चाण्डाल से निषाद को स्त्री में श्मशान भूमि का वासी सब से गहित कहलाने वाला अन्त्यावसापि नाम जाति वाला पुत्र उत्पन्न होता है ।

संकरे जानयस्त्वेताः पितृमातृप्रश्लिताः ।

प्रच्छन्ना वा प्रह्लाशा वा वेदितव्याः स्वरुमभिः ॥ ३७ ॥

(३७) ऋवर्णमकर जाति में माता-पिता से इतनी जातियों का बखान किया, वह जाति प्रकट हो वा गुप्त हो परन्तु अपने २ कार्यों (कर्मों) द्वारा जाति जानने योग्य होती है ।

सजातिजानत्तरजाः पट् सूता द्विजधर्मिणः ।

शूद्राणां तु भयर्माणः सर्वेऽपध्वंसजा स्मृता ॥ ३८ ॥

(३८) ब्रह्मण क्षत्रिय, वैश्यो से अपनी-अपनी जाति की स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं और ब्राह्मण से क्षत्राणी व क्षत्रिय से वैश्या में व वैश्या से शूद्रा में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वह छोड़ो द्विज के कर्म वाले होते हैं अर्थात् जनेऊ आदि संस्कारों के योग्य होते हैं । इसके अतिरिक्त जो प्रतिलोम से उत्पन्न है वह सब शूद्र के धर्म वाले कहलाते हैं ।

तपोवीजप्रभावेऽनु ते गच्छन्ति युगेयुगे ।

उत्कर्षं चापकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ३९ ॥

ऋक्योक्ति जन्म का हाल सत्य किसी को ज्ञान नहीं हो सकता अतः मनुजी ने कर्मों द्वारा वर्णों की पहिचान बतलाई है ।

(४२) × प्रत्येक युग तप तप्या वीज के कारण उत्तम व नीच वर्ण वाले लोग गिने जाते हैं अर्थात् समाप्त वर्णों माता-पिता से उत्पन्न उसी वर्णों के कहलाते हैं यदि उनमें उसी वर्णों के गुण हों ।

शनकैस्तु क्रियास्तोपादिमाः सत्रियजातयः ।

वृषत्त्व गता लोके माह्वयादर्शनेन च ॥ ४३ ॥

(४३) धीरे-धीरे क्रिया के सोप होने से धीरे ब्राह्मण के समान से निर्माकित क्षत्रिय संसार में वृषभ (सूद्र) हो गये ।

पौण्ड्रकार्षीयश्चिह्नाः काम्बोजा यवनाः शुक्राः ।

पारदाः पण्डारचीना किराता दरदाः स्वयाः ॥४४॥

(४४) * पौण्ड्रक धौड द्रविड कम्बोज यवन शक पारस

× ४२में वसोक में जो तप व वीज व उत्कर्षता व अपकृपता बतसाई गई है उसका तात्पर्य यह है कि प्रथम आश्रम में अर्थात् २३ वर्ष की आयु पर्यन्त तो माता-पिता के वर्ण वाला होता है शेष तीस आश्रमों में अपने गुण कर्मानुसार वर्ण वाला होता है इससे स्पष्ट तप्या गुण व कर्म को वर्णो किन्हु मानना चाहिये क्योंकि धास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण का आठ वर्ष में यज्ञोपवीत हो क्षत्रिय का स्यात् १६ वर्ष में हो तो यह सब वीज के कारण होते हैं क्योंकि प्रथम आश्रम में गुण कर्म होने में पिता का वर्ण पामा जाता है धीरे धीरे आश्रमों में अपने गुण कर्म से जानना ।

* ४४ वा वसोक स्पष्ट बतसा रहा है कि किसी समयमें धार संसार में वैदिक धर्म धीरे धीरे अर्थात् प्रकथित रहे हैं धीरे धीरे धीरे लोग उससे पतित होगये । संसार में दो प्रकृति के समुप्य हैं— एक उत्तम दूसरे नीच उत्तम कहते हैं कि जो संसार से निरत्य स्वामी अर्थात् परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले हैं धीरे धीरे बड़ हैं जो उसको आज्ञा को न मानकर मनुष्य-पूजा व मूर्तिपूजा में

पड गये हैं और हिंसा आदि पाह्लवा चीन, किरात, दरद खस इन देशोके निवासी क्षत्रिय लोग जनेऊ आदि सस्कारो तथा स्वाध्याय (वेदाध्ययन) यह कर्म न करने से शूद्र हो गये ।

मुखवाहूरुपज्जानां या लोकेजातयो बहिः ।

म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृता ॥४५॥

(४५) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों के कार्यों को त्याग देनेसे जितनी जाति चाहे उनका नाम सस्कृत विद्या का हो वा अन्य भाषा का हो वह सब जातिया (फिरक) दस्यु कहलाते हैं ।

ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्मृताः ।

ते निन्दितैर्वर्तयेयुर्द्विजानामेव कर्मभिः ॥ ४६ ॥

(४६) द्विजो से जो आपसद आदि जो आनुलोम द्वारा, उत्पन्न हुए हैं और जिनका वर्णन दशवें श्लोक मे हुआ और भी जो प्रतिलोम से उत्पन्न होते हैं यह सब द्विजो के निन्दित कर्म द्वारा कालयापन करे ।

पापो को करते हैं क्योंकि प्रत्येक स्वामी का एक नियम होता है इसी प्रकार उस नित्य परमेश्वर का नियम वेद है और वेद के अनुसार आचरण वाले आर्य और उसके विरुद्धाचरिणी दस्यु कहलाते हैं । क्योंकि वेद परमेश्वर के गुणो विशेषणां (सिफात) को हानि नहीं पहुँचाता और न कोई अन्य वस्तु को परमेश्वर के साथ सम्मिलित करता है अतएव वही ईश्वरीय आज्ञा का बताने वाला है । शेष ग्रन्थ (पुस्तकें) जिसमे लोगो के भाग आदि उल्लिखित हैं, मनुष्यो द्वारा रचित है उसमे जो बात वेद के अनुसार है वह जानने योग्य है और जो वेद के विरुद्ध है वह सर्वथा अमान्य व असत्य है ।

सूतानामश्वसारथ्यमम्बुष्टामां चिकित्सनम् ।

वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां चश्चिक्यव ॥ ४७ ॥

(४७) सूत का कार्य रथवान (सारथि) करना अम्बुष्टों का कार्य चिकित्सा करना वैदेहक कार्य नाचना मागध का कार्य वाणिज्य ।

मस्स्वातो निपादानां त्वष्टिस्त्रायोगवस्य च ।

भेदान्धसुञ्जुमद्गूनामारथयपशुर्हिसनम् ॥ ४८ ॥

(४८) निपाद का कार्य मछली मारना आयोगव का कार्य लकड़ी काटना हे-अन्ध सुन्व मार्गव इनकी जीविका पशु-हिंसा करना ।

चतुष्पुष्कमानां तु विलोक्यधववधनम् ।

विग्वाशानां चर्मकार्यं वेशानां मायुडवादनम् ॥ ४९ ॥

(४९) चतुष्पुष्कमानां की जीविका विलोक्य धववधनम् की जीविका वधन करना व चर्मकार्य करना विग्वाश की जीविका चर्मके का कार्य करना वेशानां का कार्य मायुडवादनम् आदि बजाना ।

चैस्वद्रुमरमशानेषु शीलेषुपवनेषु च ।

वसेपुरेते विज्ञातो वर्तयन्तः स्वकर्मभिः ॥ ५० ॥

(५०) यह सब भोग प्रसिद्ध वृक्षों (पेड़ों) की जड़ में जो पत्थर पहाड़ बन में अपने कर्मों के अनुसार जीविका निर्वाह करते हैं ।

॥ ४७-४९ स्लोकसे ४९ स्लोक तक बण-सत्कारों के कार्यों का वर्णन है कोई बर्णाश्रमी यह न समझे कि यह हमारा धर्म है ।

घाण्डालश्चपन्नानां तु वहिर्ग्रामाग्रप्रतिश्रयः ।

अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेपां श्वगर्दभम् ॥ ५१ ॥

(५१) चाण्डाल व स्वपत्र, यह दोनो ग्राम के बाहर वसे पात्र (वर्तन) आदि से बचित है और उनका धन कुत्ता व गर्दभ (गदहा) हैं ।

वामांसि मृतचैलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम् ।

काण्णायिसमलंकारः परिवृज्या च नित्यशः ॥ ५२ ॥

(५२) पुरुष के वस्त्र पहने, टूटे-फटे वर्तनो मे भोजन करें, लोहे के आभूषण पहरे और सदैव धूमते रहे (गश्त लगाते रहे) ।

न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन् ।

व्यवहारो मिथस्तेपां विवाहः सदरौः सह ॥ ५३ ॥

(५३) धर्मात्मा पुरुष इन लोगो के साथ दर्शन आदि व्यवहार न करें । इनका विवाह परस्पर होता है और व्यवहार भी अपने ही मे करें ।

अन्नमेपां पराधीनं देयं स्याद्भिन्नभाजने ।

रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥

(५४) उनक भोजन दूसरो के आधीन है । फूटे वर्तन मे अन्न देना चाहिये और यह लोग रात्रि मे गाव व नगर मे घूमने न पावे ।

दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिन्हिता राजशासनै ।

अत्रान्ध्रं शरं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५ ॥

(५५) यह लोग जाति चिन्ह के सहित राजा की आज्ञा के कार्यार्थ दिन मे फिरें और जिस मृतक का कोई सम्बन्धी न हो उसको ले जावे, यह शास्त्र का नियम है ।

सूतानामरवसारथ्यमम्बुगृह्णां चिकित्सनम् ।

वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां षड्विम्पयम् ॥ ४७ ॥

(४७) सूत का कार्य रथवान (सारथि) करना अम्बुगृह्णा का कार्य चिकित्सा करना वैदेहक कार्य नाचना मागध का कार्य वाणिज्य ।

मत्स्वातो निपादानां त्वष्टिस्त्वायोगवस्य च ।

मेगन्धबुध्बुमवृगूनामारथ्यपशुर्हिसनम् ॥ ४८ ॥

(४८) निपाव का कार्य मछली मारना सामोयन का कार्य लकड़ी काटना हेतु अथ बुध मार्गव इनकी जीविका पशु-हिंसा करना ।

घृत्रुप्रपुष्कमानां तु विलोकवधप्रन्धनम् ।

विम्बाहानां चर्मकार्यं वेष्टानां मारुडवादनम् ॥ ४९ ॥

(४९) ऋषता उग्र पुष्कस की जीविका विल में रहने वाले जीवों का वध करना व उनका वन्दन करना विम्बाह की जीविका चमड़े का कार्य करना वेष्टु अति का कार्य मूवर्ज प्राप्ति बजाया ।

चैस्पद्रु मरमशानपु शौक्षपुपवनपु च ।

बसेपुरेवै विद्वातो वर्तयन्त स्वकर्मभिः ॥ ५० ॥

(५०) यह सब भीम प्रसिद्ध वृक्षों (पेड़ों) की जड़ में जो परम्पर पहाड़ वन में अपने कर्मों के अनुसार जीविका निर्वाह करते हैं ।

ऋ ५७वें पंक्तिके ४९ पंक्तिक तक तण-संस्कारों के कार्यों का वर्णन है बाई वणिथिमी यह न समझे कि यह हमारा धर्म है ।

चाण्डालश्चपचानां तु बहिर्ग्रामान्प्रतिश्रयः ।

अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेपा श्वगर्दभम् ॥ ५१ ॥

(५१) चाण्डाल व स्वपच, यह दोनो ग्राम के बाहर बसें पात्र (बर्तन) आदि से बचित हैं और उनका धन कुत्ता व गर्दभ गदहा) हैं ।

वामांसि मृतचैलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम् ।

काष्णीयममलंकारः परिवृज्या च तित्यजः ॥ ५२ ॥

(५२) पुरुष के वस्त्र पहने, टूटे-फटे बर्तनो मे भोजन करें, लोहे के आभूषण पहरे और सदैव घूमते रहे (गश्त लगाते रहे) ।

न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममान्तरन् ।

व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ॥ ५३ ॥

(५३) धर्मात्मा पुरुष इन लोगो के साथ दर्शन आदि व्यवहार न करें । इनका विवाह परस्पर होता है और व्यवहार भी अपने ही मे करें ।

अन्नमेपां पराधीनं देयं स्याद्भिन्नभाजने ।

रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥

(५४) उनक भोजन दूसरो के आधीन है । फूटे बर्तन मे अन्न देना चाहिये और यह लोग रात्र मे गाव व नगर मे घूमने न पावें ।

दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिन्हिता राजशासनै ।

अवान्धवं शवं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५ ॥

(५५) यह लोग जाति चिन्ह के सहित राजा की आज्ञा के कार्यार्थ दिन मे फिरें और जिस मृतक का कोई सम्बन्धी न हो उसको ले जावें, यह शास्त्र का नियम है ।

वर्ष्यांश्च हन्यु सततं यथाशास्त्रं नृपाङ्गया ।

वर्ष्यवासांसि शृङ्गीयुः शय्याश्चामरखानि च ॥ ५६ ॥

(५६) यह लोग राजा की आज्ञा से शास्त्र विधि के अनुसार बम योग्य पुरुषों को बम करें और उन्हीं वर्ष्य (मकतस) पुरुषों के वस्त्र चम्पा घामूपणों का सेवें ।

वर्षापितमधिज्ञात नर कस्तुपयोनिघ्नम् ।

धार्यरूपमिधानार्यकर्मणि स्वैर्विमाचयेत् ॥ ५७ ॥

(५७) जो पुरुष नीच जाति से उत्पन्न हुआ हो वर्ण से पृथक् होकर रहे परन्तु जानने में न आता हो धार्यरूप हो परंतु अनार्य हो तो उसके कर्मों से उसकी जाति को जाने ।

अनार्यता निष्कुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता ।

पुरुष व्यजयन्तीह साके कस्तुपयोजिनम् ॥ ५८ ॥

(५८) अनार्य (धाय न होना) अपति सत्य (नेकी) से भ्रष्टा करना निष्कुर ब क्रूर होना सास्त्रानुसार कर्म न करना यह बात मनुष्य की उत्पत्ति नीच कुल में बतसाती है ।

विष्यं वा भवते शोच मातुर्वोभयमेव वा ।

न कवचन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ॥ ५९ ॥

(५९) मनुष्य माता-पिता के स्वभाव को ग्रहण करता है वा दाना की सम्मिश्रित प्रकृति सीकता है परन्तु नीच कुल का मनुष्य अपनी मोचता से वृद्ध प्रकृति को नहीं छोड़ता ।

कुल मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिमूर्तरं ।

मभयन्त्यन तच्छ्रीक्ष नराऽऽपमपि वा बहु ॥ ६० ॥

(६०) जो पुरुष उत्तम कुलमें नीच कुलकी मातासे उत्पन्न होता है वह अपने पिता के मारे गुणा का ग्रहण करता है ।

यत्र त्येते परिध्वंसाज्जायन्ते वर्णरूपकाः ।

राष्ट्रिकैः मह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ ६१ ॥

(६१) जिस राज्यमे वर्णों को दूषित करनेवाले वर्णमकर उत्पन्न होते हैं, वह राज्य प्रजा सहित शीघ्र नाश हो जाता है ।

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोऽनुपस्कृतिः ।

स्त्रीवालाभ्युपपत्तौ च ब्राह्मणानां सिद्धिकारणम् ॥६२॥

(६२) वर्णों के पृथक् मनुष्योंके हेतु ब्राह्मण, गऊ, बालक, स्त्री की रक्षा के अर्थ प्राण दे देना सिद्धि का पूर्ण कारण है ।

अहिंसा सत्यमस्तेर्यं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽत्रवीन्मनुः ॥ ६३ ॥

(६३) अहिंसा (किसी जीवको न मारना), सत्य बोलना चोरी न करना, शुचिता, इन्द्रिय निग्रह, इन सब धर्मों का मनुजी ने चार वर्णों के अर्थ कहा है ।

शूद्रायां ब्राह्मणाज्जाता श्रेयसा चेत्प्रजापते ।

अश्रेयात् श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमाद्युगात् ॥६४॥

(६४) शूद्रा स्त्री मे ब्राह्मण के वीर्य से पुत्री उत्पन्न हो पाराशवी कहाती है फिर उस पुत्री से ब्राह्मण विवाह कर पुत्री उत्पन्न करे, इसी प्रकार छ बार पुत्री उत्पन्न हो और ब्राह्मण से विवाह करे, तो अन्त की सन्तान ब्राह्मण हो जाती हे ।

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ ६५ ॥

(६५) ❀ शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शूद्र बन

❀ वर्ण का अधिकार गृहस्थाश्रम मे होता, यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्व का पुत्र वेदानुकूल उपनयन सस्कार व वेद आरभ

अनार्यभार्यकर्माशमार्यं चानार्यकर्मिणाम् ।

संप्रधार्यामित्रीदाता न समी नाऽसमाधिति ॥ ७३ ॥

(७३) ❀ अब अनार्य होकर भार्य के अधिकार पर प्रभुत्व जमाता है या भार्य होकर अनार्य के कर्म करता है इन दोनों की एकही वधा है । क्योंकि मित्रहृत् होकर उत्तम प्रकट करने से कोई विशेषता नहीं और न उत्तम होकर नीच कर्म करने से थ छटा स्थिर रह सकती है । इससे भार्य होकर भार्य के अधिकार पर प्रभुत्व जमाना ही उत्तम है और इसके विरुद्ध जमाना पाप है ।

ब्राह्मणा ब्रह्मपानिस्था ये स्वकर्मव्यवस्थिताः ।

ते सम्पूगुपज्जीवियुः पट् कर्माणि यथाक्रमम् ॥ ७४ ॥

(७४) अब परमात्मा के ध्यान में लीन हो वा बेबोक्त कर्मों में वसत हो तक उसको इन छः कर्मों में अपना जीवन समर्पण करना चाहिये इसके विरुद्ध न करे और उन्हीं द्वारा अपना निर्वाह करे । भीषिका के लिये दूसरा कार्य ग्रहण न करे ।

अध्यापनमध्ययनं यजन याजन तथा ।

दानं प्रतिग्रहरक्षेत्रं पट्कर्माण्यप्रबन्धनम् ॥ ७५ ॥

❀ क्योंकि जो ब्राह्म द्विजन्मा के कर्म करने वाला है वह द्विजन्मा नहीं होता अर्थात् जो पुरुष द्विजन्मा के कर्म वा अधिकारी नहीं है वह द्विजन्मा के तुल्य नहीं होता इसी प्रकार ब्राह्मका कर्म करने वाला द्विजन्मा ब्राह्म के समान नहीं होता बजित कर्म करने से जाति की थ छटा नहीं गई है और विरुद्ध भी नहीं है बजित कर्म करने से दोनों की समानता है अतएव जो कर्म निम्ननीय है उस कर्म को न कर यह उपदेश सबसे अर्थात् बर्णाश्रम को भी है ।

(७५) अपने गुरुसे पढना, स्त्रियोको पढाना, गुरुदक्षिणा देना, शिष्यो से गुरुदक्षिणा लेना दूसरे के घर यज्ञ करना और अपने घर करना, जो यज्ञ कराये उसको दान देना और जिसके यहा स्वय होवे उससे दान लेना ।

पराणां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका ।

याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ ७६ ॥

(७६) इन छ कर्मों से तीन कर्म जीविका के हेतु हैं अर्थात् पढाकर दक्षिणा लेना और यज्ञ कराकर दान लेना विशुद्ध मनुष्यो को उपदेश करके दान ग्रहण करना ,

त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात्क्षत्रियं प्रति ।

अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥

(७७) ❀ ब्राह्मणके धर्मों में से क्षत्रिय के लिए तीन कर्म उचित नहीं, प्रथम पढाना, द्वितीय यज्ञ कराना तृतीय दान लेना :

वैश्यं प्रति तथैवैते निवर्तेरन्नित स्थितिः ।

न तौ प्रति हि तान्धर्मान्मनुराह प्रजापतिः ॥ ७८ ॥

(७८) इस प्रकार वैश्य को भी वही तीनो कर्म वर्जित हैं अर्थात् वह उन कर्मों के करने का अधिकारी नहीं है यह मर्यादा है । क्षत्रिय और वैश्य दोनो के हेतु उन धर्मों का प्रजापति अर्थात् मनुजी ने वर्जित किये है ।

शस्त्रास्त्रभृत्त्वं क्षत्रस्य वणिक्पशुकृषिर्विशः ।

आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ ७९ ॥

❀ क्योकि क्षत्रिय विद्या में सदैव ब्राह्मणो से न्यून होगा, अत उसको पढाने व यज्ञ कराने का अधिकार नहीं दिया और दान लेना यज्ञ कराने तथा पढाने की दक्षिणा है, इससे इसका भी उसको अधिकार नहीं ।

सकता है, इसी प्रकार अत्रिय और व ह्यण भी सूत्र हो सकते हैं । अपने वर्ण से गिर कर दूसरे वर्णों में चले जाते हैं ।

अनार्याणां समुत्पन्नो ब्राह्मणास्तु यदृच्छया ।

प्रक्षयामप्यनार्यास्तु श्रेयस्त्व श्वेति चेद्वेत् ॥ ६६ ॥

(६६) सूत्रों में ब्राह्मण से उत्पन्न व व ह्यणी में सूत्रसे उत्पन्न इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है इसका उत्तर प्राणामी श्लोक में देने हैं ।

आतो नार्यामनार्यायामार्यादायो भवेदुगुणः ।

जाताऽप्यनार्यादार्यायामनार्य इति निरचय ॥ ६७ ॥

(६७) उत्तम बीज वाले से नीची योनि में उत्पन्न हुआ अर्थात् ब्राह्मण से सूत्रों में उत्पन्न हुआ यथापि उत्तम कर्मों के करने से श्रेष्ठ हो सकता है और नीच बीज से ऊँची योनि में उत्पन्न हुआ श्रेष्ठ नहीं ।

तावमावस्थमस्त्रय विधि चर्मो व्यवस्थितः ।

वैशुभ्याजन्मन पूर्वं उच्यते प्रतिलोमतः ॥ ६८ ॥

(६८) यह सिद्धांत नहीं है कि दोनो संस्कार योग्य नहीं हैं क्योंकि प्रथम बीज जाति से उत्पन्न हुआ है और दूसरा प्रतिलोम है ।

संस्कार न करे तो वह द्विज नहीं हो सकते और जब द्विज न हुए तो वह सूत्र कहलावये और सूत्र के पुत्र के यथाविधि वैदिक रीति से सब संस्कार होकर उपमयन और वेदारम्भ हो जावे तो वह द्विज होकर गुण तथा कर्म के अनुसार ब्राह्मण अत्रिय और वैश्य की पदवी पाता है ।

श्ल ६७ व ६८ श्लोक सम्मिलित किये हुए हैं क्योंकि व्यास प्राणि नीच योनि में उत्पन्न हुए और उनके संस्कार होकर भवे श्रेष्ठ हो गये । इससे गुण तथा कर्म श्रेष्ठता है ।

सुबीजं च व सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा ।

तथार्याजातं अनार्यायां सर्वं संस्कारमर्हति ॥ ६६ ॥

(६६) जिस प्रकार उत्तम बीज उत्तम खेत में पडने से उत्तम अन्न उपजता है, उसी प्रकार से श्रेष्ठ मनुष्य से श्रेष्ठ स्त्री में उत्पन्न हुआ पुत्र सब सम्कारों के योग्य होता है ।

बीजमेक्रे प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः ।

बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तत्रैयन्तु व्यवस्थितिः ॥ ७० ॥

(७०) कोई पण्डित बीज को श्रेष्ठ कहते हैं, कोई खेत को और कोई दोनों को श्रेष्ठ कहते हैं । इस अध्याय में अब जो विषय वर्णन करेंगे उसको जानना ।

अक्षेत्रे बीज मुत्सृष्टमन्तरेव विनश्यति ।

अबीजकमपि क्षेत्रं केवल स्थण्डिलं भवेत् ॥ ७१ ॥

(७१) ऊसर भूमि में जो बीज पडता है वह निष्फल जाता है अर्थात् जमता नहीं है और खेत अच्छा है परन्तु उसमें बीज नहीं है तो वह केवल स्थण्डिल (चबूतरा) ही है, उसमें अन्न नहीं उपजता है । इससे दोनों की श्रेष्ठता है । उत्तम बीज उत्तम खेत में पडे तो उत्तम अन्न उपजे । पूर्व ही कह आये हैं, वही माननीय है कि दोनों की श्रेष्ठता है ।

यस्माद्बीजप्रभावेण तिर्यग्जा ऋपयोऽभवन् ।

पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्बीजं प्रशस्यते ॥ ७२ ॥

(७२) जिस कारण से नीच वर्णों से उत्पन्न होकर भी बहुत लोग पूजा योग्य ऋषि हो गये । वही बीज उत्तम जानना चाहिये क्योंकि खेत और बीज में बीज श्रेष्ठ है ।

अनार्यमार्यकर्माश्रमायै चानार्यकर्मिण्यम् ।

संप्रधार्यामनीयाता न समौ नाऽसमानिति ॥ ७३ ॥

(७३) ❀ जब अनार्य होकर आर्य के अधिकार पर प्रभुत्व जमाता है या आर्य होकर अनार्य के कर्म करता है इन दोनों की एकसी पंथा है। क्योंकि निकृष्ट होकर उत्तम प्रकट करने से कोई विशेषता नहीं और न उत्तम होकर नीच कर्म करने से धृष्टता स्थिर रह सकती है। इससे आर्य होकर आर्य के अधिकार पर प्रभुत्व जमाना ही उत्तम है और इसके विरुद्ध चलाना पाप है।

ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकर्मभ्यवस्थिताः ।

ते सम्युगुपजीवेयुः पट् कर्माणि यथाक्रमम् ॥ ७४ ॥

(७४) जब परमात्मा के ध्यान में लीन हो या बेबोले कर्मों में ससम्न हो तब उसको इन छ कर्मों में अपना जीवन समर्पण करना चाहिये इसके विरुद्ध न करे और उन्हीं द्वारा अपना निर्वाह करे। जीविका के लिये दूसरा कार्य ग्रहण न करे।

अध्यापनमध्ययनं यजन याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहरथैव पट्कर्माण्यप्रबन्धनः ॥ ७५ ॥

❀ क्योंकि जो शूद्र द्विजन्मा के कर्म करने वाला है वह द्विजन्मा नहीं होता अर्थात् जो पुरुष द्विजन्मा के कर्म का अधिकारी नहीं है वह द्विजन्मा के तुल्य नहीं होता इसी प्रकार शूद्रका कर्म करने वाला द्विजन्मा शूद्र के समान नहीं होता अर्जित कर्म करने से जाति की धृष्टता नहीं गई है और विरुद्ध भी नहीं है, अर्जित कर्म करने से दोनों की समानता है अतएव जो कर्म निन्दनीय है उस कर्म को न करे यह उपदेश सबको अर्थात् बर्णसंकर को भी है।

(७५) अपने गुरुसे पढना, स्त्रियोको पढाना, गुरुदक्षिणा देना, शिष्यो से गुरुदक्षिणा लेना दूसरे के घर यज्ञ करना और अपने घर करना, जो यज्ञ कराये उसको दान देना और जिसके यहा स्वय होवे उससे दान लेना ।

परणां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका ।

याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ ७६ ॥

(७६) इन छ कर्मो से तीन कर्म जीविका के हेतु हैं अर्थात् पढाकर दक्षिणा लेना और यज्ञ कराकर दान लेना विद्युद्ध मनुष्यो को उपदेश करके दान ग्रहण करना ,

त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात्क्षत्रियं प्रति ।

अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥

(७७) ॐ ब्राह्मणके धर्मो मे से क्षत्रिय के लिए तीन कर्म उचित नही, प्रथम पढाना, द्वितीय यज्ञ कराना तृतीय दान लेना ।

वैश्यं प्रति तथैवैते निवर्तेरन्वित स्थितिः ।

न तौ प्रति हि तान्धर्मान्मनुराह प्रजापतिः ॥ ७८ ॥

(७८) इस प्रकार वैश्य को भी वही तीन कर्म उचित हैं अर्थात् वह उन कर्मो के करने का अधिकारी हैं है । क्षत्रिय और वैश्य दोनो के हेतु उन कर्मो का प्रजापति मनुजी ने वर्जित किये है ।

शस्त्रास्त्रभृत्वं क्षत्रस्य वनिः ॥ ७९ ॥

(७१) क्षत्र (हथियार) मत्स्य (जो मत्स्य पक कर फेंका जाय) का धारण करना क्षत्रियो का कर्म है और व्यापार करना व गऊ आदि पशुओं की रक्षा व खेती करना वस्स का काम है । पकना मत्स्य करना उपा धान देना यह धर्म क्षत्रिय व वस्स दोनों का है ।

वदाश्रयसो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य रक्षरथम् ।

वात्री कर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥ ८० ॥

(८०) अपने-अपने कर्मों में एक-एक थ ह कर्म तीनोंका है प्रबन्त ब्राह्मण को पकना, क्षत्रिय का सवार की रक्षा करना और वैश्य का वाणिज्य (व्यापार) करना ।

अग्नीवस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणं स्वन कर्मणा ।

खीवत्क्षत्रियमेव स वास्य प्रत्यनन्तरं ॥ ८१ ॥

(८१) जब ब्राह्मण को अपने कर्म द्वारा निर्वाह करना कठिन हो तो वह क्षत्रियके कर्म द्वारा निर्वाह करे क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय में अति ब्रून अन्तर है ।

उभार्यामप्यग्नीवस्तु कर्षं स्यादिति वेदवेत् ।

कृपिगौरवमास्थाय खीवेद्वैश्यस्य खीविकाम् ॥ ८२ ॥

(८२) यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय के कर्मों से जीवन-निर्वाह न हो सके तो वैश्यके कर्मों द्वारा निर्वाह करे परन्तु यह निर्वाह विपत्तिनाश के निमित्त अर्पित है प्रत्येक समय नहीं ।

वैश्यवृत्त्यापि खीवस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा ।

द्विसांप्रायी पराधीनी कृपिं यस्नन वक्ष्येत् ॥ ८३ ॥

(८२) ❀ ब्राह्मण व क्षत्रिय भी वैश्य के धर्म से निर्वाह करते हुए जहा तक सम्भव हो कृषि (खेती) न करे जो कि अन्य के आधीन है अर्थात् हल आदि के विना कुछ फल प्राप्त नहीं होता ।

कृषिं साध्वति मन्यन्ते साः वृत्तिः सद्विगर्हिता ।

भूमि भूमिशयार्थैव हन्ति काष्ठमयोमुखम् ॥ ८४ ॥

(८४) कृषि को उत्तम कहता है सो सत्य नहीं है क्योंकि भूमि को और भूमि के भीतर के निवासी जीवों को काठ और लोहे का मुख रखने वाला (हल, सीता) नाश करता है, इससे साधु लोगो ने उस जीविका की निन्दा की है ।

इदं तु वृत्तिवैकल्यान्यजतो धर्मनैपुणम् ।

विट्पण्यमुद्धृतोद्धारं विक्रयं वित्तवर्धनम् ॥ ८५ ॥

(८५) ब्राह्मण, क्षत्रिय अपनी जीविका से निर्वाह न कर सकें तो वैश्य की जीविका से निर्वाह करे तथा आगामी में जो वस्तु बेचना वजित करेंगे उनके अतिरिक्त धन को उन्नति देने वाली वस्तुओं को बेचें ।

सर्वानुरसानपोहेत कृतान्नं च तिलैः सह ।

अश्मनो लवणं चैव पशवो ये च मानुषः ॥ ८६ ॥

(८६) सब रस, सरसो, तिल, पत्थर, -नमक, पशु व मनुष्य इन सबको न बेचे । रस के वर्जने से नमकका जिषेध सिद्ध है, पत्थर जो नमक का निषेध किया तो दोष का बडप्पन प्रकट करने के लिये कहा वह भी प्रायश्चित्त को बडाई के हेतु है इसी प्रकार इनके निषेध को पृथक्-२ जान लेना चाहिये ।

❀ ८३ वें श्लोक में जो कृषि को वजित किया है यह केवल ब्राह्मण के लिए है अन्यथा सारे कर्मों में कृषि उत्तम है क्योंकि उससे परमेश्वर का आश्रय लिया है ।

सर्वे च तान्तर्ध्वं रक्त शस्त्रघ्नोमाविष्कानि च ।

अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूले तथोपधि ॥ ८७ ॥

(८७) सब मांस वस्त्र सम ब तीसी ब भेड़ इन तीना से बना वस्त्र फल, मूस, धोपधियां ।

अप शस्त्र विष मांस सोम गन्धारश्च सर्वश ॥

धीर धौद्र दधि घृत तैल मधु गुड कुशान् ॥ ८८ ॥

(८८) जल घस्त्र, विष मांस सोममत्ता सुगन्धित इष प्रादि दूध बही सहद धी तेल मोम गुड़ कुशा ।

आरययारश्च पशुन्सर्वादिद्रिष्यश्च वयांसि च ।

मय नीलं च छाद्यां च सर्वाश्चैकशफास्तथा ॥ ८९ ॥

(८९) दो दाड़ बामे बन-पशु धर्षात् सिंह प्रादि पक्षी धराब नील माद्य एक बुर बामे बीब इन सबको न बेचे ।

काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कृषीवस्तः ।

विक्रीणीत तिलाम्बुद्रान्धर्मार्ष मधिरस्थितान् ॥ ९० ॥

(९०) कृषि करने वाला खेती में तिल को उत्पन्न करे और वह तिल कुछ हो अधिक समय बर में न रहा हो तो उसको धर्मार्ष बेचे ।

मोघनाम्यङ्गनादानाद्यदन्यत्कृत्यै तिलैः ।

कृमिमृतः श्वविष्टायां पितृभिः सह मज्जति ॥ ९१ ॥

(९१) जो मनुष्य मोघन उबटन दान, यह तीन कर्म परित्याग कर दूसरा कर्म तिल से करे वह कीड़ा होकर अपने पूर्वजों सहित कुर्तों की बिछा में पड़ा रहता है ।

सद्यःपतित मांसेन लक्ष्या लवणेन च ।

व्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ॥ ६२ ॥

(६२) मास, नमक व लाख के बेचने से शीघ्र पतित होता है अर्थात् अपनी वर्ण पदवी से गिर जाता है और दूध बेचने से तीन ही दिन में शूद्र भाव को प्राप्त होता है ।

इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः ।

ब्राह्मणः सप्तगत्रेण वैश्यभावं नियच्छति ॥ ६३ ॥

(६३) ब्राह्मण स्वेच्छानुसार दूसरी वस्तुओं के बेचने से सात रात्रि में वैश्य भाव को प्राप्त होता है ।

रमा रसेनिमीतव्या न त्वेव लवणं रसैः ।

कृतान्नं चाकृतान्नेन तिला धान्येन तत्समाः ॥६४॥

(६४) रस अर्थात् गुड इत्यादि को घी आदि से बदलना उचित है और नमक को दूसरे रस के साथ न बदलना चाहिये और कच्चे अन्न को कृतान्न (परिपक्व अन्न) से तथा तिल को धान से न बदलना चाहिये परन्तु वह पलटा तोल में समान है ।

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः ।

नत्वेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित् ॥ ६५ ॥

(६५) क्षत्रिय विपत्ति समय आने पर उपरोक्त जीविका से निर्वाह करे परन्तु बड़ों की जीविका से निर्वाह करने का घमण्ड कभी न करे ।

यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मभिः ।

तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ ६६ ॥

(१००) जिन कर्मों से द्विजन्माश्रो की सेवा हो सके वह कर्म अर्थात् वढई, चित्रकार आदि विविध प्रकार के कर्म करे ।

वैश्यवृत्तिमनातिष्ठन्ब्राह्मणः स्वे पथि स्थितः ।

अवृत्तिकर्षितः सीदन्निमं धर्मं समाचरेत् ॥ १०१ ॥

(१०१) जो ब्राह्मण वैश्य के कर्म को न करे और जीविका-विहीन कष्ट पाकर अपने धर्म में स्थित हो वह उस कर्म को करे जो आगे कहेंगे ।

सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद्ब्राह्मणस्त्वनयं गतः ।

पवित्रं दुष्यतीत्येतद्धर्मतो नोपपद्यते ॥ १०२ ॥

(१०२) विपत्ति के समय यदि ब्राह्मण अपने कर्म को न त्यागे और सबसे दान ग्रहण करना स्वीकार करे यद्यपि सबसे दान लेने में पवित्र ब्राह्मण को दोष लगता है परन्तु विपत्ति काल में लेने में धर्म से पतित नहीं होता ।

नाध्यापनाघ्राजनाद्वा गर्हिताद्वा प्रतिग्रहात् ।

दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ॥ १०३ ॥

(१०३) इसी प्रकार पढाना, यज्ञ कराना, निन्दनीय मनुष्यों से धन लेना, इनसे ब्राह्मण को दोष नहीं होता वगैरि ब्राह्मण जल तथा अग्नि के समान है ।

जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः ।

आकाशमिव पंकेन न स पापेन लिप्यते ॥ १०४ ॥

(१०४) जो ब्राह्मण आपद काल में इधर-उधर से भोजन करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता जैसे आकाश पक (कीच) भी है पर उससे लिप्त नहीं होता ।

अग्नीगर्तं सुत इन्दुमुषामर्षद्वयमुदित ।

न शालिष्येत पापेन सुत्वतीकारमाचरन् ॥ १०५ ॥

(१०५) × अपनी मातृभाषी रक्षा का काम करने से पाप नहीं होता । अग्नीगर्त ऋषि ने सुषा के कारण अपने पुत्र को राजा के पास बेच डाला और राजा उसको यज्ञ में मारने मने ।

श्वर्मांसमिच्छन्नातोऽपु धर्माधर्मविचक्षणः ।

प्राणानां परिरक्षाय वामदेवो न लिप्तवान् ॥ १०६ ॥

(१०६) धर्म और अधर्म के ज्ञाता वामदेव ऋषि सुषा से पीड़ित होकर मातृभार्य्य कृत का मांस खाने की इच्छा करने पर भी पाप से लिप्त नहीं हुए ।

भरद्वाज सुधार्चस्तु सपुत्रो विजने वन ।

बह्वीर्गा प्रतिजग्राह वृधोस्तपस्यो महातपाः ॥ १०७ ॥

(१०७) भरद्वाज ऋषि अपने पुत्र सहित जब धर्म सुषातुर हो गये वन में एक बूढ़ो नाम बडई से बहुत सी मन्त्रों का वान लिया ।

सुधार्चश्चापु मम्पागाद्विस्थाभिन्न स्वजायनीम् ।

अथबालइस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षणः ॥ १०८ ॥

(१०८) × धर्म-अधर्म के ज्ञाता विस्थाभिन्न ऋषि ने

× १०५ का श्लोक सम्मिलित किया हुआ है क्योंकि मनुष्य ब्रह्म का किसी में विधान नहीं पर यज्ञ के लिये राजा का शरीर ना और ऋषि का बेचना दोनों असत्य हैं । यह लोगो ने पाप करने के लिये लिखा है ।

× १०७ व १०८ के श्लोक सम्मिलित किये गये हैं क्योंकि श्रीज्ज शीत सुषा प्यास सहने का नाम ही तप है और जो उन्हीं

क्षुधा से पीड़ित होकर चाण्डाल के हाथ से कुत्ते की जंघा खाने को ले ली ।

प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तथैवाध्यापनादपि ।

प्रतिग्रहः प्रत्यवरं प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः ॥ १०६ ॥

(१०६) ब्राह्मण को विपत्ति काल होने की दशा में यज्ञ कराना और पढाना, इन दोनों कर्मों के द्वारा दान लेना परलोक में निन्दनीय है ।

याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम् ।

प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्त्य जन्मनः ॥ ११० ॥

(११०) यज्ञ कराने और पढानेसे अपनी आत्मा का संस्कर होता है यदि इसके द्वारा क्षत्रिय व वैश्य से दान ग्रहण किया जावे तो घृणा योग्य है और शूद्र से दान लिया जावे तो और भी बुरा है ।

जपहोमैरपैत्येनो याजनाध्यापनै कृतम् ।

प्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपसैव च ॥ १११ ॥

(१११) यज्ञ कराने और पढाने से जो पाप होता है वह जप और हवन से जाता है और धन ग्रहण करने से जो पाप होता है वह तप और दान की वस्तु के परित्याग करने से जाता है ।

शिलोञ्छमप्योददीत विप्रोऽजीवन्यतस्ततः ।

प्रतिग्रहाच्छिलं श्रेयांस्ततोऽप्युञ्छः प्रशस्यते ॥ ११२ ॥

(११२) ब्राह्मण अपनी जीविका से निर्वाह न कर सके तो

को सहार नहीं सकता यह किसी प्रकार ऋषि कहलाने योग्य नहीं होता । ऐसी बातें वाममार्गियों ने अपने अनुचित कर्मों की उचित व प्रचलित कराने के हेतु सम्मिलित किये हैं ।

अजीगर्तं सुत इन्तुपुषामर्षदृषुसक्ति ।

न चालिप्यत पापेन सुप्रतीकारमाचरन् ॥ १०४ ॥

(१०४) × अपनी मातृभाकी रक्षा का कार्य करने से पाप नहीं होता । अजीगर्त ऋषि ने दुषा के कारण अपने पुत्र की रक्षा के पास बेच भासा और राजा उसको यज्ञ में मारने से ।

स्वर्मांसमिच्छमातोऽपु धर्माधर्मविषयस्य ।

प्राञ्चानां परिरचाय कामदेवो न लिप्तवान् ॥ १०६ ॥

(१०६) धर्म और अधर्म के जाता कामदेव ऋषि दुषा से पीड़ित होकर मातृमरदाधर्म कुत्त का मांस खाने की इच्छा करने पर भी पाप से लिप्त नहीं हुए ।

मरदाधः सुघातस्तु सपुत्रो विजन वन ।

वहीर्गा प्रतिग्रहाद् दधोस्त्वेषो महातपा ॥ १०७ ॥

(१०७) मरदाध ऋषि अपने पुत्र सहित जब प्रति कुषातुर हो गये वन में एक बूढ़ा नाम बड़ई से बहुत सी मऊओं का नाम लिया ।

सुघातस्वात्तु मम्यागादिरवामित्र स्वजापनीय ।

धयवात्तइस्तादादाय धर्माधर्मविषयस्यः ॥ १०८ ॥

(१०८) × धर्म-अधर्म के जाता विश्वामित्र ऋषि ने

× १२ वा श्लोक सम्मिलित किया हुआ है क्योंकि मनुष्य जब का किसी में विश्वास नहीं पर मनु के लिये राजा का करीब ना और ऋषि का बेचना दोनों असत्य है । यह लोगो में पाप करने के लिये लिखा है ।

× १७ व १०८ वे श्लोक सम्मिलित किये गये हैं क्योंकि श्रीधर्म धीर सुधा प्यास सहने का नाम ही तप है और जो ऊँची

शुद्धा से पीड़ित होकर चाण्डाल के हाथ से कुत्ते की जघा खाने को ले ली ।

प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तथैवाध्यापनादपि ।

प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः ॥ १०६ ॥

(१०६) ब्राह्मण को विपत्ति काल होने की दशा में यज्ञ करना और पढ़ाना, इन दोनों कर्मों के द्वारा दान लेना परलोक निन्दनीय है ।

याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम् ।

प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्त्य जन्मनः ॥ ११० ॥

(११०) यज्ञ कराने और पढ़ानेसे अपनी आत्मा का संस्कार यदि इसके द्वारा क्षत्रिय व वैश्य से दान ग्रहण किया जावे तो योग्य है और शूद्र से दान लिया जावे तो और भी बुरा है ।

शशोमैरपैत्येनो याजनाध्यापनै कृतम् ।

विमत्तं तु त्यागेनतपसैव च ॥ १११ ॥

(१११) यज्ञ कराने और पढ़ाने से जो पाप होता है वह जप से जाता है और धन ग्रहण करने से जो पाप होता है दान की वस्तु के परित्याग करने से जाता है ।

नमप्योददीत विप्रोऽजीवन्यतस्ततः ।

कैञ्चलं श्रेयांस्ततोऽप्युञ्जः प्रशस्यते ॥ ११२ ॥

ब्राह्मण अपनी जीविका से निर्वाह न कर सके तो

श्रेयता यह किसी प्रकार ऋषि कहलाने योग्य नहीं है चामामागिया ने अपने अनुचित कर्मों की उचितता के हेतु सम्मिलित किये हैं ।

१-चित्त और २-उच्छ के द्वारा निर्वाह करे । पान से चित्त और पित्त से उच्छ अँस है ।

सीदग्निः कृप्यमिच्छद्भिर्घने वा पृथिवीपथि ।

याच्यः स्यात्स्नातकैर्विप्रैर्दित्सस्पागमर्हति ॥११३॥

(११३) निर्मल ब्राह्मण धर्म व सन्तान के हेतु कष्ट पाकर घीने-बादी के प्रतिरिक्त धर्म वस्त्र तथा मन्त्रार्थ सोमा-शरीर ससी क्षत्रिय से मागे क्योंकि स्नात्नानुसार जो कर्म करता हो और जो राजा उसको देने की प्रतिच्छा करे उसको त्याग करे ।

अकृत च कृतात्सौप्रावृगौरव्याधिकमेव च ।

द्विरक्षयं चान्धमन्नं च पूर्वं पूर्वमद्रोपयत् ॥ ११४ ॥

(११४) कृ केती रखने वाले सेत से बिना बेती रखने वाले सेत का वाता सेना निर्दोष है । गऊ, बकरा मेड सोना धान मिठाई इन्ही से पहला पहले से दूसरा दूसरे से निर्दोष है अथ पूर्व पूर्व के समान में दूसरा दूसरे को लेना चाहिये ।

सप्त विद्यागमा चर्म्या दायो सामः क्रयो जप ।

प्रयोग कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च ॥ ११५ ॥

(११५) विभाग में मीकरी करम से गुप्त धन मिसा जो मोस लिया गया जो जाति से मिला जो व्यवहार करम से मिसा

१-चित्त से तात्पर्य यह है कि बेती काटने के पश्चात् जो धान के बाने सेतो में पड़े रहते हैं उन्हें संभय करता ।

२-उच्छ के धर्म-नृकान में जब बिक चुका हो तत्पश्चात् जो धान-कण पडा रह गया है उसे सवित करता ।

क ११४ बें धमीक में जा वस्तु सरसता पूर्वक जो कार्य देने वाली हो और जिससे निर्वाह हो सके फिर दान की प्राय क्षयता न हो उसको उत्तम (अ ४) धतमाया है ।

जो कर्म करने पर मिला, जो उत्तम पुरुषों से दान लेने से मिला, इन सात प्रकार के धन का लेना धर्मानुसार है ।

विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः ।

धृतिर्भैक्ष्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६ ॥

(११६) विद्या अर्थात् वेदों के अतिरिक्त अन्य विद्याएँ और लिखना आदि, वेतन, सेवा, पालन-पोषण, गऊ क्रय-विक्रय, कृषि करना धैर्य, भिक्षा, ब्याज लेना, यह दश कारण निर्वाहक हैं अर्थात् विपत्ति समय में जो कर्म अपने अर्थ-वर्जित हो उसके द्वारा भी निर्वाह करे ।

ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वृद्धिं नैव प्रयोजयेत् ।

कामं तु खलु धर्मार्थं दद्यात्पापीयसेऽल्पिकाम् ॥ ११७ ॥

(११७) ब्राह्मण व क्षत्रिय व्याज न लेवे वा पापी को धर्मार्थ थोड़ा व्याज लेकर इच्छित धन देवे ।

चतुर्थमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि ।

प्रजा रक्षन्परं शक्त्या ऋन्विपात्प्रतिमुच्यते ॥ ११८ ॥

(११८) क्षत्रिय अपनी सामर्थ्यानुसार प्रजा की रक्षा करता हुआ आपद-काल में प्रजा से चतुर्दश लेकर पाप से छूटता है ।

स्वधर्मो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराङ्मुखः ।

शस्त्रेण वैश्यान् रक्षित्वा धर्म्यमाहारयेद्वलिम् ॥ ११९ ॥

(११९) शस्त्र द्वारा विजय करना, युद्ध से पराङ्ग मुख न होना, यह दोनों कार्य राजा के धर्म हैं और शास्त्रों से वैश्यों की रक्षा करके उनसे धर्मानुसार कर लेवे ।

धान्येऽष्टमं विशां शुल्कं विशां कार्पाण वरम् ।

कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिन्विनस्तथा ॥ १२० ॥

(१२०) आपत्ति-काल की वस्त्रा में व धान में वैद्यों से वीस रुपया बढ़ने में आठवा भाग लेवे और महान आपत्ति समय में तो बीसवा भाग कह आये हैं । आपत्ति काल न हो तो बारहवा भाग लेवे । सोना व पशु इनका पचासवा भाग लेवे और आपत्ति समय ही तो बीसवा भाग लेवे । सूत्र व रसोई बनाने वाला वहाँ आदि से आपत्ति काल में कर न लेवे उसके पलट्टे में कार्य करा लेवे ।

शूद्रस्तु इक्षिमाकाङ्क्ष-पत्रमारादेयधदि ।

घनिन वाप्युपाराध्य वैश्यं शूद्रो विद्वाधिशोता ॥१२१॥

(१२१) शूद्र बाह्याण की सेवा से निर्वाह न कर सके और प्राय जीविका की इच्छा करे तो क्षत्रिय की सेवा व बतवान वैश्य की सेवा करके निर्वाह करे ।

स्वर्गार्थमुपार्थं वा विप्रानाराधयेत्तु स ।

जातत्राद्यशब्दस्य सा अस्य कृतकृपता ॥१२२॥

(१२२) शूद्र स्वर्ग व जीविका व स्वर्ग दोनों के धर्म प्राह्यण की सेवा करने वाला है । इस प्रकार उससे प्रसिद्ध होता ऐसा है कि शूद्र करने योग्य सब कर्मों को कर चुका है ।

विप्रमेवैव शूद्रस्य पिथिष्ट कर्म कीर्त्यते ।

यदतोऽन्यदि कृते तन्नवस्यस्य निष्कलम् ॥१२३॥

(१२३) कृषाह्यणों की सेवा करना शूद्र का सर्वस्य बढकर

कृषक कृषक शूद्र और बाह्याण के विद्वान् के हैं शूर्व का सब से बडा काम विद्वाना की सेवा है जिस प्रकार प्रपादन का व य विप्र प्राय माग विप्रमाता है उसी धोर सारे धरीर का व पलता है और जय पाव धीर के विद्वद जयता है तो ठोकर माना है ।

धर्म है और जो शूद्र इसको छोड़कर दूसरा कार्य करता है वह अपने जीवन को निष्फल खोता है ।

प्रकल्प्या तस्य तैर्वृत्तिः स्वकुटुम्बाद्यथार्हतः ।

शक्तिं चावेच्यदाद्यं च भृत्यानां च परिग्रहम् ॥१२४॥

(१२४) ब्राह्मण अपने सेवक शूद्र को सेवा में बल और कार्य करने में प्रसन्नता और स्त्री व सन्तान आदि पर द्रष्टिपात कर उसके व्यय को विचार कर अपने घर से उसकी जीविका नियत करे ।

उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च ।

पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्णश्चैव परिच्छदाः ॥१२५॥

(१२५) जो शू. अपना सेवक और अपनी शरण में है उसको भूठा अन्न और जीर्ण वस्त्र बिना पत्र धन्य, पुरानी शय्या (चारपाई) घर की पुरानी सामग्री देनी चाहिये ।

न शूद्रे पातकं क्रिञ्चिन्न च संस्कारमर्हति ।

नास्याधिकारो धर्मेस्ति न धर्मतिप्रतिषधनम् ॥१२६॥

(१२६) शूद्र के लिए कोई पप इससे अधिक नहीं है कि वह विद्वानों की सेवा न करे और उसका कोई सस्कार नहीं, क्योंकि सस्कार के न होने से ही तो वह शूद्र हुआ है और अग्नि-होत्रादि वेदोक्त कर्मों का अधिकारी नहीं क्योंकि इन कर्मों के ज्ञानार्थं विद्या का अभ्यास नहीं किया और न धर्म करने का ही निषेध है । यदि शूद्र धर्म करके अपनी उन्नति का प्रयत्न करना चाहे तो उसे कोई प्रतिरोध नहीं ।

धर्मेऽसवस्तु धर्मजाः सतां वृत्तिमनुष्ठिताः ।

मन्त्रवर्ज्यं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥१२७॥

(१२१) अपने धर्म का ज्ञाता धर्मवेत्ता करने वाला, द्विजों के अनुसार आचार करने वाला जो धृष्ट है वह मन्त्र से एक पञ्चमयज्ञ को करे और उनको परित्याग न करे तो इस शोक में यश प्राप्त करता है ।

यथापथा हि मद्बुद्धमातिष्ठत्यनसूयकः ।

तथातथमं चासु ष लोके प्राप्नोत्यऽनिश्चितः ॥१२८॥

(१२८) दूसरे के गुण की निन्दा न करने वाला धृष्ट जिस जिस प्रकार साधु (भले) लोगों के आचरण को करता है उसी तरह इस शोक में बड़ा कहाला है और परलोकमें स्वर्ग पाता है ।

शक्तेनापि हि शूद्रेश न कार्यो धनसञ्चयः ।

शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानैवषाधते ॥ १२९ ॥

(१२९) धृष्ट सामर्थ्य रखने पर भी धन संचय न करे क्योंकि शूद्र के पास धन हो जाने से वह ब्राह्मणों को हानि पहुँचाता है अर्थात् जब मूर्ख के पास धन होता है तो वह विद्वानों की सेवा परित्याग कर देता है और उन्हें तुच्छ समझने लगता है अतः धन से धृष्ट का धन नाश हो जाता है ।

एत चतुर्णां पथानामापद्धर्मा प्रकीर्तिताः ।

याऽसम्यगनुतिष्ठन्तो ब्रह्मन्ति परमां गतिम् ॥१३०॥


(१३०) यह चारों पथों के आपत्त्याम का धर्म कहा गया जिसके करने में कोई माय मती परम्पु विपत्ति को निवारण करने में हनु उचित समझा गया है । पर जो इसको त्याग देवे अर्थात् बुरा का सहन करके बुरा प मगति अर्थात् मोक्ष के मार्ग पर चलता है ।

एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य-कीर्तितः ।

अतःपरं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्त विधिं शुभम् ॥१३१॥

(१३१) चारो वर्णों के धर्म और आपद्-धर्म काल का वर्णन करके आगामी अध्याय में प्रायश्चित्त का वर्णन उचित रीति पर करेंगे जिससे गिरे हुए वर्ण भी फिर अपने सत्य मार्ग पर आ सके ।

मनुजी के धर्मशास्त्र और भृगुजी की संहिता का दशवा अध्याय समाप्त हुआ ।



❀ एकादशोऽध्यायः ❀



सांतानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सर्ववेदसम् ।

गुर्वर्थं पितृमात्रर्थं स्वाध्यायाध्युपतापिनः ॥ १ ॥

(१) *१-विवाहकी इच्छा करने वाला, २-ज्योतिष्टोमादि यज्ञ की इच्छा करने वाला, ३-बटोही, ४-सब धन दक्षिणा वाले विश्वजित नाम यज्ञ को करने वाला, ५-विद्या, ६-गुरु व ७-माता व पिता, इन दोनों को भोजन व वस्त्र देने वाला, ८-वेदाध्ययन समय भोजन-वस्त्र की आवश्यकता रखने वाला, ९-रोगी ।

नवैतान्स्नातकान्विद्याद्ब्राह्मणान्धर्मभिर्क्षुक्वान् ।

निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्या विशेषतः ॥ २ ॥

(२) यह नौ प्रकार के ब्राह्मण स्नातक अर्थात् ब्रह्मचारी

❀ क्योंकि इस अध्याय में प्रायश्चित्त का वर्णन होगा अतएव प्रथम दान पत्र ब्राह्मणों को वर्णन किया है ।

(१२३) धनने धर्म का ज्ञाता धर्मोच्छ्वा करने वाला, द्विजों के धनुषार प्राधार करने वाला जो सुद्र है वह मन्त्र से एक पञ्चमयज्ञ को करे और उनको परित्याग न करे तो इस शोक में मक्ष प्राप्त करता है ।

यथायथा हि सर्ववृत्तमातिष्ठत्यनस्यकः ।

तथातथेर्म चासु च लोकं प्राप्नोत्यऽनिश्चितः ॥ १२८ ॥

(१२८) दूसरे के गुण की निन्दा न करने वाला भूद्र जिस जिस प्रकार साधु (भले) लोगों के प्राधारण को करता है उसी तरह इस शोक में बड़ा रहाता है और परलोकमें स्वर्ग पाता है ।

शक्तेनापि हि शूद्रैश्च न कार्यो धनसञ्चयः ।

शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानैववापते ॥ १२९ ॥

(१२९) भूद्र सामर्थ्य रखने पर भी धन संचय न करे क्योंकि भूद्र के पास धन हो जाने से बहु ब्राह्मणों को हानि पहुँचाता है धर्मन् जब मूर्ख के पास धन होता है तो बहु विद्वानों की सेवा परित्याग कर देता है और उन्हें शुद्ध समझने लगता है मत धन से शूद्र का धम नाश हो जाता है ।

पते चतुर्यां बयानामापद्धर्मा प्रकीर्तिताः ।

याऽसम्यगनुतिष्ठन्तो यऽन्ति परमां गतिम् ॥ १३० ॥

(१३०) यह चारों वर्गों का प्रापकाल का धर्म कहा गया जिसके करने में कोई साम नहीं परन्तु विपत्ति को निवारण करने के हेतु उचित समझ गया है । पर जो इसको त्याग देवे धर्मन् बट को महन करत बहु परमगति धर्मन् गोम के मार्ग पर चलता है ।

यस्य त्रैवापिक्रं भुक्तं पर्याप्तं मृत्यवृत्तये ।

अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ ७ ॥

(७) जिस पुरुष के समीप सेवक तथा पुत्रादिक अपने अपने आश्रम में रहने वालों के तीन वर्ष के व्यय के योग्य अन्न संचित है । यह सोम यज्ञ करने के योग्य है ।

अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिवति द्विजः ।

स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम् ॥ ८ ॥

(८) इससे न्यून धन रखने वाला सोम यज्ञ करे तो उसका फल नहीं प्राप्त होता ।

शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनी ।

मध्वापातो विपास्वादः सधर्मप्रतिरूपकः ॥ ९ ॥

(९) अन्य मनुष्यों को अन्न देने में सामर्थ्यवान है पर अपने स्वजनो को भोजन नहीं देता और वे स्वजन दुःख से निर्वाह कर रहे हैं । ऐसा मनुष्य धर्म करने वाला नहीं है, पहले अपयश होता है पीछे नरक प्राप्त होना है ।

मृत्यानामुषगोधेन यत्करोत्यौर्ध्वदैहिकम् ।

तद्भवत्यसुखोदकं जीवितश्च मृतस्य च ॥ १० ॥

(१०) जो मनुष्य सेवक, भृत्य, सन्तानादि स्वजनो को कष्ट देकर परलोकार्थ दानादि कर्म करता है । वह दान उसके जीवन पर्यन्त ही है, मृत्यु के उपरान्त दुःखदाई होता है ।

यज्ञश्चेत्प्रतिरुद्धः स्यादेकेनांगेन यज्वनः ।

ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११ ॥

(११) धर्मात्मा राजाके विद्यमान होने पर जिस ब्राह्मण सेवा क्षत्रिय की कोई एक सामग्री उपस्थित न हो ।

कहलाते हैं और धर्म भिक्षा का स्वभाव रखते हैं यह सा निर्बल हो तो उनकी विद्या के योग्य सोना आदि देना चाहिये ।

एतेभ्यो हि द्विजाग्नेभ्यो देयमान सदादिशाम् ।

इतरेभ्यो बहिर्भेदि कृतान्न देय मुच्यते ॥ ३ ॥

(३) यह नौ प्रकार के ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं इनको बड़ी में भक्ष्य दक्षिणा सहित देना चाहिये और इनके प्रतिरिक्त जो ब्राह्मण हैं उनको वेदी के बाहर पक्वान्न देना कहते हैं ।

सर्वरत्नानि राजा तु यथाह प्रतिपादयेत् ।

माझ्यान्वेदविदुषो यक्षार्थं चैव दक्षिणाम् ॥ ४ ॥

(४) राजा जो वेद पढ़ने-पढ़ाने वाले ब्राह्मणको उसकी विद्या के अनुसार उत्तम-उत्तम रत्न देना चाहिये और यज्ञार्थ दक्षिणा भी देनी चाहिये ।

कृतदाराऽपरान्दाराभिहित्वा योऽधिगच्छति ।

रतिमात्रं फलं तस्य ब्रह्म्यदातुस्तु सतति ॥ ५ ॥

(५) प्रथम स्त्री उपस्थित हो और भिक्षा द्वारा धन संचय करके उस धन से दूसरा विवाह करे तो उसे केवल रति (भोग समण) का फल मिलता है और संतान उसी की है जिससे धन दिया ।

पनानि तु यथाशक्ति विप्रपु प्रतिपादयेत् ।

वद्विदुः विविधतपु मृत्यु स्वर्गं समरनुत् ॥ ६ ॥

(६) कृ योग्यतानुसार धन पढ़ाया या न पढ़ाया वासी ब्राह्मण का देना चाहिये उसके देने से भगते जन्म में सुख मिलता है और इन साधक में भी धन प्राप्त होता है ।

कृ पढ़ाया वासी ब्राह्मण से प्रतिपाद्य धनप्रस्थ न सम्पादी न है क्योंकि गृहस्थी न हेतु धन संचय नहीं या सकता ।

यस्य त्रैवापिकं भुक्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये ।

अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ ७ ॥

(७) जिस पुरुष के समीप सेवक तथा पुत्रादिक अपने अपने आश्रम में रहने वाले के तीन वर्ष के व्यय के योग्य अन्न संचित है । यह सोम यज्ञ करने के योग्य है ।

अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिवति द्विजः ।

स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम् ॥ ८ ॥

(८) इससे न्यून धन रखने वाला सोम यज्ञ करे तो उसका फल नहीं प्राप्त होता ।

शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनी ।

मध्वापातो विपास्वादः सधर्मप्रतिरूपकः ॥ ९ ॥

(९) अन्य मनुष्यो को अन्न देने में सामर्थ्यवान है पर अपने स्वजनो को भोजन नहीं देता और वे स्वजन दुःख से निर्वाह कर रहे हैं । ऐसा मनुष्य धर्म करने वाला नहीं है, पहले अपयश होता है पीछे नरक प्राप्त होना है ।

भृत्यानामुपगोधेन यत्करोत्यौर्ध्वदैहिकम् ।

तद्भवत्यसुखोदकं जीवितश्च मृतस्य च ॥ १० ॥

(१०) जो मनुष्य सेवक, भृत्य, सन्तानादि स्वजनो को कष्ट देकर परलोकार्थ दानादि कर्म करता है । वह दान उसके जीवन पर्यन्त ही है, मृत्यु के उपरान्त दुःखदाई होता है ।

यज्ञश्चेत्प्रतिरुद्धः स्यादेकेनांगेन यज्वनः ।

ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११ ॥

(११) धर्मात्मा राजाके विद्यमान-होने पर जिस ब्राह्मण सेवा क्षत्रिय की कोई एक सामग्री उपस्थित न हो ।

यो वैश्यः स्याद्ब्रह्मशुद्धीनक्तुरसोमपः ।

कुटुम्बाचस्य सवृद्धस्यमाहरेद्विचारयन् ॥ १२ ॥

(१२) जो वैश्य बहुत से पशु गाय आदि रखता हो परंतु कोई यज्ञ न करताहो और न निरोग्यताके हेतु यज्ञद्वारा संशोधित सोमरस पीता हो उस वैश्य से बलान् घनापहरण कर यज्ञ करना चाहिये परन्तु घन केबस यज्ञकी सामग्री के योग्य जाना चाहिये ।

आहरेत्रीणि वा इवाकामशुद्धस्य वैश्वमनः ।

न हि शुद्धस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३ ॥

(१३) जब यज्ञ के दो भग व तीन भग (अर्थात् सामग्री) घन बिना पूर्ण नहीं होते और वैश्य से भी भग प्राप्त नहीं होता तो शुद्ध के गृह से बलान् घनापहरण कर यज्ञ करना बर्जित नहीं ।

योऽनाहिताग्निः शतगुरयन्वा च सहस्रगुः ।

तपोरपि कुटुम्बाम्यामाहरेद्विचारयन् ॥ १४ ॥

(१४) जो मनुष्य अग्निहोत्री नहीं है और सौ गऊ रखता है अथवा यज्ञ नहीं करता और सहस्र गऊ रखता है इन दोनों के गृह के यज्ञाग पूर्णार्थं बन सेवे इसमें कुछ विचार न करे ।

आशानित्याश्वादातुगाहरेदप्रयच्छतः ।

तथा यशोऽस्य प्रथते भर्मश्चैव प्रवर्धते ॥ १५ ॥

(१५) जो बाह्याण नित्य दान लेता है और बाबली, कुर्षा

१२ से १५ वमोक्त पर्यन्त जो बलान् घनापहरण कर यज्ञ करने की जो आशा सी है उसका तात्पर्य यह है कि यज्ञ के बिना सत्कार की बल-बाधु प्रशुद्ध होकर प्राणियों को हानि पहुँचाती है और सम्पत्तिशापी व वैभव सम्पन्न होने पर भी जो अपने वर्तव्य कर्म से विमुक्त है उसको लज्ज देता और उस पन को यज्ञ में व्यय करना अति उत्तम समझा गया है ।

च तालाव नही खुदाता व यज्ञ नही करता व दान नही देता है, उससे यज्ञाङ्ग पूर्णार्थि धन मागा और वह नही देता है, तो उसके गृह से बलात् घनापहरण करले इससे घन लेने वाले को यश प्राप्त होता है और धर्म की उन्नति होती है ।

तथैव सप्तमे भक्ते भुक्तानि पडनश्नता ।

अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥ १६ ॥

(१६) दिन में दो बार भोजन करने की शास्त्रमें आज्ञा है जो किसी ब्राह्मण ने छ बार भोजन नही किया अर्थात् तीन दिन उपवास करने के पश्चात् चौते दिन एक बार के योग्य भी भोजन न हो तो हीन कर्म करने वाले से बलात् घन अपहरण करना पाप नही ।

खलात्क्षेत्रादगाराद्वा यतो वाप्युपलभ्यते ।

आख्यातव्यं तु तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति ॥ १७ ॥

(१७) खलान (खलिहान) से वा क्षेत्र (खेत) से वा गृह से अथवा जहा से प्राप्त होवे वहा से अन्न ले लेना और जब अन्न का स्वामी पूछे कि तुमने कहा से अन्न लिया है तो सत्य र कह देना चाहिये ।

ब्राह्मणस्वं न हर्तव्यं क्षत्रियेण कदाचन ।

दस्युनिष्क्रययोस्तु स्वमऽजीवन्हतुर्मर्हहि ॥ १८ ॥

(१८) क्षत्रिय ब्राह्मण का घन कभी न लेवे और आपद-काल में घृणित कर्म करनेवाले, शास्त्रोक्त कर्मोंको परित्याग करने वाले जो ब्राह्मण व क्षत्रिय हैं उनके गृहसे घन ले लेना चाहिये ।

योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति ।

स कृत्वा प्लवमात्मानं संहारयति तावुभौ ॥ १९ ॥

यो वैश्य स्याद्ब्रह्मपशुर्हीनकतुरसोमपः ।

कुटुम्बात्तस्य तद्वृक्ष्यमाहरेद्यज्ञसिद्धय ॥ १२ ॥

(१२) जो वैश्य बहुत से पशु गाय आदि रखता हो परन्तु कोई यज्ञ न करताहो और न निरोग्यताके हेतु यज्ञद्वारा सघोषित सोमरस पीता हो उस वैश्य से बसान् बनापहरण कर यज्ञ करना चाहिये परन्तु धन केवल यज्ञकी सामग्री के योग्य माना चाहिये ।

आहरेत्रीशि वा द्वेषाकाम शूद्रस्य वैशमनः ।

न हि शूद्रस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३ ॥

(१३) जब यज्ञ के दो भग व तीन भग (अर्थात् सामग्री) धन बिना पूर्ण नहीं होते और वैश्य से भी धन प्राप्त नहीं होता तो शूद्र के गृह से बसान् बनापहरण कर यज्ञ करना बन्धित नहीं ।

योऽनाहिताग्निं शतगुरयज्वा च सहस्रगुं ।

तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरेदविचारयन् ॥ १४ ॥

(१४) जो मनुष्य अग्निहोत्री नहीं है और सौ गऊ रखता है अथवा यज्ञ नहीं करता और सहस्र गऊ रखता है इन दोनों के गृह क यज्ञाग पूर्णार्थ धन सेवे इसमें कुछ विचार न करे ।

आदाननित्पाञ्चादासुराहरेदप्रयच्छत् ।

तथा यशोऽस्य प्रयते धर्मरचैव प्रवर्धते ॥ १५ ॥

(१५) जो ब्राह्मण नित्य दान सेता है और बावसी कुर्वा

१२ से १५ बसाक पर्यन्त जो बसान् बनापहरण कर यज्ञ करने की जो आज्ञा दी है उसका तात्पर्य यह है कि यज्ञ के बिना सत्कार की जन्म-वायु प्रगुप्त होकर प्राणियों को हानि पहुँचाती है और सम्पत्तिदात्री व वैभव सम्पन्न होने पर भी जो अपने वर्तमान कर्म में विभूत है उसको रूढ़ देना और उस धन को यज्ञ में व्यय करना अति उत्तम समझा गया है ।

यदि धन याचना कर उस धन से यज्ञ करे तो दूसरे जन्म में चाण्डाल होता है ।

यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न सर्वं प्रयच्छति ।

स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥ २५ ॥

(२५) यज्ञार्थं भिक्षु द्वारा धन संचित करके सारा धन यज्ञमें न लगावे तो सौ जन्म पर्यन्त भाष नाम पक्षी और कौआ होता है ।

देवरवं ब्राह्मणस्यं वा लोभेनोपहिनस्ति यः ।

स पापात्मा परे लोके गृध्रोच्छ्रितेन जीवति ॥ २६ ॥

(२६) जो मनुष्य लोभवश ब्रह्मण का धन व विद्वान का धन नाश करता है वह पापी परलोक में गृह-पक्षी की जूठन से जीवन निर्वाह करता है ।

इष्टिं वैश्वानरीं नित्यं निर्वपेदब्दपर्यये ।

क्लप्तानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ॥ २७ ॥

(२७) वर्ष में एक बार वैश्वानर यज्ञ करना असम्भव हो तो वर्षान्त में प्रायश्चित्तार्थं अग्निहोत्र करता रहे ।

आपत्कल्पेन यो धर्मं कुरुतेऽनापदि द्विजः ।

स नामोति फलं तस्य परत्रोति विचारितम् ॥ २८ ॥

(२८) आपद-काल न होने पर भी जो ब्राह्मण आपद-काल के धर्म को करता है वह परलोक में उसके फल को नहीं प्राप्त करता है ।

विश्वैश्च देवैः साध्यैश्च ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः ।

आपत्सु मरणाद्भीतैर्विधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥ २९ ॥

(२९) मृत्यु से भयभीत विश्वदेव, साधुगण, ब्राह्मण,

(१९) जो मनुष्य असाधु लोगो से धन लेकर साधु लोगो को देता है वह अपने को भाव बनाकर दोनों को उतारता है ।

यद्भन यश्चशीलानां दधस्व तद्विदुर्मुषाः ।

अयन्वनां तु तद्विषमासुरस्व तदुच्यते ॥ २० ॥

(२०) यज्ञ करने वालों का धन देवताओं का धन है और यज्ञ न करने वाले का धन राक्षस का धन कहलाता है - ऐसा पण्डितों ने कहा है ।

न तस्मिन्वारमेदयद् धार्मिकः पुषिबीपतिः ।

पुत्रियस्य हि धाम्निस्यावृषाह्वयः सीदति शुभा ॥ २१ ॥

(२१) ऐसे उपासक कर्ममें राजा वृष न देवे क्योंकि राजा के वास्यावस्था से ब्राह्मण शुभा से प्रति दुःखी होता है ।

तस्य मृत्युमर्नं ज्ञात्वा स्वकुटुम्बान्महीपतिः ।

भुतिशीले च विज्ञाय वृत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत् ॥ २२ ॥

(२२) राजा ब्राह्मण के मृत्यु (नौकर) व कुटुम्ब व देवपाठ व शीस को जानकर धर्मानुसार वृत्ति (बन्नीफा) नियत करदे ।

कल्पयित्वास्य वृत्तिं च रक्षोदेनं समन्ततः ।

राजा हि धर्मपट् मार्गं तस्मात्प्रामोति रक्षितात् ॥ २३ ॥

(२३) ब्राह्मण की वृत्ति नियत करके उसकी रक्षा सब ओर से करे । उस रक्षा से ब्राह्मण जो धर्म करेगा उसका छठवा भाग राजा पावेगा ।

न यज्ञार्थं धनं शूद्रादिप्रो मिषोव कर्हिचित् ।

यज्ञमानो हि मिषित्वा चायच्छालः प्रेत्य वाप्यते ॥ २४ ॥

(२४) ब्राह्मण यथार्थ शूद्र से कभी धन माचना न करे,

यदि धन याचना कर उस धन से यज्ञ करे तो दूसरे जन्म में चाण्डाल होता है ।

यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न सर्वं प्रयच्छति ।

स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥ २५ ॥

(२५) यज्ञार्थं भिक्षु द्वारा धन संचित करके सारा धन यज्ञमें न लगावे तो सौ जन्म पर्यन्त भाष नाम पक्षी और कौआ होता है ।

देवरवं ब्राह्मणस्यं वा लोभेनोपहिनस्ति यः ।

स पापात्मा परे लोके गृध्रोच्छिष्टेन जीवति ॥ २६ ॥

(२६) जो मनुष्य लोभवश ब्रह्मण का धन व विद्वान का धन नाश करता है वह पापी परलोक में गृह-पक्षी की जूठन से जीवन निर्वाह करता है ।

इष्टिं वैश्वानरीं नित्यं निर्वपेदब्दपर्यये ।

क्लप्तानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ॥ २७ ॥

(२७) वर्ष में एक बार वैश्वानर यज्ञ करना असम्भव हो तो वर्षान्त में प्रायश्चित्तार्थं अग्निहोत्र करता रहे ।

आपत्कल्पेन यो धर्मं कुरुतेऽनापदि द्विजः ।

स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम् ॥ २८ ॥

(२८) आपद-काल न होने पर भी जो ब्राह्मण आपद-काल के धर्म को करता है वह परलोक में उसके फल को नहीं प्राप्त करता है ।

विश्वैश्च देवैः साध्यैश्च ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः ।

आपत्सु मरणाद्भीतैर्विधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥ २९ ॥

(२९) मृत्यु से भयभीत विश्वदेव, साधुगण, ब्राह्मण,

बड़े ऋषि लोग इन सब में आपत्तिकाम में उत्तम धर्म के विच्छेद
साधरण किया है ।

प्रश्ना प्रयमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते ।

न सांप्रग्निक तस्य दुमतेरिष्यते फलम् ॥ ३० ॥

(३०) मुख्य धर्म के करने में सामर्थ्यनाम होकर विच्छेद
धर्म करने वासा परलोक में उस विच्छेद धर्म (प्रतिनिधि धर्म)
का फल नहीं पाता ।

न ब्राह्मणोऽप्येदमेत किंचिद्ब्राह्मिनि धर्मवित् ।

स्वधीर्येष्वैव तास्मिन्प्यान्मानवानऽपकारिणः ॥ ३१ ॥

(३१) धर्मज्ञाता ब्राह्मण राजा से कुछ न कहे वरन्
अपनी सामर्थ्य से अपकारी मनुष्यों को बच दे ।

स्वधीर्याद्ब्राह्मणीयाश्च स्वधीय बलवचरम् ।

तस्मात्स्वेनैव धीर्येण निरृद्धीयादरीन्द्रिज ॥ ३२ ॥

(३२) राजा के पराक्रम से अपना पराक्रम बच है । प्रथ
ब्राह्मण अपने पराक्रम द्वारा शत्रुधर्मों (विरोधियों) को धापीतकरे ।

श्रुत्वा शक्यं वै ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्द्रिजः ।

बाक् शक्यं वै ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्द्रिजः ॥ ३३ ॥

(३३) धर्मन न अज्ञिरा ऋषि ने जो मारण प्रयोग
कहा उसको करे इसमें कुछ विचार न करे । ब्राह्मण की बाली
ही शस्त्र है उससे शत्रु को हने ।

शत्रियो ब्राह्मणीर्येषा तरेदापद्मात्मनः ।

धनेन वैश्यशूद्रौ तु सपहोमैर्द्विजोत्तमः ॥ ३४ ॥

(३४) शत्रिय अपने ब्राह्मण से वैश्य व शूद्र दोनों धनसे और
ब्राह्मण धन तथा हनन से आपत्तिकाम (विपत्ति) का प्राप्त करे ।

विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।

तस्मै नाकुशलं ब्रूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत् ॥ ३५ ॥

(३५) जो ब्राह्मण शास्त्रोक्त कर्म करने वाला पुत्र तथा शिष्य को पढाने वाला, प्रायश्चित्तादि को कहने वाला और सब प्राणियों का मित्र है । उसको शुष्क (कठिन, कटु) और हृदय को दुःख देने वाली बात न कहना चाहिये ।

न वै कन्या न युवतिनाल्पविद्यो न बालिशः ।

होता स्याद्ग्नहोत्राय नार्तो नासंस्कृतस्तथा ॥ ३६ ॥

(३६) कन्या, स्त्री, अल्प विद्या वाला, मूर्ख, रोगी, यज्ञोपवीत न रखने वाला, यह सब प्रातः सायं समय अग्निहोत्र न करे ।

नरके हि पतन्त्येते जुह्वन्तः स च यस्य तत् ।

तस्माद्द्वैतानकुशलो होता स्याद्देवारगः ॥ ३७ ॥

(३७) यदि यह सब अग्निहोत्र करे तो नरकमे जाते हैं और जिसकी अग्नि है अर्थात् यजमानहै वह भी नरकमे जाता है, अतएव जो वेदपारङ्गत व अग्निहोत्र कर्म ज्ञाता हो वही हवन करे ।

प्राजापत्यमदन्वाश्वमग्न्याधेतस्य दक्षिणाम् ।

अनाहिताग्निर्भवति ब्राह्मण विभवे सति ॥ ३८ ॥

(३८) ब्राह्मण की अग्निहोत्र की दक्षिणा जो घोडा है उसको वैभव सम्पन्न होने पर भी न देवे तो अग्निहोत्र का फल उस ब्राह्मण को नहीं होता ।

पुण्यान्यन्यानि कुर्वीति श्रद्धानो जितेन्द्रियः ।

न त्वल्पदक्षिणैर्यज्ञैर्य जन्तेह कथञ्चन ॥ ३९ ॥

बड़े ऋषि भोग इन सब ने प्रापतिकाम में उत्तम धर्म के बिच्छ प्राचरण किया है ।

प्रसू प्रयमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते ।

न सांपगमिकं तस्य दुर्मतेर्विषते फलम् ॥ ३० ॥

(३०) मुख्य धर्म के करने में सामर्थ्यान होकर बिच्छ धर्म करने वाला परमोक में उस बिरुद्ध धर्म (प्रतिनिधि धर्म) का फल नहीं पाता ।

न ब्राह्मणोऽवेदयेत् किञ्चिद्ब्राह्मिणि धर्मवित् ।

स्वकीर्येषैव ताञ्छिष्यान्मानवानऽपकारिणः ॥ ३१ ॥

(३१) धर्मज्ञाता ब्राह्मण राजा से कुछ न कहे परन्तु अपनी सामर्थ्य से अपकारी मनुष्यों को बच दे ।

स्वकीर्याद्ब्राह्मणीयाश्च स्वकीय ब्रह्मचरम् ।

तस्मात्स्वेनैव कीर्येण निगृह्णीयादरीन्द्रिणः ॥ ३२ ॥

(३२) राजा के पराक्रम से अपना पराक्रम बच है । परन्तु ब्राह्मण अपने पराक्रम द्वारा शत्रुओं (बिरुधियों) को प्राधीनकरे ।

भुतीरवर्षाङ्गिरसी कुर्यादित्यविचारयन् ।

वाक् शस्त्रं च प्राहणस्य तेन हन्यादरीन्द्रिणः ॥ ३३ ॥

(३३) भयार्थं न अङ्गिरा ऋषि ने जो मारण प्रयोग कहा उसको करे इसमें कुछ विचार न करे । ब्राह्मण की वाणी ही शस्त्र है उससे शत्रु को हने ।

अत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापद्मात्मनः ।

घनेन वैश्यसूत्री तु अपहोमैर्द्विजोत्तमः ॥ ३४ ॥

(३४) अत्रिय अपने बाहुबल से बौद्ध्य न सूत्र बोलों घनेसे घोर ब्राह्मण अप तथा हवन से प्रापतिकाम (विपत्ति) का प्रत्य करे ।

(४३) वह शूद्र ऋत्विजो को द्रव्य देने से उनके मस्तक पर पैर रखकर नरक को तरता है और ऋत्विज को कुछ फल नहीं होता ।

अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् ।

प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥

(४४) शास्त्रोक्त कर्म न करने से व निन्दित कर्म करने से व इन्द्रियासक्त होने से मनुष्य प्रायश्चित्त के योग्य होता है ।

अक्रामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः ।

कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदर्शनात् ॥ ४५ ॥

(४५) पण्डितों ने अतिच्छा के पाप करने में प्रायश्चित्त को कहा, स्वेच्छा से पाप करने में भी वेद की आज्ञा से प्रायश्चित्त है ।

अक्रामतः कृते पापे वेदाभ्यासेन शुध्यति ।

कामतस्तु कृतं मोहात्प्रायश्चित्तैः पृथग्विधैः ॥ ४६ ॥

(४६) जो पाप अतिच्छा से-अज्ञानता में होता है उसकी तिवृत्ति वार २ वेद के अर्थ सहित पढने से होती है तथा जो पाप स्वेच्छा-नुसार किया जाता है उसकी प्रायश्चित्त की विधि पृथक है ।

प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य दैवात्पूर्वकृतेन वा ।

नसंगं ब्रजैत्सद्भिः प्रायश्चित्तेऽकृते द्विजः ॥ ४७ ॥

(४७) यदि पूर्व जन्मके कर्मों से प्रायश्चित्त योग्य हो तो जब तक प्रायश्चित्त न करे तब तक सज्जन पुरुष उसके साथ भोजन व ससर्ग व सहवास न करे ।

(प्रायोनाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते ।

तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् । ४८।(क)

(११) मनुष्य नितेन्द्रिय होकर धरु संहित धर्म पुत्र कर्म करे परन्तु धर्म वक्षिणा से धर्म न करे ।

इन्द्रियाणि यथा स्वर्गमायुः कीर्तिं प्रजां पशून् ।

इत्यभ्यवदक्षिणो यद्भवत्स्मान्नास्पृशन् यजत ॥४०॥

(४०) षोडश दक्षिणा वासा यज्ञ इन्द्रिय यज्ञ स्वर्ग आयु, कीर्ति सन्तान पशु इम सबको नारा करता है, उससे षोडश धन वासा यज्ञ न करे ।

[अश्वहीनो इन्द्राष्ट मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः ।

दीक्षितं दक्षिणाहीना नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥]

[यज्ञ रहित मन्त्र राष्ट्र को मन्त्र रहित ऋत्विज को एवं दक्षिणा विरहित यज्ञ यज्ञकर्ता को मष्ट करता है । एतदर्थं यज्ञ परम शत्रु भी है ।]

अग्निहोत्र्यपविश्याग्नीन्प्राह्वयाः कामकारताः ।

चान्द्रायण चरे मासं धीरहत्यासमं हि तत् ॥ ४१ ॥

(४१) अग्निहोत्री ब्राह्मण स्वेच्छा सायं प्रात हवम न करे तो पुत्र हत्या का पाप होता है उस पाप से निवृत्त होने के लिए एक मास चन्द्रायण व्रत करे ।

ये शूद्रादभिगम्यार्चयन्मग्निहोत्रमुपावृते ।

ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ब्राह्मणादिषु गृहीत ॥ ४२ ॥

(४२) जो ब्राह्मण शूद्र से धन लेकर अग्निहोत्र करता है वह शूद्र ही का ऋत्विज होता है उसको कुछ फल नहीं होता और वेदपाठी ब्राह्मणों से भिन्न कहलाता है ।

तेषां सततमजानां ह्यपस्तान्युपसेविनाम् ।

पदा मस्तकमाश्रम्य दाता दुर्गाणि सन्तरेत् ॥ ४३ ॥

(४३) वह शूद्र ऋत्विजो को द्रव्य देने से उनके मस्तक पर पैर रखकर नरक को तरता है और ऋत्विज को कुछ फल नहीं होता ।

अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् ।

प्रमत्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥

(४४) शास्त्रोक्त कर्म न करने से व निन्दित कर्म करने से व इन्द्रियासक्त होने से मनुष्य प्रायश्चित्त के योग्य होता है ।

अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः ।

कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदर्शनात् ॥ ४५ ॥

(४५) पण्डितों ने अनिच्छा के पाप करने में प्रायश्चित्त को कहा, स्वेच्छा से पाप करने में भी वेद की आज्ञा से प्रायश्चित्त है ।

अकामतः कृते पापे वेदाभ्यासेन शुध्यति ।

कामतस्तु कृतं मोहात्प्रायश्चित्तैः पृथग्विधैः ॥ ४६ ॥

(४६) जो पाप अनिच्छा से-अज्ञानता में होता है उसकी निवृत्ति चार २ वेद के अर्थ सहित पढ़ने से होती है तथा जो पाप स्वेच्छा-नुसार किया जाता है उसकी प्रायश्चित्त की विधि पृथक है ।

प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य दैवात्पूर्वकृतेन वा ।

नसंगं ब्रजैत्सद्भिः प्रायश्चित्तेऽकृते द्विजः ॥ ४७ ॥

(४७) यदि पूर्व जन्मके कर्मों से प्रायश्चित्त योग्य हो तो जब तक प्रायश्चित्त न करे तब तक सज्जन पुरुष उसके साथ भोजन व ससर्ग व सहवास न करे ।

(प्रायोनाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते ।

तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥४८॥(क)

(४८) (क) प्रयत्न तपःशर्म का वाचक है तथा निश्चय शर्म है (चित्त का—इससिमे निश्चयारमक होने से प्रायश्चित्त कहा है।)

इह दुस्वरितै क्वचित्कचित्पूर्वकृतैस्तथा ।

प्राप्नुवन्ति दुरत्मानो नरा रूपविपर्ययम् ॥४८॥

(४८) कोई इस जन्म के पापों से घोर पूर्व जन्म के पापों से दुर्दृष्टता पाता है ।

सुषर्षनीरं कौनस्यं सुरापं श्यावदन्तताम् ।

ब्रह्महा चपरो गित्त्वं दौश्चर्म्यं गुरुतन्पगं ॥ ४९ ॥

(४९) १—सुषर्षं चौर २—मद्य पीने वाला ३—ब्रह्महत्या करने वाला ४—गुरुपत्नी से रमण करने वाला मयाक्रम १—कुनरत्नी २—जन्म से काले दाँत वाला ३—कुष्ठ रोगी व ४—महित स्वभा पाता है ।

पिशुनं पीठिनासिक्यं सूषकः पृथिवक्त्रताम् ।

शान्यशीरोऽङ्गहीनत्वमातिरेक्यं तु मिथकः ॥ ५० ॥

(५०) १-पिशुन (पुगमसोर) २-सूषक (इमित से कर्मजाता) ३-शाग्य चौर ४ मिथक (मिलाकट करने वाला) यह सब क्रमानुसार १-नासिका (नाक) की दुर्गन्धि २-मुककी दुर्गन्धि ३-किसी अङ्गहीन ४-कोई अङ्ग अथिक् इन दोषों को प्राप्त होते हैं ।

अभ्रहृतामयावित्त्वं मीक्ष्यं श्यापहारकः ।

बस्त्रापहारकः श्वैभ्य पशुतामरवहारकः ॥ ५१ ॥

(५१) १—बस्त्र चौर २—जानने पर भी मुक (चुप) रहने वाला ३—बस्त्र चौर, ४—श्वत्स चौर, यह सब क्रमानुसार १—श्यामरोगी २—मूगा ३—दन्तकुटी (सफेद कोड़ी) पशु (सगड़ा) होते हैं ।

(दीपहर्ता भवेदन्धः क्राणो निर्वापको भवेत् ।

हिंसया व्याधिभूयस्त्रमरोगित्वमहिंसया ॥ ५१ ॥ (ख)

(५१) (ख) दीपतस्कर अन्धा, दीपनिर्वाणकर्ता वधिर, हिंसक, रुग्ण एव अहिंसक निरोगी होता है ।)

एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सद्विर्गाहताः ।

जडमूकान्धवधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२ ॥

(५२) उपरोक्त विधि से कुकर्मों द्वारा विर्गाहित दशा (घृणा योग्य दृश्य) को प्राप्त होता है, यथा जड. मूक (गू गा), अन्धा. वधिर (वहिरा) और विकृत (कुरूप) को प्राप्त होता है ।

चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्ध्ये ।

निन्द्यै हिं लक्षणैर्युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतैः ॥ ५३ ॥

(५३) अतएव सदा पाप से मुक्त होने के हेतु प्रायश्चित्त और उत्तम कर्म करना चाहिये और जो लोग प्रायश्चित्त नहीं करते वह घृणित लक्षणो युक्त होते हैं ।

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागम ।

महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह ॥ ५४ ॥

(५४) ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण का दण माशा व अधिक सोना चुराना, माता से रति करना, यह चार महापाप हैं और महापापियो का संसर्ग करना पाचवा महापाप है ।

अनृतं च समुत्कर्षे राजगामि च पैशुनम् ।

गुरोश्चालीकनिर्वन्ध समानि ब्रह्महृत्यया ॥ ५५ ॥

(४८) (क) प्रायः तपः शर्ष का वाचक है तथा निदधय शर्ष है (चित्त का—इसमिय निदधयारमक होने से प्रायश्चित्त कहा है।)

इह दुस्परिते केचित्केचित्पूर्वकृतैस्तथा ।

प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम् ॥४८॥

(४८) कोई इस जन्म के पापों से घोर पूर्व जन्म के पापों से दुर्दयता पाता है ।

सुवर्षवीर कौत्सस्य सुराप श्याबदन्तताम् ।

ब्रह्महा चयरागित्म दौस्त्वर्म्य गुरुतल्पगः ॥ ४९ ॥

(४९) १—सुवर्ण चोर, २—मद्य पीने वाला ३—ब्रह्महा करने वाला ४—गुरुपत्नी से रमण करने वाला समाक्रम १—कुम्हरसी २—जन्म से काले दांत वाला ३—कुट्ट रोगी ४—मर्दित लक्षणा पाता है ।

पिशुन पीठिनासिक्य सूचकः पृथिवकत्रताम् ।

चान्यचौरोऽङ्गहीनत्वमादिरेक्यं तु मिथकः ॥ ५० ॥

(५०) १—पिशुन (डुगलबोर) २—सूचक (इंगित से कर्मज्ञाता) ३—बाम्य चोर ४ मिथक (मिसाकट करने वाला) यह सब क्रमानुसार १—नासिका (नाक) की दुर्गन्धि २—मुँहकी दुर्गन्धि ३—किसी अङ्गहीन ४—कोई अङ्ग भणिक इन दोषों को प्राप्त होते हैं ।

अमहर्तामयावित्स्व मीक्यं धागपहारकः ।

धस्त्रापहारकः श्वैष्य पगुतामरबहारकः ॥ ५१ ॥

(५१) १—बस्त्र चोर २—जातमे पर भी मूक (बुप) रहने वाला ३—बस्त्र चोर ४—धस्त्र चोर, यह सब क्रमानुसार १—धामरोगी २—मूगा ३—श्वेतकृष्टी (सफेद कोड़ी) पगु (सगड़ा) होते हैं ।

(दीपहर्ता भवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत् ।

हिंसया व्याधिभूयस्त्रमरोगित्वमहिंसया ॥ ५१ ॥ (ख)

(५१) (ख) दीपतस्कर अन्धा, दीपनिर्वाणकर्ता वधिर, हिंसक, रुग्ण एव अहिंसक निरोगी होता है ।)

एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सद्विर्गाहताः ।

जडमूकान्धवधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२ ॥

(५२) उपरोक्त विधि से कुकर्मों द्वारा विर्गाहित दशा (घृणा योग्य दृश्य) को प्राप्त होता है, यथा जड, मूक (गू गा), अन्धा, वधिर (वहिरा) और विकृत (कुरूप) को प्राप्त होता है ।

चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये ।

निन्द्यैर्हि लक्षणैर्युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतेनसः ॥ ५३ ॥

(५३) अतएव सदा पाप से मुक्त होने के हेतु प्रायश्चित्त और उत्तम कर्म करना चाहिये और जो लोग प्रायश्चित्त नहीं करते वह घृणित लक्षणो युक्त होते हैं ।

ब्रह्महत्या सुरापानं स्नेयं गुर्वङ्गनागम ।

महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह ॥ ५४ ॥

(५४) ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण का दण माशा व अधिक सोना चुराना, माता से रति करना, यह चार महापाप हैं और महापापियो का संसर्ग करना पाचवा महापाप है ।

अनृतं च समुत्कर्षे राजगामि च पैशुनम् ।

गुरोश्चालीकनिर्वन्ध समानि ब्रह्महृतयया ॥ ५५ ॥

(१२) प्रयोग्य होकर झूठ-झूठ ही अपने को योग्य कहना, राजा के सम्मुख पिघुनता (झूठी भुगमी खाना) करना, गुरु के समीप असत्य भाषण करना, यह ब्रह्महत्या के समान महापातक है ।

ब्रह्मोज्ज्वला वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहृद्वधः ।

गर्हितानाद्ययोर्जग्धिः सुरापानसमानि पट् ॥ ५६ ॥

(१६) पदों हुए वेद की भ्रमना बेशकी निन्दा करना असत्य साक्षी देना सुहृद को मार करना बिष्ठा आदि गर्हित वस्तुओं का भक्षण करना यह सब सुरापान के समान महापाप है ।

निचोपस्यापहरणं नराश्वरज्वतस्य च ।

भूमिषज्जमण्डिनां च रुक्मस्तेपममं स्मृतम् ॥ ५७ ॥

(१७) निक्षेप (घरोहर चाली) मनुष्य घोडा चादी भूमि हीरा मणि इनका चुराना सोना चुराने के समान है ।

रत सैकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्स्पृश्यासु च ।

सक्यं पुत्रस्य च स्य पुं गुरुवस्त्वपममं विदुः ॥ ५८ ॥

(१८) सगी बहिन कुमारी कन्या अन्त्यज (पाण्डाल) की स्त्री मित्रपत्नी पुत्र की स्त्री इनके साथ रति (सोम रमण) करना गुरुपत्नी वा माता से रति करने के समान महापाप है ।

गोवधाऽवाक्यमपाज्यपरदायात्मविक्रयाः ।

गुरुमावृषिवृत्त्यागः स्वाध्यायाम्नयो सुतस्य च ॥ ५९ ॥

(१९) गो हत्या करना प्रयोग्य को मार कराना परस्त्री से सोम देकर व बलात्कार रति करना अपने भाप को बेच डालना गुरु व माता व पिता व स्वाध्याय (वेदपाठ) व अग्नि होत्र अपने पुत्र को त्याग देना ।

परिवितितानुजेऽनूढे परिवेदनमेव च ।

तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम् ॥ ६० ॥

(६०) ज्वेष्ठ भ्र ता का विवाह होने पर लघु भ्राता का विवाह हो जाना, उन दोनों भ्राताओं को कन्या देना और उनको यज्ञ कराना ।

कन्याया दूषणं चैव वाधुर्प्यं व्रतलोपनम् ।

तडागागमदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६१ ॥

(६१) कन्या को दूषित करना, व्याज पर निर्वाह करना, ब्रह्मचर्याश्रम में व्यभिचार करना, तालाव, आराम (वाग), कुवा, स्त्री और पुत्र को विक्रय करना (वेचना) ।

व्रात्यया वान्ववत्यागी भृत्याध्यापनमेव च ।

भृत्या चाध्ययनादानमपणयानां च विक्रयः ॥ ६२ ॥

(६२) × समय पर यज्ञोपवीत न होना, चाचा आदि गुण्जनो की सेवा-शुश्रूषा न करना, धन लेकर पढाना, धन देकर पढना, तिल आदि जो वेचने योग्य हैं उनको वेचना ।

सर्वकारेष्वधीनां महायन्त्रप्रवर्तनम् ।

हिंसौषधीनां स्त्रियाजीवोऽभिचारो-मूलकर्म च ॥ ६३ ॥

(६३) ❀ सोना, चादी आदि धातुओं का खानो पर अधि-

× ६२वें श्लोकमें समयपर जनेऊ न होने का पाप इम हेतु कहा है कि इसके बिना वेदों का पढना उचित नहीं और वेद पढे बिना मनुष्य सदैव दुखी रहता है । जिससे दुखी रहे वही पाप है ।

❀ ६३ वें श्लोक में भस्म (कुश्त) बनाने को इस हेतु पाप वतलाया है कि उसके कच्चा रहने से सब लोगों को हानि पहुँचती है और जिससे किसी को बिना अपराध व अकारण हानि पहुँचे वह पाप है ।

(१५) अयोग्य होकर झूठमूठ ही अपने को योग्य कहना, राजा के सम्मुख पिशुनता (मूठी चुगली जामा) करना गुरु के समीप असत्य भाषण करना यह ब्रह्महत्या के समान महापातक है ।

ब्रह्मोजमना वेदनिन्दा कौटसाक्ष्य सुहृद्रथः ।

गदितानाद्यप्योर्जग्धि सुरापानसमानि पट् ॥ ५६ ॥

(१६) पडे हुए वेद की भूमना वेन्की निन्दा करना असत्य साक्षी देना सुहृद को मघ करना बिष्ठा प्रादि गर्हित वस्तुओं का भक्षण करना यह सब सुरापान के समान महापाप है ।

निक्षेपस्यापहरणं नरारवरसतस्य च ।

भूमिवज्रमशीनां च रुक्मस्तेपमर्म स्मृतम् ॥ ५७ ॥

(१७) निक्षेप (भरोहर चाती) मनुष्य घोडा आदी भूमि हीरा मणि इनका चुराना सोना चुराने के समान है ।

रेतः मेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्स्पृक्षासु च ।

सम्पुः पुत्रस्य च स्र पु गुरुत्पसम विदु ॥ ५८ ॥

(१८) सगी बहिन कु बारी कन्या अन्वय (बाण्डाल) की स्त्री मित्रपत्नी पुत्र की स्त्री इनके मास रति (भोग रमण) करना गुरुपत्नी वा माता से रति करने के समान महापाप है ।

गावधाऽश्वस्यमवाज्यपरदायात्मभिक्षया ।

गुरुमातृपितृन्याग स्वाध्यायाग्नेयो सुतस्य च ॥ ५९ ॥

(१९) गौ हरना करना अयोग्य को मत्त कराना परस्त्री से मोभ नैकर व बलात्कार रति करना अपन माप को बच डामना गुरु व माता व पिता व स्वाध्याय (विष्पाठ) व अग्नि होत्र दान पुत्र की स्वाग देना ।

परिवितितानुजेऽनूढे परिवेदनमेव च ।

तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम् ॥ ६० ॥

(६०) ज्वेष्ठ भ्र ता का विवाह होने पर लघु भ्राता का विवाह हो जाना, उन दोनो भ्राताओ को कन्या देना और उनको यज्ञ कराना ।

कन्याया दूषणं चैव वाधुर्ष्यं व्रतलोपनम् ।

तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६१ ॥

(६१) कन्या को दूषित करना, व्याज पर निर्वाह करना, ब्रह्मचर्याश्रम मे व्यभिचार करना, तालाव, आराम (वाग), कुवा, स्त्री और पुत्र को विक्रय करना (बेचना) ।

व्रात्यया बान्धवत्यागी भृत्याध्यापनमेव च ।

भृत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः ॥ ६२ ॥

(६२) × समय पर यज्ञोपवीत न होना, चाचा आदि गुरुजनो की सेवा-शुश्रूषा न करना, धन लेकर पढाना, धन देकर पढना, तिल आदि जो बेचने योग्य हैं उनको बेचना ।

सर्वाकरेष्वधीनां महायन्त्रप्रवर्तनम् ।

हिंसोपधीनां स्त्र्याजीवोऽभिचारो मूलकर्म च ॥ ६३ ॥

(६३) ❀सोना, चादी आदि धातुओ का खानो पर अधि-

× ६२वें श्लोकमे समयपर जनेऊ न होने का पाप इस हेतु कहा है कि इसके विना वेदो का पढना उचित नही और वेद पढे विना मनुष्य सदैव दुखी रहता है । जिससे दुखी रहे वही पाप है ।

❀ ६३ वें श्लोक मे भस्म (कुश्त) बनाने को इस हेतु पाप वतलाया है कि उसके कच्चा रहने-से सब लोगो को हानि पहुँचती है और जिससे किसी को विना अपराध व अकारण हानि पहुँचे वह पाप है ।

(२४) प्रयोग्य होकर मूठमूठ ही अपने को योग्य कहना, राजा के सम्मुख पिधुमता (मूठी धुगसी सामा) करना गुरु के समीप असत्य भाषण करना यह ब्रह्महत्या के समान महापातक है ।

अशौचमना वेदनिन्दा कौटसाक्ष्य सुदृष्ट्य च ।

गर्हितानाद्योर्ध्विवा सुरापानसमानि पट् ॥ ३६ ॥

(२६) पठे हुए वेद को भूलना वेदकी निन्दा करना असत्य साक्षी देना मुद्दत को बध करना विद्या प्रादि गर्हित वस्तुओं का भक्षण करना यह सब सुरापान के समान महापाप हैं ।

निषोपस्यापहरणं नरारवरजतस्य च ।

भूमिब्रह्मखीनां च रुक्मस्तेयमर्म स्मृतम् ॥ ३७ ॥

(२७) निषेज (घरोहर घाती) मनुष्य बोझा चाँदी भूमि हीरा मणि इनका चुराना सोना चुराने के समान है ।

रेतः सेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ।

सकपुः पुत्रस्य च कपु गुरुवत्पसम विद् ॥ ३८ ॥

(२८) सगी बहिन कुबारी कन्या अत्यज (बाण्डाल) की स्त्री मित्रपत्नी पुत्र की स्त्री इनके साथ रति (भोग रमण) करना गुरुपत्नी वा माता से रति करने के समान महापाप है ।

गोबवाऽशाप्यमयाज्यपरदायात्मबिक्रया ।

गुरुमादृपितृत्याग स्वाध्यायाग्नयो सुतस्य च ॥ ३९ ॥

(२९) गो हत्या करना अयोग्य को यज्ञ करना परस्त्री से भोग बेचर ब बलात्कार रति करना अपने प्राप को बेच डालना गुरु व माता व पिता व स्वाध्याय (वेदपाठ) व अग्नि होव अपने पुत्र को त्याग देना ।

(६७) ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड देना कर्थात् उसके पाव, हाथ आदि काटना, दुर्गन्धित वस्तु जो सू घने योग्य नहीं है यथा लस्सुन, प्याज, मल, मूत्र और शराव (मद्य) को सू घना, कुटिलता (घोखेवाजी), मैथुन (व्यभिचार), इन कर्मों से जाति भ्रष्ट हो जाती है ।

खराश्वोष्ट्रमृगेभानामजाविकवधस्तथा ।

संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिपस्य च ॥ ६८ ॥

(६८) खर (गधा), घोडा, ऊँट, हाथी, भेड, बकरी आदि पशुओं का वध करना और इनके अतिरिक्त मछली, साप, भैंस का वध करना संकरीकरण कहलाता है ।

निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्य शूद्र सेवनम् ।

अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम् ॥ ६९ ॥

(६९) निन्दित व घृणित मनुष्यों का दान लेना, वाणिज्य करना, शूद्र की सेवा करना, असत्य भाषण करना, यह सब अपात्रीकरण कहलाते हैं ।

कृमिकीटवयोदृत्या मधानुगतभोजनम् ।

फलैधः कुसुस्तेयमधैर्यं च मलावहम् ॥ ७० ॥

(७०) कृम व कीट की हिंसा करना, मद्य शराव मिश्रित कृतान्न का भोजन करना, फल-फूल, लकड़ी आदि वस्तुओं का चुराना और साहस व धैर्य न धारण करना, यह सब मलावर अर्थात् मेल के होने वाले कहलाते हैं ।

एतान्येनांसि-सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्पृथक् ।

यैर्यैर्व्रतैरपीह्यन्ते तानि सम्यङ्निबोधत ॥ ७१ ॥

(७१) यह सब पाप पृथक् २ कहे । यह सब पाप जिस २ व्रत के करने से निवृत्त (दूर) होते हैं, उन व्रतों को कहते हैं ।

कार होता और महायन्त्रों (बड़ी-बड़ी कर्मों) व प्रौजारों को मष्ट भष्ट करना यातुओं का मारना अर्थात् भस्म बनाना, अपनी स्त्री के व्यभिचार द्वारा धन प्राप्त कर निर्बाह करना अभिचार कर्म करना अर्थात् प्रयोग आदि करके किसी को मोहित करना वा मार डालना ।

इन्वनाथं मशुष्काणां द्रुमाद्यामवपातनम् ।

आत्मार्थं च क्रियारम्भो निन्दिताभादन तथा ॥६४॥

(६४) इन्वनाथं हरे बुद्ध को काटना बेबता व पितरों का प्रतिरिक्त केवल अपने ही हेतु भोजन बनाना और अजित वस्तुओं को मझग करना वा कार्य में लाना ।

अनाहिताग्निता स्तेयमृष्टानामनपश्रिया ।

अमच्छास्त्राधिगमन क्रीशीलस्यस्य च क्रिया ॥६५॥

(६५) सामर्थ्य व अधिकार होने हुए अग्निहोत्रको परित्याग करना चादी आदि का पुराना बेद व धर्मशास्त्र के विरुद्ध जो ग्रन्थ व शास्त्र है उसको सीखना व पढ़ना गाना बजाना तीनों ऋणों अर्थात् देव पितृ ऋषि का परिशोध न करना ।

वा यकुप्यपशुस्तेयमद्यस्त्रीनियवशम् ।

स्त्रीशूद्रविद्वत्प्रवधो नास्तिक्य चोपपातकम् ॥ ६६ ॥

(६६) वाय्य ताबा लोहा आदि पशु का पुराना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की मद्य पीने वाली स्त्री से रति करना स्त्री व शूद्र व वैश्य व क्षत्रिय इनका बध करना नास्तिकता अर्थात् ईश्वर वेद व कर्मों के फल को नृणा बतलाना यह प्रत्येक उपपातक कहलाते हैं ।

ब्राह्मणस्य रुद्रः कृत्वा धातिरभ्येयमद्यो ।

लैक्ष्य च मैथुनं पु सि आतिभ शक्य स्मृतम् ॥६७॥

(६७) ग्राह्यण को शारीरिक दण्ड देना कर्थात् उसके पाव, हाथ आदि काटना, दुर्गन्धित वस्तु जो सू घने योग्य नहीं है यथा लस्सुन, प्याज, मल, मूत्र और शराव (मद्य) को सू घना, कुटिलता (घोखेवाजी), मैथुन (व्यभिचार), इन कर्मों से जाति भ्रष्ट हो जाती है ।

खराश्वोष्ट्रमृगोभानामजाविकवधस्तथा ।

संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिपस्य च ॥ ६८ ॥

(६८) खर (गधा), घोडा, ऊँट, हाथी, भेड, बकरी आदि पशुओं का वध करना और इनके अतिरिक्त मछली, साप, भैंस का वध करना संकरीकरण कहलाता है ।

निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्य शूद्र सेवनम् ।

अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम् ॥ ६९ ॥

(६९) निन्दित व घृणित मनुष्यों का दान लेना, वाणिज्य करना, शूद्र की सेवा करना, असत्य भाषण करना, यह सब अपात्रीकरण कहलाते हैं ।

कृमिकोटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम् ।

फलैधः कुसुस्तेयमधैर्यं च मलावहम् ॥ ७० ॥

(७०) कृम व कीट की हिंसा करना, मद्य शराव मिश्रित कृतान्न का भोजन करना, फल-फूल, लकड़ी आदि वस्तुओं का चुराना और साहस व धैर्य न धारण करना, यह सब मलावर अर्थात् मैल के ढोने वाले कहलाते हैं ।

एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्पृथक् ।

यैर्यैर्व्रतैरपीक्षन्ते तानि सम्यङ्निबोधत ॥ ७१ ॥

(७१) यह सब पाप पृथक् २ कहे ।- यह सब पाप जिस २ व्रत के करने से निवृत्त (दूर) होते हैं, उन व्रतों को कहते हैं ।

ग्रहहा द्वादश समाः पूर्णं कुरवा घने वसेत् ।

मैष्यमात्मविशुद्ध्यर्थं कृत्वा शशिशिराध्वजम् ॥७२॥

(७२) ब्रह्महत्या करने वाला अपने को क्षुद्र करने के हेतु बन में कुटी बनाकर बारह वर्ष पर्यंत उनमें रहे तथा जिस ब्राह्मण को मारा हो उसका घन भिक्षा याचन के समय अपने सिर पर रखे यह ॐ प्रायश्चित्त प्रज्ञानता से ब्रह्महत्या हो जाने का है ।

सत्स्यं शस्त्रमृता वा स्याद्विदुपमिच्छयात्मन ।

प्रास्यंदात्मानमग्नौ वा समिद्धे शिरवाकिशरा ॥७३॥

(७३) चाहे अपना इच्छा से शास्त्र बिछा जाताया के शास्त्र का लक्ष्य होवे नीचे सिर करके तीन बार अपनी धारमा को अग्नि में डाले यह प्रायश्चित्त है और धारामी श्लोक में जो अस्वमेध यज्ञ कहेमे वह भी गुणहीन ब्राह्मणों को गुणवान सत्री इच्छा से बध करे बहा जानना ।

यज्वेत् वास्वमेधेन स्वजिता गासुवेन वा ।

अभिजिद्विश्वदिवृम्यां वा त्रिवृत्ताग्निप्लुतापि वा ॥७४॥

(७४) चाहे अश्वमेध स्वजित गीसव अभिजित विश्व जित त्रिनता अग्निहोम इनमें से कोई एक यज्ञ करे वह प्रायश्चित्त प्रज्ञान से ब्राह्मणों को मारे बहा ब्राह्मण प्रायि तीनों बर्णों को जानना ।

अपन्वाऽन्यतमं वेद् योजनानां शतं प्रजेत् ।

ब्रह्महत्यापनोदाय मिसमुह्नियतन्द्रियः ॥ ७५ ॥

ॐ प्रायश्चित्त से यह अभिप्राय है कि इस प्रकार का दुष्कृत पाप से अविष्य मे उस पाप से बचा रहेगा अश्वमेध प्रायश्चित्त करने से पाप के करने से तात्पर्य नहीं बरन् उसके फल भोगने से तात्पर्य है ।

(७५) ब्रह्महत्या से निवृत्ति होने के हेतु अल्प भोजन करता हुआ इन्द्रियो को वश में करके किसी एक वेद को पढता हुआ सौ योजन तक विदेश भ्रमण करे, यह भी अज्ञान से ब्राह्मण वर्ण के वध करने में ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य को जानना ।

सर्वस्वं वेदविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत् ।

धनं वा जीवनायाऽलं गृहं वा सपरिच्छदम् ॥ ७६ ॥

(७६) ब्रह्महत्यारा चाहे वेदपाठी ब्राह्मण को अपना सारा धन प्रायश्चित्त में वरन कर दे वा सारी आयु के भोजनार्थ ब्राह्मण को दान देवे अथवा ब्राह्मण के निवासार्थ सब सामान युक्त घर ब्राह्मण को दान देवे, यह प्रायश्चित्त अनिच्छा से ब्राह्मण के मारने का है ।

हविष्यभुग्वाऽनुसरेत्प्रतिस्त्रोतः सरस्वतीम् ।

जपेद्वा नियताहारस्त्रिवेदेस्य संहिताम् ॥ ७७ ॥

(७७) अथवा हवन योग्य पदार्थों का भोजन करता हुआ पश्चिमकी ओर जाने वाली सरस्वती में स्नान करे वा अल्प भक्षी होकर तीन बार वेदों की संहिताओं का पाठ करे, यह अज्ञान से ब्राह्मण को ब्राह्मण वध करने का प्रायश्चित्त है ।

कृतवापनो निवसेद्ग्रामान्ते गोत्रजेऽपि वा ।

आश्रमे वृक्षमूले वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥ ७८ ॥

(७८) गऊ व ब्राह्मण का भला करता हुआ दाढी व मूँछ व सिर मुँढाये व नख कटाये हुए गाव के समक्ष व गोशाला व वृक्ष की मूल में निवास करे अथवा वन में कुटी बनाकर निवास करे, इन्हीं विकल्प के हुतु यह कहा है ।

ब्राह्मणार्थं गवार्थं वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत् ।

मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोत्राह्मणस्य च ॥ ७९ ॥

ब्रह्महा द्वादश समाः कृत्वा कृत्वा वने वसेत् ।

मैत्रयमात्मविशुद्ध्यर्थं कृत्वा शशिशिरोच्छ्रवम् ॥७२॥

(७२) ब्रह्महत्या करने वाला अपने को कुछ करने के हेतु वन में कुटी बनाकर बारह वर्ष पयत्न उनमें रहे तथा जिस प्राण को मारा हो उसका शत्रु गिना माघन के समय अपने सिर पर रखे यह ऋषिप्रवृत्त प्रज्ञानता से ब्रह्महत्या हो जाने का है ।

सूक्ष्मं शस्त्रमृत्वा वा स्याद्विदुषामिच्छयात्मन ।

मास्येदात्मानमग्नौ वा समिद्धे त्रिरवाक्यशरा ॥७३॥

(७३) चाहे अपने इच्छा से शास्त्र बिना ज्ञाताओं के शास्त्र का मध्य होवे नीचे सिर करके तीन बार अपनी आत्मा को अग्नि में डाले यह प्रायश्चित्त है और आमामी श्लोक में जो प्रथमेश यज्ञ कहेंगे वह भी गुणहीन ब्राह्मणों को मुखदान सभी इच्छा से बध करे, वही जानता ।

यज्ञेत् बारवमेधेन स्वर्जिता गासुधेन वा ।

अभिजिदिरवसिद्वृत्त्यां वा त्रिद्विचाग्निष्पुतापि वा ॥७४॥

(७४) चाहे प्रथमेश स्वर्जित गोसुध अभिजित त्रिद्विजित त्रिद्विजिता अग्निधोम इनमें से कोई एक यज्ञ करे वह प्रायश्चित्त प्रज्ञान से ब्राह्मणों को मारे, वही ब्राह्मण यदि तीनों बर्णों को जानता ।

अपन्थाऽन्यतमं बर्द्धं योषनानां शतं व्रजेत् ।

ब्रह्महत्यापनीदाय मितसुहृन्नियतेन्द्रियः ॥ ७५ ॥

ऋषिप्रवृत्त से यह अभिप्राय है कि इस प्रकार का कुछ पाने से अभिष्य में उस पाप से बचा रहेगा अथवा प्रायश्चित्त करने से पाप के करने से तात्पर्य नहीं बरन् उसके फल मोक्ष से तात्पर्य है ।

(८६) जो वारह वर्ष का प्रायश्चित्त कहा है वह अनिच्छा ब्राह्मण को हनन करने में जानना और इच्छा से ब्राह्मण की हत्या करने में ब्रह्महत्या से छुटकारा नहीं है अर्थात् प्रायश्चित्त नहीं है वरन् उसका दुगुना है ।

सुरां पीत्वा द्विजो मोहादग्निवर्णां सुरां पिवेत् ।

तया स काये निर्दग्धे मुच्यते किञ्चिपात्ततः ॥ ६० ॥

(६०) ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि मोहवश सुरा (शराव) पान कर ले तो यह अग्नि के वर्ण (रङ्ग) की सुरा को प्रायश्चित्तार्थ पीवे अर्थात् अग्नि से तप्त (जलते हुए) निम्नोक्त पदार्थों को भोजन करे जिससे प्राणान्त (इस शरीर का नाश) होकर पापों से छूट जावे ।

गोमूत्रमग्निवर्णां वा पिवेदुदकमेव वा ।

पयो घृतं वाऽमरणाद्गोशकृद् समेव वा ॥ ६१ ॥

(६१) गो मूत्र वा जल वा गो दुग्ध वा गो घृत वा गऊ के गोवर का रस, इनमें से किसी एक को अग्नि वर्ण करके पीवे और उससे प्राणान्त हो जावे तो शुद्ध होता है ।

कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकन्निशि ।

सुरापानापनुत्त्यर्थं बालवासा जटी ज्वरी ॥ ६२ ॥

(६२) गऊ आदि के बालों के वस्त्र बनाकर पहिरे व जटा धारण करके सुरापान का चिह्न अङ्कित कर चावलका कण (कन) वा तिल की खली इनमें से किसी एक को एक वर्ष पर्यन्त रात्रि में एक बार भोजन करे तो सुरापान के पाप से छूटे । यह प्रायश्चित्त अज्ञानता से सुरापान कर लेने में जानना ।

सुग वै मलमन्त्रानां पाप्मा च मलमुच्यते ।

तस्माद्ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिवेत् ॥ ६३ ॥

तेषां वेदविद्या मयुखयोऽप्येन मुनिष्कृतिम् ।

सा तेषां पावनाय स्यात्पवित्रा विदुषां हि वाक् ॥ ८५ ॥

(८५) वेदशास्त्रा तीम ब्राह्मण जो प्रायश्चित्त कहें वही पवित्र है, क्योंकि वेदपाठी ब्राह्मण की वाणी ही पवित्र है ।

अतोऽन्यतममास्थाय विधिं विप्रं समाहितः ।

ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवक्षया ॥ ८६ ॥

(८६) उपरोक्त प्रायश्चित्तों में से एक भी करे और ब्रह्म को जाने लो ब्रह्महत्या से छून्ता है ।

इत्या गर्भमभिज्ञातमतद्व्यं वर्तं चरेत् ।

रात्रन्यबैश्वी चान्नापात्रेयीमेव च क्षियम् ॥ ८७ ॥

(८७) ब्राह्मणों में ब्राह्मण द्वारा स्थापित गर्भ के पतन में भी यही व्रत है । यज्ञ करते हुए क्षत्रिय व वैश्य व ब्राह्मण की श्वस्वला स्त्री इनमें से किसी एक के मारने में भी पूर्वोक्त व्रतों में से किसी एक व्रत को करे ।

उपस्वा चैवानृतं साधये प्रतिकुप्य गुरु तथा ।

अपहृत्य च निःशर्पं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्वचम् ॥ ८८ ॥

(८८) साक्षी होकर मिथ्या भाषण करने में गुरु पर मिथ्या दोषारोपण करने में ब्राह्मण व क्षत्रिय का सोना प्राणि परोहर के अपहरण करने में अग्निहोत्री ब्राह्मण की स्त्री के बध करने में सुहृद (मित्र) की हत्या करने में ब्रह्महत्या का व्रत करना चाहिये ।

इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याऽकामतो द्विसम् ।

कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥ ८९ ॥

(८६) जो बारह वर्ष का प्रायश्चित्त कहा है वह अनिच्छा से ब्राह्मण को हनन करने में जानना और इच्छा से ब्राह्मण की हत्या करने में ब्रह्महत्या से छुटकारा नहीं है अर्थात् प्रायश्चित्त नहीं है वरन् उसका दुगुना है ।

सुरां पीत्वा द्विजो मोहादग्निवर्णां सुरां पिवेत् ।

तया स काये निर्दग्धे मुच्यते किञ्चिपात्ततः ॥ ६० ॥

(६०) ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि मोहवश सुरा (शराब) पान कर ले तो यह अग्नि के वर्ण (रङ्ग) की सुरा को प्रायश्चित्तार्थ पीवे अर्थात् अग्नि से तप्त (जलते हुए) तिमनोक्त पदार्थों को भोजन करे जिससे प्राणान्त (इस शरीर का नाश) होकर पापों से छूट जावे ।

गोमूत्रमग्निवर्णां वा पिवेदुदकमेव वा ।

पयो घृतं वाऽमरणाद्गोशकृद् समेव वा ॥ ६१ ॥

(६१) गो मूत्र वा जल वा गो दुग्ध वा गो घृत वा गऊ के गोबर का रस, इनमें से किसी एक को अग्नि वर्ण करके पीवे और उससे प्राणान्त हो जावे तो शुद्ध होता है ।

कणान्वा भक्षयेद्बुद्धं पिण्याकं वा सकन्निशि ।

सुरापानापनुच्यर्थं चालवासा जटी ज्वरी ॥ ६२ ॥

(६२) गऊ आदि के बालों के वस्त्र बनाकर पहिरे व जटा धारण करके सुरापान का चिन्ह अङ्कित कर चावलका कण (कन) वा तिल की खली इनमें से किसी एक को एक वर्ष पर्यन्त रात्रि में एक बार भोजन करे तो सुरापान के पाप से छूटे । यह प्रायश्चित्त अज्ञानता से सुरापान कर लेने में जानना ।

सुग वै मलमन्त्रानां पाप्मा च मलमुच्यते ।

तस्माद्ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिवेत् ॥ ६३ ॥

तेषां वेदविदो मयुखयोऽप्येन मुनिष्कृतिम् ।

सा तेषां पाषनाय स्यात्पवित्रा विदुषां हि वाक् ॥ ८३ ॥

(८३) वेदज्ञाता तीन ब्राह्मण जो प्रायश्चित्त कहें वही पवित्र है, क्योंकि वेदपाठी ब्राह्मण की वाणी ही पवित्र है ।

अतोऽन्यसममास्याय विधिं विप्रः समाहितः ।

ब्रह्महत्याकृतं पार्यं व्यपोहस्यान्मवक्षया ॥ ८६ ॥

(८६) उपरोक्त प्रायश्चित्तों में से एक भी करे और ब्रह्म को जाने तो ब्रह्महत्या से छूटा है ।

हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत् ।

राजन्यवैश्यौ श्वेजानावात्रेयीमेव च क्षियम् ॥ ८७ ॥

(८७) ब्राह्मणों में ब्राह्मण द्वारा स्थापित गर्भ के पतन में भी व्रत है । यज्ञ करते हुए क्षत्रिय व वैश्य व ब्राह्मण की राजस्वला स्त्री इनमें से किसी एक के मारने में भी पूर्वोक्त व्रतों में से किसी एक व्रत को करे ।

उक्त्वा शैबानृत्तं साक्ष्ये प्रविरुध्य गुरु तथा ।

अपहृत्य च निःशेषं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्दणम् ॥ ८८ ॥

(८८) साक्षी होकर मिथ्या मापण करने में गुरु पर मिथ्या दोषारोपण करने में ब्राह्मण व क्षत्रिय का छोटा प्रायश्चित्त करे और अपहृत्य करने में अग्निहोत्री ब्राह्मण की स्त्री के वध करने में सुहृद (मित्र) की हत्या करने में ब्रह्महत्या का व्रत करना चाहिये ।

इयं विशुद्धिरुदित्वा प्रमाप्याऽकामतो द्विजम् ।

कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥ ८९ ॥

(८६) जो वारह वर्ष का प्रायश्चित्त कहा है वह अनिच्छा से ब्राह्मण को हनन करने में जानना और इच्छा से ब्राह्मण की हत्या करने में ब्रह्महत्या से छुटकारा नहीं है अर्थात् प्रायश्चित्त नहीं है वरन् उसका दुगुना है ।

सुरां पीत्वा द्विजो मोहादग्निवर्णां सुरां पिबेत् ।

तया स काये निर्दग्धे मुच्यते किञ्चिपात्ततः ॥ ६० ॥

(६०) ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि मोहवश सुरा (शराब) पान कर ले तो यह अग्नि के वर्ण (रङ्ग) की सुरा को प्रायश्चित्तार्थ पीवे अर्थात् अग्नि से तप्त (जलते हुए) निम्नोक्त पदार्थों को भोजन करे जिससे प्राणान्त (इस शरीर का नाश) होकर पापों से छूट जावे ।

गोमूत्रमग्निवर्णां वा पिबेदुदकमेव वा ।

पयो घृतं वाऽमरणाद्गोशकृद् समेव वा ॥ ६१ ॥

(६१) गो मूत्र वा जल वा गो दुग्ध वा गो घृत वा गऊ के गोवर का रस, इनमें से किसी एक को अग्नि वर्ण करके पीवे और उससे प्राणान्त हो जावे तो शुद्ध होता है ।

कणान्वा भक्षयेद्वृद्धं पिण्याकं वा सकन्निशि ।

सुरापानापनुत्थर्थं बालवासा जटी ज्वरी ॥ ६२ ॥

(६२) गऊ आदि के बालों के वस्त्र बनाकर पहिरे व जटा धारण करके सुरापान का चिन्ह अङ्कित कर चावलका कण (कन) वा तिल की खली इनमें से किसी एक को एक वर्ष पर्यन्त रात्रि में एक बार भोजन करे तो सुरापान के पाप से छूटे । यह प्रायश्चित्त अज्ञानता से सुरापान कर लेने में जानना ।

सुग वै मलमन्त्रानां पाप्मा च मलमुच्यते ।

तस्माद्ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत् ॥ ६३ ॥

तेषां वेदविदो ब्रूयुस्त्रयोऽप्येन मुनिष्कृतिम् ।

सा तेषां पाबनाय श्यात्मविश्रा विदुषां हि वाक् ॥ ८५ ॥

(८५) वेदज्ञाता तीन ब्राह्मण जो प्रायश्चित्त करें बड़े पवित्र हैं, क्योंकि वेदपाठी ब्राह्मण की बानी ही पवित्र है ।

अतोऽन्यतममास्थाय विधिं विप्रः समाहितः ।

ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवक्षया ॥ ८६ ॥

(८६) उपरोक्त प्रायश्चित्तों में से एक भी करे और ब्रह्म को जाने तो ब्रह्महत्या से छूटा है ।

हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं श्वरत् ।

राधन्यवैश्व्यौ चेजानावाप्रेयीमेष च क्षियम् ॥ ८७ ॥

(८७) ब्राह्मणों में ब्राह्मण द्वारा स्थापित गर्भ के पतन में भी यही व्रत है । यज्ञ करते हुए क्षत्रिय व वैश्य व ब्राह्मण को रखस्वसा स्त्री इनमें से किसी एक के मारने में भी पूर्वोक्त व्रतों में से किसी एक व्रत को करे ।

उक्त्या चैवानृतं सास्ये प्रतिरुष्य गुरु तथा ।

अपहृत्य च नि चेषं कृत्वा च स्त्रीसुहृदधम् ॥ ८८ ॥

(८८) साक्षी होकर मिथ्या भाषण करने में गुरु पर मिथ्या दोषारापण करने में ब्राह्मण व क्षत्रिय का सोना प्रादि धरोहर क प्रपहरण करने में अग्निहोत्री ब्राह्मण की स्त्री के बन्ध करने में सुहृत् (मित्र) की हत्या करने में ब्रह्महत्या का व्रत करना चाहिये ।

इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याऽकाशतो द्विजम् ।

अमतो ब्राह्मणमधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥ ८९ ॥

(८६) - जो वारह वर्ष का प्रायश्चित्त कहा है वह अनिच्छा से ब्राह्मण को हनन करने में जानना और इच्छा से ब्राह्मण की हत्या करने में ब्रह्महत्या से छुटकारा नहीं है अर्थात् प्रायश्चित्त नहीं है वरन् उसका द्रुगुना है ।

सुरां पीत्वा द्विजो मोहादग्निवर्णां सुरां पिवेत् ।

तथा स काये निर्दग्धे मुच्यते किञ्चिपात्ततः ॥ ९० ॥

(९०) ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि मोहवश सुरा (शराव) पान कर ले तो यह अग्नि के वर्णा (रङ्ग) की सुरा को प्रायश्चित्तार्थ पीवे अर्थात् अग्नि से तप्त (जलते हुए) निम्नोक्त पदार्थों को भोजन करे जिससे प्राणान्त (इस शरीर का नाश) होकर पापों से छूट जावे ।

गोमूत्रमग्निवर्णां वा पिवेदुदकमेव वा ।

पयो घृतं वाऽमरणाद्गोशकृद् समेव वा ॥ ९१ ॥

(९१) गो मूत्र वा जल वा गो दुग्ध वा गो घृत वा गऊ के गोवर का रस, इनमें से किसी एक को अग्नि वर्णा करके पीवे और उससे प्राणान्त हो जावे तो शुद्ध होता है ।

कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकन्निशि ।

सुरापानापनुत्थर्थं बालवासा जटी ज्वरी ॥ ९२ ॥

(९२) गऊ आदि के बालों के वस्त्र बनाकर पहिरे व जटा धारण करके सुरापान का चिन्ह अङ्कित कर चावलका कण (कन) वा तिल की खली इनमें से किसी एक को एक वर्ष पर्यन्त रात्रि में एक बार भोजन करे तो सुरापान के पाप से छूटे । यह प्रायश्चित्त अज्ञानता से सुरापान कर लेने में जानना ।

सुरा वै मलमन्त्रानां पाप्मा च मलमुच्यते ।

तस्माद्ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिवेत् ॥ ९३ ॥

(१२) मद्य के बिगड़े हुए मद्य को सुर कहते हैं और निर्मल परन्तु दुर्मन्त्रिय युक्त सुरा मद्य को सड़ाने ही से बनती है, इससे ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य कमी सुरा (सराब) पान न करें ।

गौडी पैष्टी च माण्डी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा ।

यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विसोचयैः ॥ ६४ ॥

(१४) गौडी माण्डी पैष्टी तीन प्रकार की सुरा हैं (प्रसूति गुह व मधु व पिसान से बनाई जाती है) जैसी एक वैसी तीनों हैं इससे उत्तम द्विज सुरा न पीये ।

यत्परवःपिशाचान्न मद्य मांसं सुरासवम् ।

सवृक्षाद्यखेन नात्तर्ष्य देवानामरनता इतिः ॥ ६५ ॥

(१५) * मांस सुरा घासव यह सब मद्य राजस और पिशाचो का भक्ष्य है अर्थात् इनके भक्षण करने वाले राजसादि हैं । इससे देवताओं के धर्म के योग्य भोजन न करने वाला ब्राह्मण इनको कभी न पीये ।

अमेष्ये वा पतेन्मघो वैदिकं माप्युदाहरेत् ।

अक्षर्यमन्यत्कर्पाद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः ॥ ६६ ॥

(१६) ब्राह्मण सुरापान कर मोहवशा अपवित्रता में वेद मन्त्रों का उच्चारण करेगा और न करके योग्य कार्य करेगा इससे ब्राह्मण सुरापान कदापि न करे ।

यस्य कायगत ब्रह्म मद्येनाप्लाभ्यते सकृत् ।

तस्य व्यापैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गण्डवति ॥६७॥

* मनुजी ने मांस व सुरा (सराब) को राजसों का भक्ष्य बतलाया है अतः जहाँ इनका भक्षण (समर्पन) होगा वहाँ राजसों का मिश्राया हुआ होगा ।

(६७) जिस ब्राह्मण का हृदय स्थित वेद एक बार भी सुरापान से डूबेगा उस ब्राह्मण का ब्रह्मतेज नष्ट हो जावेगा और वह ब्राह्मण शूद्र भाग को प्राप्त होगा ।

एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम् ॥ ६८ ॥

(६८) यह विचित्र प्रायश्चित्त सुरापान का कहा, अब ॐ सोना चुराने का प्रायश्चित्त कहते हैं ।

सुवर्णस्तेयकृद्विप्रो राजानमभिगम्य तु ।

स्वकर्म ख्यापयन्त्रूयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥६९॥

(६९) ब्राह्मण सोना चुराकर राजा के समीप जाकर कहे कि मैं सोना चुराने वाला हूँ आप मुझे दण्ड देवें ।

गृहीत्वा मुसलं सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम् ।

वधेन शुद्ध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपमैव तु ॥ १०० ॥

(१००) राजा स्वयं मूसल ग्रहण करके एकबार उसको मारे चोरी करने वाला वध करने से अथवा वध करने के समान मार पीटसे शुद्ध होता है क्योंकि ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड नहीं है । इससे भृगुजी कहते हैं कि ब्राह्मण तप द्वारा ही पवित्र होता है ।

तपसापनुनुत्सस्तु सुवर्णस्तेयजं मलम् ।

चीरेवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्ब्रह्महणो व्रतम् ॥१०१॥

(१०१) तप द्वारा सोना चुराने के पाप को निवारण करने की इच्छा करने वाला, चोर-वस्त्र-(अर्थात् वस्त्रका टुकड़ा) धारण

ॐ सोना चुराना इस हेतु पाप बतलाया है कि इसकी चिन्ता से प्राय लोभी लोगो के प्राण तक चले जाते हैं ।

(२१) मद्य के बिनाके हुए मंस को सुर कहते हैं और निर्मंस परन्तु कुर्यन्वि युक्त सुरा मद्य को सड़ाने ही से बनती है, इससे ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य कभी सुरा (सराब) पाम न करें ।

गौडी पैथी च माञ्ची च विद्येया त्रिविधा सुरा ।

यमैवैक्य तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमै ॥ ६४ ॥

(२४) गौड़ी माञ्ची पैथी तीन प्रकार की सुरा हैं (अर्थात् मुड व मधु व पिसान से बनाई जाती हैं) जैसी एक वैसी तीनों हैं इससे उत्तम द्विज सुरा न पीये ।

यश्चरत्प्रपिशाचान्न् मद्य मांस सुरासवम् ।

तद्ब्राह्मणेन नाचम्य देवानामरनता इवि ॥ ६५ ॥

(२२) एक मांस सुरा प्राप्तव यह सब मद्य राक्षस और पिशाचो का भक्षण है अर्थात् इनके भक्षण करने वाले राक्षसादि हैं । इससे देवताओं के यज्ञ के योग्य भोजन भक्षण करते वाला ब्राह्मण इनको कभी न पीये ।

अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाप्युदाहरेत् ।

अकार्यमन्यत्कुर्याद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः ॥ ६६ ॥

(२६) ब्राह्मण सुरापान कर मोहबस अपवित्रता में देव मन्त्रों का उच्चारण करेगा और न करने योग्य कार्य करेगा इससे ब्राह्मण सुरापान कदापि न करे ।

यस्य कायगतं मद्य मघेनाप्लाभ्यते सकृत् ।

तस्य प्यापैति ब्राह्मणस्य शूद्रत्व च स गर्ह्यति ॥६७॥

क मनुजी ने मांस व सुरा (सराब) को राक्षसों का भक्षण बतसाया है अतः जहाँ इनका भक्षण (समर्जन) होता वह राक्षसों का भिसाया हुआ होता ।

(६७) जिस ब्राह्मण का हृदय स्थित वेद एक वार भी सुरापान से झूवेगा उस ब्राह्मण का ब्रह्मतेज नष्ट हो जावेगा और वह ब्राह्मण शूद्र भाग को प्राप्त होगा ।

एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम् ॥ ६८ ॥

(६८) यह विचित्र प्रायश्चित्त सुरापान का कहा, अब ॐ सोना चुराने का प्रायश्चित्त कहते हैं ।

सुवर्णस्तेयकृद्भिप्रो राजानमभिगम्य तु ।

स्वकर्म ख्यापयन्त्रूयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥६९॥

(६९) ब्राह्मण सोना चुराकर राजा के समीप जाकर कहे कि मैं सोना चुराने वाला हूँ आप मुझे दण्ड दें ।

गृहीत्वा मुसलं सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम् ।

वधेन शुद्ध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपमैव तु ॥ १०० ॥

(१००) राजा स्वयं मूसल ग्रहण करके एकबार उसको मार चोरी करने वाला वध करने से अथवा वध करने के समान मार पीटसे शुद्ध होता है क्योंकि ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड नहीं है । इससे भृगुजी कहते हैं कि ब्राह्मण तप द्वारा ही पवित्र होता है ।

तपसापनुनुत्सस्तु सुवर्णस्तेयजं मलम् ।

चोरेवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्ब्रह्महणो व्रतम् ॥१०१॥

(१०१) तप द्वारा सोना चुराने के पाप को निवारण करने की इच्छा करने वाला, चोर-वस्त्र-(अर्थात् वस्त्रका टुकड़ा) धारण

ॐ सोना चुराना इस हेतु पाप बतलाया है कि इसकी चिन्ता से प्रायः लोभी लोगो के प्राण तक चले जाते हैं ।

कर बन में जाकर उस वृत्त को नर जिसके करने से ब्रह्महत्या से छुटकारा होता है, अर्थात् साना पुराना ब्रह्महत्या के समान है।

एतैर्व्रतैरपोहत पाप श्लेषकृतं द्विज ।

गुरुस्त्रीगमनीयं तु व्रतैरभिरपानुदेत् ॥ १०२ ॥

(१०२) ब्राह्मण इन व्रतों को नरके घोरी के पाप से छुटकारा पावे। यदि किसी ने गुरुपत्नी वा माता से रमण (रति भोग) किया हो तो ऐसे महापापी के हेतु धर्मोपनिषद् द्वारा प्रायश्चित्त करना उचित है।

गुरुतन्प्यमिमाभ्यनस्तप्ये स्वप्यादयोमये ।

धर्मी न्वन्तु वीं स्वारिन्तप्येन्मुत्पुना स विशुद्धपतिः ॥ १०३ ॥

(१०३) गुरुपत्नी वा माता से भाग करने वाला अपने पाप को कहकर तप्त जोहे की धम्मा पर सोवे अथवा लोहे की स्त्री बनाकर अग्नि में उसे तप्त करके उसका गाढ़ासिगन करे (अर्थात् उससे सिपट पावे)।

स्वयं वा शिरनपुपशाबुत्कृत्याधाय चाञ्जली ।

नैश्वर्ती दिशमाविष्टे दानिपातादभिच्छग ॥ १०४ ॥

(१०४) * अथवा अपनी भूमेन्द्रिय (सिगा) को अङ्गुलीय (फोटा) सहित काटकर अपने हाथों की अङ्गुली में रखकर नैश्वर्त्य दिशा (पश्चिम-पूर्व के कोण को चला जावे) जब तक कि मृत्यु न हो पावे।

* यद्यपि मनुजी का प्रायश्चित्त विधान अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है परन्तु ऐसे पापों के निवारण करने के हेतु दूसरा कोई उपाय ही नहीं है।

खट्वाङ्गी चीरवासा वाश्मश्रु लो विजने वने ।--

प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रमब्दमेकं समाहित ॥ १०५ ॥

(१०५) अथवा खाट का एक अङ्ग हाथ में लिए हुए, वसन चीर धारण किये हुए, नख व केश बाल न कटाकर चिन्ता रहित होकर निर्जन वन में एक वर्ष पर्यन्त प्रजापत्य यज्ञ करे, यह प्रायश्चित्त अज्ञानता से अपनी स्त्री जानकर माता से भोग करने में जानना चाहिये ।

चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः ।

हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ १०६ ॥

(१०६) वा जितेन्द्रिय होकर वा जौ की लपसी खाकर गुरुपत्नी से भोग करने के पाप को निवारण करने के हेतु तीन मास पर्यन्त चन्द्रायण व्रत करे ।

एतैत्रै तैरपोहेयुर्महापातकिनो मलम् ।

उपपातकिनस्त्वेवमेभिर्नानाविधैर्व्रतैः ॥ १०७ ॥

(१०७) महापातकी लोग इन व्रतों से अपने पाप को निवारण करे और उपपातकी लोग निम्नोक्त व्रत द्वारा अपने पाप से मुक्ति लाभ करे ।

उपपातकसंयुक्तो गोध्नो मासं यवान्पिवेत् ।

कृतपापो वसेद्गोष्ठे चर्मणा तेन संवृतः ॥ १०८ ॥

(१०८) उपपातकी गऊ के वर्ध करने वाला एक मास पर्यन्त जौ के सत्तू पीवे, नख, लोम, केश को मुँडवा कर गऊ का चर्म (चमड़ा) धारण करके गोशाला (गऊ के रहने का स्थान) में निवास करे ।

कर वन में जाकर उस व्रत को कर जिसक करने से ब्रह्महत्या से छुटकारा होता है अर्थात् सोना पुराना ब्रह्महत्या के समान है।

एतैर्व्रतैरपोहेत पाप स्तेयकृत द्विज ।

गुरुस्त्रीगमनीयं तु व्रतैरेमिरपानुदेत् ॥ १०२ ॥

(१०२) ब्राह्मण इन व्रतों को करके जोरी क पाप से छुटकारा पावे । यदि किसी ने गुरुपत्नी वा माता से रमण (रति भोग) किया हो तो ऐसे महापापी के हेतु पापे सिखा हुआ प्रायश्चित्त करना उचित है ।

गुरुतन्प्यमिमाभ्यैनस्तप्ते श्रय्यादयोमये ।

समीं ज्वलन्तीं स्वास्तिप्ये मृत्युना स विशुद्धयति ॥ १०३ ॥

(१०३) गुरुपत्नी वा माता से भोग करने वाला अपने पाप को कहकर तप्त जोहे की सभ्या पर सोने अथवा लोहे की स्त्री बनाकर अग्नि में उसे तप्त करके उसका गाढ़ासिगन करे (अर्थात् उससे निपट जावे) ।

स्वयं वा शिरनपूपखावुक्त्याधाय चाञ्जली ।

नैर्घर्तीं दिशमातिष्ठे दानिपातादग्निहोम ॥ १०४ ॥

(१०४) अपने अथवा शिरनपूपखावुक्त्याधाय (फोटा) सहित काटकर अपने हाथों की अङ्गुली में रखकर नीचतरय विधा (दक्षिण-पूर्व के कोण को चला जावे) जब तक कि मृत्यु न हो जाये ।

☞ यद्यपि मनुजी का प्रायश्चित्त विधान अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है परन्तु ऐसे पापों के निवारण करने के हेतु इसमें कोई उपाय ही नहीं है ।

खट्वाङ्गी चीरवासा वाशमश्रुलो विजने वने ।

प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रमब्दमेकं समाहित ॥ १०५ ॥

(१०५) अथवा खाट का एक अङ्ग हाथ में लिए हुए, वसन चीर धारण किये हुए, नख व केश चाल न कटाकर चिन्ता रहित होकर निर्जन वन में एक वर्ष पर्यन्त प्रजापत्य यज्ञ करे, यह प्रायश्चित्त अज्ञानता से अपनी स्त्री जानकर माना से भोग करने में जानना चाहिये ।

चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः ।

हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतन्पापनुत्तये ॥ १०६ ॥

(१०६) वा जितेन्द्रिय होकर वा जी की लपसी ग्राकर गुरुपत्नी से भोग करने के पाप को निवारण करने के हेतु तीन मास पर्यन्त चन्द्रायण व्रत करे ।

एतैर्व्रतैरपोहेयुर्महापातकिनो मलम् ।

उपपातकिनस्त्वेवमेभिर्तानाविधैर्व्रतैः ॥ १०७ ॥

(१०७) महापातकी लोग इन व्रतों में अपने पाप को निवारण करे और उपपातकी लोग निम्नाक्त व्रत द्वारा अपने पाप से मुक्ति लाभ करे ।

उपपातकसंयुक्तो गांध्रो मामं यवान्पित्रे ॥ १०८ ॥

कृतपापो वसेद्गांध्रं चर्मणा नैन संवृत ॥ १०९ ॥

(१०८) उपपातकी गुरु के व्रत करने वाले को गांध्र (चर्म) के व्रत करने से निवारण करे ।
(१०९) कृतपाप (चर्मणा) के व्रत करने वाले को चर्म (चमड़ा) के व्रत करने से निवारण करे ।

चतुर्थकाशमरनीया दशारक्षवख मितम् ।

गोमूत्रेणाशरेत्स्नान द्वी मासो नियतेन्द्रिय ॥१०६॥

(१०) एक दिन व्रत करके दूसरे दिन पहली बार मत्स्य भोजन करे । जो इस प्रकार सवपात्र त्याग व्रत करते हुए दो मास पर्यन्त गोमूत्र से स्नान करे ।

शिवानुगच्छेद्गतास्तास्तु तिष्ठन्पूर्वरेजं पिबेत् ।

शुभं प्रित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासन वसेत् ॥११०॥

(११) दिन में गऊ के पीछे चले सड़ा होकर गऊ के सुर से उड़ती हुई घून को पीके सेवा करता हुआ नमस्कार करके रात्रि में वीरासन से रहे ।

तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेषु व्रजन्तीष्वप्यनुव्रजत् ।

आसीनासु तथासीनो नियतो पीठमत्सर ॥ १११ ॥

(१११) गऊ लड़ी हो तो आप भी ईर्ष्या रहित होकर जितेन्द्रिय हो सड़ा रहे, गऊ चले तो आप भी उसके पीछे चले बैठे तो आप भी बैठे ।

आतुरामिशस्तां वा शीरव्याघ्रादिमिर्मभै ।

पतितां पङ्कसन्नां वा सर्षोपायैर्विमाचयेत् ॥ ११२ ॥

(११२) जो गऊ आतुर (रोगी) हो शीर शीर व व्याघ्रादि (सिंहादि) से भयभीत हो वा गिर पड़ी हो वा कीच में फस गई हो उसको सब प्रयत्नों द्वारा बचा सम्भव सामर्थ्य भर बुझावे ।

उष्णे वर्षति शीते वा मारुते पाति वा मृशम् ।

न कुर्वीतास्मनस्त्राख गोरकृत्वा तु शुकित ॥११३॥

(११३) गर्मी वर्षा जाड़ा मापी में यथाशक्ति गऊ को रखा किये बिना अपनी रक्षा न करे ।

आत्मनो यदि वान्धेपां गृह क्षेत्रेऽथवा खले ।

भक्षयन्ती न कथयेत्पिबन्तं चैव वत्सकम् ॥ ११४ ॥

(११४) अपने वा अन्य के गृह में वा खलिहान वा खेत में चरती हुई गऊ कां न कहे और बछड़े को दूध पिलाती हो तो भी न कहे ।

अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति ।

स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिर्मामैर्व्यपोहति ॥ ११५ ॥

(११५) गोवध (हत्या) करने वाला पुरुष इस विधि से गऊ के पीछे चले तो तीन मास में गोहत्या से मुक्त हो जाता है अर्थात् गोहत्या से छुटकारा पा जाता है ।

वृषभैकादशा गाश्च दद्यात्सुचरितव्रतः ।

अविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्भ्यो निवेदयेत् ॥ ११६ ॥

(११६) उत्तम विधि से व्रत करके एक बैल और दस गऊ देवे, यदि इतना न होसके तो वेदपाठी ब्राह्मण को सब धन देवे ।

एतदेव व्रतं कुर्युरुपपातकिनो द्विजः ।

अवकीर्णवर्ज्यशुद्ध्यर्थं चान्द्रायणमथापि वा ॥ ११७ ॥

(११७) अवकीर्ण व्रत जो आगे कहेगे उसको त्याग कर ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य उपपातक होने पर इसी व्रत को करे अथवा चान्द्रायण व्रत करे ।

अवकीर्णी तु कारणेन गर्भेन चतुष्पथे ।

पाकयज्ञविधानेन यजेतं निःशुक्तिं निशि ॥ ११८ ॥

(११८) चौक (चौराहे) में पवित्र यज्ञ की विधि से यज्ञ करके और काने गवे पर चढ़कर नैऋत्य कोण की ओर जावे और पूजा करे ।

चतुर्थकालमरनीया दक्षारत्नवश मितम् ।

गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं द्वौ मासो नियतेन्द्रिय ॥१०६॥

(१०६) एक दिन व्रत करके दूसरे दिन पहली बार अल्प भोजन करे । जो इस प्रकार सबपात्र त्याग व्रत करते हुए दो मास पर्यन्त गोमूत्र से स्नान करे ।

हिबानुगच्छेद्गुगास्तास्तु तिष्ठन्तृष्वरेजः पिबेत् ।

शुभ्र्मित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत् ॥११०॥

(११०) दिन में गऊ के पीछे चले सड़ा होकर बऊ के बुर से उड़ती हुई धूम को पीके सेवा करता हुआ नमस्कार करके रात्रि में वीरासन से रहे ।

तिष्ठन्तीष्वनुशिष्टेषु व्रजन्तीष्वप्यनुव्रजेत् ।

आसीनासु तथासीनो नियतो वीथमत्सरः ॥ १११ ॥

(१११) गऊ खड़ी हो तो घ्राप भी ईर्ष्या रहित होकर जितेन्द्रिय हो सड़ा रहे, गऊ चले तो घ्राप भी उसके पीछे चले, बैठे तो घ्राप भी बैठे ।

आतुराममिशस्तां वा चौरव्याघ्रादिमिर्मवैः ।

पतितां पङ्कसम्नां वा सर्षोपायैर्विमोचयेत् ॥ ११२ ॥

(११२) जो गऊ आतुर (रोमी) हो चौर बोर व व्याघ्रादि (सिंहादि) स भयभीत हो वा गिर पड़ी हो वा कीच में फस गई हो उसको सब प्रयत्नों द्वारा मया सम्भव सामर्थ्य भर छुड़ावे ।

उष्णे वर्षति शीते वा भारुते पाति वा सृशम् ।

न कुर्वीतात्मनश्चासं गोरकृत्वा तु शक्तिः ॥११३॥

(११३) गर्मी वर्षा जाड़ा धानी में यथावच्छि गऊ क्षी रता किये बिना मपनी रता न करे ।

विचर्या ।

२४ ॥

३३३

एक कर्म

२ ।

॥ १२५ ॥

॥ १२५ ॥

॥ १२५ ॥

॥ १२५ ॥

॥ १२५ ॥

॥ मे से किसी
चान्द्रायण व्रत
कर्म को स्वेच्छा

है ।

॥ १२५ ॥

मृतः ।

इति विद्विसे

हो जाता है

। डशः ॥ १२६ ॥

जो ब्रह्महत्या के हेतु
या करने में करे और
। और शूद्र की हत्या

१२६ ॥

द्विजोत्तमः ।

॥ १२७ ॥

ए अनिच्छा से व अज्ञानता मे

तक के प्रायश्चित्त केवल पाप

त करने और पाप से दुःख भोगने के

पाप से घृणा हो ।

। को शका होगी कि प्रत्येक प्रायश्चित्त मे

। लिखा है इसे ब्राह्मणों ने सम्मनित

जातिव्रंशकरं कर्म कृत्वान्यतममिच्छया ।

चरेत्सांतपनं क्रच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छया ॥ १२४ ॥

(१२४) +जातिच्युत करने वाले कर्मों से किसी एक कर्म को स्वेच्छा से करे तो सान्तपन नामी कृच्छ्र व्रत को करे ।

संकरापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैन्दवम् ।

मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकैस्त्र्यहम् ॥ १२५ ॥

(१२५) सकरीकरण और अपात्रीकरण कर्मों में से किसी एक कर्म को स्वेच्छा से करने में एक मास पर्यन्त चान्द्रायण व्रत करे, और मलिनीकरण कर्मों में से किसी एक कर्म को स्वेच्छा पूर्वक करने में तीन दिन यवागू का भोजन करे ।

तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधः स्मृतः ।

वैश्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे शूद्रे ज्ञेयस्तु षोडशः ॥ १२६ ॥

(१२६) उपरोक्त प्रायश्चित्त का जो ब्रह्महत्या के हेतु बतलाया है, उसका चतुर्थांश क्षत्रिय की हत्या करने में करे और वैश्य के वध करने की दशा में आठवां भाग और शूद्र की हत्या करने की दशा में सोलहवां भाग जानना ।

अक्रामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः ।

वृषभैरुसहस्राणा दद्यात्सुचरितव्रतः ॥ १२७ ॥

(१२७) ❀ जब कोई ब्राह्मण अनिच्छा से व अज्ञानता से

+ श्लोक १२२ से १२४ तक के प्रायश्चित्त केवल पाप करके अनादर से दिन व्यतीत करने और पाप से दुःख भोगने के अर्थ हैं जिसेसे सरो को पाप से घृणा हो ।

❀ कतिपय मनुष्यों को शंका होगी कि प्रत्येक प्रायश्चित्त में ब्राह्मण को भी दान देना लिखा है इसे ब्राह्मणों ने सम्मिलित

हुत्वाग्नौ विधिवद्दीमानन्ततश्च समेत्यु चा ।

घातन्द्रगुरुवह्नीनां जुहुयात्सर्पिषाहुती ॥ ११६ ॥

(११६) अग्नि में यथाविधि समासिञ्चन्तु मास्रत् इस

मन्त्र से वायु, इन्द्र गुरु व अग्नि में हुवन करे ।

कामता रंतम सक्र व्रतस्यस्य द्विव्रमन ।

अतिक्रम व्रतस्याहुर्ममज्ञा ब्रह्मवादिनां ॥ ११७ ॥

(११७) यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य तीनों वर्णों व्रत की

वशा में स्वेच्छा से भीष पतन करे तो उसका व्रत क्षणित हो गया इस पर धर्मज्ञाता लोग एकमत हैं ।

मारुत पुरुहुत च गुरु पावकमेव च ।

चतुर्ग व्रतिनाऽभ्येति मास्र तेजोऽवकीरितः ॥ ११८ ॥

(११८) ब्रह्मचर्य की धरस्या में भीषपतन करने वाले

का व्रक्षनेत्र वायु पुरुहुत गुरु व अग्नि के समीप चला जाता है अर्थात् इनमें से तीन (मिस) हो जाता है और उससे धूषक ही जाता है ।

एतस्मिन्ननमि प्राप्ते घसिवा गदमाञ्चिनम् ।

मत्तागाराञ्चरञ्च स्वकर्म परिकीर्तयन् ॥ ११९ ॥

() इस पाप में शत्रु हान्ते हेतु गन्धे का घमडा चारम्

न म त घरा म माग कर ल ये और अपनी कर्म करता रहे ।

तेभ्यः लक्ष्येन भस्त्राय वसपन्नककालिकम् ।

उपस्यगन्धिपत्रस्य स्वन्दन स विष्टुदुष्पति ॥ १२० ॥

(१२०) उस भिक्षा को एक बार भोजन करता हुआ व

पान लाकर मास्रकाल में स्नान करता हुआ जीवन ध्यतीत

जातिभ्रंशकरं कर्म कृत्वान्यतममिच्छया ।

चरेत्सांतपनं क्रच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छया ॥ १२४ ॥

(१२४) +जातिच्युत करने वाले कर्मों से किसी एक कर्म को स्वेच्छा से करे तो सान्तपन नामी कृच्छ्र व्रत को करे ।

संकरापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैन्दवम् ।

मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्वावकैस्त्र्यहम् ॥ १२५ ॥

(१२५) सकरीकरण और अपात्रीकरण कर्मों में से किसी एक कर्म को स्वेच्छा से करने में एक मास पर्यन्त चान्द्रायण व्रत करे और मलिनीकरण कर्मों में से किसी एक कर्म को स्वेच्छा पूर्वक करने में तीन दिन यवागू का भोजन करे ।

तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधः स्मृतः ।

वैश्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे शूद्रे ज्ञेयस्तु षोडशः ॥ १२६ ॥

(१२६) उपरोक्त प्रायश्चित्त को जो ब्रह्महत्या के हेतु वतलाया है, उसका चतुर्थांश क्षत्रिय की हत्या करने में करे और वैश्य के वध करने की दशा में आठवा भाग और शूद्र की हत्या करने की दशा में सोलहवा भाग जानना ।

अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः ।

वृषभैरुसहस्राणा दद्यात्सुचरितव्रतः ॥ १२७ ॥

(१२७) ❀ जब कोई ब्राह्मण अनिच्छा से व अज्ञानता से

+ श्लोक १२२ से १२४ तक के प्रायश्चित्त केवल पाप करके अनादर से दिन व्यतीत करने और पाप से दुःख भोगने के अर्थ हैं जिससे सरो को पाप से घृणा हो ।

❀ कतिपय मनुष्यों को शंका होगी कि प्रत्येक प्रायश्चित्त में ब्राह्मण को भी दान देना लिखा है इसे ब्राह्मणों ने सम्मिलित

किसी क्षत्रिय का बध कर डाले तो एक सहस्र गाय और एक बैल प्रायश्चित्तार्थ बूसरे ब्राह्मण को दे ।

अथर्द्ध चरेद्वा नियतो जटी ब्राह्मणो व्रतम् ।

वसन्द्दूरतरे ग्रामावृष्वपमृत्तनिकेतनः ॥ १२८ ॥

(१२८) प्रथवा मथाविधि सिर पर जटा रखाये गाँव से बाहर प्रति दूर किसी वृक्ष की अड़ में निवास कर तीन वर्ष पर्यन्त ब्रह्महत्या वाले प्रायश्चित्त को करे ।

एतदेव चरेद्द्व्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमम् ।

प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्यं दद्याच्चैकशतं गवाम् ॥ १२९ ॥

(१२९) ब्राह्मण वश्य की हत्या करके एक वर्ष पर्यन्त ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त में व्यतीत करता हुआ व्रत करे प्रथवा एक सौ गऊ दान करे ।

एतदेव व्रतं कस्त्वं पयमासान् शूद्रहा चरेत् ।

वृषमैकादशा वापि दद्याद्विप्राय गां विता ॥ १३० ॥

(१३०) ब्राह्मण शूद्र के बध करने में छ मास पर्यन्त ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त को करे और छैत बैल और पस मऊ ब्राह्मण को देवे । यह भी प्रजापता से बध करने में जानना इन सब व्रतों के करने में कपास ध्यजा को त्याग देना चाहिये ।

मात्राग्निहोत्रा हर्या चार्थं मयङ्कम्बव च ।

श्वगाघालुक्कौरव शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥ १३१ ॥

(१३१) बिम्बी मेवला मोसकंठ में एक कुत्ता गोह उल्फू कोया इनमें से किसी एक की हिंसा करके शूद्र हत्या का प्रायश्चित्त करने अर्थात् उनकी हिंसा शूद्र की हत्या के समान समझे ।

बिया है परन्तु शूद्रा जिमू से है क्योंकि प्रत्येक रोग की औषधि मुस द्वारा प्राप्त है ।

पयः पित्रेत्त्रिरात्रं वा योजनं वाध्वनो व्रजेत् ।

उपस्पृशेत्स्रवन्त्यां वा सूक्त वाब्देवतं जपेत् ॥ १३२ ॥

(१३२) अथवा तीन रात्रि दूध पीवे और यदि अशक्त हो तो तीन रात्रि पर्यन्त चार कोस चले, यह भी न हो सके तो तीन रात्रि नदी मे स्नान करे, यह भी न हो सके तो 'आपोहिष्ठा' नाम वाले सूक्त का जप कर यह प्रायश्चित्त अज्ञानता से वध करने का है ।

अग्निं काष्णयिषी दद्यात्सर्पं हत्वा द्विजोत्तमः ।

पलालभारकं षण्ढे सैमकं चैकमाषकम् ॥ १३३ ॥

(१३३) साँप को मारे तो लोहे का दण्ड जिसकी वस्तु उत्तम हो ब्राह्मण को देवे और नपु सक्र की हत्या करे तो एक बोझ पलाल को और एक माशा सीसा इन दोनो को देवे ।

धृतकुम्भं वराहे तु तिलद्रोणं तु तित्तिरौ ।

शुके द्विहायनं वत्सं क्रौञ्चं हत्वा त्रिहायनम् ॥ १३४ ॥

(१३४) × सुअर की हिंसा करने मे एक घी का घडा और तीतर के वध करने मे एक द्रोण तिल और सुआ की हिंसा करने मे दो वर्ष का बछडा ।

हत्वा हंसं बलाकां च वक्रं वर्हिणमेव च ।

वानरं श्येनभामौ च स्पर्शयेद्ब्राह्मणाय गाम् ॥ १३५ ॥

(१३५) हंस, बलाका, बगुला, मोर, वन्दर, श्येन (बाज)

× कतिपय सज्जन इन प्रायश्चित्तो पर तर्क करना प्रारम्भ करेंगे परन्तु नियम व उपनियम हैं जो राजा के वस मे होते हैं उनमे तर्क से काम नही चलता । बुद्धि सम्बन्धी तर्क केवल तत्व-ज्ञान तथा धर्म के सम्बन्ध मे लाभदायक होता है ।

किसी क्षमिय वा वध कर डाले तो एक सहस्र गाय और एक बैल प्रायश्चित्तार्थ दूसरे ब्राह्मण का दे ।

अप्यर्द्धं चरेद्वा नियतो बटी ब्राह्मणो व्रतम् ।

वसन्दूरतरे ग्रामावृषपुत्रनिवृत्तन ॥ १२८ ॥

(१२८) अथवा यथाविधि सिर पर बटा रखाये गांव से बाहर प्रति घूर किसी बृण की जड़ में निवास कर तीन वर्ष पर्यन्त ब्राह्मणहत्या वाले प्रायश्चित्त को करे ।

एतदेव चरेद्वर्द्धं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तम ।

प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्यं दद्यान्वैश्वशत गवाम् ॥ १२९ ॥

(१२९) ब्राह्मण वैश्य की हत्या करके एक वर्ष पर्यन्त ब्राह्मणहत्या के प्रायश्चित्त में व्यतीत करता हुआ व्रत करे अथवा एक सौ गऊ दान करे ।

एतदेव व्रतं कर्त्स्नं परमासान् शूद्रहा चरेत् ।

वृषभैकादशा वापि दद्याद्विप्राय गां मिता ॥ १३० ॥

(१३०) ब्राह्मण शूद्र के बध करने में स्र मास पर्यन्त ब्राह्मणहत्या के प्रायश्चित्त को करे और छेत्त बैल और बस गऊ ब्राह्मण को देवे । यह भी अज्ञानता से बध करने में जामना इन सब व्रतों के करने से कपास धन्या को त्याग देना चाहिये ।

माञ्जीरिनङ्गुली हत्या चाप मवडकमेव च ।

रवगोबोलूङ्गारव शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥ १३१ ॥

(१३१) बिस्मी मेवसा मोलकठ मँठक कुत्ता गोह, उस्तू, कीमा इनमे से किसी एक की हिंसा करके शूद्र हत्या का प्रायश्चित्त करे अर्थात् उनकी हिंसा शूद्र की हत्या के समान समझे ।

किया है परन्तु शूद्रा निर्मूस है क्योंकि प्रत्येक रोग की प्रीवधि मुक्त द्वारा साते है ।

पयः पिवेत्रिरात्रं वा योजनं वाध्वनो व्रजेत् ।

उपस्पृशेत्स्रवन्त्यां वा सूक्त वाब्देवतं जपेत् ॥ १३२ ॥

(१३२) अथवा तीन रात्रि दूध पीवे और यदि अशक्त हो तो तीन रात्रि पर्यन्त चार कोस चले, यह भी न हो सके तो तीन रात्रि नदी मे स्नान करे, यह भी न हो सके तो 'आपोहिष्ठा' नाम वाले सूक्त का जप कर यह प्रायश्चित्त अज्ञानता से वध करने का है ।

अग्निं काष्णायिषी दद्यात्सर्पं हत्वा द्विजोत्तमः ।

पलालभारकं षण्ढे सैमकं चैकमाषकम् ॥ १३३ ॥

(१३३) सर्प को मारे तो लोहे का ढण्ड जिसकी वस्तु उत्तम हो ब्राह्मण को देवे और नपु सक की हत्या करे तो एक बोझ पलाल को और एक माशा सीसा इन दोनों को देवे ।

धृतकुम्भं वराहे तु तिलद्रोणं तु तित्तिरौ ।

शुके द्विहायनं वत्सं क्रौञ्चं हत्वा त्रिहायनम् ॥ १३४ ॥

(१३४) × सुअर की हिंसा करने मे एक घी का घडा और तीतर के वध करने मे एक द्रोण तिल और सुग्रा की हिंसा करने मे दो वर्ष का बछडा ।

हत्वा हंसं वलाकां च वक्रं वर्हिणमेव च ।

वानरं श्येनभामौ च स्पर्शयेद्ब्राह्मणाय गाम् ॥ १३५ ॥

(१३५) हंस, वलाका, वगुला, मोर, वन्दर, श्येन (बाज)

× कतिपय सज्जन इन प्रायश्चित्तो पर तर्क करना प्रारम्भ करेंगे परन्तु नियम व उपनियम हैं जो राजा के वस मे होते हैं उनमे तर्क से काम नही चलता । बुद्धि सम्बन्धी तर्क केवल तत्व-ज्ञान तथा धर्म के सम्बन्ध मे लाभदायक होता है ।

भास इन सब में से किसी एक का बध करने पर ब्राह्मण को गऊ देवे ।

वासो दद्याद्द्वय हस्ता पञ्च नीलान्बुयागत्रम् ।

अभ्रमेपाषनह्वाहं खरं इत्वैरुहायनम् ॥ १३६ ॥

(१३६) थोडा बध करके वस्त्र देवे हाथी की हिंसा करके पाच बैल ब्राह्मण को देवे । बकरा भेड़ इनमें से किसी की हत्या करके एक बैल देवे गधे का बध करके एक बर्ष का बछड़ा देवे ।

कन्यादास्तु मृगान्दत्त्वा घेनु तद्याप्यस्विनीम् ।

अक्रुष्यादान्वत्सवरीमुष्ट इत्वातु कृष्णस्रम् ॥ १३७ ॥

(१३७) गीदह आदि कर्ष्ये मांस भंसो पशुधो का बध करके दुग्ध देती हुई पऊ देवे और हिरण आदि कन्या मांस न लामे बामे पशुधो की हिंसा करके यक्षिया देवे और उट की हत्या करके एक रत्नी सोना देवे ।

स्त्रीनकासु कश्चास्तीन्पृथग्दद्याद्विशुद्धये ।

चतुशामपि बर्षानां नारीर्हस्वानवस्थिता ॥ १३८ ॥

(१३८) १—ब्राह्मण २—जामिय ३—वैश्य ४—सूत्र चारों वर्गों को व्यक्तिवाश्रिणी स्त्री की हत्या से यथाक्रम १—बकरा भेडा २—बनुप चर्म पट को देवे ।

दानं यधनिर्णोकं सर्पाक्षीनामशकनुबन् ।

एकैरुशरचरत्कच्छु द्विभ्रः पापापनुत्तये ॥ १३९ ॥

(१३९) दान द्वारा सब पापों के निवारण करने में असमर्थ हो तो द्विभ्रमा एक-एक से बध करने में एक-एक दुग्ध दत्त करे ।

अस्थिमत्तां तु सन्धानां सहस्रस्य प्रमापणे ।

पूर्णे चानस्पनस्थनां तु शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥१४०॥

(१४०) हड्डी रखने वाले सहस्र जीवधारी और गाड़ीभर बिना हड्डी वाले जीवधारियों की हिंसा करने में शूद्र हत्या का प्रायश्चित्त करे ।

क्रिञ्चिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे ।

अनस्थनां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥१४१॥

(१४१) हाड वाले प्राणी के हिंसा करने में ब्राह्मण को कुछ देवे और वे हड्डीवाले प्राणियों की हत्या करने में प्राणायामकरे ।

फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृकशतम् ।

गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां चवीरुधाम् ॥१४२॥

(१४२) फल देने वाला वृक्ष अर्थात् आम आदि गुल्म वल्ली अर्थात् गुर्चलता व पुष्पित खड़ा इनमें से एक एक के तोड़ने और उखाड़ने में गायत्री आदि ऋचा सौ बार जाप करे ।

अन्नाद्यजानां सन्धानां रसजानां च सर्वशः ।

फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम् ॥ १४३ ॥

(१४३) प्रत्येक प्रकार के अन्न, गुड़ आदि रस व फल व फूल, इन सब में से उत्पन्न हुए जीवों की हत्या करने में घृत नामो व्रत से शुद्ध होता है ।

कृष्णजानामोषधीनां जातानां च स्वयं वने ।

वृथालम्बेऽनुगच्छेद्गां दिनमेकं पयोव्रतः ॥ १४४ ॥

(१४४) गेहूँ आदि अन्न जो जोतने से उत्पन्न होता है और ओषधिया जो वन में स्वयमेव उत्पन्न होती है उनको निष्प्रयोजन उखाड़ने में एक दिन दूध पीकर रहे और गऊ के पीछे चले ।

भाम इत सब मे से किसी एक का वध करने पर ब्राह्मण को गऊ देवे ।

वासो दद्याद्दय हत्वा पञ्च नीक्षान्पान्गवम् ।

अजमेपावनइवाह स्वरं हत्वैरुहायनम् ॥ १३६ ॥

(१३६) घोड़ा वध करके बस्त्र देवे हाथी की हिंसा करके पाँच बैल ब्राह्मण को देवे । बकरा भेड़ इनमें से किसी की हत्या करके एक बैल देवे गधे का वध करके एक वर्ष का वस्त्र देवे ।

ऋष्यादांस्तु मृगान्इत्वा घेतु दद्यात्पयस्विनीम् ।

अऋष्यादान्मत्तरीमुष्ट हत्वातु कृष्णालम् ॥ १३७ ॥

(१३७) गीदड घाति कच्छे मांस भक्षी पशुओं का वध करके दुग्ध देती हुई गऊ देवे घोर हिरण घाति कच्छा मांस न खाने वाले पशुओं की हिंसा करके बधिया देवे घोर ऋषी की हत्या करके एक रत्नी मोमा देवे ।

जीनकामुर्कषस्तावीन्युपगदघातिशुद्धये ।

धनुष्णामपि चर्षानां नारीर्हत्वा नमस्थिता ॥ १३८ ॥

(१३८) १—ब्राह्मण २—अग्निव ३—बैधय ४—सूत्र चारों बर्गा ५—अभिमारिणी स्त्री की हत्या में यथाक्रम १—बकरा भेड़ २—वनुप चर्म पट को देवे ।

दानन धधनिर्षोर्कं सर्पादीनामशक्तुवन् ।

एर्कुरुशरघरेत्कृष्ण द्विजः पापापनुत्तये ॥ १३९ ॥

(१३९) दान द्वारा सभ पापों के निवारण करने में धर्ममय हो तो द्विजन्मा एक-एक के वध करने में एक-एक कृष्ण दान करे ।

अस्थिमत्तां तु सत्त्वानां सहस्रस्य प्रमापणे ।

पूर्णे चानस्पनस्थनां तु शुद्धहत्याव्रतं चरेत् ॥१४०॥

(१४०) हड्डी रखने वाले सहस्र जीवधारी श्रीर गाडीभर

विना हड्डी वाले जीवधारियों की हिंसा करने में शुद्ध हत्या का प्रायश्चित्त करे ।

किञ्चिदेव तु त्रिप्राय दद्यादस्थिमत्तां वधे ।

अनस्थनां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥१४१॥

(१४१) हाड वाले प्राणी के हिंसा करने में ब्राह्मण को कुछ देवे और वे हड्डीवाले प्राणियों की हत्या करने में प्राणायामकरे ।

फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृकशतम् ।

गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां त्वीरूधाम् ॥१४२॥

(१४२) फल देने वाला वृक्ष अर्थात् आम आदि गुल्म वल्ली अर्थात् गुर्चलता व पुष्पित खड्डा इनमें से एक एक के तोड़ने और उखाड़ने में गायत्री आदि ऋचा सौ बार जाप करे ।

अन्नाद्यजानां सत्त्वानां रसजानां च सर्वशः ।

फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम् ॥ १४३ ॥

(१४३) प्रत्येक प्रकार के अन्न, गुड़ आदि रस व फल व फूल, इन सब में से उत्पन्न हुए जीवों की हत्या करने में घृत नामो व्रत से शुद्ध होता है ।

कृष्टाजानामोषधीनां जातानां च स्वयं वने ।

वृथालम्भेऽनुगच्छेद्गां दिनमेकं पयोव्रतः ॥ १४४ ॥

(१४४) गेहूँ आदि अन्न जो जोतने से उत्पन्न होता है और औषधिया जो वन में स्वयमेव उत्पन्न होती है उनको निष्प्रयोजन उखाड़ने में एक दिन दूध पीकर रहे और गऊ के पीछे चले ।

अस्थिमत्तां तु सन्धानां सहस्रस्य प्रमापणे ।

पूर्णे चानस्यनस्थनां तु शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥१४०॥

(१४०) हड्डी रखने वाले सहस्र जीवधारी और गाड़ीभर बिना हड्डी वाले जीवधारियों की हिंसा करने में शूद्र हत्या का प्रायश्चित्त करे ।

किञ्चिद्देव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे ।

अनस्थनां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥१४१॥

(१४१) हाड वाले प्राणी के हिंसा करने में ब्राह्मण को कुछ देवे और वे हड्डीवाले प्राणियों की हत्या करने में प्राणायामकरे ।

फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम् ।

गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां न्ववीरुधाम् ॥१४२॥

(१४२) फल देने वाला वृक्ष अर्थात् आम आदि गुल्म वल्ली अर्थात् गुर्चलता व पुष्पित खडा इनमें से एक एक के तोड़ने और उखाड़ने में गायत्री आदि ऋचा सौ बार जाप करे ।

अन्नाद्यजानां सन्धानां रसजानां च सर्वशः ।

फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम् ॥-१४३ ॥

(१४३) प्रत्येक प्रकार के अन्न, गुड आदि रस व फल व फूल, इन सब में से उत्पन्न हुए जीवों की हत्या करने में घृत नामो व्रत से शुद्ध होता है ।

कृष्टाजानामोपधीनां जातानां च स्वयं वने ।

वृथालम्भेऽनुगच्छेद्गां दिनमेकं पयोव्रतः ॥ १४४ ॥

(१४४) गेहूँ आदि अन्न जो जोतने से उत्पन्न होता है और औपधिया जो वन में स्वयमेव उत्पन्न होती है उनको निष्प्रयोजन उखाड़ने में एक दिन दूध पीकर रहे और गऊ के पीछे चले ।

मास इन सब में से किसी एक का वध करने पर ब्राह्मण को मऊ देवे ।

यासा दद्यादय हस्वा पञ्च नीलान्बुपागत्रम् ।

अञ्जमपावनञ्वाह खरं हत्वैरुद्घायनम् ॥ १३६ ॥

(१३६) मोड़ा वध करके बस्त्र देवे हाथी को हिंसा करने पाश्चैत्य ब्राह्मण को देवे । खररा भेड़ इनमें से किसी की हत्या करके एक बैल देवे गधे का वध करके एक बघ का सङ्घा देवे ।

ऋष्यादास्तु मृगान्दत्त्वा घेनु दद्यात्पयस्विनीम् ।

अकम्पादान्बत्सतरीसुष्टु इत्याहु कृष्णलम् ॥ १३७ ॥

(१३७) गीन्ड आदि कम्बे मांस भसी पशुओं का वध करके दुग्ध देती हुई मऊ देवे और हिरण आदि कम्बे मांस न माने माने पशुओं की हिंसा करके सधिया देवे और ऊँची हत्या करके एक रती मोमा देवे ।

मीनक्रामु क्वबस्तापीन्पृथग्दद्याद्विशुद्धये ।

चतुसामपि पणानां नारीर्दत्त्वा न बस्थिता ॥ १३८ ॥

(१३८) १—प्रायण २—शानिव ३—बैश्य ४—पूज चारों बालों का अग्निवागिनी स्त्री की हत्या में यथाक्रम १—खररा भेड़ २—पशुप धर्म पट को देवे ।

दानन सपानिर्णेक गयीनीनामशकनुषन् ।

एककशरगाम्कृष्ण द्वित्र पापापनुत्तये ॥ १३९ ॥

(१३९) दान दान सब पापों के निवारण का यथाक्रम १) १) द्वित्र मा एक-एक के वध करने में एक-एक

अस्थिमत्तां तु सन्धानां सहस्रस्य प्रमापणे ।

पूर्णे चानस्यनस्थनां तु शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥१४०॥

(१४०) हड्डी रखने वाले सहस्र जीववारी और गाड़ीभर बिना हड्डी वाले जीवधारियों की हिंसा करने में शूद्र हत्या का प्रायश्चित्त करे ।

किञ्चिद्देव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे ।

अनस्थनां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥१४१॥

(१४१) हाड वाले प्राणी के हिंसा करने में ब्राह्मण को कुछ देवे और वे हड्डीवाले प्राणियों की हत्या करने में प्राणायामकरे ।

फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम् ।

गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां चवीरुधाम् ॥१४२॥

(१४२) फल देने वाला वृक्ष अर्थात् आम आदि गुल्म वल्ली अर्थात् गुर्चलता व पुष्पित खड़ा इनमें से एक एक के तोड़ने और उखाड़ने में गायत्री आदि ऋचा सौ बार जाप करे ।

अन्नाद्यजानां सन्धानां रसजानां च सर्वशः ।

फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम् ॥ १४३ ॥

(१४३) प्रत्येक प्रकार के अन्न, गुड़ आदि रस व फल व फूल, इन सब में से उत्पन्न हुए जीवों की हत्या करने में घृत नामो व्रत से शुद्ध होता है ।

कृष्टाजानामोपधीनां जातानां च स्वयं वने ।

वृथालम्भेऽनुगच्छेद्गां दिनमेकं पयोव्रतः ॥ १४४ ॥

(१४४) गेहूँ आदि अन्न जो जोतने से उत्पन्न होता है और औषधिया जो वन में स्वयमेव उत्पन्न होती है उनको निष्प्रयोजन उखाड़ने में एक दिन दूध पीकर रहे और गऊ के पीछे चले ।

अस्थिमत्तां तु सन्धानां सहस्रस्य प्रमापणे ।

पूर्णे चानस्थनस्थनां तु शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥१४०॥

(१४०) हड्डी रखने वाले सहस्र जीववारी और गाड़ीभर विना हड्डी वाले जीवधारियों की हिंसा करने में शूद्र हत्या का प्रायश्चित्त करे ।

किञ्चिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे ।

अनस्थनां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥१४१॥

(१४१) हाड वाले प्राणी के हिंसा करने में ब्राह्मण को कुछ देवे और वे हड्डीवाले प्राणियों की हत्या करने में प्राणायामकरे ।

फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम् ।

गुल्मवल्गुलीलतानां च पुष्पितानां चवीरुधाम् ॥१४२॥

(१४२) फल देने वाला वृक्ष अर्थात् आम आदि गुल्म वल्गुली अर्थात् गुर्चलता व पुष्पित खड़ा इनमें से एक-एक के तोड़ने और उखाड़ने में गायत्री आदि ऋचा सौ बार जाप करे ।

अन्नाद्यजानां सत्त्वानां रसजानां च सर्वशः ।

फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम् ॥१४३॥

(१४३) प्रत्येक प्रकार के अन्न, गुड़ आदि रस व फल व फूल, इन सब में से उत्पन्न हुए जीवों की हत्या करने में घृत नामो व्रत से शुद्ध होता है ।

कृष्टाजानामोषधीनां जातानां च स्वयं वने ।

वृथालम्भेऽनुगच्छेद्गां दिनमेकं पयोव्रतः ॥१४४॥

(१४४) गेहूँ आदि अन्न जो जोतने से उत्पन्न होता है और ओषधियाँ जो वन में स्वयंमेव उत्पन्न होती हैं, उनकी निष्प्रयोजन छत्ताटने में एक दिन दूध पीकर रहे और गेहूँ के नीचे

एतैर्ब्रह्मैरपोष स्यादेनो हिंसासमुद्भवम् ।

ज्ञानाज्ञानकृत कृस्न भृशुतानापमद्यत् ॥ १४५ ॥

(१४५) ज्ञान में ब्रह्मज्ञान में प्राणियों की हिंसा को इस पाप को इन व्रतों के द्वारा निवृत्त करने चाहिये और ब्रह्मज्ञान भक्षण करने में प्रायश्चित्त कहते हैं ।

अज्ञाद्वास्वीं पीत्वा सस्कारेणैव शुक्ल्यति ।

मतिपूर्वमनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ १४६ ॥

(१४६) अज्ञानता से गोड़ी ब्रह्मजी नाम सुरापान करे तो दूसरे स्कार से पवित्र होता है और जान कर पीने तो प्राणान्त से पवित्र होता है यह शास्त्राज्ञा है ।

अथ सुराभाजनस्या मद्यमद्युत्स्यतास्तथा ।

पञ्चरात्र पिबेत्पीत्वा शङ्खपुष्पीभितः पयः ॥ १४७ ॥

(१४७) पेड़ी तथा मद्य नाम सुरापान में रक्ता हुमा पानी पीने में शङ्खपुष्पी नाम शीघ्रि सप्ता ब्रह्म के साथ पांच रात्रि तक पीने ।

मृद्धा दत्त्वा च मदिरां विधिवत्प्रतिशुद्धा च ।

शुद्धाच्छिष्टारश्च पीत्वापः कुशवारि पिबेत्स्यहम् ॥ १४८ ॥

(१४८) सुरा को छुकर देकर-सेकर और शुद्ध के उच्छिष्ट (जूटे) मद्य को पीकर कुश से पके हुए जस को तीन दिन पर्यन्त पीने ।

प्राणशान्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः ।

प्राणनाप्सु त्रिगयस्य घृतं प्राश्य विशुद्ध्यति ॥ १४९ ॥

(१४९) सोम नाम यज्ञ करने वाला ब्राह्मण यदि सुरापान

ले की गन्ध को मूधे तो जल में तीन प्राणायाम करके घी का भोजन करने से शुद्ध होता है ।

अज्ञानात्प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च ।

पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ १५० ॥

(१५०) ❀ जो वस्तु मूत्र, विष्टा और सुरा से छू गई हो उनमें से किसी एक को अज्ञानता से भोजन करे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों पुनः संस्कार के योग्य होते हैं ।

वपनं मेखलादण्डौ भैक्षचर्याग्रतानि च ।

निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कार कर्मणि ॥ १५१ ॥

(१५१) दूसरे संस्कार में मुण्डन व मेखला व दण्ड व भिक्षा, ब्रह्मचर्य आदि नहीं होने चाहिये ।

अमोज्यानां तु भुक्तवान्नं स्त्रीशूद्रोच्छिष्टमेव च ।

जग्ध्वायांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्पिबेत् ॥ १५२ ॥

(१५२) जिनका अन्न खाना उचित नहीं, उसका अन्न व शूद्र और स्त्री का उच्छिष्ट अन्न तथा मास जो सर्वथा अभक्ष्य है, इनमें से किसी एक को भोजन करने में जी के सत्त्वात् सात दिन तक पीवे ।

शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वा मेघ्यानपि द्विजः ।

तावद्भवत्यप्रयतो यावत्तन्नं व्रजत्यधः ॥ १५३ ॥

❀ १५० वें श्लोक में सुरा से छुई हुई वस्तु के भक्षण करने में दूसरा संस्कार करना बतलाया है । जो लोग मास और मदिरा को निर्दोष बतलाते हैं वह ध्यान दें कि वह क्षेपक के हैं या नहीं ।

(१२३) + शुक और कषाय वस्तु यदि पवित्र हो ता भी उसको तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक कि वह पचते नहीं हैं ।

विद्वराहस्वरोप्राणा गोमायो ऋषिकाक्या ।

प्रारय मूत्रपुरोपाणि द्विवरचान्द्रायस्य चरेत् ॥१५४॥

(१२४) गाँव का सुघर गदहा ऊँ कौबा सियार, इनका मूत्र व विषा भोजन करने में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चान्द्रायण व्रत करें ।

शुष्काणि मुक्त्वा मांसानि भौमांनि ऋक्काणि च ।

अध्वान्तं चैव सुनात्समेतदेव व्रत चरेत् ॥ १५५ ॥

(१२५) सूखा मांस और भूमि से उत्पन्न कुकुर मुत्ता आदि और जब ज्ञान न हो कि भक्षण योग्य है वा नहीं उसको खाकर उपरोक्त व्रत करे ।

ऋष्यादसकरोप्राणां कुक्कुटानां च भक्ष्ये ।

नरकाकस्वराणां च तसकृद् विशोधनम् ॥ १५६ ॥

(१२६) ऋष्या मांस भक्षण करने वाले सिंह आदि गाँव का सुघर, ऊट मुर्गी मनुष्य कौबा गदहा इनमें से एक के मांस भक्षण करने से पतित कुक्कु व्रत करे ।

मासिकान्तं तु योऽरनीयादसमावर्तको द्विवः ।

सत्रीययहान्युपवसेदेकाहं षोडशे वसत् ॥ १५७ ॥

(१२७) जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आठका अन्न अर्घान् बूढ़ और ऋषि की सेवार्थ रक्खा हुआ अन्न स्वयं भक्षण करे, वह एक मास पर्यन्त अस में रहे ।

+ शुक उसको कहते हैं जो स्वयमेव मीठा हो और अधिक दिवस व्यतीत हो जाने के कारण वा पानी में रहने के कारण बूढ़ हो जाये ।

ब्रह्मचारी तु योऽश्नीयान्मधु मांसं कथञ्चन ।

स कृत्वा प्राकृतं कृच्छ्रं व्रतशेषं समापयेत् ॥ १५८ ॥

(१५८) - वैदिक धर्म के अनुसार चलने वाला ब्रह्मचारी अज्ञानता से सुरापान मधु वा मांस भक्षण करे तो प्राजापत्य कुछ व्रत को करे और शेष व्रतों को भी प्रायश्चित्त में बतलाते हैं ।

विडालकाकाखुच्छिष्टं जग्ध्वाश्वानकुलस्य च ।

केशकीटावपन्नं च पिवेद्ब्रह्मसुवर्चलाम् ॥ १५९ ॥

(१५९) विडाल, कीआ, मूसा, कुत्ता, नेवला, इनमें से किसी एक से मिश्रित वस्तु को भोजन करने में सुवर्चला नाम औषधि से उष्ण किये हुए जल को पीवे ।

अभोज्यमन्नं नातच्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता ।

अज्ञानभुक्तं तून्नार्थं शोध्यं वाऽप्याशु शोधनैः ॥ १६० ॥

(१६०) अपने को शुद्ध रखने का इच्छुक मनुष्य अभक्ष्य भोजन भक्षण न करे और अज्ञानता से भोजन किया हो तो वमन (कै) करे । यह भी न हो सके तो शीघ्र प्रायश्चित्त करके अपनी आत्मा को शुद्ध करे ।

एषोऽनाद्यादनस्योक्तो व्रतानां विविधो विधिः ।

स्तेयदोषापहर्तृणां व्रतानां श्रूयतां विधिः ॥ १६१ ॥

(१६१) अभक्ष्य पदार्थ के भोजन करने में यह प्रायश्चित्त कहा । अब चोरी के पाप के प्रायश्चित्त को कहते हैं ।

+ मनुजी ने प्रत्येक कथन पर मास, मदिरा, चोरी, झूठ आदि को पाप बतलाया है और वहां भी ब्रह्मचारी अर्थात् वेदानुसार कर्म करने वाले सो मास मदिरा का निषेध और प्रायश्चित्त बतलाया है ।

धान्याभवनधीर्याशि कृत्वा कामाद्द्विजोचम ।

स्वजास्तीपगृहादेव कृच्छ्राब्देन विशुद्ध्यति ॥१६२॥

(१६२) ब्राह्मण ब्राह्मण के घर से अभिष्ठा से प्रसन्न होकर क्षुद्रि के घर एक वर्ष पर्यन्त कुछ ब्रत को करे परन्तु देव धन और वस्तु का परिणाम देव वक्षा स्वामी की दक्षा प्रादि को देखकर अधिक भी जानना, इसी प्रकार जो अभिष्य में कहेने उनमें भी जानना ।

मनुष्याणां तुहरेणं स्त्रीणां चेश्रगृहस्य च ।

कूपवापी जस्तानां च शुद्धिरचान्त्रापण स्मृतम् ॥१६३॥

(१६३) + मनुष्य ब्राह्मण वा स्त्री के घरहरण में और घर से छेद बाबली कुर्मा प्रादि को छान से छीनने की वशा में चन्द्रायण ब्रत करे ।

द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेर्यं कृत्वान्यवेरमतः ।

चरेस्तां पतं कृच्छ्रं तन्निर्पात्यात्मशुद्धये ॥ १६४ ॥

(१६४) अल्प मूल्य और लोभे घर्य की वस्तु पुराने में साक्षपन कृच्छ्र ब्रत करे और योगी क्रिया हुआ पदार्थ उसके स्वामी को देवे यह बात सब चोरी के प्रायश्चित्त में जानना ।

मक्षमोक्षपापहरणो यानशय्यासनस्य च ।

पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोचनम् ॥ १६५ ॥

(१६५) चबेना प्रादि मात सबारी शय्या घासन फूल मूल फल इनमें से किसी एक के पुराने में पञ्चगव्य को पीने प्रर्वात् मऊ का दूध भी गोबर मूत्र और दही पीने ।

+ कुर्मा बाबली और छेद प्रादि के पुराने से तात्पर्य उनको ब्रतान् उपहरण करने से है ।

तृणकाष्ठद्रुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च ।

चैलचर्माभिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम् ॥ १६६ ॥

(१६६) तृण, कण, सूखा वृक्ष, अन्न, गुड, वस्त्र, चमडा, भास, इममे से किसी एक के चुराने मे तीन दिन पर्यन्त व्रत (उपवास) करना चाहिये ।

मणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च ।

अयःक्रोस्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नता ॥ १६७ ॥

(१६७) मणि, मुक्ता, मूगा, तावा, लोहा, रूपार, चादी, कान, पत्थर, इनमे मे किसी एक के चुराने मे बारह दिन पर्यन्त चावल के कणो को खाकर निर्वाह करे ।

कार्यासक्रीटजीर्णानां द्विशफैकशफस्य च ।

पक्षिगन्धौषधीनां च रज्ज्वाश्चेव त्र्यहं पयः ॥ १६८ ॥

(१६८) कपास, रेशम तथा ऊन से बने वस्त्र, एक खुर वाले पशु, पक्षी, सुगन्धि (इत्र), औषधि, इनमे से किसी एक के चुराने मे तीन दिन पर्यन्त दूध पीवे (यहा सब वस्तु चुराने मे) एकरूप प्रायश्चित्त कहा । इसी प्रकार चोरी मे जहां पर एकरूप प्रायश्चित्त है वहा पर जानना चाहिये ।

एतैर्व्रतैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः ।

अगम्यागमनीयं तु व्रतैरेभिरपानुदेत् ॥ १६९ ॥

(१६९) इन व्रतो के द्वारा चोरी के पाप से मुक्त होवे और जो स्त्री भोग करने के योग्य नही है उससे रमण (भोग) करने मे जो पाप है उसको निम्नोक्त व्रत द्वारा दूर करे ।

गुरुतल्पव्रतं कुर्याद्रेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु ।

सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ॥ १७० ॥

धान्यान्नवनधौर्यासि कृत्वा कामावृद्धिञ्चोचम ।

स्वजातीयगृहादेश कृञ्छ्राब्देन विशुवृष्यति ॥१६२॥

(१६२) ग्राह्यण ग्राह्यण के घर से प्रतिच्छा से भ्रम पुरा कर क्षुद्रि के घरमें एक वर्ष पयन्त कुछ व्रत को करे परन्तु वेश भन और वस्तु का परिणाम देश वशा स्वामी की वशा भादि को देखकर अधिक भी जानना इसी प्रकार जो भविष्य में कहेंगे उनमें भी जानना ।

मनुष्याशां तुहरेषां स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च ।

कृपवापी जलानां च शुद्धिश्चान्द्रापवा स्मृतम् ॥१६३॥

(१६३) + मनुष्य बालक वा स्त्री के अपहरण में और घर से छेठ बाबली कुर्मा भादि को छल से छीनने की वशा में चन्द्रायण व्रत करे ।

द्रव्यायामभ्यसारायां स्तेर्यं कृत्वान्यवेरमत ।

थरस्तां पन कृञ्छ्र तभिर्यात्प्रास्मशुद्धये ॥ १६४ ॥

(१६४) भस्व मृत्यु और छोड़े घरमें की वस्तु पुराने में सान्त्वने श्रद्ध व्रत करे और जोरी किया हुआ पदार्थ उसके स्वामी को देवे यह बात सब जोरी के प्रायश्चित्त में जानना ।

मक्षयमान्पापहरण्ये यानशय्यासनस्य च ।

पुष्पमूलफलानां च पञ्चगम्यं विप्रोचनम् ॥ १६५ ॥

(१६५) बडेना भादि भात सबारी दाय्या घासन पूष मूल पत्र इनमें से किमी एक के पुराने में पञ्चगम्य को पीवे पर्यात् गऊ वा दूध पी गोबर मूत्र और दही पीवे ।

+ कुर्मा बाबली और छेठ भादि के पुराने से ताराय्य उनको बनाव् पाटण करने से है ।

तृणकाष्ठद्रुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च ।

चैलचर्मामिपाणां च त्रिरात्रं स्याद्भोजनम् ॥ १६६ ॥

(१६६) तृण, कण, सूखा वृक्ष, अन्न, गुड, वस्त्र, चमडा, मास, इसमे से किसी एक के चुराने में तीन दिन पर्यन्त व्रत (उपवास) करना चाहिये ।

मणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च ।

अयःकांस्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नता ॥१६७॥

(१६७) मणि, मुक्ता, मू गा, तावा,लोहा, रूपार, चादी, कान, पत्थर, इनमे से किसी एक के चुराने में बारह दिन पर्यन्त चावल के कणों को खाकर निर्वाह करे ।

कार्यासक्रीटजीर्णानां द्विशफैकशफस्य च ।

पक्षिगन्धौषधीनां च रज्ज्वाश्चेव त्र्यहं पयः ॥१६८॥

(१६८) कपास, रेशम तथा ऊन से बने वस्त्र, एक खुर वाले पशु, पक्षी, सुगन्धि (इत्र), औषधि, इनमे से किसी एक के चुराने में तीन दिन-पर्यन्त दूध पीवे (यहा सब वस्तु चुराने में) एकरूप प्रायश्चित्त कहा । इसी प्रकार चोरी में जहा पर एकरूप प्रायश्चित्त है वहा पर जानना चाहिये ।

एतैर्व्रतैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः ।

अगम्यागमनीयं तु व्रतैरेभिरपानुदेत् ॥ १६९ ॥

(१६९) इन व्रतों के द्वारा चोरी के पाप से मुक्त होवे और जो स्त्री भोग करने के योग्य नहीं है उससे रमण (भोग) करने में जो पाप है उसको निम्नोक्त व्रत द्वारा दूर करे ।

गुरुतल्पव्रतं कुर्याद्रितः सिक्त्वा स्वयोनिषु ।

सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ।१७०॥

(१७०) प्रत्येक सम्बन्धी मित्र और पुत्र की स्त्री कुबारी और चाण्डाली इनमें से किसी एक से प्रज्ञानता से रति करने में उस प्रायश्चित्त को करे जो गुरुपत्नी से भोग करने में होता है ।

पैतृष्यसेयो भगिनी स्वस्त्रीया मातुरेष च ।

मातुरथ भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥१७१॥

(१७१) कर्मोसी की पुत्री फूकी की पुत्री मामा की पुत्री अपनी भगिनी है इनमें से किसी १ के साथ भोग करने में चान्द्रायण व्रत करे परन्तु यह प्रज्ञानता बड़ा एक बार दूसरे पुरुष से रमण करे तब जानना क्योंकि प्रायश्चित्त बड़ा है इससे कहते हैं ।

एतस्मिन्नस्तु भार्यार्षे नोपपन्ध्रेषु बुद्धिमान् ।

ज्ञातित्वेनानुपेयास्ता पतितं ह्युपयन्मथ ॥ १७२ ॥

(१७२) बुद्धिमान् पुरुष इन तीनों के साथ विवाह न करे क्योंकि यह सम्बन्धी होने से रमण करने योग्य नहीं है उनसे रति करने में नरक में जाता है ।

अमानुषीषु पुरुष उदकपापामयानिषु ।

रतं सिक्न्वा वसे चैव कच्छ सातपन चरेत् ॥१७३॥

(१७३) मनुष्य के प्रतिरिक्त किसी और प्राणी से भोग करने का सम्बन्ध स्त्री से भोग करने का उस में भीर्य टासने में सम्पादन कृष्य व्रत जो प्रायश्चित्तार्थ पारण करे ।

मयून तु समासप्य पु मि योपित वा द्विज ।

गायानप्सु दिवा चैव मबामा स्नानमाचरेत् ॥१७४॥

* १७ ब और १७१ ब अर्थात् म जो प्रायश्चित्त बड़ा है वह प्रज्ञानता से रति करने की स्था म बड़ा है ।

(१७४) + ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यदि गाडी में चढ़ कर वा जल में घुस कर व दिन के समय स्त्री से भोग करे तो वस्त्रो सहित स्नान करे ।

चाण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च ।

पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥१७५॥

(१७५) ब्राह्मण अज्ञानता से चाण्डाली और अन्त्यज (म्लेच्छ) की स्त्री से दान लेकर पतित होता है और जान कर भोग करने में चाण्डाल व म्लेच्छ हो जाता है ।

विप्रदुष्टां स्त्रियं भर्ता निरुन्ध्यादेकवेशमनि ।

यत्पुंसः परदारेषु तच्चैनां चारयेद्ब्रतम् ॥१७६॥

(१७६) जिस स्त्री ने पर पुरुष में चित्त लगाया और उसे पति एक घर में अवरुद्ध (बन्द) करके रखे और जो ब्रत पुरुष को परस्त्री रमण में कहा है वह ब्रत स्त्री को करावे ।

सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्तु सदृशेनोपयन्त्रिता ।

कृच्छ्रं चान्द्रायणे चैव तदस्याः पावनं स्मृतम् ।१७७॥

(१७७) जो स्त्री अपने स्वजाति पुरुषसे एक वार भोग करके अपराधी हुई और उसका प्रायश्चित्त करके फिर अपने स्वजाति पुरुषसे रमणकरे तो वह स्त्री प्राजापत्य तथा चान्द्रायण ब्रतकरे ।

यत्करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनाद्द्विजः ।

तद्भैक्ष्यभुञ्जपन्नित्यं त्रिभिर्वर्षैर्व्यपोहति ॥ १७८ ॥

+ १०४ वें श्लोक में लोडेंवाजी और दिनके भोग को एक समान बतलाने से यह श्लोक सम्मिलित किया हुआ प्रतीत होता है क्योंकि लोडेंवाजी के समान दूसरा कोई पाप नहीं उसको दिन के भोग के तुल्य बतलाना मनुजी ऐसे ऋषि का काम नहीं ।

(१७०) प्रत्येक सम्बन्धी मित्र और पुत्र की स्त्री कुबारी और चाण्डाली इनमें से किसी एक से अज्ञानता से रति करने में उस प्रायश्चित्त को करे जो गुरुपत्नी से भोग करने में होता है ।

पैतृव्यसेयो मगिनी स्वस्त्रीया मातुरेष च ।

मातुरेष भ्रातृस्तनया गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥१७१॥

(१७१) कुमारी की पुत्री कृती की पुत्री मामा की पुत्री भपनी मगिनी है इनमें से किसी १ के साथ भोग करने में चान्द्रायण व्रत करे परन्तु यह अज्ञानता बस एक बार दूसरे पुरुष से रमण करे तब जानना क्योंकि प्रायश्चित्त योडाहै इससे कहत है ।

एतास्तिवस्तु भार्यार्षे नोपपच्छेषु बुद्धिमान् ।

ज्ञातित्वेनानुपेयास्ता पतितं सुपयमभं ॥ १७२ ॥

(१७२) बुद्धिमान् पुरुष इन तीनों के साथ विवाह न करे क्योंकि यह सम्बन्धी होने से रमण करने योग्य नहीं है उनसे रति करने में नरक में जाता है ।

अमानुषीषु पुरुष उदकपायामयानिषु ।

रतं सिक्त्वा जले चैव कद्गु सांतपनं चरेत् ॥१७३॥

(१७३) मनुष्य के प्रतिरिक्त किसी और प्राणी से भोग करने का रजस्वला स्त्री से भोग करने का जल में वीर्य डालने में सांतापन व्रत को प्रायश्चित्तार्थ आरग्य करें ।

मैथुनं तु समासप्य पुंनि योपित वा द्विज ।

गायानप्सु दिवा चैव मयामा म्नानमाचरेत् ॥१७४॥

क १७० में और १७१ में श्लोक में जो प्रायश्चित्त कहा है वह अज्ञानता से रति करने की दशा में कहा है ।

(१७४) + ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यदि गाडी में चढ़ कर वा जल में घुस कर व दिन के समय स्त्री से भोग करे तो वस्त्रों सहित स्नान करे ।

चाण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च ।

पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥१७५॥

(१७५) ब्राह्मण अज्ञानता से चाण्डाली और अन्त्यज (स्लेच्छ) की स्त्री से दान लेकर पतित होता है और जान कर भोग करने में चाण्डाल व स्लेच्छ हो जाता है ।

विप्रदुष्टां स्त्रियं भर्ता निरुन्ध्यादेकवेश्मनि ।

यत्पुंसः परदारेषु तच्चैनां चारयेद्ब्रतम् ॥१७६॥

(१७६) जिस स्त्री ने पर पुरुष में चित्त लगाया और उसे पति एक घर में अवरुद्ध (बन्द) करके रखे और जो व्रत पुरुष को परस्त्री रमण में कहा है वह व्रत स्त्री को करावे ।

सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्तु मद्देशेनोपयन्त्रिता ।

कृच्छ्रं चान्द्रायणं चैव तदस्याः पावनं स्मृतम् ॥१७७॥

(१७७) जो स्त्री अपने स्वजाति पुरुषसे एक बार भोग करके अपराधी हुई और उसका प्रायश्चित्त करके फिर अपने स्वजाति पुरुषसे रमणकरे तो वह स्त्री प्राजापत्य तथा चान्द्रायण व्रतकरे ।

यत्करोत्येकरात्रेण

तद्मैत्र्यभुजपत्नित्यं त्रिभिर्वर्षैर्विद्विष्यति ॥ १७८ ॥

+ १०४ वैश्विक में लोडेंवा... दिनके भोग को एक... प्रजापत्य व्रत... उन्ध्यां दिन... का काम नहीं ।
समान वतनाने से परःशोक मन्त्रि... का काम नहीं ।
है क्योंकि लोडेंवा... समान... का काम नहीं ।
के भोग के तुल्य लगाना मन्त्रि...

(१७८) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यदि दूबों की स्त्री से एक रात रमण करके जो पाप करते हैं तो उसकी निवृत्तिके प्रतिप्राय से तीन वर्ष पर्यन्त भिक्षावात से निर्वाह करते हुए अप करता चाहिये क्योंकि इससे धर्म की बड़ी हानि करते हैं ।

एपापापकृताशुका चतुष्थामपि निष्कृति ।

पतित संप्रयुक्तानामिमा मृणुत निष्कृतिः ॥१७९॥

(१७९) चारों वर्ग के पाप का यह प्रायश्चित्त कहा धर्म पतितों में ससर्ग व व्यवहार करने के प्रायश्चित्त को सुनी ।

संबन्धरेण पतति पतितेन सहाचरन् ।

याजिनाप्यापनाघोनाश्च तु यानासनाशनात् ॥१८०॥

(१८०) पतित लोगों के साथ जो कोई एक पर्यन्त एक सवारी व एक घासन पर बैठे वा एक सग भोजन करे तो उसी के तुल्य होता है और पतितता को यज्ञ कराके वा जनेऊ कराके सावित्री (गायत्री) सुभावे वा विवाहादि सम्बन्ध करे तो शीघ्र उसी तुल्य होता है ।

या यन पतितेनैषां ममर्गं याति मानव ।

स तस्यैव व्रतं कुर्यात्तन्ममर्गं विशुद्ध्य ॥ १८१ ॥

(१८१) जैसे हीपी से व्यवहार किया जाये वैसा ही प्रायश्चित्त करने में उसमें पृथ होता है धर्मात् पापों से व्यवहार से स्वयं पापी हो जाता है ।

पतितस्योदकं कार्यं सपिबर्हैर्वाघपैर्बहिः ।

निन्दिन्तेऽहनि सायाह आन्यन्विग्मुग्धभिषी ॥१८२॥

(१८२) * पतित मनुष्य यदि घण्टा सम्बन्धी हो वा घण्टे

* पतितस्य प्रतिप्राय यत्र १ । ३ वा वर्गां रमयमे स पृषक हो

कुल का ही, उसको गुरु और यज्ञ कराने वाले ऋत्विज के सम्मुख सन्ध्या समय निन्द्य दिन में जल देवे ।

दामी घटमपां पूर्णं पर्यस्येत्प्रत्वत्पदा ।

अहोरात्रमुपासीरन्नशौच बान्धवैः सह ॥ १८३ ॥

(१८३) दासी जल पूरित घट को दक्षिण दिशा को मुख करके खड़े होकर पाव से लूढका दे और सपिण्डी जन बान्धवों सहित एक दिन अशौच करे ।

निवर्तेरंश्च तस्मात्तु संभाषणसहासने ।

दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चैव हि लौकिकी ॥ १८४ ॥

(१८४) पतित मनुष्य से सम्भाषण करना तथा एक आसन पर बैठना व उसको पैतृक धन का भाग देना व सांसारिक व्यवहार करना अनुचित है ।

ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावाप्यं च यद्भनम् ।

ज्येष्ठांशं प्राप्नुयाच्चास्य यवीयान्गुणतोऽधिकः ॥ १८५ ॥

(१८५) ❀ यदि अनुज (छोटा भाई) ज्येष्ठ भ्रातासे अधिक गुणावान् तथा शीलवान् हो तो वह ज्येष्ठ भ्राता के भागको पावे ।

प्रायश्चित्ते तु चरिते पूर्णकुम्भमयां नवम् ।

तेनैव सोधं प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८६ ॥

(१८६) जब पतित का प्रायश्चित्त किया जावे अर्थात् ईसाई व मुसलमान बने हुए को शुद्ध किया जावे तो कुटुम्बी

गया हो जैसे कोई ईसाई व मुसलमान, जैनी, बुद्ध, पारसी आदि होजावे तो वैदिक सस्कारों से पृथक होजाने से पतित हो जाता है ।

❀ १८५ वें श्लोक का यहा कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है ऐसा ज्ञात होता है कि यह भूल से यहा पर लिखा गया है ।

सोगी को चाहिये कि उसको शुद्ध जल से स्नान कराकर जल के षडे को उसके साथ व्यवहार में लावे ।

स त्वप्सु स षट् प्रास्य प्रथिरय भवर्नस्वकम् ।

सर्वाणि प्रातिक्रियाणि यथापूर्वं समाचरेत् ॥ १८७ ॥

(१८७) और वह पतित उस षड के जल को डाल कर अपने घर में जला जाके और अपने बर्ण के सब कर्मों को पूरा करने का विधि करे ।

एतदेव विधिं कुर्याद्यापित्सु पतितास्वपि ।

यस्मान्न पानं देयं तु वसेयुरथ गृहान्तिके ॥ १८८ ॥

(१८८) पतित स्त्री के लिये भी यही नियम है और पतित स्त्री को घर के सामने सिबास स्थान और भस्म जल व वस्त्र देना चाहिये ।

एनस्वमिरनिश्चितैर्नार्थं किञ्चित्सुहाचरेत् ।

कृतनिर्घोषनार्थैव न शृणुष्येत कर्हिषित् ॥ १८९ ॥

(१८९) प्रायश्चित्त क्रिये बिना पापियों के साथ किसी प्रकार का बर्ताव न करे और जब प्रायश्चित्त करें तब उनकी निन्दा वा उनसे बृणा भी न करे ।

बालघ्नार्थं कृतघ्नार्थं विशुद्धानपि घर्मतः ।

शास्त्रागतहन्तृ ऽथ स्त्रीहन्तृ ऽथ न सवसेत् ॥ १९० ॥

(१९०) बालहत्या करने वाला कृतघ्न शरणागत को हनन करने वाला तथा स्त्री को मारने वालो के साथ प्रायश्चित्त होने पर भी व्यवहार न करे ।

यथां डिजानां मावित्री नानुष्येत यथाविधि ।

तांश्चागित्वा श्रीकृष्णान्यथाविष्युपनायकेत् ॥ १९१ ॥

(१६१) जिस वाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य का वेदारम्भ संस्कार अनियमित विधि से हुआ है, उसको तीन कृच्छ्र व्रत करा के यथाविधि फिर जनेऊ करावे ।

प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः ।

ब्राह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत् ॥ १६२ ॥

(१६२) प्रतिकूल कर्म अर्थात् शूद्रकी सेवा करने वाला और वेद पाठन करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रायश्चित्त करना चाहें तो उनको भी तीन कृच्छ्र व्रत का उपदेश करना चाहिये ।

यद्गृहितेनार्चयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् ।

तश्योत्सर्गेण शुद्ध्यन्ति जप्येन तपसैव च ॥ १६३ ॥

(१६३) जो ब्राह्मण घृणित कर्मों द्वारा जो धन सचय करते हैं वह उस धन का परित्याग करके गायत्री का जप करने और तप करने से शुद्ध होते हैं ।

जपित्वा त्रीणि साधित्र्याः सहस्राणि समाहितः ।

मामं गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यतेऽमत्प्रतिग्रहात् ॥ १६४ ॥

(१६४) ब्राह्मण निश्चिन्त होकर एक मास पर्वन्त सदा तीन सहस्र गायत्री का जप करता हुआ गोशाला में निवास कर केवल दूध पान करने से निकृष्ट धन का दान ग्रहण करने के पाप से छुटकारा पाता है ।

उपवासकृशं तं तु गोव्रजात्पुनरागतम् ।

प्रणतं प्रति प्रच्छंयुः साम्यं सौम्येच्छमीतिकिम् ॥ १६५ ॥

(१६५) व्रतधारी व गोशाला से कृशाङ्ग हुए ब्राह्मण से सज्जन पुरुष पूछें कि हे ब्राह्मण ! क्या हम सबके समान होने की इच्छा करते हो ?

सोर्गों को चाहिये कि उसको शुद्ध जल से स्नान कराकर उस के घड़े को उसके साथ व्यवहार में लावें ।

स स्वप्सु त घट प्रास्य प्रभिरय भवनस्वकम् ।

सर्वाधि ध्यातिक्षार्याधि यथापूर्वं समाचरेत् ॥ १८७ ॥

(१८७) और वह पतित उस घट के जल को डाल कर अपने घर में चला जावे और अपने घर्तों के सब कमों को पूज्यत् यथाविधि करे ।

एतदेव विधिं कुर्याद्योपित्सु पतितास्वपि ।

घस्त्राभ पानं देय तु घसेपुरष गृहान्तिके ॥ १८८ ॥

(१८८) पतित स्त्री के लिये भी यही नियम है और पतित स्त्री को घर के सामने निबास स्नान और घस्र जल व घस्र देना चाहिये ।

एतस्मिन्नितिषिक्तैर्मार्यं किञ्चित्सुहाचरेत् ।

कृतनिष्पेक्षानांश्चैव न जुगुप्सेत कर्हिचित् ॥ १८९ ॥

(१८९) प्रायश्चित्त किये बिना पापियों के साथ किसी प्रकार का बर्ताव न करे और जब प्रायश्चित्त करें तब उनकी मित्रता वा उनसे घृणा भी न करे ।

मासपुनोश्च कृतपुनोश्च विशुद्धानपि घर्मतः ।

श्राद्धागतइन्त् श्च स्त्रीइन्त्श्च न मघसेत् ॥ १९० ॥

(१९०) मासहत्या करने वाला कृतपुन परलगायत को हतन करने वाला तथा स्त्री को मारने वालों के साथ प्रायश्चित्त होने पर भी व्यवहार न करे ।

यथा द्विजानां मावित्री नानुद्देत् यथाविधि ।

सांभारपित्वा श्री कृच्छ्रा यथाविष्णुपनापयत् ॥ १९१ ॥

(१६१) जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का वेदारम्भ संस्कार अनियमित विधि से हुआ है, उसको तीन कृच्छ्र व्रत करा के यथाविधि फिर जनेऊ करावे ।

प्रायश्चित्तं विकीर्षन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः ।

ब्राह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत् ॥ १६२ ॥

(१६२) प्रतिकूल कर्म अर्थात् शुद्धकी सेवा करने वाला और वेद पाठन करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रायश्चित्त करना चाहे तो उनको भी तीन कृच्छ्र व्रत का उपदेश करना चाहिये ।

यद्गर्हितेनार्चयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् ।

तश्योत्सर्गेण शुद्ध्यन्ति जप्येन तपसैव च ॥ १६३ ॥

(१६३) जो ब्राह्मण घृणित कर्मों द्वारा जो धन सचय करते हैं वह उस धन का परित्याग करके गायत्री का जप करने और तप करने से शुद्ध होते हैं ।

जपित्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहितः ।

मामं गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यतेऽमत्प्रतिग्रहात् ॥ १६४ ॥

(१६४) ब्राह्मण निश्चिन्त होकर एक मास पर्यन्त सदा तीन सहस्र गायत्री का जप करता हुआ गोशाला में निवास कर केवल दूध पान करने से निकृष्ट धन का दान ग्रहण करने के पाप से छुटकारा पाता है ।

उपवासकृशं तं तु गोव्रजात्पुनरागतम् ।

प्रणतं प्रति प्रच्छेद्युः साम्यं सौम्येच्छमीतिक्रियम् ॥ १६५ ॥

(१६५) व्रतधारी व गोशाला से कृशाङ्ग हुए ब्राह्मण से सज्जन पुरुष पूछें कि हे ब्राह्मण ! क्या हम सबके समान होने की इच्छा करते हो ?

सो गो को चाहिये कि उसको छुड़ उस से स्नान कराकर उस के घड़े को उसके साथ व्यवहार में लायें ।

स स्वप्नु स घट प्रास्य प्रविश्य भवर्नस्वप्नु ।

सर्षाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्वं समाचरेत् ॥ १८७ ॥

(१८७) और वह पति उस घड़ के उस को डाल कर अपने घर में चला जाये और अपने बाण के सब कर्मों को पूर्ववत् यथाविधि करे ।

एतदेव विधिं कुर्याद्योपित्सु पतितास्वपि ।

षस्त्राभ पानं देय तु वसेयुरथ गृहान्तिके ॥ १८८ ॥

(१८८) पतिता स्त्री के लिये भी यही नियम है और पतिता स्त्री को घर के सामने निवास स्थान और घस्र उस के वस्त्र देना चाहिये ।

एनस्वामिरनिस्त्रिष्वैर्नार्यं किञ्चित्सुहाचरत् ।

कृतनिर्घोषनाश्चैव न जुगुप्सेत कर्हिचित् ॥ १८९ ॥

(१८९) प्रायश्चित्त किये बिना पापियों के साथ किसी प्रकार का बर्ताव न करे और जब प्रायश्चित्त करे तब उनकी निन्दा वा समसे घृणा भी न करे ।

पालशनाश्च कृतशनाश्च विशुद्धानपि धर्मतः ।

शाखागतद्वन्द्वं च श्रीद्वन्द्वं च न भवेत् ॥ १९० ॥

(१९०) बालहर्या करने वाला इतल्ल शरणागत को हनन करने वाला तथा स्त्री को मारने वाली के साथ प्रायश्चित्त होने पर भी व्यवहार न करे ।

सर्षा द्विजानां गावित्री नानूच्येत यथाविधि ।

सांभ्याश्चित्वा श्रीद्वन्द्वान्यथाविष्णुपनाययत् ॥ १९१ ॥

(१६१) जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का वेदारम्भ संस्कार अनियमित विधि से हुआ है, उसको तीन कृच्छ्र व्रत करा के यथाविधि फिर जनेऊ करावे ।

प्रायश्चित्तं विकीर्षन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः ।

ब्राह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत् ॥ १६२ ॥

(१६२) प्रतिकूल कर्म अर्थात् शुद्धकी सेवा करने वाला और वेद पाठन करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रायश्चित्त करना चाहे तो उनको भी तीन कृच्छ्र व्रत का उपदेश करना चाहिये ।

यद्गर्हितेनार्चयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् ।

तश्योत्सर्गेण शुद्ध्यन्ति जप्येन तपसैव च ॥ १६३ ॥

(१६३) जो ब्राह्मण घृणित कर्मों द्वारा जो धन सचय करते हैं वह उस धन का परित्याग करके गायत्री का जप करने और तप करने से शुद्ध होते हैं ।

जपित्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहितः ।

मासं गोष्ठे पयः पीत्वा मृच्यतेऽमत्प्रतिग्रहात् ॥ १६४ ॥

(१६४) ब्राह्मण निश्चिन्त होकर एक मास पर्यन्त सदा तीन सहस्र गायत्री का जप करता हुआ गोशाला में निवास कर केवल दूध पान करने से निकृष्ट धन का दान ग्रहण करने के पाप से छुटकारा पाता है ।

उपवासकृशं तं तु गोव्रजात्पुनरागतम् ।

प्रणतं प्रति प्रच्छेद्युः साम्यं सौम्येच्छमीतिक्रिम् ॥ १६५ ॥

(१६५) व्रतधारी व गोशाला से कृशाङ्ग हुए ब्राह्मण से सज्जन पुरुष पूछें कि हे ब्राह्मण ! क्या हम सबके समान होने की इच्छा करते हो ?

सत्यमुक्त्वा तु विप्रेषु विकिरेष्वस गवाम् ।

गोमिः प्रवर्तिते धीर्ये कृपुस्तस्य परिग्रहम् ॥ १६६ ॥

(१६६) तब वह ब्राह्मण कहे कि भविष्य मे ब्राह्मण धन दान को ग्रहण न करके सत्य कहते हैं ऐसा कहकर गऊ के भाज मार्ग पास के उसकी दी हुई धास को गऊ भोजन करे तब सज्जन लोग उसको परिग्रहण करें ।

ब्राह्मणानां याजनं कृत्वा परंपामन्त्यकर्म च ।

अभिषारमहीन च त्रिमिः कृच्छ्रैर्ष्यपोहति ॥ १६७ ॥

(१६७) यदि × ब्राह्मण लोगों को यज्ञ कराने और पिता व मुँह का पीव छोड़ कर जिनका बाह्य करना अनुचित है उसको करके अभिषार अर्थात् मग्न बिद्या द्वारा किसी को मारने प्रणवा पागल करने का प्रयत्न करके जब तक तीन कृच्छ्र ब्रत न करे तब तक सुख नहीं होता ।

शरणागतं पारस्वन्य वेद् विप्राभ्य च द्विभ्रा ।

सम्बन्धरे यथाहारस्तत्पापमपसेवति ॥ १६८ ॥

(१६८) जो मनुष्य शरणागतको सहायता देकर उसको पृथक कर देता है वा ऐसे मनुष्य को जिसके गुणहीन होने से वह पदमे वा कृष्ण अधिकारी नहीं है बेव पडाता है वह इस पापके प्रायश्चित्त में एक बय पर्यन्त जो वा भोजन करे ।

× धार्य उनको कहते हैं कि जिसके सम्भार समय पर न हुए हो अधिकार उत्पन्न संस्कार और बदारम्भ सम्भार प्रसम पर होने से पतिन साभिप्रो वा धार्य हो जाता है ।

• वदपाठमे अर्चित पृथ्य यह है कि जिनको व्याकरणार्थि पाठना वा म न न हो अथवा जो बुराचारी हों ।

श्वश्रुगालखरैर्दृष्टो ग्राम्यैः क्रव्याद्भिरेव च ।

नराश्वोऽप्यवराहैश्च प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥ १६६ ॥

(१६६) कुत्ता, सियार, मनुष्य, घोडा, सूअर, गाव के रहने वाले बिलार आदि इनमे से किसी एक से काटा हुआ मनुष्य प्राणायाम से शुद्ध होता है ।

पष्ठान्नकालता मासं संहिताजप एव वा ।

दौमाश्च सकृन्ना नित्यमपाङ्कयाना विशोधनम् ॥२००॥

(२००) जो ब्राह्मण मास भक्षी तथा जो ब्राह्मणो की सङ्गत मे रहने के योग्य नहीं, दोनो पापी एक मास पर्यन्त दो दिन उपवास करके तीसरे दिन सन्ध्या को भोजन करे और वेद पाठ करे इससे शुद्ध होते हैं ।

उपूपानं समारुह्य खरधानं तु कामतः ।

स्नात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥२०१॥

(२०१) ऊटगाडी व गदहेवाली गाडी मे चढकर अथवा नग्न स्नान करके जब तक प्राणायाम न करे तबतक शुद्ध नहीं होता ।

विनाद्भिरप्सु वाप्यार्तः शरीरं सन्निवेश्य च ।

सचैलौ वहिराप्लुन्य गामालभ्य विशुद्ध्यति ॥२०२॥

(२०२) दुखी पुरुष पानी, बिना विष्टा व मूत्र करे व जल ही मे मूत्र वा विष्टा त्यागे तो गाव से बाहर जाकर नदी आदि मे वस्त्रो सहित स्नान करके गऊ को छूकर शुद्ध होता है ।

वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे ।

स्नातक्रव्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम् ॥ २०३ ॥

(२०३) वेदोक्त निजकर्म मे और ब्रह्मचर्य व्रत के भङ्ग हो जाने में एक दिन उपवास करे ।

हृक्कारं प्राणस्यस्योक्त्वा स्वकारं च गरीयसम् ।

स्नात्वाऽनरनभहं शोषमभिरथ प्रसादयेत् ॥ २०४ ॥

(२४) ब्राह्मण को हूँ ऐसा कहकर और वृद्ध सार्यों को तुम ऐसा कहकर स्नान करे और उनको प्रसन्न करके प्राणायाम करके एक दिन उपवास करना चाहिये ।

साठयित्वा वृद्धेनापि कबठे वाचन्य घाससा ।

विवादे वा विनिश्चित्य प्रक्षिपत्य प्रसादयेत् ॥ २०५ ॥

(२०५) यदि ब्राह्मण को तृण से भी भय होता हो वा विवाद में जीता हुआ ऐसी वसा में पसे में आवास डाल कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहिये ।

अतर्गूर्यं त्वन्द्वार्थं सहस्रमभिहस्य च ।

त्रिर्घासया प्राणस्यस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ २०६ ॥

(२०६) + ब्राह्मण के बध को शस्त्र उठाये पर बध न करे तो भी ती बर्य पर्यन्त नरक में रहता है ।

शोषितं यावतः पाँचन्सगृह्णाति महीतले ।

तावन्तपद्मसहस्राणि तस्कर्या नरके वसेत् ॥ २०७ ॥

(२०७) ब्राह्मण बध से उसका रक्तपात होकर पृथिवी व जितने बरणो को मिगोता है उतने ही सहस्र वर्ष तक हृत्पारा नरक में रहता है ।

अबर्गूर्यं चरेत्कच्छ्रमतिकृञ्च निपातने ।

कच्छ्रातिकृञ्चां कुर्वीत विप्रस्योत्पाप शोषितम् ॥ २०८ ॥

+ शस्त्र उठाये परन्तु बध न करे तो यह पाप मन से हो चुका है अतएव इसकी मुक्ति बगनी चाहिये ।

(२०८) ब्राह्मण के वधार्थं शस्त्र उठाकर कृच्छ्र व्रतको करे और वध करने में अतिकृच्छ्र, व्रत को करे तथा रक्तपात करने में कृच्छ्र और अनिकृच्छ्र व्रतों को करे ।

अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये ।

शक्तिं चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥२०६॥

(२०६) जिस पाप का प्रायश्चित्त न लिखा गया हो उस पाप को निष्कृत करने के हेतु पापी की सामर्थ्य व दशा तथा पाप के छोटे-बड़े होने का विचार करके उसका प्रायश्चित्त नियत करना चाहिये ।

यैरभ्युपायैरेनांसि मानवो व्यपकर्षति ।

तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देवर्षिपितृसेवितान् ॥२१०॥

(२१०) विद्वान् ऋषि और पितरो ने जो यत्न पुरुषों को पाप से छुटकारा पाने के बतलाये हैं तथा जिनके द्वारा मनुष्य पापों से छुटकारा पा जाते हैं हम उनको वर्णन करते हैं ।

त्र्यहं प्रातस्त्र्यहं सायं त्र्यहमद्यादयाचितम् ।

त्र्यहं परं च नाशनीयात्प्राजापत्यं चरन्द्भिजः ॥२११॥

+ प्रायश्चित्त विधि में सदा विद्वान् लोग कार्य करते हैं अतः बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अवर्म हैं । परन्तु जिसका वर्णन नहीं आया उनके प्रायश्चित्तार्थं मनुजी ने २०६ व श्लोक में विद्वानों की व्यवस्था को रक्खा ।

जब तक इस प्रकार के व्रत होते थे तब तक लोगों को पाप से भय था और आपत्ति समय पर सहनशीलता की अति सामर्थ्य होती थी । कतिपय मनुष्य इन ही को दुःख या आपत्ति समझते हैं, परन्तु पाप का फल दुःख ही होता है ।

हुंकारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वंकारं च गरीयसम् ।

स्नात्वाऽनरनभद् शेषमभिव च प्रसादयेत् ॥ २०४ ॥

(२४) ब्राह्मण का हूँ ऐसा कहकर और बृद्ध लोगों को तुम ऐसा कहकर स्नान करे और उनको प्रसन्न करके प्राणायाम करके एक दिन उपवास करना चाहिये ।

ताडयित्वा शृगेनापि कश्चिद्वाचन्य वाससा ।

विवादे वा विनिर्मित्य प्रथिपत्य प्रसादयेत् ॥ २०५ ॥

(२०५) यदि ब्राह्मण को शृण से भी भय होता हो वा विवाद में भीता हुआ ऐसी दसा में बने में धाँसल डाल कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहिये ।

अथगूर्पं स्वर्शर्तं सहस्रमभिहत्य च ।

जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ २०६ ॥

(२०६) + ब्राह्मण के बप को सहस्र उठाये पर बप न करे तो भी सी बप पर्यन्त नरक में रहता है ।

शोणित पाषठ पाँचन्सगृह्णाति महीतसे ।

ताषन्त्यद्दसहस्राणि तस्कर्ता नरके वसेत् ॥ २०७ ॥

(२०७) ब्राह्मण बप से उसका रक्तपात होकर पृथिवी के जितने बखो को मिगोता है उतमे ही सहस्र वर्ष तक हरभारा नरक में रहता है ।

अथगूर्पं धरेत्कच्छ्रमतिकच्छ्र निपातने ।

कच्छ्रातिकच्छ्री कूर्पीत विप्रस्पोत्पाद्य शोणितम् ॥ २०८ ॥

+ ब्रह्म उठाये परन्तु बप न करे तो यह पाप मन से हो गूना है पतएव दसवीं पृष्ठि करनी चाहिये ।

(२१५) चित्त को स्थिर रखकर तथा जितेन्द्रिय होकर १२ दिन पर्यन्त यह व्रत करने से सब पापों से छुटकारा पा जाता है ।

एकैकं ह्यासयेत्पण्डं कृष्णं शुक्ले च वर्धयेत् ।

उपस्पृशांस्त्रिपवणमेतच्चान्द्रायणं व्रतम् ॥ २१६ ॥

(२१६) चान्द्रायण व्रत उसको कहते हैं कि जब चन्द्र घटने लगे नित्य एक ग्रास (न्यून) करता जावे और जब चन्द्र बढ़ने लगे तो नित्य एक ग्रास बढ़ता जावे । जैसे कृष्ण पक्ष की एकम (पडवा) को १४ ग्रास खाये तो कृष्ण पक्ष की पन्द्रस को एक ग्रास भी न खावे अर्थात् उपवास करे और शुक्लपक्ष में बढ़ाते हुए पौर्णमासी को पन्द्रह ग्रास खावे ।

एतमेव विधिं कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे ।

शुक्लपक्षादिनियतश्चरंश्चान्द्रायणं व्रतम् ॥ २१७ ॥

(२१७) यदि शुक्ल पक्ष की पडवा से यह व्रत आरम्भ किया जावे अर्थात् एक ग्रास से आरम्भ करे तो पूर्णमासी को पन्द्रह पूरे करे और कृष्णपक्ष में घटाता जावे तो यह व्रत चन्द्रायण कहलाता है ।

अष्टावष्टौ समश्नीयात्पण्डान्मध्यन्दिने स्थिते ।

नियतात्मा हविष्याशी यत्तिचान्द्रायणं चरन् ॥ २१८ ॥

(२१८) यदि हवन योग्य द्रव्य के आठ ग्रास दो पहर के समय दिन में एक बार एक मास पर्यन्त खाने चाहिये और जितेन्द्रिय होकर रहे तो यह यत्ति चान्द्रायण कहलाता है ।

चतुरः प्रातरश्नीयात्पण्डान्विप्रः समाहितः ।

चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ २१९ ॥

(२१९) चार ग्रास प्रातः काल सूर्योदय समय खाये जावें और चार ग्रास सायंकाल को सूर्यास्त में भोजन किये जावें और

(२११) प्राजापत्य घृत करता हुआ तीन दिन प्रातः काल भोजन करे तत्पश्चात् तीन दिन साध्या समय भोजन करे, फिर तीन दिन भयाजम जो प्रातः हा उसे भोजन करे तदनन्तर तीन दिन उपवास करे ।

गामूत्रं गामर्यं चौर दधि सर्पिः कुशोदकम् ।

एकत्रात्रोपवासश्च कुच्छ्र सातवर्नं स्मृतम् ॥ २१२ ॥

(२१२) गो मूत्र गोबर भी दूध दही धन कुशा सहित इन सबको एकत्र कर एक दिन पीवे और दूसरे दिन उपवास करे यह सान्त्वपन कुच्छ्र कहाता है और जब उपरोक्त वस्तुओं को एक एक दिन में एक वस्तु का भोजन करे और सातवे-सातवें दिन उपवास करे यह सान्त्वपन कुच्छ्र कहाता है ।

एकैकं प्रासमरनीयास्त्र्यहासि श्रीषि पूर्ववत् ।

त्र्यहं चोपवसेदन्त्यमतिकुच्छ्रं चरन्दिशः ॥ २१३ ॥

(२१३) अतिकुच्छ्र घृत करता हुआ एक दिन प्रातः काल एक प्रास भोजन करे तथा एक दिन सायंकात् एक प्रास भोजन करे तथा एक दिन भयाजम जो प्रातः होवे उसका एक मास भोजन कर फिर तीन दिन उपवास करे ।

तप्तकुच्छ्रं चरन्मिषो जलचौरघृतानिलाम् ।

प्रतिभ्यहं पियदृष्यान्कस्त्र्नापी समाहितः ॥ २१४ ॥

(२१४) कुच्छ्र घृत करता हुआ मिश्रित (पिस्त रहित) हाकर क उष्ण त्रम व दूध व पी व वायु चारों में से एक एक को पतित एक-एक तीन-तीन दिन पीवे ।

यतप्मना प्रमत्सम्य द्वाशाहमभोजनम् ।

पराका नाम कच्छ्रायं मरपापापनात्न ॥ २१५ ॥

(२१५) चित्त को स्थिर रखकर तथा जितेन्द्रिय होकर १२ दिन पर्यन्त यह व्रत करने से सब पापों से छुटकारा पा जाता है ।

एकैकं ह्वासयेत्पण्डं कृष्णं शुक्ले च अर्धयेत् ।

उपस्पृशंस्त्रिपवणमेतच्चान्द्रायणं व्रतम् ॥ २१६ ॥

(२१६) चान्द्रायण व्रत उसको कहते हैं कि जब चन्द्र घटने लगे नित्य एक ग्रास (न्यून) करता जावे और जब चन्द्र बढ़ने लगे तो नित्य एक ग्रास बढ़ता जावे । जैसे कृष्ण पक्ष की एकम (पडवा) को १४ ग्रास खाये तो कृष्ण पक्ष की पन्द्रस को एक ग्रास भी न खावे अर्थात् उपवास करे और शुक्लपक्ष में बढ़ाते हुए पौर्णमासी को पन्द्रह ग्रास खावे ।

एतमेव विधिं कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे ।

शुक्लपक्षादिनियतश्चरंश्चान्द्रायणं व्रतम् ॥ २१७ ॥

(२१७) यदि शुक्ल पक्ष की पडवा से यह व्रत आरम्भ किया जावे अर्थात् एक ग्रास से आरम्भ करे तो पूर्णमासी को पन्द्रह पूरे करे और कृष्णपक्ष में घटाता जावे तो यह व्रत चन्द्रायण कहलाता है ।

अष्टावष्टौ समश्नीयात्पण्डान्मध्यन्दिने स्थिते ।

नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन् ॥ २१८ ॥

(२१८) यदि हवन योग्य द्रव्य के आठ ग्रास दो पहर के समय दिन में एक बार एक मास पर्यन्त खाने चाहिये और जितेन्द्रिय होकर रहे तो यह यति चान्द्रायण कहलाता है ।

चतुरः प्रातरश्नीयात्पण्डान्विप्रः समाहितः ।

चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ २१९ ॥

(२१९) चार ग्रास प्रातः काल सूर्योदय समय खाये जावे और चार ग्रास सायंकाल को सूर्यास्त में भोजन किये जावे और

(२११) प्राजापत्य व्रत करता हुआ तीन दिन प्रातः काश भोजन करे तत्पश्चात् तीन दिन सन्ध्या समय भोजन करे फिर तीन दिन अयाचन जो प्रातः हा उस भोजन करे तदनन्तर तीन दिन उपवास करे ।

गोमूर्ध्नं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम् ।

एकराश्रोपधासश्च कृष्यं सातवर्नं स्मृतम् ॥ २१२ ॥

(२१२) गो मूत्र गोबर की दूध वही जस, कृष्ण उद्विह्वलन सबको एकत्र कर एक दिन पीये और दूसरे दिन उपवास करे यह सान्त्वपन कृष्य कहाता है और जब उपरोक्त वस्तुओं को एक एक दिन से एक वस्तु का भोजन करे और सातवें-सातवें दिन उपवास करे यह सान्त्वपन कृष्य कहाता है ।

एकैकं प्रासमरनीपात्स्वहायि श्रीशि पूर्ववत् ।

अथ शोषसेन्त्यमतिकृष्यं चरन्विभ ॥ २१३ ॥

(२१३) अतिकृष्य व्रत करता हुआ एक दिन प्रातः काश एक प्रास भोजन करे तथा एक दिन सायंकाल एक प्रास भोजन करे तथा एक दिन अयाचन जो प्रातः होवे उसका एक प्रास भोजन करे फिर तीन दिन उपवास करे ।

तप्तकृष्यं चरन्विप्रो जलक्षीरपूतानिसाम् ।

प्रतिभ्यर्हं पिवेदुष्मान्कृस्नायी ममाहितः ॥ २१४ ॥

(२१४) कृष्य व्रत करता हुआ तिरिषस्त (चिन्त उद्विह्वल) होकर के उदग जस व दूध व भी व वायु चारों में से एक एक को पतित एक-एक तीन-तीन दिन पीये ।

यतामना प्रमत्तस्य द्वाणशाहममोजनम् ।

पराका नाम कृष्यायं मन्त्रपापनाम्न ॥ २१५ ॥

(२१५) चित्त को स्थिर रखकर तथा जितेन्द्रिय होकर १२ दिन पर्यन्त यह व्रत करने से सब पापों से छुटकारा पा जाता है ।

एकैक ह्वासयेत्पिण्डं कृष्णं शुक्ले च वर्धयेत् ।

उपस्पृशंस्त्रिपवणमेतच्चान्द्रायणं व्रतम् ॥ २१६ ॥

(२१६) चान्द्रायण व्रत उसको कहते हैं कि जब चन्द्र घटने लगे नित्य एक ग्रास (न्यून) करता जावे और जब चन्द्र बढ़ने लगे तो नित्य एक ग्रास बढ़ता जावे । जैसे कृष्ण पक्ष की एकम (पडवा) को १४ ग्रास खाये तो कृष्ण पक्ष की पन्द्रस को एक ग्रास भी न खावे अर्थात् उपवास करे और शुक्लपक्ष में बढ़ाते हुए पौर्णमासी को पन्द्रह ग्रास खावे ।

एतमेव विधिं कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे ।

शुक्लपक्षादिनियतश्चरंश्चान्द्रायणं व्रतम् ॥ २१७ ॥

(२१७) यदि शुक्ल पक्ष की पडवा से यह व्रत आरम्भ किया जावे अर्थात् एक ग्रास से आरम्भ करे तो पूर्णमासी को पन्द्रह पूरे करे और कृष्णपक्ष में घटाता जावे तो यह व्रत चन्द्रायण कहलाता है ।

अष्टावष्टौ समश्नीयात्पिण्डान्मध्यन्दिने स्थिते ।

नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन् ॥ २१८ ॥

(२१८) यदि हवन योग्य द्रव्य के आठ ग्रास दो पहर के समय दिन में एक बार एक मास पर्यन्त खाने चाहिये और जितेन्द्रिय होकर रहे तो यह यति चान्द्रायण कहलाता है ।

चतुरः प्रातरश्नीयात्पिण्डान्विप्रः समाहितः ।

चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ २१९ ॥

(२१९) चार ग्रास प्रातः काल सूर्योदय समय खाये जावें और चार ग्रास सायंकाल को सूर्यास्त में भोजन किये जावें और

(२११) प्राश्नापत्य व्रत करता हुआ तीन दिन बात कास भोजन करे तत्पश्चात् तीन दिन सग्ण्या समय भोजन करे, फिर तीन दिन अयाजन जो प्राप्त हो उसे भोजन कर तदनन्तर ही व्रत उपवास करे ।

गोमूत्र गामर्यं घोरं दधि सर्षिः कुशोदकम् ।

एकनाश्रोपनासग्ञ्च कुञ्च सातर्बे स्मृतम् ॥ २१२ ॥

(२१२) गो मूत्र गोबर की दूध वही बस, कुशा सहित इन सबको एकत्र कर एक दिन पीके घोर वृषरे दिन उपवास करे यह साम्प्रपम कुञ्च कहाता है घोर जब उपरोक्त वस्तुओं को एक एक दिन में एक वस्तु का भोजन करे घोर सातर्बे-सातर्बे दिन उपवास करे यह साम्प्रपम कुञ्च कहाता है ।

एकैकं ग्राममशनीपात्स्यद्वाप्ति त्रीणि पूर्ववत् ।

अथ सोपबसेदन्त्यमतिकुञ्च चरन्दिवा ॥ २१३ ॥

(२१३) अतिकुञ्च व्रत करता हुआ एक दिन प्रातः काल एक घास भोजन करे तथा एक दिन सायंकाल एक घास भोजन करे तथा एक दिन अयाजन जो प्राप्त होवे उसका एक मास भोजन करे फिर तीन दिन उपवास करे ।

तप्तकुञ्चं चरन्विप्रो जलघोरघृथानिलास ।

प्रतिश्रुपह पिबदुष्मान्कल्मसायी समाहित्वा ॥ २१४ ॥

(२१४) कुञ्च व्रत करता हुआ निश्चिन्त (चिन्त रहित) होकर क उष्ण अन्न व दूध व घी व वायु चारों में से एक एक का पानित एक एक में तीन दिन पीके ।

यतामना प्रमत्तस्य द्वात्तशाहमभाजनम् ।

एराका नाम कुञ्चाय मवपापानान् ॥ २१५ ॥

(२१५) चित्त को स्थिर रखकर तथा जितेन्द्रिय होकर १२ दिन पर्यन्त यह व्रत करने से सब पापों से छुटकारा पा जाता है ।

एकैक हासयेत्पण्डं कृष्णं शुक्ले च वर्धयेत् ।

उपस्पृशस्तिपवणमेतच्चान्द्रायणं व्रतम् ॥ २१६ ॥

(२१६) चान्द्रायण व्रत उसको कहते हैं कि जब चन्द्र घटने लगे नित्य एक ग्रास (न्यून) करता जावे और जब चन्द्र बढ़ने लगे तो नित्य एक ग्रास बढ़ता जावे । जैसे कृष्ण पक्ष की एकम (पडवा) को १४ ग्रास खाये तो कृष्ण पक्ष की पन्द्रस को एक ग्रास भी न खावे अर्थात् उपवास करे और शुक्लपक्ष में बढ़ाते हुए पौर्णमासी को पन्द्रह ग्रास खावे ।

एतमेव विधिं कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे ।

शुक्लपक्षादिनियतश्चरंश्चान्द्रायणं व्रतम् ॥ २१७ ॥

(२१७) यदि शुक्ल पक्ष की पडवा से यह व्रत आरम्भ किया जावे अर्थात् एक ग्रास से आरम्भ करे तो पूर्णमासी को पन्द्रह पूरे करे और कृष्णपक्ष में घटाता जावे तो यह व्रत चन्द्रायण कहलाता है ।

अष्टावष्टौ समश्नीयात्पण्डान्मध्यन्दिने स्थिते ।

नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन् ॥ २१८ ॥

(२१८) यदि हवन योग्य द्रव्य के आठ ग्रास दो पहर के समय दिन में एक बार एक मास पर्यन्त खाने चाहिये और जितेन्द्रिय होकर रहे तो यह यति चान्द्रायण कहलाता है ।

चतुरः प्रातरश्नीयात्पण्डान्विप्रः समाहितः ।

चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ २१९ ॥

(२१९) चार ग्रास प्रातः काल सूर्योदय समय खाये जावें और चार ग्रास सायंकाल को सूर्यास्त में भोजन किये जावें और

सप्त दिन मे कुछ न खाया जावे तो यह चान्द्रायण व्रत कहलाता है ।

यथाकथञ्चित्पिण्डानां विज्ञाऽशीतीः समाहितः ।

मासनाशनहविष्यस्य चन्द्रस्यैति सप्तोष्ठ्याम् ॥ २२० ॥

(२२) किसी प्रकार निश्चित होकर एक मास मे हविष्य के २४० प्रास भोजन करे तो चन्द्रसोक मे जावे ।

एतद्द्रुद्रास्तथादिन्या धमवरथाधरन्वतम् ।

सर्वाङ्गशलमोचय मरुतरथ महपिभिः ॥ २२१ ॥

(२२१) इस व्रत का मूद्र आदिस्य व सब लोगो मे प्राचरण कहा है और सब ऋषियो मे भी सब प्रकार के पुस्तो से निवृत्त होने के अर्थ इसे ग्रहण किया है ।

महाव्याहृतिभिर्होम कर्त्तव्य स्वयमन्वदम् ।

अर्द्धिमासयमक्रोधमाज्जेष च समाचरत् ॥ २२२ ॥

(२२२) प्राय निस्य महाव्याहृत से हुवन करना भीव हिसा न करना सत्य भोजनता क्रोध न करना विनीत रहना इन सबको ग्रहण कर ।

त्रिगङ्गिनिशायी च सवामा जलमात्रिशत् ।

आशुद्रपतिनाग्धैव नामिमापेत कर्त्तव्यित् ॥ २२३ ॥

(२२३) तीन बार दिन मे और तीन बार रात्रिमे बम्ब्री सन्नि स्नान कर और प्रतघारा स्त्री व शूद्र व पतित लोगो से कदापि सम्भाषण न कर ।

स्थानामनाभ्यां विहरत्शक्तोऽथ शयीत वा ।

ब्रह्मचारी व्रती यस्याद्गुरुर्षाद्विजाचक ॥ २२४ ॥

() रात्रि मे और दिन मे लडा रह वा बैठारहे समय

न करे, मामर्घ्यं न हो तो भूमि में शयन करे, ब्रह्मचारी रहे
अर्थात् स्त्री रमण न करे, मूज की भेखला और पनास का
दण्ड धारण करे ।

सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः ।

सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायश्चित्तार्थमादृतः ॥ २२५ ॥

(२२५) ॐ गायत्री और ईश्वरोपासना के जुद्ध करने
वाले मन्त्रों का यथाशक्ति जाप करे । यह बात प्रायश्चित्त के हेतु
प्रत्येक व्रत में आवश्यक है ।

एतैद्विजातयः शाध्या व्रतैराविष्कृतैः नसः ।

अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रैर्होमैश्च शोधयेत् ॥ २२६ ॥

(२२६) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन व्रतों में अपने किये
हुए पापों को दूर करें और जो पाप गुप्त हैं उनको मन्त्र व हवन
करके दूर करें ।

ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च ।

पापकृन्मुच्यते पापत्तथा दानेन चापदि ॥ २२७ ॥

(२२७) पाप को प्रकट करना, पश्चात्ताप करना
(पछताना), तप करना, वेद पाठ करना, इनके द्वारा पापी
अपने पाप से मुक्त हो जाता है । आपत्तिकाल में दान करके पाप
से छुटकारा पाता है ।

यथा यथा नरोऽधर्मं स्वयं कृत्वानुभाषते ।

तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाऽधर्मेण मुच्यते ॥ २२८ ॥

ॐ इसमें शूद्र करने वाले तन्त्र से अभिप्राय उन मन्त्रों से
है जिनमें बुद्धि की शक्ति और पाप कर्मों से बच कर शुभ कर्म
करने को उपदेश दिया गया है ।

सेप दिन में कुछ न खाया जाये ता यह मान्द्रायण ब्रत कहलाता है ।

यथाकथञ्चित्पिबदानां तिस्राऽशीती समाहित ।

मामेनाशनन्द्दविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम् ॥२२०॥

(२२) किसी प्रकार निश्चित होकर एक मास में हविष्य के १४० घास भोजन करे तो चन्द्रलोक में जाये ।

एतद्ब्रह्मास्तथादिस्या धमधरवाधरन्वतम् ।

सर्वाङ्गश्लमोषाय मरुतरश्च महपिमिः ॥ २२१ ॥

(२२१) इस व्रत का रुद्र प्रादित्य व सप्त सोमो ने पाषण्डण कहा है और सप्त ऋषिर्मो ने भी सब प्रकार कष्टु सो से निवृत्त होने के मर्म इसे ग्रहण किया है ।

महाभ्याहृतिमिहोम कर्त्तव्य स्वयमन्वहम् ।

अहिंसासत्यमक्रोधमार्जव च समाचरेत् ॥ २२२ ॥

(२२२) प्राय मित्य महाभ्याहृत से हवन करना बीब हिंसा न करना सत्य बोलना क्रोध न करना विनीत रहना इन सबको ग्रहण करे ।

त्रिरहस्त्रिनिशायां च सषासा अज्ञमाविरोत् ।

आशुपतितारचैत्र नामिमापेत काहचित् ॥ २२३ ॥

(२२३) तीन बार दिन में और तीन बार रात्रिमें बस्त्रों सहित स्नान करे और भक्तधारी स्त्री व क्षुद्र व पतित सोमो से कदापि सम्भाषण न करे ।

स्थानासनाभ्यां विदरेदशकौऽधः शयीत वा ।

ब्रह्मचारी भवती चस्यावगुण्देवदिनार्चकः ॥ २२४ ॥

(२२४) रात्रि में और दिन में पड़ा रहे वा बीठा रहे समय

न करे, सामर्थ्य न हो तो भूमि में शयन करे, ब्रह्मचारी रहे
अर्थात् स्त्री रमण न करे, मूज की मेखला और पलास का
दण्ड धारण करे ।

सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः ।

सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायश्चित्तार्थमाहृतः ॥ २२५ ॥

(२२५) ॐ गायत्री और ईश्वरोपासना के शुद्ध करने
वाले मन्त्रों का यथाशक्ति जाप करें । यह बात प्रायश्चित्त के हेतु
प्रत्येक व्रत में आवश्यक है ।

एतैर्द्विजातयः शाध्या व्रतैराविष्कृतैः नसः ।

अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रैर्होमैश्च शोधयेत् ॥ २२६ ॥

(२२६) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन व्रतो में अपने किये
हुए पापों को दूर करे और जो पाप गुप्त हैं उनको मन्त्र व हवन
करके दूर करें ।

ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च ।

पापकृन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥ २२७ ॥

(२२७) पाप को प्रकट करना, पश्चात्ताप करना
(पछताना), तप करना, वेद पाठ करना, इनके द्वारा पापी
अपने पाप से मुक्त हो जाता है । आपत्तिकाल में दान करके पाप
से छुटकारा पाता है ।

यथा यथा नरोऽधर्मं स्वयं कृत्वानुभाषते ।

तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाऽधर्मेण मुच्यते ॥ २२८ ॥

ॐ इसमें शूद्ध करने वाले तन्त्र से अभिप्राय उन मन्त्रों से
है जिनमें बुद्धि की शक्ति और पाप कर्मों से बच कर शुभ कर्म
करने को उपदेश दिया गया है ।

घण्टे बिन में कुछ न छाया जावे तो यह चान्द्रायण व्रत कहलाता है ।

यथाकथञ्चित्पिखडानां तिस्राऽशीती समाहित ।

मासेनारनन्दविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोक्याम् ॥२२०॥

(२२०) किसी प्रकार निश्चित होकर एक मास में हविष्य के २४० प्राप्त भोजन करे तो चन्द्रलोक में जावे ।

एतद्द्रुद्रान्तथादित्या घसवश्चावरन्ध्रतम ।

सर्वाङ्गुशलमोक्षाय मरुतश्च महिषिभिः ॥ २२१ ॥

(२२१) इस व्रत का रुद्र आदित्य व सब सोमो ने प्राचरण कहा है और सब ऋषियों ने भी सब प्रकार के दुःखों से निवृत्त होने के मर्म इसे ग्रहण किया है ।

महाभ्याहृतिभिर्होमः कर्तव्यः स्वयमन्वइम ।

अहिंसासत्यमक्रोधमार्जव च समाचरेत् ॥ २२२ ॥

(२२२) आप नित्य महाभ्याहृत से हवन करना वी हिंसा न करना सत्य बोलना क्रोध न करना, विनीत रहने सबका ग्रहण करे ।

त्रिगृहस्निनिशार्पा च सवामा जलमाविरोत् ।

सौशुद्रपतिवार्श्वैव नामिमापेत कर्हचित् ॥

(२२३) तीन बार दिन में और तीन बार रात सहित स्नान करें और व्रतधारी स्त्री व पुरुष व पति-पदादि सम्पादन न करें ।

स्यानासनाभ्यां विहरेदशकोऽथ शपीत -

ब्रह्मचारी व्रती चस्याद्गुरुदेवद्विजार्षक-

(२२४) रात्रि में और दिन में सड़ा रहे वा

यस्मिन्कर्मण्यस्य कृते मनमः स्यादऽलाघवम् ।

तस्मिस्तावत्तपः कुर्याद्वावत्तुष्टिकरं भवेत् ॥ २३३ ॥

(२३३) जिस प्रायश्चित्त के करने से पापी के मन को सन्तोष ही तो उस प्रायश्चित्त को फिर करे । जब तक चित्त को सन्तोष न हो तब तक प्रायश्चित्त करता रहे ।

तपोमूलमिदं सर्वं दैवमानुषकं सुखम् ।

तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिभिः ॥२३४॥

(२३४) देवता और मनुष्य, इन दोनों के सुख का मूल मध्य और अन्त तप ही है, इसको वेद के देखने वालो अर्थात् वेद पारगामियो ने कहा है ।

ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् ।

वैश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम् ॥२३५॥

(२३५) ब्राह्मण का तप ब्रह्मज्ञान है, क्षत्रिय का तप ससार की रक्षा करना है, वैश्य का तप कृषि इत्यादि है, और शूद्र का तप सेवा है ।

ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः ।

तपसैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ २३६ ॥

(२३६) ऋषिगण जितेन्द्रिय होकर फल, मूल, वायु इनमे से किसी एक का भोजन करते हुए सचराचर त्रैलोक्य (चल, अचल तीनों लोक) तप ही से देखते हैं ।

श्रौषधान्यगदो विद्या दैवी च विविधा स्थितिः ।

तपसैव प्रसिद्ध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ॥२३७॥

(२३७) श्रौषधि व अन्य आरोग्यता की विद्या अर्थात् ब्राह्मण कर्मरूप देवी विद्या, वेदार्थ ज्ञान, वेद पाठ करना और

(२२८) ॐ जमे केवल से साप छूता है उसी प्रकार प्रकट पाप का अंस जम बढ़ता है वैसे-वैसे मनुष्य पाप से छुटकारा पाता है ।

यथा यथा मनस्त्वस्य दुष्कृतं कर्म गहति ।

तथा तथा शरीर तप्तनाधर्मेषु मुच्यते ॥ २२६ ॥

(२२६) पापी मनुष्य का मन जैसे-जैसे दुष्कर्म की भस्मना करता है वैसे-वैसे उसका शरीर उस धर्म से छूटा है ।

कृत्वा पाप हि सतस्य तस्मात्पापात्प्रमुच्यते ।

नैव कुर्यात् पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु स ॥ २२७ ॥

(२२७) प पाप करके मत्ताप करे तो उस पाप से छूटा है । मैं फिर ऐसा न करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके वह पापी शुद्ध होता है ।

एव सधित्य मनमाप्रत्यकर्मकलादयम् ।

मनोवाहृप्तिभिर्नित्यं शुभकर्म समाचरेत् ॥ २२९ ॥

(२२९) इसी प्रकार प्रागामा जन्म में भिन्नमे वाले कर्म फलो को मन में ध्यान करके मनसा वाचा शरीर से दुष्कर्मों को परिहारा कर लाभ कर्मों को करे ।

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम् ।

तस्माद्भिमुक्तिमन्विच्छन्निनीय न समाचरेत् ॥ २३२ ॥

(३२) ज्ञानसे अथवा अज्ञानसे दुष्कर्म क क उस कर्म से छुटकारा पाने की अभिलाषा करता हुआ दूसरी बार दुष्कर्म न कर और यदि दूसरी बार दुष्कर्म करे तो बुध्ना प्रायश्चित्त करे ।

ॐ क्योंकि पाप करने से समार में अपयज्ञ होता है और चित्त बनगित होता है इससे यह उस पाप का फल हो जाता है और जो पाप के दुष्कर्म फल से बच जाता है ।

यस्मिन्कर्मण्यस्य कृते मनमः स्यादऽलाघवम् ।

तस्मिस्तावत्तपः कुर्याद्यावत्तुष्टिकरं भवेत् ॥ २३३ ॥

(२३३) जिस प्रायश्चित्त के करने से पापी के मन को सन्तोष हो तो उस प्रायश्चित्त को फिर करे । जब तक चित्त को सन्तोष न हो तब तक प्रायश्चित्त करता रहे ।

तपोमूलमिदं सर्वं दैवमानुषकं सुखम् ।

तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिभिः ॥२३४॥

(२३४) देवता और मनुष्य, इन दोनों के सुख का मूल मध्य और अन्त तप ही है, इसको वेद के देखने वाले अर्थात् वेद पारगामियो ने कहा है ।

ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् ।

वैश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम् ॥२३५॥

(२३५) ब्राह्मण का तप ब्रह्मज्ञान है, क्षत्रिय का तप ससार की रक्षा करना है, वैश्य का तप कृषि इत्यादि है, और शूद्र का तप सेवा है ।

ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः ।

तपसैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्य सचराचरम् ॥ २३६ ॥

(२३६) ऋषिगण जितेन्द्रिय होकर फल, मूल, वायु इनमे से किसी एक का भोजन करते हुए सचराचर त्रैलोक्य (चल, अचल तीनों लोक) तप ही से देखते हैं ।

औषधान्यगदो विद्या दैवी च विविधा स्थितिः ।

तपसैव प्रसिद्ध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ॥२३७॥

(२३७) औषधि व अन्य आरोग्यता की विद्या अर्थात् ब्राह्मण कर्मरूप देवी विद्या, वेदार्थ ज्ञान, वेद पाठ करना और

(२२८) ❀ जैसे केवल से स
प्रकट पापों को जैसे जैसे कहता है
छुटकारा पाता है ।

यथा यथा मनस्त्वस्य दुष्कृत
तथा तथा शरीर तत्तनाधम

(२२९) पापी मनुष्य का मन
करता है जैसे-जैसे उसका शरीर उस
कृत्वा पाप हि सतप्त्य तस्य
नैवं कुर्यात् पुनरिति निवृत्त

(२३०) प प करके सस्ताप
फिर ऐसा न करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा
एव सचिन्त्य मनमात्र
मनोवाङ्मूर्च्छिमिर्नित्यं शु

(२३१) इसी प्रकार ध्या
कर्मों को मन से ध्यान करके मम
परित्याग कर क्षुभ कर्मों को करे

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्क
तस्माद्भिमुक्तिमन्विच्छन्ति

(२३२) ज्ञानसे अथवा अज्ञ
छुटकारा पाने की अभिसापा कर
करे और यदि दूसरी बार कुकर्म

❀ क्योंकि पाप करने से
भित्त क्लेशित होता है इससे यह
शरीर जीव पाप के दूसरे फल से व

तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मस्य दिवोकसः ।

इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च ॥२४२॥

(२४२) यज्ञ तप से पवित्र (शुद्ध) ब्राह्मण की दी हुई हविष्य को देवता लेते हैं और उनकी इच्छित पदार्थों की वृद्धि करते हैं ।

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासृजत्प्रभुः ।

तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥

(२४३) प्रजापति हिरण्यगर्भ ने इस शास्त्र को तप ही से उत्पन्न किया और इसको ऋषि लोगो ने तप ही से पाया ।

इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते ।

सर्वस्यास्य प्रयश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥२४४॥

(२४४) सब प्राणियो को तपही से दुर्लभ जन्म ही होता है इसे देखते हुए देवता लोग तप को सब की मूल जान कर तप का महात्मा कहते हैं ।

वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा ।

नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥

(२४५) रात्रि-दिन वेद का पढना, बलानुसार महायज्ञादि शुभ कर्मों को करना बड़े-बड़े पापों को भी शीघ्र (अल्प समय में) ही शुद्ध कर सकता है ।

यथैधस्तेजसा वह्निः प्राप्तं निर्दहति क्षणात् ।

तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वं दहति वेदवित् ॥२४६॥

(२४६) जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काठ को शीघ्र ही भस्मसात कर देती है उसी प्रकार वेद जानने वाले ज्ञानरूपी अग्नि से सब पाप को जलाता है ।

विविध प्रकार के ज्ञान व विद्या व स्वर्गवास यह सब तप ही से सिद्ध होते हैं ।

यद्दुस्तर यद्दुराप यद्दुर्गं यच्च दुष्करम् ।

मवन्तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥ २३८ ॥

(२३८) जिसका तरना दुष्तर (कठिन) है जिसका मिथना दुष्कर है तथा जिसका ज्ञान साधन करना दुष्कर है यह तप के द्वारा प्राप्त हो सकती है । दुष्कर (कठिन) कार्यों के पूर्ण करने का मुख्य कारण तप ही है ।

महापातकिनश्चैव शपाञ्चाकार्यकारिणः ।

तपमैव मुत्पन्नं मुच्यन्ते किञ्चपासत ॥ २३९ ॥

(२३९) बड़े-बड़े महापापी और दुष्कर्मों के करने वाले जिनके पापी हैं वह सब तप ही के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं ।

क्षीटञ्चाद्रिपतञ्चाञ्च पशुञ्च वर्धामि च ।

स्थावराणि च भूतानि त्विष यान्ति तपावन्तात् ॥ २४० ॥

(२४०) * बड़े-बड़े माप कीट पतंग पशु-पक्षी वर प्राणा यह सब तप ही के द्वारा स्वर्ग में जाते हैं ।

यन्त्रिभिरन सूत्रन्ति मनावाहमर्तिभिर्जना ।

तन्मयं निरहन्त्याशु तपमैव तपाधना ॥ २४१ ॥

मना वाणी वचन मना उक्त तप हाता है वह

। त । । । । ।

तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मस्य दिवोकसः ।

इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च ॥२४२॥

(२४२) यज्ञ तप से पवित्र (शुद्ध) ब्राह्मण की दी हुई हविष्य को देवता लेते हैं और उनकी इच्छित पदार्थों की वृद्धि करते हैं ।

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवाप्तुजत्प्रभुः ।

तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥

(२४३) प्रजापति हिरण्यगर्भ ने इस शास्त्र को तप ही से उत्पन्न किया और इसको ऋषि लोगो ने तप ही से पाया ।

इत्येतत्तपसो देवा महामार्ग्यं प्रचक्षते ।

सर्वस्यास्य प्रयश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥२४४॥

(२४४) सब प्राणियो को तपही से दुर्लभ जन्म ही होताहै इसे देखते हुए देवता लोग तप को सब की मूल जान कर तप का महात्मा कहते हैं ।

वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा ।

नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥

(२४५) रात्रि-दिन वेद का पढना, बलानुसार महायज्ञादि शुभ कर्मों को करना बड़े-बड़े पापो को भी शीघ्र (अल्प समय मे) ही शुद्ध कर सकता है ।

यथैधस्तेजसा वह्निः प्राप्तं निर्दहति क्षणात् ।

तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वं दहति वेदवित् ॥२४६॥

(२४६) जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काठ को शीघ्र ही भस्मसात कर देती है उसी प्रकार वेद जानने वाले ज्ञानरूपी अग्नि से सब पाप को जलाता है ।

विविध प्रकार के ज्ञान व विद्या व स्वर्गवास यह सब तप ही से मिट जाते हैं ।

यदुद्वस्तर यदुदूराप यदुदुर्ग यच्च दुष्कृतम् ।

मघन्तु तपसा माघ्य तपो हि दुर्गतिघ्नमम् ॥ २३८ ॥

(२३८) जिसका तपसा दुष्कर (कठिन) है जिसका मिसना दुष्कर है तथा जिसका ज्ञान लाभ करमा दुष्कर है वह तप व द्वारा प्राप्त हो सकती है । दुष्कर (कठिन) कार्यों के पूर्ण करने का मुख्य कारण तप ही है ।

महापातकिनश्चैव शपाञ्चाकार्यकारिणः ।

तपसञ्च मुतातन मुच्यन्ते किस्वपापतः ॥ २३९ ॥

(२३९) बड़े-बड़े महापापी और दुष्कर्मों के करने वाले जिनका पाप है वह सब तप व द्वारा शुद्ध हो सकते हैं ।

क्राण्ड्यादिपतङ्गाञ्च पशवञ्च ययामि च ।

स्यावराण्य च भूतानि दिव यान्ति तपापलान् ॥ २४० ॥

(२४०) * बन्दूक व माय काट पतय पशु-पक्षी वर प्राणा वर सब तप व वर वर स्वर्ग में जाते हैं ।

यन्किञ्चित् न कुरन्ति मनाशाहमर्तिभिर्जना ।

तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मस्य दिवोकसः ।

इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च ॥२४२॥

(२४२) यज्ञ तप से पवित्र (शुद्ध) ब्राह्मण की दी हुई हविष्य को देवता लेते हैं और उनकी इच्छित पदार्थों की वृद्धि करते हैं ।

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासृजत्प्रभुः ।

तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥

(२४३) प्रजापति हिरण्यगर्भ ने इस शास्त्र को तप ही से उत्पन्न किया और इसको ऋषि लोगो ने तप ही से पाया ।

इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते ।

सर्वस्यास्य प्रयश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥२४४॥

(२४४) सब प्राणियो को तपही से दुर्लभ जन्म ही होता है इसे देखते हुए देवता लोग तप को सब की मूल जान कर तप का महात्मा कहते हैं ।

वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा ।

नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥

(२४५) रात्रि-दिन वेद का पढना, बलानुसार महायज्ञादि शुभ कर्मों को करना बड़े-बड़े पापों को भी शीघ्र (अल्प समय में) ही शुद्ध कर सकता है ।

यथैधस्तेजसा वह्निः प्राप्तं निर्दहति क्षणात् ।

तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वं दहति वेदवित् ॥२४६॥

(२४६) जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काठ को शीघ्र ही भस्मसात कर देती है उसी प्रकार वेद जानने वाले ज्ञानरूपी अग्नि से सब पाप को जलाता है ।

विविध प्रकार के ज्ञान व विद्या व स्वर्गवास यह सब तप ही से सिद्ध होते हैं ।

यद्दुस्तर यद्दुराप यद्दुर्गं यच्च दुष्करम् ।

सर्वन्तु तपसा साध्यं तपो हि दुर्गतिह्रमम् ॥ २३८ ॥

(२३८) जिसका तरना दुष्तर (कठिन) है जिसका मिथना दुष्कर है तथा जिसका ज्ञान ज्ञान करना दुष्कर है वह तप के द्वारा प्राप्त हो सकता है । दुष्कर (कठिन) कार्यों के पूर्ण करने का मुख्य कारण तप ही है ।

महापातकिनश्चैव शपाश्चाकार्यकारिणः ।

तपसैव सुतप्तेन मुच्यन्ते किञ्चपापतः ॥ २३९ ॥

(२३९) बड़े-बड़े महापापी और दुष्कर्मों के करने वाले जितने पापी हैं वह सब तप ही के द्वारा मुक्त हो सकते हैं ।

कीटश्चाहिपतञ्जाश्च पशवश्च वयांसि च ।

स्थावराणि च भूतानि दिव यान्ति तपोबलात् ॥ २४० ॥

(२४०) * बड़े-बड़े साप, कीट पतंग पशु-पक्षी च, प्राणी यह सब तप ही के बल से स्वर्ग में जाते हैं ।

यत्किञ्चिदेन कुर्वन्ति मनोवाहमूर्तिमिर्जना ।

तत्सर्वं निर्दहन्त्याश्च तपसैव तपोधनाः ॥ २४१ ॥

(२४१) मन बागी शरीर से जो कुछ पाप होता है वह सब तप ही से नाश होता है ।

* २४० व श्लोक में बतलाया है कि नीच योनियों में जाने वाला जीव तप के बल से तथा अर्मान् स्वर्ग को पाता है । वहाँ यह भी ज्ञात होता है कि वैश्य देवता हा सबते हैं ।

तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मस्य दिवोकसः ।

इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च ॥२४२॥

(२४२) यज्ञ तप से पवित्र (शुद्ध) ब्राह्मण की दी हुई हविष्य को देवता लेते हैं और उनकी इच्छित पदार्थों की वृद्धि करते हैं ।

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासृजत्प्रभुः ।

तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥

(२४३) प्रजापति हिरण्यगर्भ ने इस शास्त्र को तप ही से उत्पन्न किया और इसको ऋषि लोगो ने तप ही से पाया ।

इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते ।

सर्वस्यास्य प्रयश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥२४४॥

(२४४) सब प्राणियो को तपही से दुर्लभ जन्म ही होता है इसे देखते हुए देवता लोग तप को सब की मूल जान कर तप का महात्मा कहते हैं ।

वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा ।

नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥

(२४५) रात्रि-दिन वेद का पढना, बलानुसार महायज्ञादि शुभ कर्मों को करना बड़े-बड़े पापों को भी शीघ्र (अल्प समय में) ही शुद्ध कर सकता है ।

यथैधस्तेजसा वह्निः प्राप्तं निर्दहति क्षणात् ।

तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वं दहति वेदवित् ॥२४६॥

(२४६) जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काठ को शीघ्र ही भस्मसात कर देती है उसी प्रकार वेद जानने वाले ज्ञानरूपी अग्नि में सब पाप को जलाता है ।

विविध प्रकार के ज्ञान व विद्या व स्वर्गवास यह सब तप ही से सिद्ध होते हैं ।

यद्दुस्तर यद्दुर्गाप यद्दुर्गं यच्च दुष्करम् ।

सर्वन्तु तपसा साध्यं तपो हि दुर्गतिक्लमम् ॥ २३८ ॥

(२३८) जिसका तरना दुष्तर (कठिन) है जिसका मिसना दुष्कर है तथा जिसका ज्ञान साध करना दुष्कर है वह तप के द्वारा प्राप्त हो सकता है । दुष्कर (कठिन) कार्यों के पूर्ण करने का मुख्य कारण तप ही है ।

महापातकिनश्चैव गपाश्चाकार्यकारिणः ।

तपसैव सुसप्तनेन मुच्यन्ते किञ्चपापता ॥ २३९ ॥

(२३९) बड़े-बड़े महापापी और दुष्कर्मों के करने वाले नितने पापी हैं वह सब तप ही के द्वारा क्षुद्र हो सकते हैं ।

कीटश्चाहिपतङ्गाश्च पशवश्च घर्मासि च ।

स्यावराशि च भूतानि दिव यान्ति तपोबलात् ॥ २४० ॥

(२४०) ❀ बड़े-बड़े साप कीट पतंग पशु-पक्षी वर प्राणी यह सब तप ही के बल से स्वर्ग में जाते हैं ।

यत्किञ्चिदेन कुर्वन्ति मनोबाह्वृत्तिभिर्जना ।

तन्मर्घं निर्दहन्त्याद्यु तपसैव तपोघनाः ॥ २४१ ॥

(२४१) मन बागी शरीर से जो कुछ पाप होता है वह सब तप ही से नाश होता है ।

❀ २४० वें पसोक में बतलाया है कि नीच योनियों में जाने वाला जीव तप के बल से वशा घर्मान् स्वर्ग को पाता है । यहाँ यह भी ज्ञात होता है कि वेद्यों देवता हा सकते हैं ।

तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मस्य दिवोकसः ।

इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च ॥२४२॥

(२४२) यज्ञ तप से पवित्र (शुद्ध) ब्राह्मण की दी हुई हविष्य को देवता लेते हैं और उनकी इच्छित पदार्थों की वृद्धि करते हैं ।

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासृजत्प्रभुः ।

तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥

(२४३) प्रजापति हिरण्यगर्भ ने इस शास्त्र को तप ही से उत्पन्न किया और इसको ऋषि लोगो ने तप ही से पाया ।

इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते ।

सर्वस्यास्य प्रयश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥२४४॥

(२४४) सब प्राणियो को तपही से दुर्लभ जन्म ही होता है इसे देखते हुए देवता लोग तप को सब की मूल जान कर तप का महात्मा कहते है ।

वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा ।

नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥

(२४५) रात्रि-दिन वेद का पढना, बलानुसार महायज्ञादि शुभ कर्मों को करना बड़े-बड़े पापो को भी शीघ्र (अल्प समय मे) ही शुद्ध कर सकता है ।

यथैधस्तेजसा वह्निः प्राप्तं निर्दहति क्षणात् ।

तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वं दहति वेदवित् ॥२४६॥

(२४६) जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काठ को शीघ्र ही भस्मसात कर देती है उसी प्रकार वेद जानने वाले ज्ञानरूपी अग्नि से सब पाप को जलाता है ।

विविध प्रकार के ज्ञान व विद्या व स्वर्गवास यह सब तप ही से सिद्ध होते हैं ।

यद्दुस्वरं यद्दुगाप यद्दुर्गं यच्च दुष्करम् ।

सर्वन्तु तपसा साध्यं तपो हि दुर्गतिः क्रमम् ॥ २३८ ॥

(२३८) जिसका तरना दुष्ट (कठिन) है जिसका मिटना दुष्कर है तथा जिसका ज्ञान प्राप्त करना दुष्कर है वह तप के द्वारा प्राप्त हो सकती है । दुष्कर (कठिन) कार्यों के पूर्ण करने का मुख्य कारण तप ही है ।

महापातकिनश्चैव गणारचाकार्यकारिणः ।

तपसैव सुतप्तेन मुच्यन्ते किञ्चपाततः ॥ २३९ ॥

(२३९) बड़े-बड़े महापापी और दुष्कर्मों के करने वाले जितने पापी हैं वह सब तप ही के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं ।

कीटश्चाहिपतङ्गारश्च पशवश्च वयामि च ।

स्याधराणि च भूतानि दिव यान्ति तपापसात् ॥ २४० ॥

(२४०) कृ, बड़े-बड़े साप, कीट पक्षय पशु-पक्षी चर प्राणी यह सब तप ही के बल से स्वर्ग में जाते हैं ।

यत्किञ्चिद्देन कुर्वन्ति मनोवाङ्मूर्तिभिर्जना ।

तत्सर्वं निर्दहन्त्याशु तपसैव तपाधना ॥ २४१ ॥

(२४१) मन वाग्नी शरीर से जो कुछ पाप होता है वह सब तप ही से नाश होता है ।

ॐ २४ व श्लोक में बतलाया है कि नीच योनियों में जन्मे वाला जीव तप के बल से वशा अर्थात् स्वर्ग को पाता है । यहाँ यह भी ज्ञात हाता है कि वैश्य देवता ही समते हैं ।

हविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च ।

जपित्वा पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पगाः ॥ २५१ ॥

(२५१) हविष्यन्ति आदि उन्नीस ऋचा और नतमह हो दुग्ति ऋचा और 'महन्वगीर्षा' जो पुरुष सूक्त नाम वेद का भाग प्रसिद्ध है उसको सोलह बार नित्य एक मास पर्यन्त जप करे तो माता से रमण करने के पाप से छुटकारा पाता है ।

एनमां स्थूलघृत्तमाणां चिकीर्षन्नानोदनम् ।

अवेत्यचं जपेद्वदं यत्किचेदमितीति वा ॥ २५२ ॥

(२५२) अप ते हेडो वरुण नमोभि ऋचा को यत्किचेदम ऋगादेव' व 'इति वा इति मे मन' यह ऋचा इनको एक वर्ष र्यन्त एक वाप जप करे तो छोटे-बड़े पापो को दूर करता है ।

प्रतिगृह्याप्रतिग्राह्यं भुक्त्वा चान्नं विगर्हितम् ।

जर्पस्तरत्समन्दीर्यं पूयते मानवस्यहात् ॥ २५३ ॥

(२५३) अग्राह्य पदार्थों को ग्रहण करके व नित्य पदार्थोंको न करके स्तरत्समन्दी इन चार ऋचा को ३ दिन जप करे ।

सौमारौद्रं तु बह्वेना मासमभ्यस्य शुध्यति ।

प्रवन्त्यामाचरन्स्नानमर्यम्णामिति च तृचम् ॥ २५४ ॥

(२५४) 'सौमारौद्र' आदि चार-चार ऋचा और 'अर्यमणा' दि तीन ऋचा, इनमे से एक-एक को एक बार एक न नदी आदि मे स्नान करके जप करे, तो बहुत पापो ता है ।

अर्धमिन्द्र प्रित्येतदेनस्त्री सप्तकं जपेत् ।

स्तं तु कृत्वाप्सु मासमासीत् भैक्षभुक् ॥ २५५ ॥

(इन्द्रआदि सात ऋचाओं की छ मास पर्यन्त जाप

इत्येतदेनसामुक्त प्रायश्चित्त यथाविधि ।

तस्य ऊर्ध्वं रहस्यानां प्रायश्चित्त निषोघत ॥२४७॥

(२४७) जो पाप साधारण मनुष्यों पर प्रकट हो गये या जिनको अपने का ज्ञान है उनका प्रायश्चित्त तो कह दिया अब गुप्त पापों का व अज्ञात पाप का प्रायश्चित्त कहते हैं ।

सव्याहृतिप्रसवकाः प्राणायामास्तु षोडश* ।

अपि अशुभस्य सामास्युनन्त्यङ्गहः कृता ॥ २४८ ॥

(२४८) प्रणव (ओंकार और व्याहृतियों के साथ गायत्री मात्र का जप करना और सोसह बार नित्य प्राणायाम करना ऐसे सब पापों को जो अज्ञात हो दूर कर देता है ।

कीर्त्तम जप्त्वाप इत्येतद्दामिष्ठ च प्रतीत्युत्थम् ।

माहित्रं शुद्धवस्यश्च सुरापोऽपि विशुद्ध्यति ॥२४९॥

(२४९) जिस सूक्त पर कीर्त्तम ऋषि ने आया की है और जिस सूक्त पर दामिष्ठ ऋषि ने अर्घ्य किया है और माहित्री सूक्त व शुद्धवस्य सूक्त का पाठ करने और अर्घ्य बिनात्ने से सुरापान करने बासा भी शुद्ध हो जाता है ।

सकञ्जपवास्पवामीप शिवमंकरूपमेव च ।

अपहत्य मुषणतु घणान्भवति निर्मल ॥ २५० ॥

(२५०) एक एक मास पयस्त नित्य एक बार अस्यवामी को और शिव मकरप ना कि जो यजुर्वेद में जप करे तो ब्राह्मण का सोना और पवित्र होता है ।

* २४९ वें श्लोक के सूक्त ऋषेय के हैं और २५० वें श्लोक में जिस मात्रा का नाम है वह यजुर्वेद के हैं ।

हविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च ।

जपित्वा पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पगाः ॥ २५१ ॥

(२५१) हविष्यन्ति आदि उन्नीस ऋचा और नतमह हो दुग्ति ऋचा और 'महस्र ग्रीर्षा' जो पुरुष सूक्त नाम वेद का भाग प्रसिद्ध है उसको सोलह बार नित्य एक मास पर्यन्त जप करे तो माता मे रमण करने के पाप से छुटकारा पाता है ।

एनयां स्थूलमृक्षमाणां चिकीर्षन्नरनोदनम् ।

अवेत्यचं जपेद्वदं यत्किंचेदमितीति वा ॥ २५२ ॥

(२५२) अप ते हेडो वरुण नमोभि ऋचा को यत्किंचेदम वरुणदेव' व 'इति वा इति मे मन' यह ऋचा इनको एक वर्ष पर्यन्त एक वाप जप करे तो छोटे-बड़े पापो को दूर करता है ।

प्रतिगृह्याप्रतिग्राह्यं भुक्त्वा चान्नं विगर्हितम् ।

जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवस्त्र्यहात् ॥ २५३ ॥

(२५३) अग्राह्य पदार्थों को ग्रहण करके व नित्य पदार्थोंको भोजन करके स्तरत्समन्दी इन चार ऋचा को ३ दिन जप करें ।

सोमारौद्रं तु वह्नेना मासमभ्यस्य शुध्यति ।

स्रवन्त्यामाचरन्स्नानमर्यम्णामिति च तृचम् ॥ २५४ ॥

(२५४) 'सौमारोद्र' आदि चार-चार ऋचा और 'अर्यमण वमण' आदि तीन ऋचा, इनमे से एक-एक को एक बार एक मास पर्यन्त नदी आदि मे स्नान करके जप करे, तो बहुत पापो से छूट जाता है ।

अव्दार्धमिन्द्र प्रित्येतदेनस्त्री सप्तकं जपेत् ।

अप्रशस्तं तु कृत्वाप्सु मासमासीत भैक्षुक् ॥ २५५ ॥

(२५५) इन्द्रआदि सात ऋचाओं की छ मास पर्यन्त जाप

इत्यतदेनमाप्तुक्त प्रायश्चित्त पथाविधि ।

तस्य ऊर्ध्व रश्म्यानां प्रायश्चित्त निबोधत ॥२४७॥

(४७) जो पाप साधारण मनुष्यों पर प्रकट हो गये या

जिनको अपने का ज्ञान है उनका प्रायश्चित्त तो कह दिया अब
गुप्त पापों का व अज्ञात पापों का प्रायश्चित्त कहते हैं ।

मध्याह्निप्रणामकप्र प्राणायामास्तु षोडश* ।

अपि अष्टस्य मामात्पुनन्त्यदग्दः कृता ॥ २४८ ॥

(४८) प्रणाम (घोकार और व्याहृतिर्यों के साथ गायत्री

मंत्र का जप करना और सोलह बार नित्य प्राणायाम करना
एसे सब पापों को जो अज्ञात हो दूर कर देता है ।

कौन्म जप्त्वाप इयेतदामिष्ट च प्रतीग्युचम् ।

माहित्र शुद्धवत्यञ्च सुरापोऽपि विशुद्ध्यति ॥२४९॥

(४९) जिस मंत्र पर बीस ऋषि से भाषा की है और

जिस मंत्र पर बमिष्ट ऋषि ने अर्थ लिखा है और माहित्री सूक्त
व गदवत्य सूक्त का पाठ करने और अर्थ बिचारने से सुरापान
करने वाला भी शुद्ध हो जाता है ।

मक-जप्त्वाप्त्यवामीय शिवमकल्पमव च ।

अपठय मुवगपतु क्षमाकृवति निर्मल ॥ २५० ॥

(५०) * एक मास पयस्य नित्य एक बार अस्त्यवामी को

और शिव मन्त्र का पठना जो मन्त्र का म जप करे तो क्षमा का
माना नारा पवित्र होता है ।

* ४९ व ५० व मंत्र अज्ञान के हैं और २५० वें श्लोक

म जिन मंत्रों का वर्णन है वह यजुर्वेद के हैं ।

ज्यहं लूपवसेद्युक्तं स्त्रिं ह्योभुपयन्नपः ।

मुच्यते पातकैः सर्वैस्त्रिर्जपित्वाऽघमर्षणम् ॥ २५६ ॥

(२५६) जितेन्द्रिय होकर नित्य प्रातः दोपहर साय को स्नान करके जल में तीन बार ऋतच सत्यम् इम अघमर्षण सूक्त को जप करे तो सब पापों से छूट जाता है ।

यथाश्वमेघः क्रतुराट् सर्वपापापनोदनम् ।

तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापापनोदनम् ॥ २६० ॥

(६०) जिस प्रकार सब यज्ञोक्ता राजा अश्वमेघ यज्ञ सब पापों को हरता है वैसे ही अघमर्षण सूक्त सब पापों को दूर करता है ।

हत्वा लोकानपीमांस्त्रीनश्यन्नपि यतस्ततः ।

ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नैनः प्राप्नोति किञ्चनः ॥ २६१ ॥

(२६१) तीनों लोक को हनन करके और जहाँ तहाँ भोजन करके ऋग्वेद को धारण करे तो किसी पाप को नहीं पाता है ।

ऋक्संहिता त्रिरभ्यस्य यज्ञपां वा समाहितः ।

साम्नां वा सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २६२ ॥

(२६२) ❀ चिन्तारहित होकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद

❀ २५८ से २६२ श्लोकों में मनुजी वेदों के पाठके महात्तय को बतलाते हैं परन्तु मूर्ख अर्थात् शूद्र को वेदों के पाठ का अधिकार नहीं और जो व्याकरण आदि शास्त्रों का ज्ञाता तीन-चार वेदों का पाठ करेगा उसको अवश्य ही वेदों का अर्थ यथा सम्भव ज्ञात हो जावेगा, जब विद्या पूर्ण व विश्वसनीय होयगी तब उस पर आचरण करना अवश्यम्भावी है अतएव जो वेदपाठ करेगा वह अवश्य ही ज्ञानी होकर पापों से छूट जावेगा यह मनुजी का मत है ।

करे तो सब पापों से छूटता है । जल में मूत्र व विषा करने का सा मनुष्य एक मास पयन्त मिसा याचन कर मोक्षन करे ।

मन्त्रे शाकलहोमीयैरेव हुत्वा घृत द्विस्र ।

सुगुवप्यपहन्त्येना जप्त्वा वा नम इत्यधम् ॥२५६॥

(२५६) देव कृतस्य आदि शाकल हवन मन्त्रों से एक वर्ष पर्यन्त घी का हवन करे प्रयत्ना 'इन्द्र' इस ऋचा को एक वर्ष पयन्त जप करे तो ब्राह्मण कृत्रिय वैश्य के महापातक दूर हों ।

महापातकमयुक्ताऽनुगच्छद्गुणा समाहित ।

अभ्यस्यात् पापमानीर्मेघादारो विशुद्ध्यति ॥२५७॥

(५७) कृषि ब्रह्महत्या आदि पापों में से किसी एक पाप से मयुक्त हो तो बिस्तारहित हाकर गऊ का अनुयायी बने और भिक्षा माग कर मोक्षन करे और जितन्त्रिय होकर एक वर्ष पर्यन्त नित्य पापमानी ऋचा का जप करे तो शुद्ध होता है ।


अग्णये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदमङ्गिताम् ।

मूच्यन्त पातकै मर्षं पराकै शोधितास्त्रिभिः ॥२५८॥

(२५८) मन में बिस्तारहित होकर वेद संहिता को तीन बार अभ्यास करे और तीन बार पराक व्रत करे तो सब पापों से उन्कारा जाता है ।

* ५४ में २५७ प्लोक तक जित ऋषामा का वर्णन है मरुत्तय सहिता आदि के मात्र हैं जिसका जपने से मनुष्य को मरुत यमों का कुछ न कुछ विचार हा जाता है जिसमें बड़ उत उतावला मरुत जाता है और ज्ञान हा जाने से भोग योग्य जमों का अन्तर्गत उन (यम) प्रतीत होता है और बुद्ध न प्रतीत होने से मान (पाप भी मरुत बने हैं ।

❀ द्वादशोऽध्यायः ❀



चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धर्मस्त्वयानघ ।

कर्मणा फलनिवृत्तिं शंस नस्तावतः पराम् ॥ १ ॥

(१) ऋषियो ने भृगुजी से कहा कि हे पापमुक्त भृगुजी ! आपने यथाविधि चारों वर्णों के धर्मों को वर्णान कर दिया और अब पुण्य-पाप के फल क वर्णान कर दीजिये ।

स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः ।

अस्य सर्वस्य शृणुत कर्मयोगस्य निर्णयम् ॥ २ ॥

(२) मनु धर्मशास्त्र के लिखने वाले धर्मात्मा भृगु ने उनसे कहा कि हे ऋषियो ! सब कर्मों के द्वारा योग अर्थात् सम्बन्ध को हम वर्णान करते हैं ।

शुभाशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसंभवम् ।

कर्मजा गतयो नृणामुत्तमोऽधममध्यमाः ॥ ३ ॥

(३) मन, वाणी, देह से जो शुभाशुभ कर्म उत्पन्न होता है इससे मनुष्यों की उत्तम, मध्यम, अधम गति उत्पन्न हाती है ।

तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य देहिनः ।

दशानक्षत्रयुक्तस्य मनो विद्यात्प्रवर्तकम् ॥ ४ ॥

(४) आगे जो दस लक्षण कहेगे उससे सयुक्त पुरुष शरीर स्वामी का मन जो मन, वाणी, देह से उत्तम, मध्यम, अधम कर्म में लिप्त करने वाला है उसको जाना ।

परद्रव्येष्वभिध्यानं मनासानिष्टचिन्तनम् ।

वितथाभिनिवेशच त्रिविधं कर्म मानसम् ॥ ५ ॥

की संहिता में से एक-एक संहिता को तीन बार प्रयत्न संहित पाठ करके सब पापों से छुटता है ।

यथा महाहृद प्राप्प विस्र लोष्ठ विनश्यति ।

तथा दुरचरित सर्वं वेदे त्रिषुति मञ्जति ॥ २६३ ॥

(२६३) जैसे घनाह जन में मिट्टी का डेला डाला तो पीछ ही नाश हो जाता है इसी प्रकार सब पाप तीनों वेद के पाठ करने से दूर जाते हैं ।

अथो यजू पि चान्यानि समानि विविधानि च ।

एष श्रेयस्त्रिषुदेवो यो वेदेनं न वेदवित् ॥ २६४ ॥

(२६४) अथ यजुर साम इन तीनों वेदों के मन्त्र ब्राह्मण संहित तीन प्रकार का वेद जानना चाहिये जो उसको जानता है कही वेद ज्ञाता है ।

आथ यत्प्रयत्न ब्रह्मत्रयी यस्मि प्रतिष्ठिता ।

स गुणोऽन्यस्त्रिषुदेवो यस्त वेद स वेदवित् ॥ २६५ ॥

(२६५) सब वेदों के आदि तीन प्रकार वासा सब वेदका सार और सब वेदों को अपने बीच स्थिर करने वासा जो प्रणुव है उसका ज्ञाता (जानने वासा) वेद ज्ञाता है ।

मनुजी के धर्मशास्त्र भृगुजी की संहिता का
ग्यारहवा अध्याय समाप्त हुआ ।

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च ।

यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० ॥

(१०) जिसके वाणी, मन, देह सब क्रमानुसार स्वेच्छा-चारी वाणी और नास्तिकता वर्जित व्यवहार को परित्याग करने वाले हैं वही त्रिदण्डी कहलाते हैं ।

त्रिदण्डमेतन्निद्रिप्य सर्वभूतेषु मानवः ।

कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति ॥११॥

(११) सब प्राणियो मे इन तीनों दण्ड की (अर्थात् मन, वाणी, देह) के दण्ड को स्थिर करके काम व क्रोध को जीतकर सिद्धि को प्राप्त करता है ।

योऽस्यात्मनः कारयिता तंदेत्रज्ञं प्रचक्षते ।

यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥१२॥

(१२) देह को कर्म मे प्रवृत्त कराने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाना है और जो शरता है वह भूतात्मा अर्थान् देह कहलाताहै यह बात पण्डित लोग सहते हैं ।

जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम् ।

येन वेद्यते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३ ॥

(१३) सब देहधारियो के शरीर मे रहने वाले जीव को अन्तरात्मा कहते हैं, वह उससे जिसका महन्त अर्थात् मन कहते हैं सर्वथा पृथक है । क्योकि मन तो सुख-दुःख को भोगने वाला है और जीवात्मा उस व्यवहार का ज्ञाता है, परन्तु वह स्वरूप से दुःखी सुखी नहीं होता वरन् अज्ञान से मन इन्द्रियो मे आत्म बुद्धि करके सुख-दुःख को भोगता है ।

(५) दूसरे के द्रव्य में ध्यान मन से प्रतिष्ठित नान्ति कता यह तीन प्रकार के मामल कर्म है अर्थात् मन से उत्पन्न होने वाले हैं ।

पारुष्यमनृत चैव पैशून्यं चापि सर्वश ।

असंबद्धप्रलापरथ वाङ्मय स्याच्चतुर्विधम् ॥ ६ ॥

(६) पारुष्य वचन कहा (कटुभाषण) मिथ्या भाषण करना आत्मा के विरुद्ध कहना और भोगों की चुगली और अनादर करना असम्बद्ध वकवास करना यह चार वाणी के दोष हैं ।

अदत्तानामुपादान हिंसा चैवाविधानत ।

परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविध स्मृतम् ॥ ७ ॥

(७) छससे किसी वस्तुका सेना अधिर्हिंसा करना परस्त्री रमण करना यह तीन देह (शरीर) से उत्पन्न होने वाले पाप हैं ।

मानस मनमैवायमुपमुहृक्ते शुभाशुभम् ।

वाचाऽवाचा कृतं कर्म फायेनैव च क्वयिकम् ॥ ८ ॥

(८) जिससे कहे हुए पाप के फल से अथवा जीव अर्थात् दूसरों में रहने वाला मन से किये हुए कर्म का मानसिक और वाणी से कहे कर्म का फल वाणी से और शरीर से किये हुए कर्म का फल शारीरिक बण्ड होता है । जिस प्रकार पाप करता है उसी प्रकार फल मिलता है ।

शुभीञ्चै कर्मण्यैपाति स्यादरतां नर ।

वाचिकै पश्चिमृगतां मानमरन्त्यज्ञातिताम् ॥ ९ ॥

(९) वाणी द्वारा किये पाप में पत्नी और पशु तथा विल से किये हुए पाप से आण्डासादि होना है ।

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च ।

यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० ॥

(१०) जिसके वाणी, मन, देह सब क्रमानुसार स्वेच्छा-चारी वाणी और नास्तिकता वर्जित व्यवहार को परित्याग करने वाले हैं वही त्रिदण्डी कहलाते हैं ।

त्रिदण्डमेतन्निदिप्य सर्वभूतेषु मानवः ।

कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति ॥११॥

(११) सब प्राणियों में इन तीनों दण्ड की (अर्थात् मन, वाणी, देह) के दण्ड को स्थिर करके काम व क्रोध को जीतकर सिद्धि को प्राप्त करता है ।

योऽस्यात्मनः कारयिता तंक्षेत्रज्ञं प्रचक्षते ।

यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥१२॥

(१२) देह को कर्म में प्रवृत्त कराने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाना है और जो शरता है वह भूतात्मा अर्थात् देह कहलाता है यह बात पण्डित लोग सहते हैं ।

जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम् ।

येन वेद्यते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३ ॥

(१३) सब देहधारियों के शरीर में रहने वाले जीव को अन्तरात्मा कहते हैं, वह उमसे जिसका महन्त अर्थात् मन कहते हैं सर्वथा पृथक है । क्योंकि मन तो सुख-दुःख को भोगने वाला है और जीवात्मा उस व्यवहार का ज्ञाता है, परन्तु वह स्वरूप से दुःखी सुखी नहीं होता वरन् अज्ञान से मन इन्द्रियों में आत्म बुद्धि करके सुख-दुःख को भोगता है ।

तावुभौ भूतसृक्ती महान्वत्रत्र एव च ।

उष्णावचेयु भूतेषु स्थित त व्याप्यतिष्ठत ॥ १४ ॥

(१४) महान तत्व व क्षेत्रज्ञ यह धारो पृथ्वी आदि पंच महामूतो करके ऊच-नीच योनि मे परमात्मा को पकड़ कर (मात्रय) रहते है ।

असस्या मूर्तं यस्तस्य निष्पतन्ति शरीरत ।

उच्चावचानि भूतानि सतत चेष्टयन्ति या ॥ १५ ॥

(१५) ॐ परमात्मा के शरीर अर्थात् प्रकृति से असस्य मूर्त कर्म के कारण ऊच-नीच तथा में उत्पन्न होत है ।

पञ्चम्य एष मात्राम्य प्रेत्य दुष्कृतिनां नृणाम् ।

शरीर यातनार्थीपमन्यदृत्पद्यते ध्रुवम् ॥ १६ ॥

(१६) दूसरे जन्म मे पापियो के दुःख भोग करने के हेतु पृथ्वी आदि पंचतत्व के अक्षो (भागो) से दूसरा शरीर लिङ्ग नाम पृथक होता है ।

तेनानुभूयता यामी शरीरेणैव यातना ।

तास्वव भूतमात्रासु प्रक्षीयन्ते विभागश ॥१७ ॥

(१७) उस शरीर से यमराज की असाह्य यातना को सहन करके अर्थात् दुःख भोग कर यह शरीर अपने मूल मे विखीन हो जाता है अर्थात् पृथ्वी आदि पंचतत्व से जो भाग पृथक हुआ था वह पंचतत्वो मे मिस जाता है ।

ॐ १३ वें दसोक मे बिराद् अर्थात् सारे प्रह्लाण्ड को एक पुण्य मान कर और प्रकृति को उसका शरीर बतसा कर एक असाधार बनाकर शरीरों की उत्पत्ति दिखसाई है ।

सोऽनुभूयासुखोदकान्द्रोपान्विषयसङ्गजान् ।

च्यपेतकल्मषोऽभ्येत्ति तावेवोभौ महौजमौ ॥ १८ ॥

(१८) लिङ्ग शरीर (महत् शरीर) में रहने वाला ऋषि जीव वासना के कारण से उत्पन्न हुए पापों को भोग कर और पापों से पृथक् होकर महापराक्रमी महान् और परमात्मा दोनों को शरण लेता है ।

तौ धर्मं पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह ।

याभ्यां प्राप्नोति संपृक्तः प्रेत्येह च सुखासुखम् ॥१९॥

(१९) वह मन और जीवात्मा दोनों एकत्र होकर धर्म और अधर्म के फल को इस जन्म और दूसरे जन्म में पाते हैं और जो सचित कर्म अर्थात् प्राचीन एकत्रित कर्म के कारण शरीर धारण करते हैं ।

यद्याचरति धर्मं स प्रायशोऽधर्ममल्पशः ।

तैरेव चावृतो भूतैः स्वर्गे सुखमुपाश्नुते ॥ २० ॥

(२०) जब जीव महान् (बहुत) धर्म करता है और अल्प पाप करता है तब परलोक (अर्थात् दूसरे जन्म) में सुख को पाता है और इसके हेतु उत्तम शरीर में जन्म पाता है ।

यदि तु प्रायशोऽधर्मं सेवते धर्ममल्पशः ।

तैर्भूतैः स परित्यक्तो यामीः प्राप्नोति यातनाः ॥२१॥

(२१) जब अति पाप करता है और अल्प धर्म करता है तब परलोक से दुःख पाता है ।

यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकल्मषः ।

तान्येव पञ्चभूतानि पुनरप्येति भागशः ॥ २२ ॥

(२२) यमराज की यातना को भोग कर पाप से पृथक होकर फिर जहा से सिग माम शरीर उत्पन्न हुआ है उसी में (अर्थात् पञ्चभूतों में) फिर अशा से मिल जाता है ।

एता दृष्ट्वाभ्य जीवस्प गतिः स्वनैव चतुर्था ।

धर्मतोऽधर्मतरन्वैव धर्मो दध्यात्सदा मन ॥ २३ ॥

(२३) अपनी बुद्धिसे जीव की दशा का देखकर और ध्याम पूजन उसके इस फल को विचार कर मित्य अपनी इन्द्रिय और मन को स्थिर रखे अर्थात् पाप से बच कर धर्म करता रहे ।

सर्वं रजस्वमरधैव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान् ।

र्यैर्व्याप्यमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानशपत ॥२४॥

(२४) सन् रज तम यह तीनो प्रकृति के गुण उसके कार्य महत्त्व अर्थात् मन में रहते हैं और गुण सारे ससार में व्याप्त हो रहे हैं ।

यो यदैषां गुणा देह माकन्यनातिरिच्यते ।

स तदा तदगुणप्राप्य त कर्गेति शरीरिणम् ॥ २५ ॥

(२५) इन तीना गुणा में से जो गुण जिस शरीर में अधिक होता है उस शरीर को उसी गुण जाता कहा जाता है । यदि उस शरीर में दूसरे गुण भी कुछ न कुछ अंश में दत्तमान रहत है तो भी वह गुण की अधिकता से उसी गुण क फाय करता है ।

मन्य ज्ञानं तमाऽज्ञान रागाद पां रज स्मृतम् ।

एतद्व्याप्तिमदसर्पां सवभूताभित षपु ॥ २६ ॥

(२६) ग् ज्ञान है तम अज्ञान है राग (अर्थात् इन्द्रिय

वस्तु की अभिलाषा) और द्वेष (अर्थात् अनिच्छित वस्तु से घृणा) यह दोनो रज हैं, ससार इन तीनों गुणों से सारा घिरा हुआ (व्याप्त) है ।

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्षयेत् ।

प्रशान्तमिव शुद्धार्थं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ २७ ॥

(२७) जब आत्मा में प्रेम के चिन्ह पाये जावे और इच्छा आदि के न होने से शान्ति दृष्टिगोचर हो और चित्त में शुद्धि का विचार हो तो उस समय सतोगुणी बलवान जानना चाहिये ।

यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः ।

तद्रजो प्रतितं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥ २८ ॥

(२८) जब आत्म को दुःखी और विवाद का उच्छुक देखे तब रजोगुणी प्रधान समझे और रजोगुण सब प्राणियों को अति शीघ्र हानि पहुँचाने वाला और परित्याग योग्य है ।

यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ २९ ॥

(२९) ✽ जब आत्मा को मोह संयुक्त और विषय वासना में लिप्त देखे तब तमोगुण प्रधान जाने, वह तमोगुण अप्रतर्क्य (तर्क के योग्य नहीं) और जानने योग्य नहीं है ।

त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः ।

अग्रयो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥३०॥

(३०) इन तीनों गुणों का फल उत्तम, मध्यम, अधम है, उसका हमने वर्णन किया ।

✽ २४ से २९ वे श्लोक में आत्म से महत्त्व अर्थात् मनसे अभिप्राय है जीवात्मा से नहीं ।

वशाभ्यामस्तथा ज्ञानं शान्तिविन्द्रियनिग्रहः ।

धमक्रियामचिन्ता च मान्त्रिकं गुणलक्षणम् ॥ ३१ ॥

(१) वेद पठना तथा ज्ञान धुनित्वा (पवित्रता) इन्द्रिय निग्रह (जितन्द्रिय होना) धर्म उर्म शर्षात् यदद्यात्तनुसार कार्य कर्ता आत्मचिन्तन गतोगुण के चिन्ह है ।

आरम्भार्ज्विताऽप्यममत्कार्यपरिग्रहः ।

विषयापमवा चाद्रस्य राजस गुणलक्षणम् ॥ ३२ ॥

(३) शर्षा म्भ करने की शक्ती अप न होना असत् कार्यों में मग्नता और उनको परिग्रहण करना विषयाका सेवन करना यह सब रजोगुण के चिन्ह हैं ।

क्षामं स्वमाश्रुतिं प्राये नास्मिक्यं मिमञ्चति ।

याश्चिष्णुता प्रमादश्च सामसं गुणलक्षणम् ॥ ३३ ॥

(३३) शोभ स्वप्न स्थिर चित्त न होना क्रूरता (निर्भयता) नास्मिकता भविष्य ज्ञान पर अविष्णवाम सदाचार से घणा पाचना करने का स्वभाव अहंकार यह सब तमोगुण के चिन्ह हैं ।

श्रयाणामपि चतुर्णां गुणानां त्रिषु तिष्ठान् ।

इह सामागिरुं त्रयं प्रमातां गुणलक्षणम् ॥ ३४ ॥

(३४) तीनानां गुणों में से एक गुण न होना रहने की तथा में जो फल प्राप्त चिन्ह के व प्रपत्त मनुष्य के हेतु जानने योग्य है असात् किस गुण के नया फल और भविष्य में प्रमाता परीक्षण कया ज्ञान पूर्व में जिस प्रकार हुआ है और वर्तमान समय में इन गुण वाक्ता को क्या तथा है ।

यच्छमं कृत्वा कुपश्च ह्यं च यव लज्जति ।

तज्जयं विदुषां च सामसं गुणलक्षणम् ॥ ३५ ॥

(३५) जिस कार्य के करते समय तथा करने के पश्चात् और करने की इच्छा के प्रकट करने में लज्जा प्रतीत हो उसको पण्डित लोग तमोगुणी का चिन्ह कहते हैं ।

येनास्मिन्कर्मणा लोके रुयातिमिच्छति पुष्कलाम् ।

न च शौचत्यमंपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥ ३६ ॥

(३६) जिस कार्य के करने से इम लोक में बड़ा यश प्राप्ति की इच्छा करता है और निर्धन होने का क्वचित् सोच नहीं करता उस कार्य को रजोगुण का चिन्ह समझें ।

यत्सर्वेणोच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन् ।

येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्वगुणलक्षणम् ॥ ३७ ॥

(३७) जिस कर्म को करते हुए लज्जा नहीं होती और जिस कर्म को करके पुण्य की आत्मा आनन्दित और तृप्त होती है उस कर्म को सतोगुण का लक्षण जाने ।

तममो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते ।

सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रैष्ठ्यमेषां यथोत्तरम् ॥ ३८ ॥

(३८) तमोगुण का लक्षण काम (अर्थात् सासारिक वस्तुओं की इच्छा व भोग) है, रजोगुण का लक्षण अर्थ है, सतोगुण का लक्षण धर्म, इन तीनों में अन्त का अर्थात् सतोगुण श्रेष्ठ है ।

येन यस्तु गुणेनैषां संसारान्प्रतिपद्यते ।

तान्समासेन वक्ष्यामि सवस्यास्य यथाक्रमम् ॥ ३९ ॥

(३९) जिस गुण कारण जीव जिस दशा को प्राप्त होता है उस सारे ससार की दशा संक्षेप में वर्णन करूँगा ।

देवत्व सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजमा ।

तिर्पक्त्वा तामसा नित्यमित्यथा त्रिविधा गतिः ॥४७॥

(४) सत्वगुणी स्वभाव को राजागुणी मनुष्य भाव को तमोगुणी पशु व पक्षी के भाव का प्राप्त होते हैं । यह तीन प्रकार की गति है ।

त्रिविधा त्रिविधैवा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः ।

अथमा मध्यमाश्रया च कर्मविधा विशेषतः ॥ ४१ ॥

(४१) सत्वगुण प्रादि से जो तीन प्रकार की दशा वर्णन की गई है वह भी इन तीनों गुणों की स्थिति व प्रवृत्ति से उत्तम मध्यम नीच तीन प्रकार की है और उनमें देवतास का प्रन्तन भी एक कारण है ।

स्थावरा कृमिर्जीवरश्च मत्स्या मर्षा सकृच्छया ।

पशुचरव सृगाश्चैव अधन्या तामसा गतिः ॥ ४२ ॥

(४२) स्थावर (वृक्षों में रहने वाले) कृमि (कीड़े) पक्षी मिल नहीं सकते हैं कीट मछली साप पशु व सृग्मा हिरण इन सब गतों को तामसी अर्थात् (नीच) जानना ।

इस्मिन्तश्च तुरगाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गद्विजा ।

मिथ्या व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥४३॥

(४३) हाथी घोड़ा मुषर कृमिश्च सिंह बाघ शूद्र इन सब गतों को तामसी (तमागुण की) मध्यम गति जानना ।

चारुश्चाश्च सुपर्शाश्च पुरुमाश्चैव दाम्भिका ।

गर्धामि च विशाचारश्च तामसीयुचमा गतिः ॥४४॥

ॐ म्लेच्छ उसे कहते हैं जो निरुद्ध पशुओं का शिकार हा व मांस मदिता व्यभिचार का प्रवृत्त है ।

(४४) भाट, छली व कपटी मनुष्य राक्षस, पिशाच, इन सबको तामसी उत्तम गति जानना ।

भ्रुल्ला भ्रुल्ला नट्याश्चैव पुरुषाःशस्त्रवृत्तयः ।

धूतपानग्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ४५ ॥

(४५) (दशम अध्याय मे कहे हुए) भ्रुल्ल मल्ल और नद तथा शस्त्र से अजीविका वाले मनुष्य और जुआ तथा मद्यपान मे आसक्त पुरुष यह रजोगुण की निकृष्ट गति है ।

राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुगेहिताः ।

वादयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६ ॥

(४६) राजा लोग तथा क्षत्रिय और राजा के पुरोहित और वाद वा भगडा करने वाले, यह मध्यम राजस गति है ।

गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधाऽनुचराश्च ये ।

तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीपूत्तमा गतिः ॥ ४७ ॥

(४७) गन्धर्व (गाने वाला और वजाने वाला) गुह्यक, यक्ष, अप्सरा (अर्थात् सुन्दर वंश्याये गाने वजाने वालो) विद्याधर (शिल्पकार) सब रजोगुण की उत्तम गति का लक्षण जानना ।

तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः ।

नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सान्त्विकी गतिः ॥४८॥

(४८) तापस (तप करने वाले) सयमी, व्रती ब्राह्मण और विमान पर चढ़कर घूमनेवाले, नक्षत्र, दैत्य (आचरणाहीन विद्वान्) वरन् प्रतिकूल आचरणी यह सब सतोगुण की नीच गतिमय है ।

राक्षस वह है जो हिंसा और विग्रह का प्रेमी हो ।

+ पिशाच उसे कहते हैं जो निर्दयता और क्रोधके कारण शुभाशुभ की पहिचान न रखता हो ।

यज्वान भूपया देवा ब्रह्मा ज्यातीपि पत्नरां ।

पितरश्चैव साधारण द्वितीयासाञ्चिकी गतिः ॥४६॥

(४६) यज्ञकर्ता भूमि देवता वेदज्ञाता ज्योतिषी तथा वनासे वासे तस्मै प्रथमि रक्षा कर्मे वासे पितर, मायना करने वाले यह सब सप्तोगुणी की मध्यम गति में हैं ।

ब्रह्मा विश्वभूत्रो धर्मो महानऽध्यक्तमव च ।

उत्तमां मान्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ ४७ ॥

(४७) भार्गवे वेदो का ज्ञाता सृष्टिपुत्रगति करने वाला ईश्वरीय कर्म महान् अध्याक्त तिराकार परमात्मा यह सब सप्तोगुण की उत्तम गति में है ।

एष मयं मयुद्विष्टिप्रकारस्य कर्मणः ।

त्रिविधस्त्रिविधं कृत्स्नं ममारं सार्वमीतिकः ॥४८॥

(४८) मन धारणी वेद नीच कर्म के साधन में प्रथमि इन तीनों के द्वारा कर्म होते हैं, इनके भेद से तीन प्रकार के कर्म मत रज तय नाम बाध हुए फिर उत्तम मध्यम नीच के विभाग में प्रथम की तीन गति रहें जिसका योग नी होता है । मारा मसार पञ्चमूल से उत्पन्न है उसको तीन में दिवाने के कर्म ब्रह्म इसमें जो कहने से रह गया वह गति भी दूसरी पुस्तक में दिवाने के योग्य है ।

इन्द्रियाणां प्रमग्नं धमभ्याम धनन च ।

पापात्मयान्ति समानानविदांसो नराधम ॥ ४९ ॥

(४९) इन्द्रियो की वासता (प्रमग्न) में पड़ कर धार्मिक कर्म न करने से तथा पाप कर्मों को करता हुआ विद्या से रहित मनुष्य नीच गति को पाता है ।

यां यां योनिं तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा ।

क्रमशो याति लोकेऽस्मिस्तत्त्वैर्व निबोधत ॥ ५३ ॥

(५३) इस लोक में यथाक्रम जीव जिस २ कर्मके करने से जिस २ गति में हो जाता है इसको संक्षेप से वर्णन करते हैं ।

बहून्पर्यगणान्धोरान्नरकान्प्राप्य तत्क्षयात् ।

संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्वित्त्वमात् ॥ ५४ ॥

(५४) बहुत वर्ष पर्यन्त घोर नरक के भोग करने से पापों से झुटकारा पाकर और आगामी पातक से महापापी मनुष्य संसार में जन्म-पाते हैं ।

श्वशूकरखरोष्ट्राणां गोजाविमृगपक्षिणाम् ।

चारुडालपुष्कसानां च ब्रह्महा-योनिमृच्छति ॥५५॥

(५५) कुत्ता, सुअर, गदहा ऊँट, गऊ, बकरा, भेडा, हिरण, पक्षी, चाण्डाल, पुष्क, इनकी योनि में ब्रह्महत्या करने वाला जाता है अर्थात् इनका जन्म पाता है ।

कृमिक्रीटपतंगानां विड्भुजां चैव पक्षिणाम् ।

हिंसाणां चैव सत्वानां सुगणो ब्राह्मणो व्रजेत् ॥५६॥

(५६) कृमि, कीट, पतङ्ग, विष्टा-भक्षण करने वाले पक्षी का स्वभाव रखने वाले सिंह आदि इनकी योनि में सुरापान करने वाला ब्राह्मण जाता है ।

लूताहिरटानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम् ।

हिंसाणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहस्रशः ॥५७॥

(५७) मकड़ी, साप, गिरिगेट, जल-जीव, टेढ़े चलने वाला पिशाच हिंसा करने की प्रकृति रखने वाले जीव, इनकी योनि में सोना चुराने वाला ब्राह्मण सहस्रो बार जाता है ।

यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सरा ।

फितरश्चैव साध्याश्च द्वितीयासाश्विका गति ॥४६॥

(४६) यज्ञकर्ता ऋषि देवता वेदज्ञाता ज्योतिषी पत्रा बनाने वाले बस्युर धर्मान् रक्षा करने वाले विद्वत्, साधना करने वाले यह सब सत्तामुरी की मध्यम गति में हैं ।

मद्या विस्वसृजो धर्मो महानऽव्यक्तमेव च ।

उत्तमां सात्त्विकीयेतां गतिमाहुर्मनीषिण ॥ ४७ ॥

(४७) धारों वेदों का ज्ञाता सृष्टिप्रकृति करने वाला ईश्वरीय कर्म महाम् धर्म्याक्त निराकार परमात्मा यह सब सतो गुण की उत्तम गति में है ।

एष सर्वं ममृद्विद्विप्रकाशस्य कर्मणः ।

विषिषस्त्रिविधं कृन्न् मसार सार्वभौतिकः ॥४८॥

(४८) मन बाणी देह तीना कर्म के साक्षम में धर्मान् हम तीना के द्वारा कर्म होते हैं इनके भेद से तीन प्रकार के कर्म सब रज तम साम वाले हुए फिर उत्तम मध्यम नीच के विभाग से प्रत्येक की तीम गति हुई जिसका योग नही होता है । सारा (सार पदभूत से उत्पन्न है उसको तीम में विमाने के हतु बना हमम जो करने से रह गया वह गति भी दूसरी पुस्तक में ज्ञान व योग्य है ।

मन्त्रियाणां प्रमगन धर्मव्याप्तं वनन च ।

पापान्मर्यान्ति ममगानधिद्रीसो नराधमा ॥ ४९ ॥

(४९) इन्द्रियों की शासना (प्रमग) में गड़ बर धार्मिक कर्म न करने न तथा पाप कर्मों का करता हुआ विद्या व रहित मनुष्य नीच गति को पाता है ।

यां यां योनिं तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा ।

क्रमशो याति लोकेऽस्मिंस्तत्तत्तमर्वं निबोधत ॥ ५३ ॥

(५३) इस लोक में यथाक्रम जीव जिस २ कर्मके करने से जिस २ गति में हो जाता है इसको संक्षेप से वर्णन करते हैं ।

बहून्पर्यगणान्धोरान्नरकान्प्राप्य तत्क्षयात् ।

मंसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्विमान् ॥ ५४ ॥

(५४) बहुत वर्ष पर्यन्त घोर नरक के भोग करने से पापों से झुटकारा पाकर और आगामी पातक से महापापी मनुष्य संसार में जन्म पाते हैं ।

श्वशूकरखरोष्ट्राणां गोजाविमृगपक्षिणाम् ।

चारुडालपुक्कसानां च ब्रह्महा-योनिमृच्छति ॥ ५५ ॥

(५५) कुत्ता, सुअर, गदहा ऊँट, गरु, वकरा, भेडा, हिरण, पक्षी, चाण्डाल, पुक्क, इनकी योनि में ब्रह्महत्या करने वाला जाता है अर्थात् इनका जन्म पाता है ।

कृमिकीटपतंगानां विड्भुजां चैव पक्षिणाम् ।

हिंसाणां चैव सत्वानां सुगणो ब्राह्मणो व्रजेत् ॥ ५६ ॥

(५६) कृमि, कीट, पतङ्ग, विष्टा-भक्षण करने वाले पक्षी का स्वभाव रखने वाले सिंह आदि इनकी योनि में सुरापान करने वाला ब्राह्मण जाता है ।

लूताहिरटानां च तिग्श्चां चाम्बुचारिणाम् ।

हिंसाणा च पिशाचाना स्तेनो विप्रः सहस्रशः ॥ ५७ ॥

(५७) मकड़ी, साप, गिरिगेट, जल-जीव, टेढे चलने वाला पिशाच हिंसा करने की प्रकृति रखने वाले जीव, इनकी योनि में सोना चुराने वाला ब्राह्मण सहस्रो वार जाता है ।

तस्यगुण्मलतानां च क्रव्यानां दृष्टिणामपि ।

कुर्यात्कृतां चैव शशशां गुहृतव्यग ॥ ५८ ॥

(५८) छेद तृण गुहृतव्यगता मे रहने वाले कीड़े कच्चा मांस भक्षी गीध आदि क्रूर कर्म करने का जिसका स्वभाव है । सिंह बाघ आदि इनका योगि में माता से रक्षण करने वाला संकष्टों वार ज मता है ।

हिमा भवन्ति क्रव्यादा कुमयाऽमवपमधिष्य ॥

पृष्परादिन स्तेना प्रतान्त्यस्त्रीनिपधिष्य ॥ ५९ ॥

(५९) जोव हिमा की प्रकृति रखने वाला जो है वह कच्चा मांस मदाग करने वाले (खिलार आदि) होते हैं । असाद्य पत्न्या की भक्षण करने वाले छोटे इमि (कीड़े) होते हैं । महापातकों के प्रतिरिक्त जो खोर हैं वह परस्पर मांस भक्षी होते हैं अर्थात् वह उसके मांस को भक्षण करता है और दूसरा उसके मांस को भक्षण करता है । चाण्डाल की स्त्री से सम्भोग करने वाला प्रेत होता है ।

मथार्गं पतिगैगत्वा परस्यैव च यापितम् ।

अपहृत्य च विप्रस्वर्भ मधति प्रहराधम ॥ ६० ॥

(६०) पतिता मे मत्रा आदि समर्ग करमा परस्त्री-नामन व दान का मोता पुराता अनम मे कोई एक कर्म करके दहा गायम जाता है ।

मणिमुक्ताप्रवालानि हत्वा लोभेन मानवः ।

विविधानि च रत्नानि जायते हेमकर्तृषु ॥ ६१ ॥

(६१) लोभ से मणि मुक्ता (मोती), प्रवाल (मूगा) इत्यादि विविध प्रकार के जो रत्न हैं उनको चुराने से हेमकार (सुनार) होता है ।

धान्यं हत्वा भवत्याखुः कांस्यं हंसोऽजलं प्लवः ।

मधु दंशः पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम् ॥ ६२ ॥

(६२) धान्य के चुराने से चूहा, काँसा के चुराने से हस, जल के चुराने से प्लव नाम प्राणी, शहद के चुराने से वन की मक्खी, दूध के चुराने से कौवा, रस के चुराने से कुत्ता, घी के चुराने से नेवला होता है ।

मामं गृध्रो वपां मद्गुस्तैलं तैलपकः खगः ।

चीरीवाकस्तु लवणं बलाका शकुनिर्दधि ॥ ६३ ॥

(६३) १-माम, २-चरवी, ३-तेल, ४-निमक, ५-दही, चुराने से क्रमानुसार १-गृध्र, २-पानी के ऊपर रहने वाले पक्षी, ३-तेलपक पक्षी, ४-भीगुर, ५-बलाका पक्षी होता है ।

कौशेयं तित्तिरिहृत्वा क्षीमं हत्वा तु ददुर्ग ।

कार्पासतान्तवं क्रौञ्चो गोधा गां वाग्गुदो गुडम् ॥ ६४ ॥

(६४) १-कीडो के पेट से निकाला हुआ कपडा (रेशम आदि), २-तीसी की छाल से बना हुआ वस्त्र, ३-घास के सूत का वस्त्र, ४-गऊ व ५-गुड, इनके चुराने से यथाक्रम १-तीसरी पक्षी, २-मेढक, ३-कौच, ४-गोह, गोवरा पक्षी होता है ।

इन्द्रि शि शुभान्ना घान्पत्रशाक तु षड्विंश ।

श्वविन्दुनाश्च त्रिविधमकृतान्त तु शक्यकः ॥ ६५ ॥

(६५) १—मगक प्रादि २—अधुप्रा प्रादि ३ भात ४—सत्तु प्रादि जी गहू इनके चुराने से क्रमानुसार १—अक्षर २—मोठ ३—प्राविम ४—साही होता है ।

षका भवति इन्वार्गि गृहकागी षु पस्करम् ।

रक्तानि इन्वा वामोमि जायत जीवजीषक ॥ ६६ ॥

(६६) X १—अग्नि २—सूप ३—मुसल प्रादि गृह की प्राणव्ययीय वस्तु यान् वस्तु इनके चुराने से यथाक्रम बगुला विन्धी बनोर होता है ।

वृका भृगम व्याघ्रोऽश्व फलपर्लं तु मर्कट ।

स्र स्रश्च स्ताककी चारि यानान्युष्ट पशुनत्र ॥ ६७ ॥

(६७) मृग तपो इन जेना म से किसी के चुराने से बनना गता है घोडा क चुराने से बाघ होता है फल फूल इन जेना म से किसी एक के चुराने से बनकर होता है स्त्री के चुराने से गोरु होता है पाने के योग्य त्रय को चुराने से पथीहा नाम पक्षी होता है गरुड या ना च । कर ऊट होता है पशुर्षो को उ । कर बनना जाता है ।

(६८) दूसरे का घन चुराने से वा बलात् अपहरण करने से अवश्य हा पृथ्वी पर पेट के बल चलने वाला होगा और हवन की सामग्री भूल कर भी खा लेने से यही दसा होती है ।

स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन हत्वादोपमवाप्नुयुः ।

एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति ताः ॥ ६९ ॥

(६९) स्त्री भी उपरोक्त पाप-कर्मों के करने से उपराक्त प्राणियों की स्त्री होती है ।

स्वेभ्यः स्येभ्यस्तु कर्मभ्यश्च्युत वर्णाह्विनापदि ।

पापान्संसृत्य संसारान्प्रेष्यतां यान्ति शत्रुषु ॥ ७० ॥

(७०) विपत्ति समय के अतिरिक्त साधारण समय में अपने कर्मों के त्याग देने से चार निकृष्ट शरीरों में जन्म लेता है और शत्रुओं के सेवक होते हैं ।

वान्ताश्युक्त्वागुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्त्रकाच्युतः ।

अमेध्यकुणवाकी च क्षत्रियः कठपूतनः ॥ ७१ ॥

(७१) अपने धर्म से पृथक् ब्राह्मण वमन (कै) की हुई वस्तु को भक्षण करने वाला उत्कामुख नाम + प्रेत होता है, और अपने धर्म से पृथक् क्षत्रिय मल-मूत्र खाने वाला कठपूतन नाम प्रेत होता है ।

+ प्रेत शब्द के अर्थ शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में जाने के हैं, जैसे कि न्याय-दर्शन में महात्मा गौतम जी ने शरह की रीति में लिखा । अतः जहाँ प्रेत का शब्द आवे वहाँ यही अर्थ समझना चाहिये ।

सैत्राद्यज्यातिकः प्रेता वैश्यो भवति पूयमुक् ।

चैलाशक भवेत् शुद्धा यो वै धर्मात्स्त्रकच्युत ॥७२॥

(७२) जो ब्रह्म प्रापद समय में अपने धर्म से पृथक होता है और पीप धर्मांग गहित रक्त को खाने वाला सैत्राक्ष ज्योति नाम प्रेत होता है शुद्ध अपने धर्म को त्याग देने से चैलाशक नाम कोडो का भक्षण करने वाला प्रेत होता है ।

यया यथा निपद्यन्त विषयान्विषयात्मकम् ।

तथा स्यात् कुशसता तेषां तेषूपजायते ॥ ७३ ॥

(७३) ❀ विषयो में आत्मा को लगाने वाला मनुष्य जिस जिस प्रकार विषयो का सेवन करता है उस-उस प्रकार विषयो में कुशल होता है ।

तेऽभ्यामात्कर्मणां तेषां पापानामस्पृश्यम् ।

सप्राप्तुषन्ति दुःस्वानि तासु तास्त्रिह योनिषु ॥७४॥

(७४) पाप कर्मों के अभ्यस्त होकर उन्हीं धरीरो में बहुत बार के दुःखों का भोगते हैं यह सब निरुदि है ।

तामितादिषु चाग्रेषु नरकषु विषर्तनम् ।

अभिपश्यन्नाशेनि शयनच्छन्नानि च ॥ ७५ ॥

❀ ७३ व ७४ के म जो विषयो में कुशल होना लिया है उसका धर्म विषयो में प्राप्त होने के है और उसके साधन के सामान पर अधिकार प्राप्त कर लेना परन्तु विषय में सुरक्षा न रखनी चाहिये । विषय की इच्छा मद्यपि विषय-साधन पुत्रादि में अनुत्तर है परन्तु वास्तव में कुठिहीन हो जाता है क्योंकि कुठि रान बना जाती है और विषयमय परतन्त्र बनाती है ।

(७५) तामिस्त्र नाम मूर्खता से व्याप्त जो अर्थान् अति दु ख देने वाला नरक मे जिमका वर्णन अध्याय ४के ८९ तथा ९० श्लोको मे किया है जिसमे शरीर अङ्गो आदि का बाधना असिपगवन आदि नरको मे दु ख पाते हैं ।

विविधाश्चैव संपीडाः काकोलूकैश्च भक्षणम् ।

करम्भवालुकृतापान्कुम्भीपाकांश्च दारुणान् ॥ ७६ ॥

(७६) और विविध प्रकार के शोक व दु खको प्राप्त करते हैं, कौवा व उल्लू पक्षी उनको भक्षण करते हैं, उष्ण (गर्म) बालू की उष्णता को प्राप्त होते हैं, अत्यन्त भीषण कुम्भीपाक नाम नरक के दु ख भोगा करते हैं ।

संभवाश्च वियोर्नाषु दुःखप्रायासु नित्यशः ।

शीतातपाभिघातांश्च विविधानि भयानि च ॥ ७७ ॥

(७७) सदैव अति दु ख वाली गर्हित (दूषित) नालियो मे उत्पत्ति, शील, तप (गर्मी) से दु ख और विविध प्रकार के भय पाते हैं ।

असकृद्गर्भवासेषु वासं जन्म च दारुणम् ।

बन्धनानि च कष्टानि परग्रेष्यत्वमेव च ॥ ७८ ॥

(७८) बारम्बार माता के गर्भ से उत्पन्न होने के क्लेश को उठाना, प्राय बन्धन अर्थात् बन्द होना और दु ख का होना और दूसरो की सेवकाई का बोझ उठाते हैं ।

अन्धुप्रियवियोगांश्च संवामं चैव दुर्जनैः ।

द्रव्यार्जनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चार्जनम् ॥ ७९ ॥

(७९) वान्धवो तथा प्रिय लोगो से वियोग, दुर्जनो का ससर्ग

मैत्राक्षज्यातिकः प्रेतो वैश्यो भवति पूयमुक्त्वा ।

चैलाशुक्र मवेत् शूद्रो यो वै घर्मात्स्वकम्पुत ॥७२॥

(७२) जो वस्त्र घापव समम में अपने घर्म से पृथक होता है और पीप घर्मात् गहित रक्त को जाने वाला मैत्राक्ष ज्योति नाम प्रेत होता है शूद्र अपने घर्म को स्नाग देने से चैलाशुक नाम काष्ठो का भक्षण करने वाला प्रेत होता है ।

यथा यथा निपत्रन्ते विषयान्विषयात्मकाः ।

तथा तथा ह्युल्लता तेषां तेषूपजायते ॥ ७३ ॥

(७३) ❀ विषयो में आत्मा को लगाने वाला मनुष्य जिस जिस प्रकार विषयो का सेवन करता है उस-उस प्रकार विषयो में कुलम होता है ।

तेऽभ्यामात्कर्मणां तेषां पापानामल्पपुद्गय ।

सप्राप्नुवन्ति दुःस्थानि तानु तास्त्रिद योनिषु ॥७४॥

(७४) पाप कर्मों के अल्पस्त होकर उन्ही शरीरों में बहुत बार के दुःस्थो का भोगते हैं वह सब निर्दुःखि हैं ।

तामिस्रादिषु चोपपु नरकषु विवर्तनम् ।

असिपत्रघनादीनि वधनच्छत्रनानि च ॥ ७५ ॥

❀ ७३ वें श्लोक में जो विषयो में कुलम होना लिखा है उसके अर्थ विषयो में प्राप्त होने के हैं और उसके साधन के सामान पर अधिकार प्राप्त कर लेना परन्तु विषय में सुरवाशा न रखनी चाहिये । विषय की इच्छा यद्यपि विषय-साधन पुण्य में अतुर है परन्तु वास्तव में सुखिनीन हो जाता है क्योंकि सुख स्वतन्त्रता चाहती है और विषयेच्छा परतन्त्र बनाती है ।

(७५) तामिन्द्र नाम मूर्खता से व्याप्त जो अर्थान् अति दुःख देने वाला नरक मे जिमका वर्णन अध्याय ४के ८६ तथा ९० श्लोकों मे किया है जिसमे शरीर अङ्गो आदि का बाधना असिपगवन आदि नरको मे दुःख पाते हैं ।

विविधाश्चैव संपीडाः काकोलूकैश्च भक्षणम् ।

कार्भवालुकातापान्कुम्भीपाकांश्च दारुणान् ॥ ७६ ॥

(७६) और विविध प्रकार के शोक व दुःखको प्राप्त करते हैं, कौवा व उल्लू पक्षी उनको भक्षण करते हैं, उष्ण (गर्म) वालू की उष्णता को प्राप्त होते हैं, अत्यन्त भीषण कुम्भीपाक नाम नरक के दुःख भोगा करते हैं ।

संभवाश्च वियोर्नाषु दुःखप्रायासु नित्यशः ।

शीतातपाभिघातांश्च विविधानि भयानि च ॥ ७७ ॥

(७७) सदैव अति दुःख वाली गर्हित (दूषित) नालियो मे उत्पत्ति, शील, तप (गर्मी) से दुःख और विविध प्रकार के भय पाते हैं ।

असृग्दुर्गर्भासेषु वासं जन्म च दारुणम् ।

बन्धनानि च कष्टानि परप्रेष्यत्वमेव च ॥ ७८ ॥

(७८) वारम्बार माता के गर्भ से उत्पन्न होने के क्लेश को उठाना, प्राय बन्धन अर्थान् बन्द होना और दुःख का होना और दूसरो की सेवकाई का बोझ उठाने हैं ।

बन्धुप्रियवियोगांश्च संवामं चैव दुर्जनैः ।

द्रव्यार्जनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चार्जनम् ॥ ७९ ॥

(७९) बान्धवों तथा प्रिय लोगो मे वियोग, दुर्जनों का मस

व रज्जु सहन तथा ॐ घन का सञ्चित होना उदन्तर उसका लोप (नाश) हो जाना मित्र-शत्रु का मिलना इन सबको पाठ है ।

जगं चैवाप्रतीकारां व्याधिभिरचोपपीठनम् ।

कलशारत्र विधिषांस्तांस्तान्मृत्युमथ च दुर्जनम् ॥८०॥

(८) अप्रतीकार (प्रौषवि न होने वाली) म्य वि व जरा (बुढ़ापा) सं दु म व विविध प्रकार (नाना भाति) क कष्ट उठाने क उपरान्त मृत्यु इन सबको पाठे हैं ।

यादृगन तु भावत यद्यत्कर्म निपवते ।

साधरान शरीरेण तद्यत्फलमुपाश्नुते ॥ ८१ ॥

(८१) जो जिस विचार से किसी काम को करता है वह उसी प्रकार का शरीर धारण करके उस काम के फल का भोग करता है धर्म जो धर्म के विचार से उठकार वा भलाई करते हैं वह धर्म का फल भोगते हैं धीर जो धर्म के विचार से भलाई करते हैं वह धर्म प्राप्त करते हैं धर्मवा यह समझ कर कि मनोगुणी कर्मों के करने से सतोगुणी शरीर को व रजोगुणी कर्मों से रजोगुणा शरीर को तथा तमोगुणी कर्म करने से तमोगुणी शरीर को प्राप्त करते हैं ।

एष मथं मनुषिणः कर्मणां वः फलोदयः ।

नै श्रयस्कर कर्म विप्रस्येद् निबोधत ॥ ८२ ॥

ॐ घन सचय होकर नाश हो जाना एक बड़ा भारी क्लेश है और घन किसी क पाम भी तीन पीढ़ी (पुत्र) से अधिक नहीं टहरता अतएव इससे पूरा दुःख है तथा धारणाका कुछ लाभ नहीं हो सकता अतः मनुषी को अभिजापा करने वालों को धर्म व कर्मों में लगना चाहिये ।

(८२) मैंने यह सब सारे कर्मों के फल को वर्णन किया तदनन्तर अब ब्राह्मण के मोक्ष देने वाले कर्मको वर्णन करता हूँ ।

वेदाभ्यासस्तपोजानमिन्द्रियाणां च संयमः ।

अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयमकरं परम् ॥ ८३ ॥

(८३) वेद पाठ, जप, ज्ञान, इन्द्रियनिग्रह, अहिंसा (किसी जीव को न मारना), गुरु की सेवा-शुश्रूषा करना, यह सब कर्म बड़े कल्याणकारी हैं ।

सर्वेषामपि चैतेषां शुभानामिह कर्मणाम् ।

किञ्चिच्छ्रेयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति ॥ ८४ ॥

(८४) इन सब शुभ कर्मों में से प्रत्येक कर्म मनुष्यों की मोक्ष के हेतु अत्यन्त कल्याण करने वाले हैं ।

सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् ।

तद्ध्यग्र्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥ ८५ ॥

(८५) ❀ सब कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ समझना चाहिये क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या है और अविद्या का नाश करती है और जिससे अमृत अर्थात् मुक्ति प्राप्त होती है ।

परणामेषां तु सर्वेषां कर्मणां प्रेत्य चेह स ।

श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कर्म वैदिकम् ॥ ८६ ॥

(८६) प्रथम कहे हुए छ कर्मों में वेदानुसार कर्म अर्थात्

❀ अर्थात् सात्विक व राजस व तामस भाव से स्नान, दान, योग आदि करे तो अति सतोगुण रखने व अति रजोगुण रखने वाला व अति तमोगुण रखने वाला शरीर पाकर इस व्रत के द्वारा स्नान, दान, योगकर्म के फल को भोग करता है ।

आत्म ज्ञान से सब थ छ है और इससे ससार में सुख और मृत्यु के उपरान्त मुक्ति लाभ होता है ।

वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाद्यतान्यरोपत ।

अन्तर्भवन्ति क्रमशस्तस्मिस्तस्मिन्क्रियाविधौ ॥८७॥

(८७) इस वैदिक ज्ञान अर्थात् ब्रह्म के साधन लोक में यह सब वेदान्यास आदि समाप्त हो जाते हैं अर्थात् जब ब्रह्मोपासना प्राप्त हुई तब कुछ साधन शेष नहीं रहता ।

सुखाम्पुदयिक चैव नैश्रेयसिकमेव च ।

प्रवृत्त च निवृत्त च द्विविध कर्म षडिहम् ॥ ८८ ॥

(८८) वैदिक कर्म दो प्रकार का होता है—एक निवृत्त और दूसरा प्रवृत्ति अर्थात् बुद्धिपूर्वक से पृथक् रहना पूर्ति है और शुभ कर्मों का करना प्रवृत्ति है या यह कि जिन कर्मों का फल ससार में प्राप्त होता है, जो शरीर कारण है वह कर्म प्रवृत्ति कहलाते हैं और जो ब्रह्मज्ञान के कर्म मुक्ति लाभ करने के हेतु किये जाते हैं जिसमें आकाश आदि के द्वारा से ससार के सब कर्मों से निवृत्ति अर्थात् पृथक्ता हाती है वह निवृत्त कहलाते हैं और उनका फल इन्द्रियो के भोगों से पृथक् रहने वाली मुक्ति होती है ।

इह चासुत्रे वा काम्ये प्रवृत्त कर्म कीर्त्यते ।

निष्काम ज्ञानपूर्व तु निवृत्तमुपदिश्यते ॥ ८९ ॥

(८९) इस सोच और परलोक में मनवाञ्छित फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म हैं वह प्रवृत्ति कहलाता है और ज्ञान पूर्वक जो कर्म हैं वह निर्वात कहलाता है ।

प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम् ।

निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै ॥ ६० ॥

(६०) प्रवृत्ति कर्म करने से देवताओं के समान होता है और निवृत्त कर्म करने में पृथिवी आदि पञ्चभूतो को विजय करता है अर्थात् पञ्चभूतो से जन्म होता है उनको विजय करने से फिर जन्म नहीं होता ।

मर्षभृतेषु चात्मानं मर्षभूतानि चात्मनि ।

समं पश्यन्नात्मयाजी स्वागज्यमधिगच्छति ॥ ६१ ॥

(६१) सब जीवों में आत्मा को और आत्मा में सब जीवों को समान दृष्टि रखने वाला और परमात्मा की उपासना करने वाला ब्रह्मास्पद को पाता है ।

यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः ।

आत्मज्ञाने शमे च स्याद्धेदाभ्यासे च यत्नवान् ॥६२॥

(६२) ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मज्ञानी अग्निहोत्र कर्मों को त्याग करके ब्रह्म ध्यान इन्द्रियोको जीतना प्रणव उपनिषद आदि वेदाभ्यास इन सब में प्रयत्न करे ।

एतद्वि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः ।

प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥६३॥

(६३) ब्राह्मण, क्षत्रिव, वैश्य के जन्म को सुफल करने वाले आत्मज्ञान तथा वेदाभ्यास कर्म हैं, परन्तु ब्राह्मण तो अधिक इस हेतु इस कर्म को प्राप्त कर कृतकृत्य होता है अर्थात् करने योग्य कार्यो को कर चुकता है ।

पितृदेवमनुष्याणां वेदरचसु सनातनम् ।

अशक्य चाप्रमेय च वेदशास्त्रमिति स्थिति ॥ ६४ ॥

(६४) वेद सदा पितृ व देवता व मनुष्यो के मंत्र हैं । वेद व शास्त्र दोनों सस्य के याम्य नहीं है और न तर्क करने के योग्य है ये शास्त्र की मर्यादा है ।

या वदवासा स्मृतयो यारच कश्चिद्दृष्टयः ।

सर्वास्ता निष्कृताः प्रेत्य तमानिष्ठा हि सा स्मृता ॥ ६५ ॥

(६५) जो स्मृति वेद के विरुद्ध है जिनको स्वाधियों ने बनाया है वह सब तमोमुण से भरे हुए हैं और निष्कृत हैं ।

उत्पद्यन्ते ज्यवन्तं च यान्यतोऽन्यानि क्वचिद्विदुः ।

तान्यर्थाक्कालिगतया निष्कृष्टान्यनृतानि च ॥ ६६ ॥

(६६) आप लोगो की बनायी सब पुस्तकें नाशवान हैं वह सब समय क साथ परिवर्तनशील हैं क्योंकि मूर्खता से भर हुए हैं केवल वेद अनुसृत पुस्तक ही नित्य है क्योंकि उनका मूल व नित्य है ।

चातुशयय त्रया लोकाश्चत्वारण्यचाभमो पृथक् ।

भूत भव्य भविष्यं च सर्वं वदात्प्रसिष्यति ॥ ६७ ॥

(६७) चार वग तीनों लोक पथक-पथक चारो धायम भूत भविष्य वतमान जो बुद्ध कर्म हैं वह सब वेद ही से प्रसिद्ध होता है ।

एतन् स्पशन्त्य रूपं च रमा गच्छन्त्य पञ्चमः ।

केन्द्रं प्रसूयन्तं प्रसूयतिगुणकमेव ॥ ६८ ॥

(६८) सत, रज, तम, इन तीनों गुणों से उत्पन्न जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध हैं वह सब वेद ही से उत्पन्न हुए हैं ।

विभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् ।

तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥ ६६ ॥

(६६) सदैव सब जीवों का धारण करने वाला जो वेदशास्त्र है वही मनुष्य का श्रेष्ठ पुरुषार्थी है इस बात को मैं मानता हूँ ।

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलौकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहति ॥ १०० ॥

(१००) सेनापति (अर्थात् सिपहसालार) का कार्य राज्य दण्ड विधान सब लोगों का आधिपत्य विधान वेद शास्त्र ज्ञाता उत्तम और उच्चिन्न रूप से स्थित कर सकता है ।

यथा जातबलो वह्निर्द्वत्यार्द्रानपि द्रुमान् ।

तथा दहति वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥

(१०१) जिस प्रकार प्रचण्ड अग्नि हरे वृक्ष को भस्म कर देती है उसी प्रकार वेदज्ञाता अपने कर्म से उत्पन्न हुए दोषों को भस्म कर देता है ।

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र यत्राश्रमे वमन् ।

इहैव लोके तिष्ठन्म ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १०२ ॥

(१०२) वेद तथा शास्त्र के अर्थ को सन्तुष्टि गीति पर समझने वाला चाहे जिस आश्रम में हो वह मोक्षके योग्य होता है ।

अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः ।

धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ १०३ ॥

(१०३) जो कुछ नहीं जानता उससे एक ग्रन्थ पढ़ने वाला

उत्तम है और उससे वह श्रेष्ठ है जो कि पढ़े हुए को नहीं भूलता उससे पढ़े हुए के धर्म को जानने वाला उत्तम है उससे बेवोक्त कर्म करने वाला श्रेष्ठ है ।

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकर परम् ।

तपसा किञ्चिप इन्ति विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ १०४ ॥

(१०४) ❀ तप (मपना धर्म) विद्या (ब्रह्मज्ञान) यहदोनों ब्रह्मण मोक्ष का श्रेष्ठ उपाय है क्योंकि तप से पाप का नाश करता है और विद्या से मोक्ष पाता है ।

प्रत्यर्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् ।

त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ १०५ ॥

(१०५) धर्म के सिद्धांत को जानने के इच्छुक मनुष्य प्रत्यक्ष अनुमान विविध प्रकार का गण शास्त्री में कहा हुआ इन तीनों प्रभागों को भली भाँति जाने ।

धार्पं धर्मोपदेयं च यज्ञशास्त्राऽबिराचिता ।

यन्तर्कैःशानुमयत्त स धर्मं बद नतरं ॥ १०६ ॥

(१०६) वेद और स्मृति इन दोनों को उत्तम तर्क से जो प्राप्त करता है धर्मान् उसका सर्वार्थ को जानता है नहीं धर्मशास्त्रा है दूसरा नहीं ।

✽ तब वेद तथा शास्त्रों का सार यह है कि प्रकृति के विषयों में दुःख उत्पन्न होता है और परमात्मा के योग से सुख उत्पन्न होता है । जितना प्राकृतिक विषयों का अधिक भोग होगा उतना ही अधिक दुःख उत्पन्न होगा और उसका दुःख भी बढ़ता जाएगा और जितना विषयों में अधिक रह कर ईश्वरोगात्मना में समाहित होकर रहना में अधिक रहना ही सही साधन करेगा ।

नैःश्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषतः ।

मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यभुगडिश्यते ॥ १०७ ॥

(१०७) भृगुजी कहते हैं कि हमने मुक्ति प्राप्त करनेके अर्थ वराश्रम और प्रत्येक धर्म को बतलाया, अब इसके उपरान्त शास्त्र के गुप्त रहस्य को बतलाते हैं ।

अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ।

य शिष्टा ब्राह्मणः त्र्ययुः स धर्मः स्यादशङ्कितः ॥ १०८ ॥

(१०८) ❀ जो धर्म वेदशास्त्र में सक्षेप रीति पर हो और उसकी व्याख्या इस धर्मशास्त्र से ज्ञात न हो तो जिस प्रकार परमात्मा ब्राह्मण व्यवस्था दे उनका सशय त्यागकर धर्म समझना ।

धर्मेणाधिगतो यस्तु वेदः सपरिवृंहणः ।

ते शिष्टा ब्राह्मण ज्ञयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ १०९ ॥

(१०९) जो मनुष्य धर्मानुसार चारो वेदो का अध्ययन करता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है ।

दशावरा वा परिपद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ।

व्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥ ११० ॥

(११०) दश के ऊपर अथवा तीन ऊपर के ब्राह्मणो का जो समूह है वह श्रेष्ठ कहलाता है, वह जिस धर्म को कहे वही करना चाहिये ।

❀ धर्म की व्यवस्था देने के हेतु सदैव विद्वान् ब्राह्मण का अधिकार दिया, परन्तु यहा पर गुण कर्म से ब्राह्मण लेने चाहिये उत्पत्ति से नहीं, जिसको मनुजी ने स्पष्ट रीति से दिखला दिया है अतएव दो वर्ण व्यवस्था से भी धर्म के मशयो का निवारण हो सकता है ।

आत्मैष देवता सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् ।

आत्मा हि जनपत्येषां कर्मयोग शरीरिणाम् ॥११६॥

(११६) सब देवता आत्मा में हैं और सब पदार्थ आत्मा में स्थित हैं और परमात्मा ही जीवों के कर्मों के अनुसार उन सब शरीरों को उत्पन्न करता है ।

स्र सभिवेशयेत्स्वेषु चेटानस्पर्शनेऽनिष्ठम् ।

पंक्तिं शृणोपर तेज स्नेहोऽवो गां च मूर्तिषु ॥१२०॥

(१२) अम्यन्तर आकाश में जो मनुष्य के भीतर है बाह्य आकाश को और स्वप्ना की स्वप्न शक्ति में वायु को अम्यन्तर तेज व प्रकाश में बाह्य तेज व प्रकाश का अम्यन्तर जल में बाह्य जल को शरीर के भूमि सम्बन्धी भाग में बाह्य प्रतियों को स्निह करके अर्थात् समाधि करके उसार को अपने भीतर ध्यान कर ।

मनुमीन्दु दिश भोजक्रान्ते विष्णु बल हरम् ।

वाय्वार्गि मित्रमुत्तमर्गे प्रजन च प्रजापतिम् ॥१२१॥

(१२१) मन में अन्द्रमा का भोज द्वय में दिशा को पार्श्वद्वय में विष्णु को बल म हर को वाक् इन्द्रिय में अग्नि को वायु र्गि म मित्र देवता का लिङ्ग इन्द्रिय में प्रजापति को स्निह कर ।

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणीरपि ।

रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥१२२

(१२२) सब पर आज्ञा करने वाला छोटे से भी छोटा संके तुल्य प्रकाशवान् स्वप्न बुद्धि के समान ज्ञान करके ग्रहण के योग्य जो पुरुष है उसको पुरुषोत्तम (सबसे बडा) जानो ।

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणामपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥१२३

(१२३) जब पुरुष को कोई मनु, कोई अग्नि, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र, कोई प्राण और कोई अविनाशी ब्रह्म कहते हैं

एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिव्यर्ष्य मूर्त्तिभिः ।

जन्मवृद्धिद्वयैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् ॥ १२४

(१२४) यह आत्मा पञ्च भूतो और उसी मूर्त्तियो व्यापक होकर जगत् को मनुजी उत्पत्ति और नाश को चक्रवत् कहते हैं ।

एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ।

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम् ॥ १२५

(१२५) जो मनुष्य इस विधि मे सब प्राणियो मे आत्मा को व्यापक देखकर सबको अपनी आत्मा के तुल्य समझता है व समदर्शी होकर ब्रह्मानन्द को पाता है ।

त्रैविद्या इतुकस्नकी नैरुमते धर्मपाठकः ।

अथरचाभमिष्य पूर्वे परित्स्याद्दशाधरा ॥ १११ ॥

(१११) तीनों वेद की एक शास्त्रा को पढ़ने वाला धृति स्मृति के अनुकूल शास्त्र वाला भीमासा शास्त्रोक्त इन सब का जाता ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ इत्यादि से ऊपर ही वह परिषद कहलाता है ।

ऋग्वेदविद्यत्रविन्ध्व सामवेदविद्यश्च य ।

अथरा परिपज्ज्ञया धर्ममशुपनिर्णये ॥ ११२ ॥

(११२) ऋग्वेद मजुर्वेद सामवेद इन तीनों संहिताओं की धर्म महित पढ़ने वाले और उनका धर्म के व्याख्या करने वाले तीन ब्राह्मण धर्म के सशय का निवारण कर ।

एकोऽपि षद्विदुम यं व्यवस्यद्विजोत्तम ।

स चिद्य परोधर्मो नाऽज्ञानामुदितोऽपुत्रै ॥ ११३ ॥

(११३) वेद न ता और उसके रहस्य ज्ञान प्राप्त एक ब्राह्मण भी धर्म बननाके वह धर्म समझना चाहिये और मूल लोग यदि लास भी हो तो उनका कहना धर्म नहीं ।

अत्रतानाममन्त्राणां ज्ञातिमाप्रापत्रीधिनाम् ।

महस्त्रशा यमतानां परिष्व न विषते ॥ ११४ ॥

(११४) ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यादि व्रतों को न किया और न धारण । अथ मज्जिम पडा हा जाति मात्र से परिषद प्राप्त करना का ऐसा महस्त्रो है परिषद धर्म

यं वदन्ति तमोभूता मुखी धर्ममतद्विदः ।

तत्पापं शतवा भूत्वा तद्वक्तृननुगच्छति ॥ ११५ ॥

(११५) जो धर्म के न जानने वाले तमोगुण में पड़े हुए अर्थात् लोभी व क्रोधी पाप को प्रायश्चित्त बतलाते हैं । यह पाप हजार गुना होकर व्यवस्था देने वालों के गले पडता है ।

एतद्वोभिहितं सर्वं निःश्रेयसकरं परम् ।

अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ११६ ॥

(११६) भृगुजी कहते हैं कि हे ऋषियो ! आपसे मोक्ष देने वाला धर्म का स्पष्ट वर्णन किया जो ब्राह्मण इस धर्म से पृथक् न हो वह मोक्ष की पदवी पाता है ।

एवं स भगवान्देवो लोकानां द्वितकाम्यथा ।

धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान् ॥ ११७ ॥

(११७) + इस प्रकार विद्वानों के राजा मनु ने ससारोपकारार्थ यह सब धर्म के गुप्त रहस्य मुझसे वर्णन किये थे जो मैंने तुमसे वर्णन किये हैं ।

सर्वमात्मानि संपश्येत्सच्चासच्च समाहितः ।

सर्वं ह्यात्मनि संपश्यन्नाऽधर्मे कुरुते मनः ॥ ११८ ॥

(११८) शान्ति से बैठकर सब ससारके कार्य और कारण पदार्थों को परमात्मा के आधीन समझे और ईश्वराधीन प्रत्येक वस्तु के समझने से मन अधर्म नहीं कर सकता ।

+ इस श्लोक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह स्मृति भृगु सहिता है मनुस्मृति नहीं ।

त्रैविद्या इतुक्स्तुकी नैरुक्त धर्मपाठकः ।

अथरवाधमिण्य पूर्वे परित्स्याद्दशाधरा ॥ १११ ॥

(१११) तीनों वेद की एक धार्या को पढ़ने वाला अति स्मृति के अनुकूल धार्या वाला मीमांसा शास्त्रीक इन सब का ज्ञाता ब्रह्मचारी शुद्धस्य वानप्रस्थ ब्रह्म से ऊपर ही वह परिषद कहलाता है ।

श्रुग्वेदशिक्षत्रयिच्छ्व सामवेदविदेव च ।

अथपरा परिपञ्चया धर्मसशुपनिर्णये ॥ ११२ ॥

(११२) श्रुग्वेद यजुर्वेद सामवेद इन तीनों सहिनामों की धर्म सहित पढ़ने वाले और उनका धर्म व व्याख्या जानने वाले तीन ब्राह्मण धर्म के संशय का निवारण कर ।

एकौऽपि वेदविद्वान् यं व्यवस्येद्विप्रोत्तमः ।

स विध्वय परौधर्मो नाऽज्ञानासुदितोऽप्युतै ॥ ११३ ॥

(११३) वेद ज्ञाता और उसके रहस्य ज्ञान प्राप्त एक ब्राह्मण भी धर्म बतलावे वह धर्म समझना चाहिये और दूसरे लोग यदि जानें तो उनका कहना धर्म नहीं ।

अप्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।

सहस्रशः समतानीं परिवस्व न विद्यते ॥ ११४ ॥

(११४) जिन्होंने ब्राह्मण्यार्थि ब्रह्मोद्देशे न किया और न वेद धार्या को धर्म सहित पढ़ा हो जो केवल जाति मात्र से जीविका प्राप्त करता हो ऐसा सहस्रों के गिने से परिवस्य ब्रह्म स्थापक समा नहीं कहलाती ।

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणीरपि ।

रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥१२२॥

(१२२) सब पर आज्ञा करने वाला छोटे से भी छोटा सोने के तुल्य प्रकाशवान् स्वप्न बुद्धि के समान ज्ञान करके ग्रहण करने के योग्य जो पुरुष है उसको पुरुषोत्तम (सबसे बड़ा) जानो ।

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्धे प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणामपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥१२३॥

(१२३) जब पुरुष को कोई मनु, कोई अग्नि, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र, कोई प्राण और कोई अविनाशी ब्रह्म कहते हैं ।

एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूर्तिभिः ।

जन्मवृद्धिच्यैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् ॥ १२४ ॥

(१२४) यह आत्मा पञ्च भूतो और उसी मूर्तियो मे व्यापक होकर जगत् को मनुजी उत्पत्ति और नाश को चक्रवत् कहते हैं ।

एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ।

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम् ॥ १२५ ॥

(१२५) जो मनुष्य इस विधि मे सब प्राणियो मे आत्मा को व्यापक देखकर सबको अपनी आत्मा के तुल्य समझता है वह होकर ब्रह्मानन्द को पाता है ।

आत्मैव देवता सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् ।

आत्मा हि धनयत्सेपां कर्मयोग शरीरिणाम् ॥११६॥

(११६) सब देवता आत्मा में हैं और सब पदार्थ आत्मा में स्थित हैं और परमात्मा ही जीवों के कर्मों के अनुसार उन सब शरीरों को उत्पन्न करता है ।

स सन्नियेशयेत्सेषु चेटानस्पर्शनेऽनिलम् ।

पक्तिं दृष्ट्यापर तेजः स्नेहोऽपो गां च मूर्तिषु ॥१२०॥

(१२०) अनुमन्तर आकाश में जो मनुष्य के भीतर है बाह्य आकाश को और तबसा की स्पष्ट शक्ति में जामु को अनुमन्तर तेज व प्रकाश में बाह्य तेज व प्रकाश का अनुमन्तर जल व वाह्य जल का सगीर के भूमि सम्बन्धी भाग में बाह्य प्रतिमा की सीमा करके प्रधात् समाधि करके ससार को अपने भीतर ध्यान कर ।

मनुमीन्दु शिशु शोशकान्ते विष्णु बले हरम् ।

शास्त्रार्थिन मित्रमृत्सर्ग प्रजन च प्रजापतिम् ॥१२१॥

(१२१) मन में पशुमा का शत्रु मित्र में दिशा को शक्ति व म विष्णु का बल म हर को बाह्य इन्द्रिय में प्रजापति को शक्ति व म मित्र देवता का मित्र इन्द्रिय में प्रजापति को ज्ञान कर ।

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणीरपि ।

रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥१२२॥

(१२२) सब पर आज्ञा करने वाला छोटे से भी छोटा सोने के तुल्य प्रकाशवान् स्वप्न बुद्धि के समान ज्ञान करके ग्रहण करने के योग्य जो पुरुष है उसको पुरुषोत्तम (सबसे बड़ा) जानो ।

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्थे प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणामपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥१२३॥

(१२३) जब पुरुष को कोई मनु, कोई अग्नि, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र, कोई प्राण और कोई अविनाशी ब्रह्म कहते हैं ।

एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिव्याप्य मूर्त्तिभिः ।

जन्मवृद्धिच्यैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् ॥ १२४ ॥

(१२४) यह आत्मा पञ्च भूतो और उसी मूर्तियो मे व्यापक होकर जगत् को मनुजी उत्पत्ति और नाश को चक्रवत् कहते हैं ।

एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ।

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम् ॥ १२५ ॥

(१२५) जो मनुष्य इस विधि मे सब प्राणियो मे आत्मा को व्यापक देखकर सबको अपनी आत्मा के तुल्य समझता है वह समदर्शी होकर ब्रह्मानन्द को पाता है ।

इत्येतन्मानसं शास्त्रं शृगुप्रोक्तं पठन्विज ।

मवस्थाचारवाभित्य यथेष्टं प्राप्नुयाद्गतिम् ॥१२६॥

(१२६) इस मनु ने धर्म शास्त्र को जो कि शृगुजी ने कहा है जो ब्राह्मण धर्मिय वैश्य पठता है और तदनुसार कार्य करता है वह अभिलाषित गति को प्राप्त करता है ।

मनुजी के धर्म शास्त्र शृगुजी की संहिता का
बारहवां अध्याय समाप्त हुआ ।

❀ समाप्तम् ❀

आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान मंडार

पुस्तक सख्या 1530

विषय — भाषा संस्कृत हिन्दी

नाम लेखक — स्वामी दर्शनानन्द मरुपल्ली

नाम पुस्तक — अनुसूचिः सस्करण

सम्या टीका श्रुतु